

प्रकाशक : प्रभात प्रकाशन, चावड़ी बाजार, दिल्ली-११०००६ / प्रथम संस्करण : १९८३
सर्वाधिकार : सुरक्षित / मुद्रक : रूपाम प्रिंटर्स, दिल्ली-११००३२ / मूल्य : एक सौ पचास रुपये

AKHIL BHARATIYA PRASHASNIK KOSH

Edited by Bholu Nath Tiwari, Kalfash Chandra Bhatia & Jaipal Singh

Rs. 150.00

यह पुस्तक क्यों ?

1.1-

46311983

6

एक प्रश्न सहज ही उठता है कि हम लोगों ने यह अबिल भारतीय प्रशासनिक शब्दकोश क्यों प्रकाशित किया है ?

हममें से एक (भोनानाथ तिवारी) के यहाँ एक बार एक मिनिस्ट्री से टेलीफोन आया कि बिहार का एक पत्र आया है, जिसमें अमुक शब्द का प्रयोग है। यह शब्द अमुक अंग्रेजी शब्द का हिन्दी पर्याय लगता है, किंतु हमारे पास जो केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय की प्रशासनिक शब्दावली है, उसमें उन अंग्रेजी शब्द के लिए यह हिन्दी शब्द नहीं है, क्या आप इस सबब में कुछ बता सकते हैं ? सोभाग्य से मेरे पास बिहार का कोश था और मैंने उसमें देखकर उन्हें बतला दिया। सभी मेरे मन में आया कि विभिन्न केन्द्रीय मजालयों में बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश आदि सभी से इस प्रकार के पत्र आते होंगे किन्तु यह जानने का कोई भी साधन नहीं है कि एक ही प्रशासनिक अंग्रेजी शब्द के लिए अलग-अलग हिन्दी प्रदेश किन-किन शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, क्यों न ऐसा एक कोश बनाया जाए ? और परिणाम है हम लोगों का यह कोश।

समय-समय पर एक बात प्रायः सुनाई पड़ती रही है कि केन्द्र तथा सभी हिन्दी प्रदेशों में प्रशासनिक शब्दावली एक होनी चाहिए, किन्तु ऐसा है नहीं। हम लोग जब इस काम को कर रहे थे तो हमारे मन में यह भी बात थी कि देखा जाए कि यह अनेकरूपता कितनी है, बहुत क्याया है या बहुत क्याया नहीं है, और यदि है भी तो एकरूपता के लिए क्या बहुत प्रयास करना पड़ेगा या थोड़े से ही एक-रूपता साईं जा सकती है। हम यह कहते हैं प्रसन्नता का अनुभव कर रहे हैं कि इस तुलनात्मक कोश को तैयार करके हम इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि कुछ अनेकरूपता तो है, किन्तु उतनी अधिक नहीं है जितनी बहुत से लोग कहते हैं। यदि कुछ अनेकरूपता है तो कुछ एक-रूपता भी है। कोई भी व्यक्ति हमारे इस कोश पर एक मूट्टि डालकर इसे सहज ही जान सकता है।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार भारत में 'सच की राजभाषा हिन्दी और लिपि देवनागरी' स्वीकार की गई है। इसके पूर्व अंग्रेजी थी और आज भी अंग्रेजी का सहभाषा के रूप में पर्याप्त प्रचलन बना हुआ है। हमें विश्वास है कि यह दिन दूर नहीं जबकि हिन्दी इस पद को पूर्णतः प्राप्त कर लेगी, क्योंकि हिन्दी सक्षम तथा मर्मयुक्त भाषा है। वह समय भी दूर नहीं जब अंग्रेजी की भाँति हिन्दी को सम्मान प्राप्त होगा।

एक समय था जब अंग्रेजी भी बहुत समय तथा सशक्त नहीं मानी जाती थी फलतः सभी कार्य लैटिन, ग्रीक और कालांतर में फ्रांसीसी में किए जाते थे, पर आज अंग्रेजी विश्वभाषा बन चुकी है। ज्यों-ज्यों भिन्न-भिन्न संस्कृतियों से अंग्रेजी का सम्पर्क बढ़ता गया, अंग्रेजी को भी नये अनुभव, नवीन शब्दावली तथा नई-नई अभिव्यक्तियाँ प्राप्त हुईं, कलत, भाषा मर्मद होती गईं।

आज हिन्दी की स्थिति लगभग यही है। स्वतन्त्रता के बाद जो शब्दावली बनी है, वन रही है उससे हिन्दी को सामर्थ्य स्वयंसिद्ध हो गई है। हिन्दी का विस्तृत क्षेत्र जहाँ लोकभाषाओं से हिन्दी को शब्दावली प्रदान कर रहा है वहाँ क्षेत्रीय भाषाओं के लेखक तथा प्रशासक भी हिन्दी को नई अर्थ-व्यञ्जनाएँ प्रदान कर रहे हैं। समय ही इस शब्दावली को मानक रूप प्रदान करेगा जिससे मानक शब्दावली में निश्चिन्ता-पर्यता एवं बोधगम्यता बढ़ती जाएगी।

हिन्दी भाषा-भाषी राज्यों की राजभाषा के रूप में हिन्दी को मान्यता मिल चुकी है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश एवं केन्द्रशासित प्रदेश दिल्ली-पच्छीमगढ़ आदि ने अपना सभी सरकारी कामकाज हिन्दी में करना प्रारम्भ कर दिया है। इसके साथ ही पंजाब, महाराष्ट्र और गुजरात की सरकारों ने भी हिन्दी को केन्द्र के साथ पत्र-व्यवहार के लिए सपके भाषा के रूप में स्वीकार कर लिया है। सभी हिन्दी भाषी राज्यों की जनता द्वारा अपने प्रशासन सबकी कार्य को हिन्दी में ही करने से हिन्दी का महत्व स्वयं बढ़ता जा रहा है।

(क)

भारत-सरकार के शिधा-मन्त्रालय के अन्तर्गत वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग के तत्त्वावधान में प्रथमिक शब्दावली का काम प्रारम्भ किया गया था। प्रशासन संबंधी शब्दावली का प्रथम प्रारूप मुद्रित रूप में 15 जनवरी 1965 को उपलब्ध हुआ क्योंकि 26 जनवरी 1965 से हिंदी को राजभाषा का पद प्राप्त होना था।

इस शब्दावली की मुद्रिका में आयोग के तत्कालीन सचिव डॉ० विश्वनाथ प्रसाद ने शब्दावली के निर्माण को पृष्ठति पर प्रकाश डालते हुए लिखा था—

“इस शब्दों के हिंदी पदों का निर्माण 27 अप्रैल 1960 को दिने गये राष्ट्रपति के आदेश के अनुसार सरलता, सतिष्ठित तथा सहज बंधगम्यता को दृष्टि में रखकर किया गया है और साथ ही विभिन्न क्षेत्रों में इन शब्दों के वर्तमान प्रचलन को भी ध्यान में रखा गया है। सबसे अधिक ध्यान इस महत्वपूर्ण नीति का रखा गया है, कि इस शब्दावली में सभी भारतीय भाषाओं के बीच अधिक से अधिक समरूपता की उपलब्धि की जा सके।”

वाच्य में यही शब्दावली सन् 1968 में “मनोकेत प्रशासन शब्दावली” शीर्षक से प्रकाशित हुई और इसका ही बृहत् सशोधित संस्करण सन् 1974 में प्रकाशित हुआ तथा बाद में पुनर्मुद्रण भी हुआ। इस शब्दावली के निर्माण में केन्द्र को सभी राज्यों के प्रतिनिधियों से सहयोग प्राप्त हुआ था। इसके पीछे एक ही उद्देश्य था कि पट्ट शब्दावली सभी राज्यों में समान रूप से प्रयुक्त हो सके। लेकिन यह उद्देश्य पूर्णतया प्राप्त नहीं किया जा सका, क्योंकि भाषा-भाषी राज्यों को तो छोड़िए, हिंदी भाषी राज्यों में भी अपने-अपने राज्य में प्रशासन संबंधी शब्दावली का निर्माण पढ़ने ही प्रारम्भ कर दिया था।

वैदेवी मध्यभारत शासकीय भाषा विद्यालय, 1950 के द्वारा पूर्वमध्य भारत में ममस्त शासकीय कार्यों के लिए हिंदी राजभाषा प्रोग्राम की गयी थी परन्तु मध्यप्रदेश के निर्माण के बाद युव समस्त सरकारी कार्यों के लिए हिंदी को अपनाते का निर्णय लिया गया और राजभाषा अधिनियम 1957 बना, जिसके अन्तर्गत 7 फरवरी 1958 में हिंदी का उपयोग अनिवार्य हो गया। राज्य के लिए शब्दावली का निर्माण बड़ी तेजी से आरम्भ किया गया चलते-प्रशासन शब्दकोश सन् 1964 में प्रकाशित हो गया।

इसी प्रकार बिहार सरकार ने सन् 1948 में हिंदी को राजभाषा के रूप में

स्वीकार किया, और राज्य सरकार ने ‘राजकीय प्रशासन शब्दावली’ शीर्षक में एक लघुकोश सन 1955 में ही प्रकाशित कर दिया। इस कोश का ही बृहत् रूप राजकीय पारिभाषिक शब्दावली (प्रथम खंड) 1970 में तथा द्वितीय खंड 1976 में प्रकाशित हुआ।

उत्तर प्रदेश ने अक्टूबर 1947 में हिंदी को राजभाषा घोषित कर दी थी। सरकारी कार्यों में हिंदी के प्रयोग के लिए राज्य सरकार ने सन् 1948 में एक समिति गठित की, और उत्तर प्रदेश शासन के भाषा-विभाग में 1962 ई० में बरने छोटे-छोटे प्रकाशनों के आधार पर ‘उत्तर प्रदेश प्रशासन शब्दकोश’ प्रकाशित किया। केवल उत्तर प्रदेश शासन ने ही सर्वप्रथम ‘हिंदी शब्दावली की एकरूपता को दृष्टि में रखते हुए (राज्य सरकार ने) हिंदी शब्दकोश समिति का कार्यकाल समाप्त कर आयोग (वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग) द्वारा प्रस्तुत शब्दावली को अपनाने का निश्चय किया।” इस प्रकार सन् 1971 में इसके पुनर्मुद्रण के समय ‘प्रशासन शब्दावली’ तथा ‘पदनाम शब्दावली’ भी समाविष्ट कर दी गयी। राज्य के मुख्य सचिव ने इन ‘प्रशासन शब्दकोश’ की प्रस्तावना में घोषणा की—

“यह शब्दकोश मुख्यतः उत्तर प्रदेश में प्रचलित प्रशासनिक शब्दों पर आधारित है, परन्तु साथ ही देश के सार्वदेशिक स्वरूप की एकरूपता की दृष्टि से भारत सरकार द्वारा परिनिश्चित शब्दों को प्राथमिकता प्रदान की गई है।” प्रसन्नता होगी यदि एकरूपता की दृष्टि में सभी हिंदी भाषा-भाषी राज्य एक ही जाएँ, जिसकी पहल पिछले वर्ष उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री और ने की गई है।

जब राजस्थान सरकार ने सन् 1977 में ‘हिंदी प्रयोग सार्वदेशिक’ प्रकाशित की तो उसमें शब्दावली की नीति पर प्रकाश डालते हुए भाषाविभाग के निदेशक महोदय ने ‘प्रारूपण’ में लिखा था—

“इस ग्रन्थ में पहले प्रशासनिक वर्णों की अँगूठी-हिंदी सूची है जो अकरार-दिक्कम से है। इसमें इन विभाग द्वारा 1971 में प्रकाशित प्रशासन शब्दावली के शब्द तो हैं ही, उनमें विपुल परियोजना और संगोपन भी कर दिने गये हैं। इन शब्दों में अधिकांश वे वर्णय हैं जो भारत सरकार द्वारा स्वीकृत हैं। एकरूपता के लिए इन शब्दों का चलन हृषारी नीति रहा है, किंतु जहाँ

मोडा परिवर्तन आवश्यक हुआ है, उसे करके प्रशासन शब्दावली का प्रकाशन किया गया है ।”

दूसी प्रकार कुछ प्रयास हरियाणा, दिल्ली तथा हिमाचल प्रदेश ने भी किये। 'एकरूपता' की ओर ध्यान सभी राज्यों का रहा। फिर भी इन विविध प्रयासों के फलस्वरूप क्या स्थिति बन गई है इसपर विचार एक इसका विवेचन, मनन तथा निष्लेषण अब आवश्यक हो गया है, और उसके लिए आधार-स्वरूप प्रस्तुत है यह तुलनात्मक कोश ।

इस कोश का सचमे बड़ा लाभ यह है कि जब इस रूप में अखिल भारतीय (हिंदी प्रदेशों की) प्रशासनिक शब्दावली एक स्थान पर तुलनात्मक रूप में उपलब्ध है तो इनके आधार पर दो काम बहुत ही आसानी से किए जा सकते हैं :

(ख) जिन जिन अंग्रेजी शब्दों के हिंदी प्रतिशब्दों में विभिन्न प्रदेशों में अनेकरूपता है, उनके हिंदी प्रतिशब्दों में लीन बातों की दृष्टि से सरलता से एक शब्द का चयन करके एकरूपता लाई जा सकती है। ये लीन बातें हैं : (i) अंग्रेजी शब्द के ठीक अर्थ की दृष्टि से हिंदी में विभिन्न प्रदेशों द्वारा प्रयुक्त शब्दों में कौन-सा अधिक उपयुक्त है ? (ii) कौन-सा बहुत कठिन न होकर अपेक्षाकृत सरल है ? (iii) किस शब्द के अधिक प्रचलित होने की सम्भावना है। इस तरह इस कोश की सहायता से किसी अंग्रेजी शब्द के लिए प्राप्त कई हिंदी शब्दों में अर्थ की सटीकता, सरलता तथा प्रचलन की सम्भावना की दृष्टि से किसी एक शब्द को छोड़ पाना कठिन नहीं है, और इस प्रकार बड़ी सरलता से इस अनेकरूपता के भीतर एकरूपता की योजना की जा सकती है।

इस कोश को बनाते समय जिन बातों की ओर हमारा ध्यान गया है या जो सुझाव हमें दते हैं, उनमें से कुछ मुद्रण नीचे दिए जा रहे हैं।

कान्ठे अंग्रेजी शब्दों के हिंदी पर्यायों में केन्द्र तथा सभी हिंदी प्रदेशों में एकरूपता है। जैसे Abandonment के लिए 'परित्याग', Abbreviation के लिए 'संक्षेप', Absurd के लिए 'अर्थहीन', अनुकूल, Joint Account के लिए 'संयुक्त लेखा', Administrator के लिए 'प्रशासक', Alleged के लिए 'अखिल', Approve के लिए 'अनुमोदन करना', Approval के लिए 'अनुमोदन', Civil के लिए 'निवृत्त', Complimentary के लिए 'मानार्थ', Contract के लिए 'ठेका, सविद्या', Division

के लिए 'विभाजन', Etiquette के लिए 'शिष्टाचार', Extract के लिए 'उद्धरण', Fluctuation के लिए 'घटबट', Imprest के लिए 'अग्रदान', Irregular के लिए 'अनियमित', Leave vacancy के लिए 'अवकाश रिक्ति', Original Copy के लिए 'मूल प्रति' तथा Public interest के लिए 'लोकहित' आदि। अतः एकरूपता की दृष्टि से कुछ काम तो सहज ही हो गया है।

ऐसे शब्द भी हैं जिनमें केन्द्र तथा सभी राज्यों में एकरूपता नहीं है। इसके बोधगम्यता की समस्या उठ खड़ी होती है। उदाहरण के लिए 'प्रारण्य पत्र' का प्रयोग करता है तो मध्य प्रदेश उसे नहीं समझता तथा मध्य प्रदेश और बिहार 'उपरिपत्र' तथा 'व्याख्या पत्र' का प्रयोग करते हैं तो केन्द्र उन्हें नहीं समझ पाता। उत्तर प्रदेश इसी को 'सहपत्र' या 'भावरण पत्र' कहता है। सचेत है कि ये सभी शब्द Covering Letter के लिए हैं। ऐसे ही Face Value के लिए कही 'अखिल मूल्य' है तो कहीं इसके साथ 'प्रत्यक्ष मूल्य' तथा 'मुद्रण मूल्य' भी है। ऐसे अर्थों की शब्दों के हिंदी प्रतिशब्दों में एकरूपता लाने के लिए जो शब्द

अधिकारिता रखाने पर चल रहे हैं, उन्हें अर्थों द्वारा अपना लिया जाना चाहिए। उदाहरणार्थ, Academic qualification के लिए मध्यप्रदेश में 'विद्याहीनता' का प्रयोग चल रहा है किंतु केन्द्र, राजस्थान आदि बर्ध में 'मैसणिक योग्यता' का ही एकरूपता या सकती है। ऐसे ही Academic year तथा Registering Authority के लिए उत्तर प्रदेश में 'मैसणिक वर्ष' तथा 'निगमक प्राधिकारी' चल रहे हैं किंतु मध्य प्रदेश में 'मैसणिक वर्ष' तथा 'पञ्जीयन प्राधिकारी' चल रहे हैं। आधार पर मैसणिक वर्ष तथा 'पञ्जीयन प्राधिकारी' यदि उत्तर प्रदेश बहुत के हैं। वस्तुतः इस तरहके बहुत सारे प्रशासनिक शब्द हैं जिनमें अनेकरूपता केवल एकरूपता के अल्प प्रयोग के कारण है और ऐसी अनेकरूपता सरलता से जहाँ इसमें भी अधिक अनेकरूपता है, वहाँ भी बहुत कम के आधार पर किसी एक शब्द को चयन करने स्वीकार कर लें तो एकरूपता लाई जा सकती है। इस प्रसंग में यह उल्लेख है कि जब केन्द्र द्वारा स्वीकृत शब्द सरल तथा प्रचलन योग्य है तो फिर विभिन्न राज्यों को नये-नये शब्दों को अपनायें का कोई औचित्य नहीं है, यद्यपि ऐसा किया गया है। उदाहरण के लिए Gratuitous के लिए

केन्द्र में 'आनुवाहिक' तथा 'मुपन' रखा है तो उत्तर प्रदेश में इनके साथ 'नि शुद्ध' विहार में 'अपचित' और 'बेमंगि' तथा 'मध्य प्रदेश में 'निर्मूल्य' और 'अकार्य' भी दे लिया है। Grievance के लिए केन्द्र द्वारा स्वीकृत 'सिकायत' से किसी भी राज्य को सिकायत नहीं है किंतु उत्तर प्रदेश में 'कष्ट' विहार में 'घय्या' और मध्य प्रदेश में 'दु ख' आदि शब्दों को भी स्वीकार कर लिया है। ऐसे ही Hall के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा स्वीकृत 'हॉल/मवन' को अपनाते हुए भी उत्तर प्रदेश में 'सभा' विहार में 'प्रशाल' और मध्य प्रदेश 'बडा कमरा' आदि शब्दों को जोड़ लिया है तो Homage के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा स्वीकृत 'अदाजलि' के साथ-साथ उत्तर प्रदेश में 'अद्रा' विहार में 'वश्यता अगोकार' तथा मध्य प्रदेश में 'भक्तिभाव' व 'निष्ठाभाव' बडा लिये हैं, Implementation के लिए केन्द्र द्वारा स्वीकृत 'परिपालन', 'अमल में लाना' तथा 'कार्यान्विति' के साथ-साथ विहार में 'त्रियान्विति' मध्य प्रदेश में 'अमल/पुति/अभिपूति' और उत्तर प्रदेश में 'अन्वयन' जोड़ लिए हैं और Incentive के लिए केन्द्र द्वारा स्वीकृत 'प्रोत्साहन' के साथ-साथ उत्तर प्रदेश में 'उत्तेजना' व 'प्रेरणा', विहार में 'बडावा' और 'उत्तेरणा' तथा मध्य प्रदेश में 'उद्दीपक' और 'उत्तेजक' आदि शब्दों को भी रख लिया है।

वस्तुन केन्द्र द्वारा प्रयुक्त ऐसे शब्दों को जिन्हें कई राज्यों में भी लिया है, शेष राज्यों को भी ले लेना चाहिए।

यों कुछ अप्रैजी शब्दों के समझ में ऐसा भी है कि केन्द्र द्वारा स्वीकृत शब्द, कठिन हैं या नहीं चलने योग्य है या बहून् ठीक नहीं हैं या उनकी तुलना में कई राज्यों द्वारा प्रयुक्त शब्द सरल, तथा चलने योग्य हैं, अतः ऐसे शब्दों को केन्द्र को अपना लेना तथा अपने शब्द छोड़ देना एक रूपता, सरलता, बोधगम्यता तथा प्रचलन की दृष्टि से अच्छा रहेगा। उदाहरण के लिए—

Abnormal	केन्द्र द्वारा स्वीकृत	अधिकांश राज्यों द्वारा प्रयुक्त
Compaign	असहामान्य	असामान्य
Cheque, bearer	विशेष-प्रचार	अभियान
Cheque, Crossed	धनीजोग चेक	बाहक/दिय चेक
	शाहजोग चेक	नामदेय चेक
	आस्थापित करना	स्थापित करना

Escort	अनुरक्षक	भार्गवशी/रक्षण
Implied	विबिंदित	दृशित, अभिवेत्त
Nationality	राष्ट्रियता	राष्ट्रीयता
Panel	नामिका	तानिका, पैनल
Procurement	आसादन, प्राणण	बसूलो, प्राप्ति, अधिग्रान्ति
Promulgation	प्रादधानन	ऐलान, प्रवर्तन
Redundant	व्यतिरिक्त	हालतू, निरर्थक

मात्र सरलता तथा प्रचलन को ही आधार माना जाए तो कुछ मान्य शब्द न तो चल रहे हैं और न उनके चलने की सम्भावना है। उनके स्थान पर सरल शब्द अपनाए जाने चाहिए—

Arbitration	केन्द्र द्वारा स्वीकृत	जिन्हें अपनाया चाहिए
Call money	माध्यस्व, विवाचन	पचकैमटा, पचनिर्णय
Caretaker	अवलम्ब राशि	माँग धन/राशि
Caution money	रखवाल, अवधायक	बैयर टेकर
Good will	अवधान द्रव्य	काशन मनी
Out station	सुनाम, सटिकटा	साध
Allowance	बहि स्थान भत्ता	बाहर रहने का भत्ता

ऐसे ही Announcement के लिए 'घोषणा' तथा 'ऐलान' बहुप्रयुक्त हैं अतएव इन्हे ही चलाना चाहिए। केन्द्र द्वारा स्वीकृत 'आध्यापन' तथा कुछ राज्यों द्वारा अपनाया गया 'अभिज्ञापन' छोड़ देने चाहिए। ऐसा नहीं है कि केन्द्र का इम और ध्यान नहीं गया। अथर पुरानी सूची को देखा जाए तो साक पता लगता है कि Academic के लिए 'आधिबिद्य' के स्थान पर 'शैक्षणिक', Acquire के लिए 'अवाप्त' के स्थान पर 'अर्जन करना', Compulsory के लिए 'विवश्यक' के स्थान पर 'अनिवार्य बाध्य' तथा Confidence के लिए 'विश्रम्भ' के स्थान पर 'विश्वास', 'भरोसा' अब अपनाये गये हैं, जिनसे स्पष्ट है कि सरलता तथा प्रचलन की दृष्टि से समय-समय पर परिवर्तन किए जाते रहे हैं। इसी प्रकार Contribution के लिए 'अदान', 'योगदान', 'अभिदान' के माध लोकप्रचलित शब्द 'दान' भी होना चाहिए।

वस्तुतः सरल शब्द स्वतः चल पड़ते हैं। Promissory note के लिए लोकप्रचलित 'श्वकन' चलेगा या 'प्रोनोट', 'यचन-पत्र' तो अभी तक नहीं चल सका है। Promulgation के लिए 'प्रवर्तन' या 'ऐसान' ही चल सकेगा, 'प्राध्यापन' को संभावना कम है। प्रेस के सदर्भ में 'प्रूफ' ही माग्य है और वही प्रचलन में है, चाहे बिहार का 'प्रामुद्र' या मध्य प्रदेश द्वारा स्वीकृत 'प्रामुद्रण' कोशों में भले हो। 'रिट' के लिए केन्द्र से स्वीकृत अपेक्षी शब्द 'रिट' ही अधिक प्रचलन में है, कोई हिन्दी रूप प्रचलन में नहीं आ सना, चाहे वह 'प्रादेस' ही अथवा 'प्रसिद्धि'।

यह भी ध्यान देने योग्य है कि यदि कुछ नए शब्द चल रहे हैं या अपना लिए गए हैं तो उनके साथ कुछ ऐसे शब्द भी जोड़े जा सकते हैं जो सरल तथा लोकप्रचलित हों। इससे हमारी प्रणामनिक शब्दावली अपेक्षाकृत अधिक लोकप्रिय हो सकेगी। उदाहरणार्थ—

Appraiser	केन्द्र द्वारा माग्य शब्द मूल्य-निरूपक	अग्य जोड़ें जाने योग्य शब्द मूल्यनिर्धारक, आकनेवासा, कूलनेवाला
Association	संघ, समाज, सगम	संस्था, समा, मडली
Book-value	अंकित मूल्य	वही-मूल्य, पुस्तक/किताबी मूल्य
Caution	सावधानी	चेतावनी
Compel	विश कराना	मजबूर कराना, बाध्य कराना
Discharge (debt)	उन्मोचन	श्रुणमोचन, भारमुक्त
Displeasure	अप्रसाद	अप्रसन्नता, भाराजगी, कोप
Effective	प्रभावी	कारगर, सफल
Equipment	उपस्कर	उपकरण
Interval	अंतरावधि, अंतराल	धीक का फासला, अन्तर
Interview	प्रत्यक्ष भेंट, साक्षात्कार	मुलाकात
Irregular	अनियमित	बेकायदा, बेतरतीब
Joint	संयुक्त	सह-, सम्मिलित
Labour	श्रमिक वर्ग	मजदूर, कामगार

Legitimate	धर्मज (दूसरे अर्थ में)	औरस
Letter-box	पत्रपुस्तो	सेटरबक्स
Lien	पुनर्ग्रहणाधिकार	लियन
Machine-tool	उपयज	मशीनटूल
Negligence	उपेक्षा, प्रमाद, गफलत	लापरवाही
Neutral	तटस्थ	उदासीन
Patronage	सरक्षण	प्रथप
Rebate	घटौती, छूट	बट्टा
Script writer	वस्तुलेखक	लिपिकार
Seizure	अभिग्रहण	कब्जा, धाम होना
Set-aside	अपास्त करना	रट/खारिज करना
Specific	विनिर्दिष्ट	विशेष, विशिष्ट
Structure	अवक्षेप	निम्दा, टीका, आलोचना, कटाक्ष
Subsistence	निर्वाह, वतिता	गुजारा
Surplus	अधिकोप	बचत, बैशी
Surrender	अभ्यर्पण	समर्पण, आत्मसमर्पण

केन्द्र तथा सभी हिन्दी भाषा-भाषी राज्यों में एक अथवा एक से अधिक भिन्न अर्थों में समान रूप से मिलते-जुलते / समान शब्दों का प्रचलन प्रायः है पर कहीं-कहीं यह भी देखा गया है कि किसी एक अथवा एकाधिक राज्यों में कुछ अतिरिक्त अर्थ-च्छटाएँ व्यवहृत करने के लिए कुछ नये शब्दों का प्रयोग भी किया है। ऐसी स्थिति में यदि भिन्न भाव व्यक्त करने के लिए इन अतिरिक्त शब्दों को आवश्यक समझा जाए, तो केन्द्र तथा क्षेत्र राज्य भी ऊँहे अपना लें। इस प्रकार के कुछ उदाहरण यहाँ द्रष्टव्य हैं—

		अतिरिक्त भाव में
Abridge	1. वचित करना	2. प्रतिहासन करना
Abrogate	1. तोडना	2. रद्द करना
Absolve	1. शेषमुक्त करना	

Abuse	1. उपशब्द	Conciliation	1. संराधन
Accord	1. सहमति, एकमत	Confirmation	1. स्थायीकरण
Accretion	1. भूमिवृद्धि, क्षेत्रवृद्धि	Consistent	1. अभिचल, दृढ़
Accuracy	1. शुद्धता	Correspondence	1. अनुरूपता
Administer	1. प्रबंध/व्यवस्था करना	Cover	1. हानिरक्षा, रक्षा/रक्षि
Admonition	1. फटकार, चेतावनी	Defence	1. प्रतिवाद, प्रतिपक्ष, बचाव, सकार्द
Affirm	1. निश्चयपूर्वक कहना	Define	1. सीमांकित करना
Aggregate	1. समूह, समुदाय	Dissolution	1. विच्छेद, प्रविलयन
Agree	1. मेल खाना (लेखा)	Establishment	1. कर्मचारी-वर्ग
Agreement	1. मेल	Execute	1. पालन करना, कार्यान्वित करना 2. पंजी/प्रायदंड देना
Alleged	1. आरोपित, आक्षिप्त	Exercise	1. अभ्यास करना
Allotment	1. प्रदेसन, प्रदिष्टि, नियत वितरण, विभाजन	Findings	1. अद्ययम
Annexure	1. उपगूह, उपसब्ज	Head	1. अध्यक्ष
Appendage	1. उपसब्ज	Incumbent	1. आधयी 2. लाडिभी
Appreciation	1. अधिमूल्यन(केन्द्र-वृद्धि) 2. सत्गन, परिशिष्ट	Installation	1. अभियेक
Assume	1. मान लेना	Intent	1. कृत सकल्प
Attached	1. कुके किये हुआ	Interpretation	1. भाषांतरण
Award	1. पुरस्कार, पुरस्कृत	Labour	1. प्रसय, प्रसज-वेदना
Block	1. गूठ	Landmark	1. उल्लेखनीय घटना/वस्तु
Breach	1. टूट, दरार, तोड, टूटफूट	Lapse	1. चूक
Brief	1. वाद-माराश	Liability	1. श्राण/दिनदारी
Capacity	1. हैसियत/पद	Maintenance	1. व्यवस्था, रख रखाव
Circulation	1. चालू, चलन, परिवहन	Manipulation	1. हुगल प्रयोग
Column	1. कालम	Motion	1. गति
Commission	1. कृत, करना, किया जाना	Movement	1. आधोलन
Communication	1. संपर्क	Mutation	1. फेरकार, उत्परिवर्तन
Concern	1. चिन्ता, व्यथता	Narrator	1. सूत्रधार

(७)

Negative Noted	1. अभावार्थक, ऋणात्मक 1. लिखित, अंकित	2. लब्धप्रतिष्ठ, विधुत, प्रख्यात	Absurd	केन्द्र द्वारा स्वीकृत अर्थहीन तथा बेतुका	अन्य उपयुक्त शब्द निरर्थक, युक्तिहीन, अमंगल, अयुक्त, अंधार्थक, बाह्यगत अभिगमन, साधन, अभिवृद्धि, उपाय, स्थान, अयोग्यता, कर्मनिष्ठ, कर्मरत, चपल, चञ्चल, फुर्तीला, कमेंठ, कार्यशील, प्रियात्मक परिचेदित, दु खी, माराउ, वीरहित, सन्तुष्ट, विन्न दयधक, सदिग्ध, इयर्थी, अनेकार्थी, अस्पष्ट गुणित, बहून, दलील लाभ
Null & Void Offer	1. प्रभावशून्य, निष्प्रभाव 1 प्रस्तुति	2. निवेदन, पेश करना	Access	प्रवेश तथा पहुँच	व्यपित, आलं तथा असतुष्ट
Outstanding Posting	1. बकाया, शेष 1. प्रविष्टि, प्रेषण	2. अन्वय	Active	सक्रिय तथा प्रियाशील	सद्विघ्नी
Practice Proviso	1. व्यवहार, प्रयोग-रुद्धि 1. प्रतिवध	2. अन्वय	Aggrieved	व्यपित, आलं तथा असतुष्ट	सद्विघ्नी
Reduce	1. अवनत करना 1. पुनर्नवीकरण	2. प्रत्यावर्तन	Ambiguous	सद्विघ्नी	सकं हित, फायदा, सुविधा अवसित
Restoration	1. पुनर्नवीकरण 1. दुष्कात, अकाल, दुष्पित		Argument	सकं हित, फायदा, सुविधा अवसित	
Scarcity	1. गुजाइश		Benefit	सकं हित, फायदा, सुविधा अवसित	
Scope	1. ऋणवन्न		Contemplated	सकं हित, फायदा, सुविधा अवसित	
Security	1 साधन				
Source	1. परिनिषय		Contraband	तिरिपिठ	मानदण्ड, कसोटी कटौती, घटाना
Statutory	1. सकोच, सकोचन		Criterion	मानदण्ड, कसोटी कटौती, घटाना	
Stricture	1. व्यवस्था, क्रम		Deduction	मानदण्ड, कसोटी कटौती, घटाना	
System	1. पारिभाषिक		Defunct	निष्क्रिय	
Technical	1. क्रियाविधि	2. व्यवहार, व्यवहार	Identify	पहचान	
Technique	1. लेनदेन				
Transaction					

प्रशामनिक शब्दावली में कुछ शब्द अर्थपरिभाषिक भी होने हैं जो सामान्यन भी प्रयुक्त होते हैं, अतः कुछ अन्य पर्याय भी यदि जुड़ जाएँ तो बुरा नहीं होगा, उदाहरण Ability के लिए प्रायः केन्द्र तथा सभी राज्यों में बहु प्रचलित शब्द 'योग्यता' ही अपनाया गया है। शब्द सरल तथा प्रचलन में है; पर इसके साथ ही 'कार्यक्षमता', 'क्षमता', 'सामर्थ्य', 'निपुणता', 'प्रवीणता' भी अपनाये जा सकते हैं। जहाँ मुक्त प्रयोग संभव है उसका स्पष्ट निर्देश दिया जाए अन्यथा भिन्न-भिन्न अर्थव्याप्तियों के लिए अलग-अलग शब्दों को सुनिश्चित कर दिया जाए। इत प्रकार के बहुत से शब्दों को लिया जा सकता है। उदाहरणार्थ—

अन्य उपयुक्त शब्द निरर्थक, युक्तिहीन, अमंगल, अयुक्त, अंधार्थक, बाह्यगत अभिगमन, साधन, अभिवृद्धि, उपाय, स्थान, अयोग्यता, कर्मनिष्ठ, कर्मरत, चपल, चञ्चल, फुर्तीला, कमेंठ, कार्यशील, प्रियात्मक परिचेदित, दु खी, माराउ, वीरहित, सन्तुष्ट, विन्न दयधक, सदिग्ध, इयर्थी, अनेकार्थी, अस्पष्ट गुणित, बहून, दलील लाभ सकल्पित, अनुभ्यात, अव्यसित, आयोगित, विचाराधीन, चिन्तित, परिकल्पित विनिपिठ, प्रतिपिठ, विधि-निपिठ मापदण्ड, निकष, परछ, स्तर अनुमान, निगमन, ध्यकलन अनुमानिक, परिणाम, निष्कर्ष निष्प्रभाव, निश्चैष्ट, समाप, मृत, निर्जीव, कार्यविरत, निकम्मा अभिन्नता, सद्रूपता, अनन्यता, एकात्मता, समानत्व, तादात्म्य, अभिज्ञान, स्वरूप

Inferior	निम्न, अधर, छोटा	पटिया, हलका, निचला, निम्नस्वय, निम्नश्रेणी का निम्नकोटि का अधोवर्ती, अधकष्ट
Invalsd	अक्षय	असमर्थ, रोगदुर्बल, दुर्बल, अभाव
Option	विकल्प	इच्छा, पसन्द, वरणाधिकार
Performance	निष्पादन, पालन	संपादन, प्रदर्शन, अनुष्ठान, काम, कृति
Putnary	प्राथमिक	मुद्य, प्रधान, प्रारम्भिक, पूर्ववर्ती
Resolution	सकल	निश्चय, प्रस्ताव, वियोजन
Serious	गम्भीर	भारी, सख्त, घोर, विताजनक, गहन

ऊपर एक ही अर्थ ही शब्द के लिए विभिन्न राज्यों द्वारा कई हिंदी शब्दों के स्वीकृत होने से उत्पन्न अनेकत्वता की चर्चा की गई। दो अर्थ प्रकार की अनेकरूपताओं की ओर भी हमारा ध्यान विभिन्न राज्यों के शब्दों को देखने से गया। इनमें एक तो है वर्तनी की अनेकरूपता। जैसे Stamp के लिए किसी राज्य ने 'मुहर' को स्वीकार दिया है तो किसी ने 'मोहर' को। इसी प्रकार Attache के लिए केन्द्र ने 'अताचे' रखा है तो बिहार ने 'अटैचे'। एक दूसरे प्रकार की अनेकरूपता समस्त शब्दों में मिलती है। किसी राज्य ने 'उन्हे' मिलाकर लिखा है तो किसी ने 'उंओ' लिखा है जोड़कर तो किसी ने 'अनय-अलग' दो शब्द रूप में। उदाहरण के लिए 'देखभान, देख-भाल, देख भाल'। इस दृष्टि से एक राज्य की भी पूरी शब्दावली में एकत्वता नहीं है। यदि इन दोनों दृष्टियों से भी एकतरुपता साईं जा सके तो बहुत अच्छा ही।

प्रायः यह समझा जाता है कि बड़े-बड़े तथा अनेकाकृत अल्पप्रयुक्त शब्द ही

हमारे सामने विभिन्न प्रकार की समस्याएँ उत्पन्न करते हैं किंतु वास्तविकता यह है कि छोटे-छोटे और बहुप्रयुक्त शब्द भी इस दृष्टि से पीछे नहीं हैं। उदाहरण के लिए Slip शब्द में। इसके लिए केन्द्र ने 'पची' दिया है तो उत्तर प्रदेश तथा बिहार ने पाँच-पाँच शब्द दिए हैं और मध्य प्रदेश ने तो Set तथा Section जैसे अनेक अन्य शब्दों के विषय में भी प्रायः यही स्थिति है।

हिंदी की प्रशामनिक शब्दावली में काफी शब्द ऐसे भी आते हैं जो अंग्रेजी से ज्यो-स्यो के लिए गए हैं तथा वे सभी लोग समझ लेते हैं। जैसे बैंक, बोनस, बुलेटिन, कर्लंडर, चातान (यह मूलतः हिंदी शब्द है जिसे अंग्रेजी ने लिया और फिर नए अर्थ में अंग्रेजी से हिंदी में लिया है) चार्ट, सर्किट हाउस आदि। ऐसे शब्दों को विस्तारमय से इस कोश में नहीं लिया गया है। इसी प्रकार मूल शब्द ही लिए गए हैं, किंतु विस्तारमय से उनसे बतने वाले बहुत से समस्त शब्दों को छोड़ दिया गया है। पदनामों को भी प्रायः नहीं लिया गया है, क्योंकि उनमें एक सीमा तक एकत्वता है, अतः शोधगम्यता की दृष्टि से कोई समस्या नहीं है।

हमारे इस कोश में एक ही अंग्रेजी शब्द के लिए हिंदी प्रतिशब्दों में कुछ के बीच में/या, का प्रयोग है। ऐसे शब्द पर्याय या लघुभग पर्याय हैं। जहाँ अर्थ में अन्तर है उन्हें अलग-अलग अर्थों (जैसे 1, 2, 3 आदि) से अलगया गया है। यदि किसी विशिष्ट अर्थ में किसी राज्य ने कोई शब्द नहीं दिया है तो उसे ध्यान छोड़ दिया गया है। अर्थ की दृष्टि से अलगभिने के नहीं-वही, का भी प्रयोग है।

कुछ ससोपे का भी इस कोश में प्रयोग हुआ है जैसे हरि० = हरिवाणा, वि० या विंशे० = विशेषण, कि० = भिया तथा स० = सजा, आदि।

पूक देखने में काफी सावधानी बरतने के बावजूद कई स्थानों पर अनतिर्वा रू नहीं हैं जिनके लिए हम क्षमाप्राप्ति हैं।

आशा है इस कोश को बनाने में जो उद्देश्य हमारे सामने थे, उनकी दृष्टि से यह कोश उपयोगी सिद्ध होगा।

A

	केन्द्र सरकार	राजस्थान	उत्तर प्रदेश	बिहार	मध्य प्रदेश	हरियाणा/अग्न
1	2	3	4	5	6	7
Abandonment	1. परित्याग	1. परित्याग	1. परित्याग, परित्यजन 2. सम्प्रदान	1. परित्याग	1. परित्याग, परित्यजन	1. परित्याग (हरि०)
Abate	1. उपशमन करना, उपशमन होना 2. कमी होना	1. उपशमन करना, उपशमन होना 2. कमी होना, घट जाना, कम करना, घटाना 3. समाप्त करना (विधि)	1. शमन करना, शान्त करना 2. कम होना, घट जाना, कम करना, घटाना 3. समाप्त करना	1. उपशमित होना/ करना (अधिकार) 2. कम होना (ताप)	1. उपशमन करना/ होना 2. कम होना, कम करना, न्यून होना, करना 3. समाप्त होना/ करना 4. उतरना	
Abbreviation	1. संक्षेप, संक्षेपण	1. संक्षेप, संक्षेपण	1. संक्षेप 2. अल्पाक्षर, (पूरे शब्द के स्थान पर उसके कुछ अक्षर जैसे, Chief Minister के लिए C. M.) संकेताक्षर	— — अल्पाक्षर, अल्पन संकेताक्षर	1. संक्षेप	1. संक्षेप, संक्षेपण (हरि०)

Inferior

निम्न, खबर, छोटा

Invalid

वशकत

Option

विकल्प

Performance

निष्पादन, पालन

Primary

प्राथमिक

Resolution

सकल

Serious

गंभीर

पटिया, हलका, निचला,
निम्नस्थ, निम्नश्रेणी का
निम्नकोटि का अधोवर्ती,
अवकष्ट

असमर्थ, रोगदुर्बल, दुर्बल,
अपारा

इच्छा, पसन्द, वरपाषाणिकार
संपादन, प्रदर्शन, अनुष्ठान,
काम, कृति

सुख्य, प्रदान, प्रारंभिक, पूर्ववर्ती
निश्चय, प्रस्ताव, विपोजन
भारी, सघन, घोर, विताजनक,
गहन

(ज)

हमारे सामने विभिन्न प्रकार की समस्याएँ उत्पन्न करते हैं किंतु वास्तविकता यह है कि छोटे-छोटे और बटुप्रयुक्त शब्द भी इस दृष्टि से पीछे नहीं हैं। उदाहरण के लिए Slip शब्द में। इसके लिए केन्द्र ने 'पबी' दिया है तो उत्तर प्रदेश तथा बिहार ने पाँच-पाँच शब्द दिए हैं और मध्य प्रदेश ने तो। Set तथा Section जैसे अनेक अन्य शब्दों के विषय में भी प्रायः यही स्थिति है। हिंदी की प्रामाणिक शब्दावली में काफी शब्द ऐसे भी आते हैं जो अंग्रेजी से ज्यों-ज्यों ले लिए गए हैं तथा वे सभी लोग समझ लेते हैं। जैसे बैंक, बोनस, ज्यो-ज्यों ले लिए गए हैं तथा वे सभी लोग समझ लेते हैं। जैसे बैंक, बोनस, फिरेन, कलेडर, चालान (यह प्रुलत हिंदी शब्द है जिसे अंग्रेजी ने लिया और फिर नए अर्थ में अंग्रेजी से हिंदी में लिया है) चार्ट, सॉफ्ट हाउस आदि। ऐसे शब्दों को निस्तारभय से इस कोय में नहीं लिया गया है। इसी प्रकार मूल शब्द तो लिए गए हैं, किंतु विस्तारभय से उनमें बतने वाले बहुत से समस्त शब्दों को छोड़ दिया गया है। परनामों को भी प्रायः नहीं लिया गया है। योंकि उनमें एक तोमा तक एकलुता है, अतः बोधगम्यता की दृष्टि से कोई समस्या नहीं है।

हमारे इस कोय में एक ही अंग्रेजी शब्द के लिए हिंदी प्रतिशब्दों में कुछ के बीच में/या, का प्रयोग है। ऐसे शब्द पर्याय या लयभंग पर्याय हैं। जहाँ अर्थ में अंतर है उन्हें अलग-अलग अनेक (जैसे 1, 2, 3 आदि) से अलगया गया है। यदि किसी विशिष्ट अर्थ में किसी राज्य ने कोई शब्द नहीं दिया है तो उसे छापी छोड़ दिया गया है। अर्थ की दृष्टि से अलगने में कहीं-कहीं; वा भी प्रयोग है। कुछ शब्दों का भी इन कोय में प्रयोग हुआ है जैसे हरि० = हरिप्राण, वि० या विशेष० = विशेषण, कि० = किया तथा स० = समा, आदि। यह देखने में काफी सावधानी बरतने के बावजूद कई स्थानों पर गलतियाँ रह गई हैं जिनके लिए हम ध्यायाधीन हैं। आशा है इस कोय को बनाने में जो उद्देश्य हमारे सामने थे, उनकी दृष्टि से यह कोय उपयोगी सिद्ध होगा।

उपर एक ही अंग्रेजी शब्द के लिए विभिन्न राज्यों द्वारा कई हिंदी शब्दों के स्वीकृत होने से उत्पन्न अनेकरूपता की चर्चा की गई। दो अन्य प्रकार की अनेकरूपताओं की ओर भी हमारा ध्यान विभिन्न राज्यों के शब्दों को देखने से गया। इनमें एक तो है वर्तनी की अनेकरूपता। जैसे Stamp के लिए किसी राज्य में 'मुद्र' को स्वीकार दिया है तो किसी ने 'मोदर' को। इसी प्रकार Attache के लिए केन्द्र ने 'अतासी' रखा है तो बिहार ने 'अटै' को। एक दूसरे प्रकार की अनेकरूपता समाप्त शब्दों में मिलती है। किसी राज्य ने उन्हें मिलाकर लिखा है तो किसी ने योजक चिह्न से जोड़कर तो किसी ने अलग-अलग दो शब्द रूप में। उदाहरण के लिए देवभाल, देव-भाल, देव भाल। इस दृष्टि से एक राज्य की भी पूरी शब्दावली में एकलुता नहीं है। यदि इन दोनों दृष्टियों से भी एकलुता प्राप्त यह समाप्ता जाता है कि बड़े-बड़े तथा लघुशाकृत अल्पप्रयुक्त शब्द ही

A

	केन्द्र सरकार	राजस्थान	उत्तर प्रदेश	बिहार	मध्य प्रदेश	हरियाणा/अन्य
1	2	3	4	5	6	7
Abandonment	1. परित्याग	1. परित्याग	1. परित्याग, परित्यजन 2. सम्प्रदान	1. परित्याग	1. परित्याग, परित्यजन	1. परित्याग (हरि०)
Abate	1. उपशमन करना, उपशमन होना 2. कमी होना	1. उपशमन करना, उपशमन होना 2. कमी होना, घट जाना, कम करना, घटाना 3. समाप्त करना (विधि)	1. शमन करना, शान्त करना 2. कम होना, घट जाना, कम करना, घटाना 3. समाप्त करना	1. उपशमित होना/ करना(अधिकार) 2. कम होना (ताप)	1. उपशमन करना/ होना 2. कम होना, कम करना, म्यून होना, करना 3. समाप्त होना/ करना 4. उतरना	
Abbreviation	1. संक्षेप, संक्षेपण	1. संक्षेप, संक्षेपण	1. संक्षेप 2. अल्पाक्षर, (पूरे शब्द के स्थान पर उसके कुछ अक्षर जैसे, Chief Minister के लिए C. M.) संकेताक्षर	— — अल्पाक्षर, अल्पन संकेताक्षर	1. संक्षेप	1. संक्षेप, संक्षेपण (हरि०)

1

2

3

4

5

6

7

Ability

1 योग्यता

1. योग्यता

1. योग्यता

1. योग्यता

1. योग्यता
2. कार्यक्षमता,
क्षमता

1. योग्यता
(हरि०)

Ab initio

1. आदित,
आरम्भ से,
शुरू से

1 आदितः,
आरम्भ से,
शुरू से

1. आरम्भत,
आरम्भ से

1 आदिन,
आरम्भ से,
शुरू से

1. आरम्भत,
आरम्भ से

1. आदित,
आरम्भ से,
शुरू से (हरि०)

Abnormal

1 अपसामान्य

1. अपसामान्य

1. असामान्य

1. असामान्य,
2. अप्राकृत

आदि-नियमत

1. असामान्य,
असाधारण
2. अस्वाभाविक
3. नियम बाह्य

1. असामान्य
(हरि०)

Abolition

1. उन्मूलन,
उत्सादन,
अत

1. उन्मूलन,
उत्सादन,
अत,
2. समाप्ति

1. उन्मूलन,
उत्सादन,
अत,
2. तोड़ देना,
समाप्त करना

1. उन्मूलन,
उत्सादन,
अत

2. समाप्ति,
तोड़ना

1. उत्सादन,
अत

2. समाप्ति,
अत करण
3. दण्ड-परिहार

1. उन्मूलन,
उत्सादन,
अत
(हरि०)

Aboriginal

1. आदिवासी

1. आदिवासी

1. आदिवासी

1. आदिवासी

1. आदिवासी

1. आदिवासी
(हरि०)

Above par

1. अधिमूल्य,
औसत से ऊंचा

1. औसत से ऊंचा,
अधिमूल्य पर

1. अधिमूल्य पर,
औसत से ऊंचा

1. अधिमूल्य पर,
औसत से ऊंचा,

1. अधिमूल्य पर,

1. अधिमूल्य पर,
औसत से ऊंचा
(हरि०)

1	2	3	4	5	6	7
Abridge	1. संक्षेप करना 2. म्यून करना	संक्षेप करना	1. संक्षेप करना 2. कम करना	1. सक्षिप्त करना 2. म्यून करना	2 नफे से 1. सक्षेप करना 2. कम करना 3. बचित करना 4. प्रतिहासन करना	2 प्रत्यक्ष मूल्य से ऊपर 1. संक्षेप करना, सक्षिप्त करना 2. कम करना 3. बचित करना 4. प्रतिहासन करना 1. संक्षेप करना (हरि०)
Abrogate	1. निराकरण करना	1 निराकरण करना निराहृत करना	1. निराकृत करना	1 निराकरण करना,	1. निराकरण करना निराकृत करना 2. तोड़ना 3. रद्द करना	1. निराकरण करना (हरि०)
Absence	1. अनुपस्थिति, गैरहाजिरी	1. अनुपस्थिति, गैरहाजिरी	1. अनुपस्थिति, मोपास्थाना	1. अनुपस्थायी, अनुपस्थिति	1 अनुपस्थायी	1. अनुपस्थित, गैरहाजिर (हरि०)
Absentee Statement	1. अनुपस्थिति-विवरण	1. अनुपस्थिति-विवरण	1. अनुपस्थिति-विवरण,	1. अनुपस्थिति-विवरण		1. अनुपस्थिति-विवरण (हरि०)
Absolute			2. नौपास्था-विवरण 1. निरपेक्ष 2. पूर्ण 3. परम 4. इंकातिक, अनन्य, अयोध	2. अनुपस्थायी-विवरण 1. निरपेक्ष 2. सम्पूर्ण, पूर्ण 3. चरम, परम 4. आत्यन्तिक, अबाधित, पक्का	2. अनुपस्थायी-विवरण 1. निरपेक्ष 2. पूर्ण, पूर्ण एका ही 3. परम 4. निरनुग, अबाधित, दृढ़	1. स्पष्ट 2. पूर्ण 3. अतिम 4. आत्यतिक

4 / अखिल भारतीय प्रशासनिक शब्दकोश

1	2	3	4	5	6	7
Absolve	1. विमुक्त करना	1. विमुक्त करना	1. विमुक्त करना, मुक्त करना	1. निमुक्त करना	1. निर्मुक्त करना	1. विमुक्त करना (हरि०)
Absorb	1. अवशोषण करना 2. समाहृत करना	1. अवशोषण करना 2. समाहृत करना	2. दोषयुक्त करना 2. समाविष्ट करना, सविलीन करना	1. अवशोषण करना 2. अन्तर्लीन करना	1. दोषग्रस्त करना 2. चुटना, सोखना 2. समाविष्ट करना, सविलीन करना, अन्तर्लीन करना, खपाना, समाना 3. निमग्न करना	1. अवशोषण करना 2. समाहृत करना (हरि०) 3. आभेहित करना (विधि)
Abstract	1. सार 2. सक्षिप्त (विधि)	1. सार	1. सार 2. सार-पत्र	1. सार, सारांश 2. सार तैयार करना 3. (चोरी से) निकालना	1. सक्षेप, सक्षिप्त, सक्षर करना, सक्षिप्त करना 2. घटाना, निकालना 3. श्रुद्ध 4. अमूर्त	1. सार (हरि०)
Abstract book	1. सार-पुस्तिका	1. सार-पुस्तिका	1. सार-पुस्तिका	1. सार-पुस्तक, पुस्तिका	1. सक्षिप्त-पुस्तक	1. सार-पुस्तिका (हरि०)
Absurd	1. अर्थहीन, बेतुका	1. अर्थहीन, बेतुका	1. अर्थहीन, बेतुका, निरर्थक 2. मुक्तिहीन, 3. असंगत	1. अर्थहीन, बेतुका, वाह्ययात 2. अपार्थक 3. अयुक्त	1. बेतुका 3. अयुक्त, असंगत	1. अर्थहीन, बेतुका (हरि०)

1	2	3	4	5	6	7
Absurdity	1. अर्थहीनता, बेतुकापन	1. अर्थहीनता, बेतुकापन	1. अर्थहीनता, बेतुकापन	1. अर्थहीनता, बेतुकापन	1. अर्थहीनता, बेतुकापन	1. अर्थहीनता, बेतुकापन (हरि०)
Abuse	1. दुरुपयोग	1. दुरुपयोग	1. दुरुपयोग 2. अपशब्द	1. दुरुपयोग 2. अपशब्द	1. दुरुपयोग 2. अपशब्द, गाली, दुर्वचन	1. दुरुपयोग (हरि०)
Academic	1. शैक्षणिक, शिक्षा सम्बन्धी	1. शैक्षणिक,	1. शैक्षिक, शिक्षा शैक्षणिक 2. ज्ञान सम्बन्धी, विद्या सम्बन्धी 3. आधिविद्य	1. शिक्षा सम्बन्धी 2. आधिविद्य, शास्त्रीय	1. शैक्षणिक 2. विद्या सम्बन्धी, विद्याविषयक 3. आधिविद्य, शास्त्रीय	1. शैक्षणिक 2. विद्या सम्बन्धी 3. आधिविद्या (हरि०)
Academic council	1. विद्या-परिषद्	1. विद्या-परिषद्	1. विद्या-परिषद्, शिक्षा-परिषद्	1. विद्यापरिषद्, विद्वत्-परिषद्	1. विद्यापरिषद् अधिविद्य-परिषद्	1. विद्या-परिषद्
Academic-qualification	1. शैक्षणिक-अर्हता, शैक्षणिक-योग्यता	1. शैक्षणिक-अर्हता, शैक्षणिक-योग्यता	1. शैक्षणिक योग्यता शैक्षणिक-योग्यता	1. शैक्षिक-योग्यता	1. विद्यार्हता	1. शैक्षणिक-योग्यता, शैक्षिक-योग्यता
Academic year	1. शैक्षणिक वर्ष	शैक्षणिक वर्ष	1. शिक्षा वर्ष	1. शैक्षणिक वर्ष, शिक्षावर्ष	1. शैक्षणिक वर्ष, अधिविद्य वर्ष	1. शैक्षणिक-वर्ष
Academy	1. अकादमी	1. अकादमी	1. अकादमी, ज्ञानपीठ, ज्ञानपरिषद्	1. अकादमी	1. अकादमी, विद्यापीठ-विद्यासंस्थान	1. अकादमी (हरि०)

	1	2	3	4	5	6	7
Accede	1. मान लेना	1. मान लेना	1. मान लेना, स्वीकार करना	1. मान लेना	1. मान लेना	1. मानना, स्वीकार करना, जुड़ जाना, जुड़ना	1. मान लेना
	2. अधिमिलन (क्रि०), शामिल होना, सम्मिलित होना (स०)	2. अधिमिलन, शामिल होना, सम्मिलित होना	2. अधिमिलन, शामिल होना सम्मिलित होना	2. अधिमिलन, शामिल होना, सम्मिलित होना	2. अधिमिलन, शामिल होना, सम्मिलित होना	2. प्रविष्ट होना, सम्मिलित होना, शामिल होना	2. अधिमिलन, शामिल होना, सम्मिलित होना (हरि०)
Acceding to	—	—	—	—	—	—	1. अग्रोकार करना (विधि०)
Accept	1 स्वीकार करना, मानना	1. स्वीकार करना, मानना	1. स्वीकार करना, मानना, सकारना	1. स्वीकार करना, मानना	1. स्वीकार करना, मानना	1. स्वीकार करना, मानना	1. स्वीकार करना (हरि०)
				2 प्रतिगृहीत करना, ग्रहण करना (उपहार आदि)	2. सकारना, लेना		
Acceptability	1. स्वीकार्यता	1. स्वीकार्यता	1. स्वीकार्यता	1. स्वीकार्यता	1. स्वीकार्यता	1. स्वीकार्यता	1. स्वीकार्यता (हरि०)
Acceptance	1. स्वीकार, स्वीकृति	1. स्वीकृति	1. स्वीकार, स्वीकृति	1 स्वीकार	1. स्वीकृति, ग्रहण, मजूरी	1. स्वीकृति, ग्रहण, मजूरी	1. स्वीकृति (हरि०)
	2. प्रतिग्रहण		2 सकार, सकारो, सकाराई	2. सकारना (वाणिज्य मे)			
Acceptance of office	1. पद की स्वीकृति	1. पद की स्वीकृति,	1. पद की स्वीकृति	1. पद की स्वीकृति	1. पद की स्वीकृति	1. पद-स्वीकृति	1. पद की स्वीकृति (हरि०)
Acceptance of tender	1. निविदा की स्वीकृति,	1. निविदा की स्वीकृति,	निविदा की स्वीकृति,	1. निविदा की स्वीकृति	1. निविदा की स्वीकृति	1. निविदा की स्वीकृति,	1. निविदा की स्वीकृति(हरि०)

1	2	3	4	5	6	7
Access	टेंडर की स्वीकृति 1. प्रवेश, पट्टच	टेंडर की स्वीकृति 1. प्रवेश, पट्टच	टेंडर की स्वीकृति 1. प्रवेश, पट्टच	टेंडर की स्वीकृति 1. प्रवेश, पट्टच 2. अभिनमन	टेंडर की स्वीकृति 1. प्रवेश, पट्टच 2. अभिनमन, साघन 3. अभिवृद्धि 4. उपाय 5. स्थान, मार्ग 6. उपागमन	टेंडर की स्वीकृति 1. प्रवेश, पट्टच (हरि०)
Accessible			1. अभिनम्य, पट्टचने योग्य	1. अभिनम्य, पट्टचने के भीतर	1. अभिनम्य, सुगम, सुगमदर्शन, पट्टच के भीतर 2. प्रवेश्य 3. प्राप्य, सुलभ	1. पट्टच में/सुगम (विधि) 2. प्रवेश्य 3. प्राप्य, सुलभ
Accession	1. राज्यारोहण 2. पदारोहण 3. अधिमिलन	1. राज्यारोहण 2. पदारोहण 3. अधिमिलन	1. राज्यारोहण 2. पदारोहण 3. अधिमिलन, सम्मिलन, सम्मिलन होना	1. राज्यारोहण 2. आरोहण 3. अधिमिलन 4. अनुवृद्धि	1. आरोहण 2. सहमिलन 3. अभिनमन 4. अभिवृद्धि, अभिवर्धनी 5. प्रवेश्य	1. राज्यारोहण 2. अधिमिलन (हरि०)
Accessory	1. उपसाधक (वि०), उपसाधक (म०) 2. अतिरिक्त, सहायक	1. उपसाधन, उपसाधक 2. अनिरिक्त, सहायक	1. उपसाधन, उपसाधक	1. उपसाधन 2. सहायक 3. अनुपगी (अपराध में) 4. उपांग(मन्त्र का) 5. अतिरिक्त	1. अपराध, सहायक(विधि)	1. उपसाधक, उपसाधन 2. अतिरिक्त, सहायक (हरि०)

1	2	3	4	5	6	7
Accord	<ol style="list-style-type: none"> 1. अनुकूलता (स०) 2. प्रदान करना, देना (फि०) 3. मेल खाना, अनुकूलन होता (फि०) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. अनुकूलता, 2. प्रदान करना, देना 3. मेल खाना, अनुकूल होना 	<ol style="list-style-type: none"> 1. अनुकूलता 2. प्रदान करना, देना 3. मेल खाना, अनुकूल होना 4. सहमति, एकमत्य, मेल 	<ol style="list-style-type: none"> 1. स्वीकृति 2. देना, मेल खाना 3. सहमति 4. अभिसन्धि 5. सामञ्जस्य 	<ol style="list-style-type: none"> 1. एष्य 2. समनुमति 3. सवाद 4. स्नेहला 5. अभिसन्धि 6. गणना, गणक, कणकु, स्पष्टीकरण 	<ol style="list-style-type: none"> 1. सानुकूलता 2. प्रदान करना, देना 3. मेल खाना, अनुकूल होना (हरि०) 1. लेखा, खाता 2. हिमाब (हरि०)
Account	<ol style="list-style-type: none"> 1. लेखा, खाता 2. हिमाब 	<ol style="list-style-type: none"> 1. लेखा, खाता 2. हिमाब 	<ol style="list-style-type: none"> 1. लेखा, खाता 2. विवरण 	<ol style="list-style-type: none"> 1. लेखा, खाता 2. हिमाब 3. विवरण 	<ol style="list-style-type: none"> 1. लेखा, खाता 2. हिमाब 3. विरण 4. गणना, गणक, कणकु, स्पष्टीकरण 5. वृत्तान्त, विवरण 6. महत्व, अर्थ 	<ol style="list-style-type: none"> 1. लेखा, खाता 2. हिमाब (हरि०)
Account (Verb)			<ol style="list-style-type: none"> 1. लेखा देना, ब्योरा देना 2. कारण बताना 3. समाधान करना 4. उत्तरदायी होना 		<ol style="list-style-type: none"> 1. लेखा देना 2. कारण बताना, स्पष्टीकरण देना 3. लेखाकन करना 4. उत्तरदायी होना 5. आकलन करना, खाते में जमा करना 	<ol style="list-style-type: none"> 1. लेखा देना 2. कारण बताना 3. कृत्रियत देना 4. लेखा-जोधा देना

1	2	3	4	5	6	7
Account Joint	1. समुक्त लेखा, समुक्त खाता	1. समुक्त लेखा समुक्त खाता	1. समुक्त लेखा, समुक्त खाता	1. समुक्त खाता	1. समुक्त-लेखा, समुक्त-खाता, समुक्त-हिमाव	1. समुक्त लेखा, समुक्त खाता (हरि०)
Account book	1. लेखा बही	1. लेखा बही	1. लेखा बही, लेखा पत्रो	1. लेखा बही	1. लेखा पुस्तक, लेखा खाता	1. लेखा बही (हरि०)
Account head	1. लेखाशीर्ष	1. लेखाशीर्ष	1. लेखाशीर्ष	1. लेखाशीर्ष, लेखा शीर्षक	1. लेखाशीर्ष	1. लेखाशीर्ष (हरि०)
Accounting unit	1. लेखा एकक	1. लेखा एकक	1. लेखा एकक	1. लेखा इकाई	1. लेखा इकाई/ एकक	1. लेखा एकक
Accountments	1. सात्रसंख्या	—	1. सात्र संख्या (पुस्तिस)	1. सात्रमात्र, सात्र-सामान	1. सात्र-संख्या, सैनिक पोशाक सैनिक बर्दी	—
Accreditation	1. प्रत्यायन	1. प्रत्यायन	1. प्रत्यायन	1. प्रत्यायन	— 1. अधिस्वीकृति, माग्यता	1. प्रत्यायन
Accretion	1. उपचय, जमा होना 2. अनुवृद्धि	1. जमा होना, उपचय होना 2. — 3. प्रोद्भवन	1. उपचय, जमा होना 2. वृद्धि (वन), अभिवृद्धि 3. प्रोद्भवन	1. उपचय, जमा होना, इकट्टा होना 1. अनुवृद्धि 3. भूमिवृद्धि 4. दोनवृद्धि	1. अभिवृद्धि	1. उपचय, जमा होना 2. अनुवृद्धि (हरि०)
Accrue	1. जमा होना, उपचित होना]	1. जमा होना, उपचित होना	—	—	1. उपचित होना, उलान्न होना	1. उपचित होना, जमा होना

	1	2	3	4	5	6	7
		2. प्रोद्भूत होना	2. प्रोद्भूत होना	—	—	2. प्रोद्भूत होना	2. प्रोद्भूत होना (हरि०)
Accuracy	1. यथार्थता	1. यथार्थता, 2. शुद्धता	1. यथार्थता, 2. परिशुद्धता	1. यथार्थता, 2. सटीकता	1. यथार्थता, यथासथ 2. सटीकता	1. यथार्थता 2. परिशुद्धता	1. यथार्थता (हरि०) 2. शुद्धता/ठीक होना/ सही होना
Accurate	1. यथार्थ	1. यथार्थ	1. यथार्थ 2. परिशुद्ध 3. ठीक-ठीक	1. यथार्थ, सटीक, सही 2. परिशुद्ध 3. ठीक-ठीक	1. यथार्थ, सटीक, सही 2. परिशुद्ध 3. ठीक-ठीक	1. यथार्थ, सही, ठीक, सम्यक् 2. परिशुद्ध	1. यथार्थ (हरि०)
Accurately	1. यथार्थत, यथार्थ रूप से	1. यथार्थत, यथार्थ रूप से	1. यथार्थत, यथार्थ रूप से	1. यथार्थत, ठीक-ठीक	1. यथार्थत, ठीक-ठीक	1. — ठीक-ठीक, परिशुद्धतया	1. यथार्थत, यथार्थ रूप से (हरि०)
Accuse	1. अभियोग लगाना	1. अभियोग लगाना	1. अभियोना, लगाना	1. अभियोग लगाना, अभियुक्त	1. अभियोग लगाना, अभियुक्त	1. अभियोग लगाना, दोषारोपण करना, दोष लगाना	1. अभियोग लगाना (हरि०)
Accusation	1. अभियोग	1. अभियोग	1. अभियोग	1. अभियोग, अभियोग लगाना	1. अभियोग, अभियोग लगाना	1. अभियोग, अभियुक्ति, दोषारोप	1. अभियोग (हरि०)
Acknowledge (fact etc.)	1. अभिस्वीकार करना, मानना, कबूल करना	1. अभिस्वीकार करना, मानना, कबूल करना	1. अभिस्वीकार करना, मानना, कबूल करना	1. अभिस्वीकार करना, मानना, कबूल करना	1. अभिस्वीकार करना, मानना, स्वीकार करना	1. अभिस्वीकृत, स्वीकृत, प्राप्ति स्वीकृत	1. अभिस्वीकार करना, मानना, कबूल करना (हरि०)


1	2	3	4	5	6	7
Acknowledge (receipt of)	1. प्राप्ति स्वीकार करना, प्राप्ति सूचना देना, पावती देना	1. प्राप्ति स्वीकार करना, प्राप्ति सूचना देना, पावती देना	1. प्राप्ति स्वीकार करना, प्राप्ति सूचना देना, पावती देना	1. पावती देना	1. पावती देना	1. प्राप्ति स्वीकार करना, प्राप्ति सूचना देना, पावती देना (हरि०)
Acknowledgement	1. पावती, प्राप्ति सूचना, 2. अभिस्वीकृति	1. पावती, प्राप्ति सूचना, 2. अभिस्वीकृति	1. पावती, प्राप्ति स्वीकृति, 2. स्वीकार, अभिस्वीकृति	1. पावती, प्राप्ति स्वीकार, प्राप्ति-पत्र, 2. अभिस्वीकार	1. पावती, रसीद, 2. स्वीकृति, अभिस्वीकृति	1. पावती, प्राप्ति, (हरि०)
Acknowledgement due	1. रसीदी, पावती सहित	1. रसीदी, पावती सहित	1. रसीदी, पावती सहित, प्राप्ति सूच्य	1. पावती सहित	1. रसीदी, पावती, प्राप्त स्वीकृति	1. रसीदी, पावती सहित, (हरि०)
Acquire	1. अर्जन करना,	1. अर्जन करना, अर्जित करना 2. अवाप्त करना	1. अर्जन करना, अर्जित करना 2. अध्याप्त करना (माहाग्य अर्थ)	1. अर्जित करना 2. अवाप्त करना	1. अर्जित करना, प्राप्त करना 2. अवाप्त करना, ले लेना, उपाजित करना	1. अर्जित करना (हरि०)
Acquisition	1. अर्जन	1. अर्जन 2. अवाप्ति	1. अर्जन, 2. अध्याप्ति	1. अर्जन, (जमीन) 2. सलग्न्य (गान्)	1. अर्जन 2. अधिप्राप्ति, 3. अवाप्ति	1. अर्जन (हरि०)
Act	1. कार्य	1. कार्य	1. कार्य	1. कार्य, क्रिया, कर्म	1. कार्य, क्रिया, कर्म कृत्य, कर्म	1. कार्य

1	2	3	4	5	6	7
	2. अधिनियम	2. अधिनियम	2. अधिनियम	2. अधिनियम, एक्ट	2. अधिनियम (पालियामेंट का), एक्ट	2. अधिनियम (हरि०)
Act of misconduct	1. अवचार, कदाचार	3. कार्य करना (क्रि०) 1. अवचार, कदाचार	1. अवचार, कदाचार	1. कदाचार	1. अवचार, दुराचार	1. अवचार, कदाचार (हरि०)
Acting (as in acting Director)	1. कार्यकारी	1. कार्यकारी 2. कार्यवाहक	1. कार्यकारी 2. कार्यवाहक	1. कार्यकारी 2. कार्यपन्न, कार्य करना	1. कार्यकारी 2. कार्यवाहक 3. स्थानापन्न	1. कार्यकारी (हरि०)
Acting allowance	1. कार्यकारी भत्ता	1. कार्यकारी भत्ता	1. कार्यकारी भत्ता, कार्यपन्न भत्ता	1. कार्यकारी भत्ता, कार्यपन्न भत्ता	1. कार्यकारी भत्ता	1. कार्यकारी भत्ता (हरि०)
Action	1. क्रिया 2. कार्यवाही/ कारंबाई 3. कार्यकलाप	1. क्रिया 2. कार्यवाही/ कारंबाई	1. क्रिया 2. कारंबाई/ कार्यवाही 3. प्रभाव	1. क्रिया 2. कारंबाई 3. प्रभाव 4. वाद	1. क्रिया, कार्य, कर्म 2. कार्यवाही, अनुयोजन 3. अभियोग	1. क्रिया 2. कार्यवाही/ कारंबाई 3. कार्यभार(हरि०)
Active	1. सक्रिय, क्रियाशील	1. सक्रिय, क्रियाशील	1. सक्रिय, क्रियाशील 2. कर्मनिष्ठ, कर्म रत	1. सक्रिय, क्रियाशील 2. कार्यशील	1. सक्रिय, क्रिया- शील, क्रियात्मक 2. चल, चंचल, पुर्नीला, कर्मठ	1. सक्रिय, क्रियाशील (हरि०)

	1	2	3	4	5	6	7
Adhere	1. दृढ़ रहना	1. दृढ़ रहना	1. दृढ़ रहना, दृढ़ता से पालन करना	1. चिपकना	1. साथ लगना, चिपकना	1. दृढ़ रहना	1. दृढ़ रहना
	2. अनुवर्तन करना	2. अनुवर्तन करना				2. अनुसरण करना, पालन करना	2. अनुवर्तन करना (हरि०)
Ad hoc	1. तदर्थ	1. तदर्थ	1. तदर्थ	1. तदर्थ	1. तदर्थ	1. तदर्थ	1. तदर्थ (हरि०)
Adjacent	1. पार्श्वस्थ	1. पार्श्वस्थ	1. पार्श्वस्थ	1. पार्श्वस्थ	1. पार्श्वस्थ	1. पार्श्वस्थ	1. पार्श्वस्थ (हरि०)
Adjourn	1. स्थगित करना, काम रोकना	1. स्थगित करना, काम रोकना	1. स्थगित करना, काम रोकना, कालान्तरित करना	1. स्थगित करना, होना	1. स्थगित करना, काल दाते करना, अवधिदान करना	1. स्थगित करना, काम रोकना	1. स्थगित करना, काम रोकना
Adjournment	1. स्थगन	1. स्थगन	1. स्थगन	1. स्थगन, कार्य स्थगन	1. स्थगन, कार्य स्थगन	1. स्थगन	1. स्थगन
				2. स्थगन काल	2. स्थगन काल	2. स्थगन काल	
Adjustment	1. समायोजन	1. समायोजन	1. समायोजन	1. समायोजन, समजन	1. समायोजन, समजन	1. समायोजन, व्यवस्थापन, समाधान	1. समायोजन (हरि०)
			2. अनुकूलन, समनुकूलन				
			3.				
			4. जमाखर्च				
Administer	1. प्रशासन करना	1. प्रशासन करना	1. प्रशासन करना	1. प्रशासन करना	1. प्रशासन करना	1. प्रशासन करना, शासन करना	1. प्रशासन करना
	2. देना/दिलाना	2. देना/दिलाना	2. दिलाना, प्रदान करना	2. देना, दिलाना	2. देना, दिलाना (शपथ)	2. देना/दिलाना (दबा) (शपथ)	2. देना, दिलाना (हरि०)
				3. व्यवस्था करना	3. व्यवस्था करना	3. प्रबन्ध/व्यवस्था करना	
					4. देना (न्याय)		

1	2	3	4	5	6	7
			2. प्रशासन- सुकरता, 3. प्रशासनिक- सुकरता	2. प्रबन्ध- सुविधा		(हरि०)
Administrative department	1. प्रशासकीय- विभाग	1. प्रशासनिक- विभाग	1. प्रशासनिक- विभाग, प्रशासकीय- विभाग	1. प्रशासन- विभाग	1. प्रशासन- विभाग	1. प्रशासनिक विभाग (हरि०)
Administrative junction	1. प्रशासन-कार्य, प्रशासकीय कार्य	1. प्रशासकीय- कार्य	1. प्रशासन कार्य, प्रशासकीय कार्य	1. प्रशासन- कार्य	1. प्रशासनिक कार्य, कृत्य	1. प्रशासन कार्य (हरि०)
Administrative Head	1. प्रशासी प्रधान	1. प्रशासी प्रधान	1. प्रशासी प्रधान	1. प्रशासी- प्रधान, प्रशासन प्रमुख	1. प्रशासी प्रधान	1. प्रशासी प्रमुख (हरि०)
Administrative Ministry	1. प्रशासी मन्त्रालय	1. प्रशासी मन्त्रालय	1. प्रशासी मन्त्रालय	1. प्रशासी मन्त्रालय	1. प्रशासी-मन्त्रालय	1. प्रशासी- मन्त्रालय (हरि०)
Administrative Offi er	1. प्रशासन- अधिकारी	1. प्रशासन- अधिकारी	1. प्रशासन- अधिकारी	1. प्रशासन- अधिकारी	1. प्रशासन- अधिकारी	1. प्रशासन- अधिकारी(हरि०)
Administrative Sanction	1. प्रशासनिक- मजूरी	1. प्रशासकीय मजूरी	1. प्रशासनिक- मजूरी, प्रशासकीय- मजूरी/स्वीकृति	1. प्रशासनिक- मजूरी	1. प्रशासनिक- मजूरी	1. प्रशासनिक- मजूरी (हरि०)
Administrative System	1. प्रशासन- पद्धति	1. प्रशासन- पद्धति	1. प्रशासन- पद्धति	1. प्रशासन- पद्धति/प्रणाली 2. प्रशासन तंत्र	1. प्रशासनिक- पद्धति	1. प्रशासन-पद्धति (हरि०)

1	2	3	4	5	6	
Adminstrator	1. प्रशासक	1. प्रशासक	1. प्रकाशक	1 प्रशासक	1. प्रशासक 2. प्रबन्धक, व्यवस्थापक	1. प्रशासक
Admissible	1. ग्राह्य, स्वीकार्य	1. ग्राह्य, स्वीकार्य	1 ग्राह्य, स्वीकार्य	1. ग्राह्य, अनुमान्य	1. ग्राह्य, स्वीकार्य, प्रतिग्राह्यता	1. ग्राह्य, स्वीकार्य (हरि०)
Admission	1. अभिस्वीकृति	1. अभिस्वीकृति	1. स्वीकार	1. स्वीकृति कबूलना (बात का)	1. स्वीकृति, स्वीकार, स्वीकारोक्ति, अपीकरण	1 अभिस्वीकृति
	2. प्रवेश, दाखिला, अन्दर आना	2 प्रवेश, अन्दर आना, दाखिला	2 प्रवेश 3. ग्रहण 4. अपीकरण/ अपीकार	2 प्रवेश 3. ग्रहण, प्रवेशन (अपील)	2. प्रवेश, दाखिला	2. प्रवेश, अन्दर आना, (हरि०)
Admit	1. प्रवेश कराने देना, अन्दर आने देना	1. प्रवेश करने देना, अन्दर आने देना	1. प्रवेश की अनुमति देना	4. नाम लिखाना (विद्यालय में) 1. प्रवेश करने देना, अन्दर आने देना	3. प्रतिग्रहण 1. प्रवेश करने देना, प्रवेश देना, आने देना, दाखिला करना	1. प्रविष्ट करना, दाखिला करना (हरि०)
	2. स्वीकार करना	2. स्वीकार करना	2. स्वीकार करना, अंगीकृत करना	2. कबूल करना (बात को), मान लेना	2 स्वीकार करना, मानना, अपीकरण करना, प्रति ग्रहण करना	



	1	2	3	4	5	6	7
		3. प्रविष्ट करना, दाखिल करना	3. प्रविष्ट करना, दाखिल करना	3. प्रविष्ट करना, दाखिल करना	3. प्रविष्ट करना, नाम लिखना (स्कूल में) 4. मान्यता देना 5. गुजाइश करना		
Admonition	1. भर्त्सना	1. भर्त्सना	1. भर्त्सना 2. प्रबोधन	1. भर्त्सना 2. प्रबोधन	1. भर्त्सना 2. फटकार 3. तम्बीहू	1. भर्त्सना 2. फटकार 3. चेतावनी	1. भर्त्सना (हरि०)
Adopt	1. अंगीकार करना, अपनाना	1. अंगीकार करना, अपनाना 2. गोद लेना	1. अंगीकार करना, अपनाना 2. गोद लेना, दत्तक लेना 3. ग्रहण करना	1. अंगीकार करना, अपनाना 2. गोद लेना, दत्तक लेना 3. ग्रहण करना	1. अंगीकार करना 2. गोद लेना/ दत्तक ग्रहण करना 3. ग्रहण करना 4. स्वीकार करना	1. अंगीकार करना/ अपनाना 2. गोद लेना/ दत्तक ग्रहण 3. मान लेना	1. अंगीकार करना, अपनाना (हरि०)
Adoption	1. अंगीकरण 2. दत्तक ग्रहण	1. अंगीकरण —	1. अंगीकरण 2. दत्तक ग्रहण/ गोद लेना	1. अंगीकरण 2. दत्तक ग्रहण/ गोद लेना 3. स्वीकरण 4. ग्रहण	1. अंगीकरण 2. दत्तक ग्रहण/ गोद लेना 3. स्वीकरण 4. ग्रहण	1. अंगीकरण/ अंगीकार 2. दत्तक ग्रहण/ गोद लेना	1. अंगीकरण 2. दत्तक-ग्रहण
Adult	1. प्रौढ, वयस्क	1. वयस्क, प्रौढ	1. प्रौढ, वयस्क	1. प्रौढ, वयस्क	1. प्रौढ, वयस्क, सयाना	1. प्रौढ, वयस्क, बालिय	1. प्रौढ, वयस्क

1	2	3	4	5	6	7
Adult Franchise	1. वयस्क-मताधिकार	1. वयस्क-मताधिकार	1. वयस्क-मताधिकार, मालिग मताधिकार	1. वयस्क-मताधिकार	1. वयस्क-मताधिकार, मालिग मताधिकार	1. वयस्क-मताधिकार (हरि०)
Advance	1. अग्रिम, पेशगी	1. अग्रिम, पेशगी 2. आगे बढ़ना	1. अग्रिम, पेशगी, अग्रिमघन 2. बढ़ाव	1. अग्रिम पेशगी, अग्रिमघन 2. सेना-भूख 3. पहले 4. कालपूर्व 5. प्रगति	1. अग्रिम, पेशगी 2. अग्रिम घन 3. पहले 4. कालपूर्व, अगाऊ 5. उधार	1. अग्रिम, पेशगी (हरि०) 2. अग्रिदाय करना (विधि) 3. अभिवृद्धि
Advancement	1. उन्नति	1. उन्नति	1. उन्नति, प्रगति 2. पदोन्नति, प्रोन्नति	1. उन्नति, प्रगति 2. पदोन्नति 3. पूर्वदान (विधि मे) 4. उन्नयन	1. उन्नति 2. तरक्की 3. प्रगति 4. त्वरण	1. उन्नति (हरि०) 2. अभिवर्द्धन (improvement) 3. अप्रसर करना (furtherances) 4. वृद्धि (going forward)
Adverse	1. प्रतिकूल	1. प्रतिकूल	1. प्रतिकूल	1. प्रतिकूल	1. प्रतिकूल, विरुद्ध 2. विपक्षीय, विरुद्ध	1. प्रतिकूल (हरि०)
Adverse entry	1. प्रतिकूल-द्वन्द्वराज	1. प्रतिकूल-प्रविष्टि,	1. प्रतिकूल-प्रविष्टि,	1. प्रतिकूल-प्रविष्टि,	1. प्रतिकूल-प्रविष्टि	1. प्रतिकूल-द्वन्द्वराज (हरि०)

20 / अधिल भारतीय प्रशासनिक शब्दकोश

	1	2	3	4	5	6	7
Adverse party	1 प्रतिपक्षी	1. प्रतिपक्षी	प्रतिकूल- इन्द्रराज	1. प्रतिकूल- इन्द्रराज	1. प्रतिपक्ष, प्रतिकूल पक्ष	1. प्रतिपक्ष, विपक्ष, विरोधी पक्ष	1. प्रतिपक्षी (हरि०)
Adverse remarks	1. प्रतिकूल- अभ्युक्ति	1. प्रतिकूल- अभ्युक्ति		1. प्रतिकूल- अभ्युक्ति	1. प्रतिकूल- अभ्युक्ति, प्रतिकूल-टिप्पणी	1. प्रतिकूल अभ्युक्ति	1. प्रतिकूल अभ्युक्ति(हरि०)
Adverse report	1. प्रतिकूल रिपोर्ट	1. प्रतिकूल रिपोर्ट		1. प्रतिकूल रिपोर्ट 2. प्रतिकूल आध्या	1. प्रतिकूल रिपोर्ट	1. प्रतिकूल रिपोर्ट 2. टीका-टिप्पणी	1. प्रतिकूल रिपोर्ट
Advice	1 परामर्श सलाह, 2. सूचना, सजापन	1 परामर्श, सलाह 2. सूचना, सजापन		1. परामर्श, सलाह 2. सूचना, सजापन	1. सलाह 2. सजापन, सूचना	1. परामर्श, सलाह 2. सूचना 3. मन्त्रणा 4. उपदेश	1. परामर्श, सलाह 2. सूचना, सजापन
Advice note	1 सजापन-पत्र	1. सजापन-पत्र		1. सजापन-पत्र, सूचना-पत्र	1. सजापित-पत्र, सूचना-पत्र	1. सूचना-पत्र, सूचना ..	1. सजापन-पत्र (हरि०)
Advice of despatch	1. प्रेषण की सूचना	1. प्रेषण की सूचना		1. प्रेषण की सूचना	1. प्रेषण की सूचना	1. प्रेषण की सूचना	1. प्रेषण की सूचना
Advice of payment	1. भुगतान-सजापन	1. भुगतान-सजापन		1. भुगतान-सजापन	1. भुगतान-सजापन	1. भुगतान-सजापन	1. भुगतान-सजापन (हरि०)
Advice or concurrence	1. सलाह या सहमति	1. सलाह या सहमति		1. सलाह या सहमति	1. सलाह या सहमति	1. सलाह या सहमति	1. सलाह या सहमति (हरि०)
Adviser or Advocacy	1. सलाहकार	1. सलाहकार		1. सलाहकार परामर्शदाता,	1. सलाहकार, परामर्शदाता, परामर्शद	1. सलाहकार, परामर्शदाता, मन्त्रणा दाता	1. सलाहकार

1	2	3	4	5	6	7
	1. वकालत, पक्ष-समर्थन	1. वकालत, पक्ष-समर्थन	1. वकालत, पक्ष-समर्थन	1. पक्ष-समर्थन, पक्षारोपण, पक्ष-प्रतिवादन	1. वकालत, पक्षारोपण, समर्थन	1. वकालत, पक्ष-समर्थन (हरि०)
Affairs	1. कार्य, मामले	1. कार्य, मामले	1. कार्य, मामले	1. कार्य, काज, मामले	1. कार्य, कामकाज, लोक कार्य	1. कार्य, मामले (हरि०)
Affidavit	1. शपथ-पत्र हलफनामा	1. शपथ-पत्र, हलफनामा	1. शपथ-पत्र, हलफनामा	1. शपथ-पत्र, हलफनामा	1. शपथ-पत्र, हलफनामा, पत्र-शपथ	1. शपथ-पत्र, हलफनामा
Affiliate	1. संबद्ध करना	1. संबद्ध करना	1. संबद्ध करना	1. संबद्ध करना	1. संबद्ध करना, सम्बन्ध जोड़ना	1. सम्बद्ध करना
Affiliation	1. संबधन	1. संबधन,	1. संबधन, सम्बद्धता	1. संबधन	1. सम्बन्धन- सम्बद्धता, सम्बद्धीकरण	1. सम्बन्धन
					2. दत्तकग्रहण	
					3. पितृ निश्चय करना	

1	2	3	4	5	6	7
Affirm	1. पुष्टि करना 2. प्रतिज्ञान करना (विधि)	1. पुष्टि करना 2. प्रतिज्ञान करना (विधि)	1. पुष्टि/अभिपुष्टि करना 2. प्रतिज्ञान करना (विधि)	1. अघिपुष्टि करना 2. प्रतिज्ञान करना	1. पुष्ट करना, पक्का करना, दृढ़ करना 2. प्रतिज्ञा करना, प्रतिज्ञान करना 3. निश्चयपूर्वक बहना	1. पुष्ट करना 2. प्रतिज्ञान करना (विधि) (हरि०)
Affirmative	1. स्वीकारात्मक	1. स्वीकारात्मक 2. प्रतिज्ञानित	1. स्वीकारात्मक 2. प्रतिज्ञानित (विधि)	1. स्वीकारात्मक, सकारात्मक 2. विधायक	1. स्वीकारात्मक सकारात्मक 2. पुष्टिकारी, दृढ़कारी 3. अस्तित्वाची	1. स्वीकारात्मक
Affix	1. जोड़ना, समाना	1. जोड़ना, लगाना	1. लगाना, जोड़ना, चिपकाना	1. जोड़ना, समाना, अन्त में जोड़ना, मिला सेना 2. चिपकाना 3. करना (विधि)	1. जोड़ना, समाना, करना 2. चिपकाना, समाना, अनुबन्धन करना	1. जोड़ना, समाना
Afforestation	1. वन-रोपण	1. वन-रोपण	1. वन-रोपण, वनीकरण	1. वनरोपण	1. वन रोपण, जगल लगाना, वनीकरण	1. वन-रोपण
Aforesaid	1. पूर्वोक्त/	1. पूर्वोक्त,	1. पूर्वोक्त,	1. पूर्वोक्त,	1. पूर्वोक्त,	1. पूर्वोक्त,

	3	4	5	6	
	हले कहा	पहले कहा	पूर्वकथित	उपर्युक्त, पहले कहा	पहले कहा
Age of retirement	1. कार्य-निवृत्ति-वय सेवा-निवृत्ति की उम्र	1. कार्य-निवृत्ति-वय, सेवा-निवृत्ति की उम्र	2. उपयुक्त 1. कार्य-निवृत्ति-वय, सेवा-निवृत्ति-वय, निवृत्ति वय	1. सेवा निवृत्ति की उम्र	1. कार्य-निवृत्ति-वय, सेवा-निवृत्ति की उम्र
Agency	1. अभिकरण/ एजेंसी	1. अभिकरण, एजेंसी	1. अभिकरण, एजेंसी	1. अभिकरण, एजेंसी	1. अभिकरण/ एजेंसी 2. माध्यम/द्वारा (विधि)
Agenda	1. कार्य-सूची, कार्यक्रम	1. कार्यसूची, कार्यक्रम	1. कार्यसूची, कार्यक्रम	1. कार्यसूची, एजेंडा	1. कार्य-सूची 463 1983
Aggravation	1. अपवृद्धि	1. अपवृद्धि	1. अपवृद्धि	1. अपवृद्धि	1. अपवृद्धि
Aggregate	1. गुह्रतर होना	2. गुह्रतर होना	2. गुह्रतर होना	2. गुह्रतर होना	2. गुह्रतर होना
Aggrieved	1. कुल, समाहार, पूर्ण योग	1. कुल, पूर्णयोग, समाहार	1. सम्पूर्ण योग, समस्त योग	1. कुल जोड़, पूर्ण योग	1. कुल, समाहार, पूर्ण योग 2. सम्पूर्ण/समुदाय जोड़
	1. व्यथित	1. व्यथित,	1. व्यथित,	1. व्यथित,	1. व्यथित,

	1	2	3	4	5	6	7
		असंतुष्ट, आर्त्त	असंतुष्ट, परिवर्धित, नाराड	असंतुष्ट, आर्त्त, दुःखी, पीडित	सम्पन्न	असंतुष्ट, गिम्न, दुःखिन, पीडित, परिवर्धित	असंतुष्ट, आर्त्त (हरि०)
Agitation	1. आंदोलन 1. भूमि सवधी	1. आंदोलन 1. भूमि सवधी	1. आंदोलन 1. भूमि सवधी	1. आंदोलन 1. भूमि सवधी	1. आंदोलन 1. भूमि सवधी	1. आंदोलन, धोष 1. भूमि सवधी धोषिण, दृष्टि, गैरी सवधी	1. आंदोलन 1. भूमि सवधी
Agrarian Agree	1. करार करना, अनुबंध करना 2. सहमत होना, राजी होना	1. अनुबंधन करना, करार करना 2. सहमत होना, राजी होना	— 2. सहमत होना, राजी होना	— 2. सहमत होना, राजी होना	1. करार करना, 2. सहमत होना 3. मिलना, मेल घाना (सेवा आदि का)	1. करार करना, 2. सहमत होना, राजी होना, सम्मत होना, मान लेना	1. करार करना, अनुबंध करना 2. सहमत होना, राजी होना
Agreement	1. करार, अनुबंध 2. सहमति	1. करार अनुबंध 2. सहमति , करारनामा	1. करार अनुबंध-पत्र, इकरारनामा 2. सहमति 3. मेल	1. करार, इकरारनामा, सहमति रजामन्दी 2. मेल	1. करार, सम्मति 2. सहमति, सम्मति	1. करार, सम्मति 2. सहमति, सम्मति	1. करार सम्मति (हरि०)

1	2	3	4	5	6	7
Aid	1. सहायता, मदद	1. सहायता, मदद	1. सहायता	1. सहायता, मदद	1. सहायता, मदद	1. सहायता, मदद (हरि०)
Aid, grant in	1. सहायता, अनुदान	1. सहायता, अनुदान	1. सहायता, अनुदान	1. सहायता, अनुदान	1. सहायता-अनुदान, सहायतायें अनुदान	1. सहायता, अनुदान (हरि०)
Aid and advice	1. सहायता और सलाह	1. सहायता और सलाह	1. सहायता और सलाह	1. सहायता और सलाह	1. सहायता और सलाह	1. सहायता और सलाह (हरि०)
Aided (as a school)	1. सहायता-प्राप्त	1. सहायता-प्राप्त	1. सहायता-प्राप्त	1. सहायता प्राप्त, इमदादी	1. सहायताप्राप्त, साहाय्यित	1. सहायता प्राप्त (हरि०)
Airconditioning	1. वातानुकूलन	1. वातानुकूलन	1. वातानुकूलन	1. वातानुकूलन	1. वातानुकूलन, वात-नियंत्रण	1. वातानुकूलन
Alderman	1. पौरमुख्य	1. पौरमुख्य	1. नगरवृद्ध	1. एल्डरमैन, पौरमुख, नगरवृद्ध	1. पौरमुख्य,	1. पौरमुख्य
Allegation	1. आरोप, अभिकथन	1. आरोप, अभिकथन	1. आरोप, अभिकथन	1. आरोप, अभिकथन	1. आरोप, दोषारोपण, अभिकथन	1. आरोप (हरि०)
Alleged	1. कथित, अभिकथित	1. कथित, अभिकथित	1. अभिकथित,	1. अभिकथित,	2. प्रतिज्ञा (विधि) 1. कथित, अभिकथित, तथाकथित	1. कथित (हरि०)
Allegiance	1. निष्ठा	1. निष्ठा	2. आरोपित 1. निष्ठा	2. आक्षिप्त 1. निष्ठा, राजनिष्ठा, वफादारी	2. आरोपित 1. निष्ठा, राजनिष्ठा	1. निष्ठा (हरि०)

1	2	3	4	5	6	7
Allowance, city	1. नगर भत्ता,	1. नगर भत्ता,	1. नगर भत्ता	नगर भत्ता,	1. नगर भत्ता	1. नगर भत्ता (हरि०)
Allowance, Conveyance	1. सवारी भत्ता वाहन भत्ता	1. सवारी भत्ता, वाहन भत्ता	1. सवारी भत्ता, वाहन भत्ता	1. सवारी भत्ता, वाहन भत्ता	1. सवारी भत्ता, वाहन भत्ता	1. सवारी भत्ता (हरि०)
Allowance, Dearness	1. महंगाई भत्ता	1. महंगाई भत्ता	1. महंगाई भत्ता	1. महंगाई भत्ता	1. महंगाई भत्ता	1. महंगाई भत्ता (हरि०)
Allowance, Extra Duty	1. अतिरिक्त- द्यूटी भत्ता	1. अतिरिक्त द्यूटी भत्ता	1. अतिरिक्त- द्यूटी भत्ता	1. अतिरिक्त- द्यूटी भत्ता	1. अतिरिक्त द्यूटी भत्ता	1. अतिरिक्त द्यूटी भत्ता
Allowance, Out Station	1. वहि स्थान भत्ता	1. वहि स्थान- भत्ता	1. वहि-स्थान भत्ता	1. वहि स्थान भत्ता	1. वहि स्थान भत्ता	1. बाहर रहने का भत्ता
Allowance, Over time	1. समयोपरिभत्ता, अतिरिक्त समय भत्ता	1. समय से ऊपर काम करने का भत्ता, समयोपरि-भत्ता	1. समयोपरि भत्ता, अतिरिक्त समय-भत्ता	1. समयोपरि भत्ता, अतिरिक्त समय-भत्ता	1. समयोपरि भत्ता, अतिरिक्त- समय भत्ता	1. समयोपरि भत्ता, अतिरिक्त- समय-भत्ता (हरि०)
Travelling Alteration	1. यात्रा-भत्ता 1. हेर-फेर, परिवर्तन	1. यात्रा भत्ता 1. हेर फेर, परिवर्तन	1. यात्रा भत्ता 1. परिवर्तन, हेर-फेर	1. यात्रा-भत्ता 1. परिवर्तन, 2. एकान्तरण 3. प्रत्यावर्तन	1. यात्रा भत्ता 1. परिवर्तन, अदल-बदल, तब्दीली	1. यात्रा भत्ता 1. हेर-फेर परिवर्तन (हरि०)

1	2	3	4	5	6	7
Alternative	1. विकल्प, वैकल्पिक	1. विकल्प, वैकल्पिक	1. विवल्प	1. विकल्प वैकल्पिक, अनुकल्प	1. विकल्प, पर्याय, वैकल्पिक	1. विकल्प, वैकल्पिक (हरि०)
Ambiguous	1. सदिग्धार्थी	1. सदिग्ध, 2. द्वयर्थक	1. सदिग्ध, 2. द्वयर्थक अस्पष्ट	1. सदिग्ध, 2. द्वयर्थक,	1. सदिग्ध, 2. द्वयर्थी, द्वयर्थ, अनेवार्थी, अस्पष्ट	1. सदिग्ध (हरि०)
Amendment	1. सशोधन	1. सशोधन	1. सशोधन	1. सशोधन	1. सशोधन 2. सुधारक	2. संशोधन (हरि०)
Amenity	1. सुख-सुविधा	1. सुख-सुविधा	1. सुविधा	1. सुख-सुविधा, सुख-साधन	1. सुख-सुविधा, सुविधा	1. सुख-सुविधा (हरि०)
Amount	1. राशि, रकम 2. मात्रा, परिमाण 3. मिश्रधन	1. राशि, रकम 2. मात्रा, परिमाण 3. मिश्रधन	1. राशि, धनराशि 2. मात्रा, परिमाण 3. मिश्रधन	1. राशि, रकम 2. मात्रा, परिमाण 3. मिश्रधन	1. राशि, रकम 2. मात्रा, 3. धनराशि	1. राशि, (हरि०) रकम 2. मात्रा, परिमाण 3. मिश्रधन 4. अनुगम होना (resulting) 5. समतुल्य होना (equally in effect) (विधि)
Annex	1. अनुबद्ध करना, जोड़ना, नत्पी करना, 2. राज्य में मिला देना	1. अनुबद्ध करना, जोड़ना, नत्पी करना 2. राज्य में मिला देना	1. अनुबद्ध करना, जोड़ना, नत्पी करना 2. राज्य में मिला देना 3. अनुलम्न करना	1. अनुबद्ध करना, जोड़ना 2. राज्य में मिला देना	1. अनुबद्ध करना, जोड़ना 2. मिला लेना मिलाना	1. अनुबद्ध करना, जोड़ना, नत्पी करना 2. राज्य में मिला देना

1	2	3	4	5	6	7
Annexure	1. अनुबध	1. अनुबध 2. ससन्न, परिशिष्ट	1. अनुबध 2. अनुसम्बन्ध	1. अनुबध	1. अनुबध 2. परिशिष्ट 3. उपगृह, उपभवन 4. अनुबद्ध (विशेष)	1. अनुबध (हरि०)
Announcement	1. आख्यापन, एलान	1. आख्यापन, एलान, घोषणा	1. आख्यापक, वाचक	1. आख्यापन, एलान, अभिज्ञापन	1. अभिज्ञापन, घोषणा	1. आख्यापन, एलान (हरि०)
Anomaly	1. असंगति	1. असंगति	1. असंगति, अनियमितता	1. विसंगति,	1. असंगति, विसंगति विषमता	1. असंगति (हरि०)
Antecedents	1. पूनवृत्त	1. पूर्ववृत्त	1. पूर्ववृत्त	1. पूर्ववृत्त, 2. पूर्वगामी, पूर्ववृत्ती	1. पूर्ववृत्त, पूर्ववृत्तिहास 2. पहला, पूर्व, पूर्ववर्ती	1. पूर्ववृत्त
Anticipation	1. प्रत्याशा 2. पूर्वानुमान	1. प्रत्याशा 2. पूर्वानुमान	1. प्रत्याशा 2. पूर्वानुमान	1. प्रत्याशा 2. पूर्वानुमान,	1. प्रत्याशा 2. पूर्वानुमान, अनुमानित 3. पूर्वकल्पित	1. प्रत्याशित, 2. पूर्वानुमान (हरि०)
Appeal	1. अपील (करना)	1. अपील (करना)	1. अपील	1. अपील, पुनरावेदन	1. अपील,	1. अपील 2. दुहाई (a call for help) विधि
Appellation	1. अभिधान, पदवी	1. अभिधान, पदवी	1. अभिधान	1. अभिधान,	1. अभिधान,	1. अभिधान

	1	2	3	4	5	6	7
				2. उपपद	2. पदवी, उपाधि 3. नाम	2. पदवी	2. पदवी (हरि०)
Appendage	1. संलग्नक	1. सतान्न		1. सक्षम	1. संलग्न	1. संलग्न वस्तु	1. संक्षमक (हरि०)
Appendix	1. परिशिष्ट	1. परिशिष्ट		2. उपांग	2. परिशिष्ट, उपांग	2. उपांग	1. परिशिष्ट (हरि०)
Appliance	1. साधन, उपकरण 2. साधित्र	1. साधन, उपकरण 2. साधित्र		1. साधन, उपकरण 2. साधित्र	1. उपकरण उपसाधन,	1. साधन, उपकरण 2. प्रयोग, उपयोग	1. साधन, उपकरण 2. साधित्र (हरि०)
Applicability	1. प्रयोग्यता, सागू होना	1. प्रयोग्यता, सागू होना		1. प्रयोग्यता, सागू होना, विनियोग्यता	1. प्रयोग्यता	1. प्रयोग्यता	1. प्रयोग्यता, सागू होना, (हरि०)
Application	1. आवेदन, आवेदन-पत्र, अर्जी 2. प्रयोग्यता, सागू होना	1. आवेदन-पत्र, प्रार्थना-पत्र 2. प्रयुक्ति		1. आवेदन-पत्र, प्रार्थना-पत्र, अर्जी, आवेदन 2. विनियोग, विनियोजन, सागू करना, सागू होना 3. प्रयोग्यता, प्रयोग 4. तत्परता	1. आवेदन-पत्र आवेदन 2. सागू होना, समाना, समाना 3. प्रयोग 4. अभ्यास	1. आवेदन-पत्र दरखास्त 2. प्रयोग, उपयोग, सागू होना, सागू किया 3. विद्युक्त 4. परायणता	1. आवेदन, आवेदन-पत्र, अर्जी (हरि०) 2. प्रयोग्यता, सागू होना (हरि०)

1	2	3	4	5	6	7
Appraiser	1. मूल्य- निरूपक	1. मूल्य- निरूपक	1. मूल्य- निरूपक	1. मूल्य निरूपक, मूल्य निर्धारण	1. मूल्यनिरूपक, मूल्यांकन कर्ता, मूल्य आंकने वाला, मूल्य कूतनेवाला	1. मूल्य निरूपण (हरि०)
Appreciation	1. सराहना 2. वृद्धि (cas of price)	1. सराहना 2 वृद्धि	1. मूल्यांकन 2. मूल्य-वृद्धि 3. अधिमूल्यन 4. विवेचन	1. सराहना, परिणसा 2. अधिमूल्यन 3 अन्वालोचन 4. अवधारण	1. प्रशंसा 2. मूल्यवृद्धि, अधिमूल्यन 3. विवेचन 4 रसस्वाद, रसग्रहण	1. सराहना 2. वृद्धि (हरि०)
Apprentice	1. शिषु, अप्रेंटिस	1. शिषु, अप्रेंटिस	1. शिषु, अप्रेंटिस	1. शिषु, अप्रेंटिस	1. शिषिषु, अप्रेंटिस, उम्मीदवार, शिटयमाण शिशार्थी, शिक्षाधीन	1. शिषु, अप्रेंटिस (हरि०)
Appropriate	1. उपयुक्त/ उचित (कि० वि०) 2. विनियोजन करना (कि०)	1. उपयुक्त/ उचित 2. विनियोजन- करना	1. उपयुक्त, समुचित, यथोचित	1. उपयुक्त, समुचित, समुपयुक्त 2. विनियोजन- करना, हस्त- गत करना	1. उपयुक्त, समुचित, यथार्थ 2. विनियोजन करना, विनियोग करना, विनियुक्त	1. उपयुक्त/उचित 2 विनियोजन करना (हरि०)

1	2	3	4	5	6	7
					करना, काम में लाना, अलग-अलग करना	
Appropriate head	1. उचित-शीर्ष	1. उचित-शीर्ष	1. उचित-शीर्ष, उचित-शीर्षक	1. उचित-शीर्ष, समुचित शीर्ष	1. समुचित-शीर्ष, उपयुक्त शीर्ष	1. उचित शीर्ष (हरि०)
Appropriation	1. विनियोजन	1. विनियोजन	1. विनियोजन, विनियोग	1. विनियोजन, विनियोग	1. विनियोजन, विनियोग	1. विनियोजन
Appropriation account	1. विनियोजन- लेखा, विनियोग-लेखा	1. विनियोग-लेखा, विनियोजन- लेखा	1. विनियोग-लेखा, विनियोजन- लेखा	1. विनियोग-लेखा, विनियोजन-लेखा	1. विनियोग-लेखा	1. विनियोजन- लेखा, विनियोग-लेखा
Appropriation act	1. विनियोजन- अधिनियम	1. विनियोजन- अधिनियम	1. विनियोजन-लेखा, विनियोग- लेखा	1. विनियोजन- लेखा, विनियोग- लेखा	1. विनियोग-लेखा,	1. विनियोजन- अधिनियम
Approve	1. अनुमोदन- करना	1. अनुमोदन- करना	1. अनुमोदन- करना, अनुमोदित- करना	1. अनुमोदन- करना	1. अनुमोदन करना, पसन्द करना	1. अनुमोदन- करना
Approved contractor	1. अनुमोदित- ठेकेदार, अनुमोदित- सविदाकार	1. अनुमोदित- ठेकेदार, अनुमोदित- सविदाकार	1. अनुमोदित- ठेकेदार	1. अनुमोदित- ठेकेदार	1. अनुमोदित- ठेकेदार, अनुमोदित- सविदाकार	1. अनुमोदित- ठेकेदार (हरि०)
Approval	1. अनुमोदन	1. अनुमोदन	1. अनुमोदन	1. अनुमोदन	1. अनुमोदन, भान्यता 2. पसन्दगी	1. अनुमोदन, (हरि०)

	1	2	3	4	5	6	7
Apportenance	1 अनुलग्नक, उपावग्ध	1 अनुलग्नक, उपावग्ध	1 अनुलग्नक, उपावग्ध	1 अनुलग्नक, उपावग्ध	1. उपवग्ध 2. उपरवद्भवस्तु	1. अनुलग्नक, वस्तु, भग, अनुवग्ध	1. अनुलग्नक, उपावग्ध (हरि०)
Arbitration	1 माध्यस्थ, विवाचन	1. मध्यस्थ, पचकंसला	1. माध्यस्थ, विवाचक	1. माध्यस्थ, विवाचन	1. माध्यस्थ, विवाचन	1. पचनिर्णय, विवाचन	1. माध्यस्थ, विवाचन (हरि०)
Arbitrator	1. मध्यस्थ, विवाचक	—	1. मध्यस्थ, विवाचक, पच	1 मध्यस्थ, विवाचक	1 मध्यस्थ, विवाचक	1. मध्यस्थ, विवाचक, पच	1. मध्यस्थ, विवाचक
Arboriculturist	1 वृक्ष-संवर्धन- विज्ञानी	(राज०)	1. वृक्ष-संवर्धन- विज्ञानी	1. वृक्ष-संवर्धन- विज्ञानी	1. वृक्ष-संवर्धन- विज्ञानी	1. वृक्ष-विज्ञानी, वृक्ष-वर्धन- विज्ञानी	1. वृक्ष-संवर्धन- विज्ञानी (हरि०)
Archaeologist	1. पुरातत्त्वज्ञ	1. पुरातत्त्वज्ञ, पुरातत्वविद्	1. पुरातत्त्वविद्	1. पुरातत्त्वज्ञ, पुरातत्वविज्ञा, पुरातत्वविद्	1. पुरातत्त्वज्ञ (हरि०)
Archaeology	1 पुरातत्त्व 2. पुरातत्त्व- विज्ञान	1. पुरातत्त्व 2. पुरातत्त्व- विज्ञान	1. पुरातत्त्व 2. पुरातत्त्व- विज्ञान	1. पुरातत्त्व 2. पुरातत्त्व- विज्ञान	1. पुरातत्त्व 2. पुरातत्त्व- विज्ञान	1. पुरातत्त्व 2 पुरावशेष	1. पुरातत्त्व 2. पुरातत्त्व विज्ञान (हरि०)
Architect	1. वास्तुक, वास्तुविद्		1. वास्तुक, वास्तुविद्, वस्तुशिल्पी	1. वास्तुक, वास्तुविद्, वास्तुकार	1. वास्तुक, वास्तुविद्, वास्तुकार	1. वास्तुविद्	1. वास्तुक, वास्तुविद्,
Architecture	2. स्थापति 1. वास्तुकला, स्थापत्यकला	1. वास्तुकला, स्थापत्यकला	2. स्थापति 1. वास्तुकला, स्थापत्यकला, वास्तुविद्या, वास्तुशिल्प, वास्तु	1. वास्तुकला, स्थापत्यकला, वास्तुविद्या	1. वास्तुकला, स्थापत्यकला, वास्तुविद्या	2. स्थापति 1. वास्तुकला, स्थापत्यकला, वास्तुविद्या	2. स्थापति (हरि०) 1. वास्तुकला, स्थापत्यकला

1	2	3	4	5	6	7
Archives	1. (शासकीय)- अभिलेखागार	1. (शासकीय)- अभिलेखागार	1. अभिलेखागार, शासकीय अभि- लेखागार	1. शासकीय- आलेखागार 2. पुरालेखागार 3. पुरालेख	1. अभिलेखागार 2. पुरालेखागार 3. अभिलेख 4. पुरालेख	1. अभिलेखागार (हरि०)
Area	1. क्षेत्र	1. क्षेत्र	1. क्षेत्र, क्षेत्रफल	1. क्षेत्र, क्षेत्रफल	1. क्षेत्र, इलाका 2. प्रदेश 3. क्षेत्रफल	1. क्षेत्र
Argument	1. तर्क	1. तर्क	1. तर्क	1. तर्क युक्ति बहुल दलील	1. तर्क युक्ति बहुल	1. तर्क (हरि०)
Arrangement	1. प्रबंध/ ध्यवस्था 2. विन्यास	1. प्रबंध/ ध्यवस्था 2. विन्यास	1. प्रबंध/ ध्यवस्था, क्रम 2. विन्यास	1. प्रबंध/ ध्यवस्था 2. विन्यास	1. प्रबंध/ध्यवस्था, रचना 2. क्रम, विन्यास, विन्यास	1. प्रबंध/ध्यवस्था 2. विन्यास (हरि०)
Arrangement of files	1. मिसिल- विन्यास	1. मिसिल- विन्यास	1. मिसिल विन्यास/ पदावली	1. मिसिल- विन्यास, संचिका-विन्यास	1. मिसिल- विन्यास	1. मिसिल-विन्यास (हरि०)
Article	1. अनुच्छेद 2. नियम	1. (सविधान) अनुच्छेद 2. नियम	1. अनुच्छेद 2. नियम	1. अनुच्छेद 2. नियम, अन्तनियम	1. अनुच्छेद 2. अन्तनियम	1. अनुच्छेद 2. नियम

	2	3	4	5	6	7
	3 वस्तु	3. वस्तु	3. वस्तु 4. लेख	3. वस्तु 4. लेख 5. पद	3. वस्तु, पदार्थ, चीज 4. लेख 5. पद	3. वस्तु (हरि०)
Articles	1. नियमावली	1. नियमावली	1. नियमावली	1. नियमावली/ अन्तनियम 2. वस्तु 3. अनुच्छेद	1. नियमावली	1. नियमावली (हरि०)
Assemble	1. जुड़ना/ एकत्र होना/ इकट्ठा होना	1. एकत्र होना/ इकट्ठा होना/ सम्मिलित होना	1. एकत्र होना, एकत्र करना, इकट्ठा करना, समवेत करना, समायोजन- करना	1. इकट्ठा होना, एकत्र करना, एकत्र होना, समवेत होना	1. इकट्ठा होना, इकट्ठा करना, समवेत होना, सम्मिलित होना	1. जुड़ना/एकत्र होना, इकट्ठा होना
	2. जोड़ना/ सम्मिलित- करना/ एकत्र करना/ इकट्ठा करना/ समवेत करना	2. जोड़ना/सम्मि- लित करना/ एकत्र करना/ इकट्ठा करना	2. जमा होना, एकत्र होना, जुटाना (पत्रका)		2. जोड़ना, संयोजन- करना	2. जोड़ना/ सम्मिलित करना, एकत्र करना/ इकट्ठा करना, समवेत करना (हरि०)
Assembly	1. सभा	1. विधान सभा	1. सभा	1. सभा/ विधानसभा	1. सभा/ विधानसभा	1. सभा
	2. जमाव सम्मेलन	2. जमाव/ सम्मेलन	2. जमाव/ सम्मेलन 3. संयोजन, जुलाई	2. जमाव	2. जनसङ्ग्रह, जमाव, जनसमूह, सम्मेलन (विधि)	2. जमाव/सम्मेलन

1	2	3	4	5	6	7
Assent	1. अनुमति	1. अनुमति	1. अनुमति, अनुमति देना	1. अनुमति	1. अनुमति/ स्वीकृति/ सम्मति 2. अनुमति देना, सहमति प्रकट करना	1. अनुमति (हरि०)
Assessment	1. कर-निर्धारण 2. निर्धारण	1. कर-निर्धारण 2. निर्धारण	1. कर-निर्धारण 2. निर्धारण	1. कर-निर्धारण 2. निर्धारण 3. जमावदी 4. मूल्यांकन	1. कर-निर्धारण निर्धारित करना 2. निर्धारण	1. कर-निर्धारण 2. निर्धारण (हरि०)
Assets	1. आस्तिया, परिसम्पत्ति	1. आस्तियाँ, परिसम्पत्ति	1. आस्तिया, परिसम्पत्ति	1. आस्तियाँ, परिसम्पत्ति, मालमत्ता	1. आस्तिया, परिसम्पत्ति, माल-मत्ता, सम्पत्ति, पूजा	1. आस्तिया, परिसम्पत्ति (हरि०)
Assign	1. समनुदेशित- करना/सौंपना 2. नियत करना	1. सौंपना/ नियत करना/ समनुदेशित- करना	1. समनुदेशित- करना/सौंपना/ देना 2. नियत करना, निर्दिष्ट करना 3. अम्पविती	1. समनुदेशित- करना, अभिहस्ताकित- करना 2. नियत करना, निर्दिष्ट करना 3. सौंपना, सौंप देना 4. अम्पविती करना	1. सौंपना, अर्पण करना, स्वत्वापण- करना, अभिहस्ताकन करना 2. नियत करना, जिम्मे लगाना 3. देना, बतलाना	1. समनुदेशित करना/सौंपना 2. नियत करना (हरि०)

1	2	3	4	5	6	7
Assignment	1. समनुदेशन/ नियत कार्य/ सुपुर्द करना	1. समनुदेशन, नियत कार्य, सुपुर्द करना, अभिहृत/कम	1. समनुदेशन, सुपुर्द करना, नियत या निर्दिष्ट करना, निर्दिष्ट कार्य, नियत करना, अभ्यापन- करना, अभ्यापन-पत्र, नियत कार्य	1. समनुदेशन, सौचना, सुपुर्द करना, अभ्यापन करना, अभिहृत/कम	1. गीता दृशा कार्य, गोपना, दत्त कार्य, अपंग, स्वस्थापन, अभिहृत/कम	1. समनुदेशन/ नियत कार्य सुपुर्द काम (हरि०)
Assistant Associate	1. सहायक 1. सह	1. सहायक —	1. सहायक 1. सह/सहयुक्त	1. सहायक 1. साथी (अपराध में) सह/सहयुक्त सहचारी	1. सहायक 1. सहचारी, साथी	1. सहायक (हरि०) 1. सह
	2. सम्मिलित- करना	2. सम्मिलित- करना	2. संबद्ध करना, सहयुक्त करना, संगति करना, संगति में रहना	2. संयुक्त करना, सम्मानित- करना, साथ करना		2. सम्मिलित करना
Association	1. सच/समाज/ संगम	3. सच 1. सच/समाज	1. सच, सस्था	1. सस्था/संगम	1. सच, सस्था, सहृति, सभा, मंडली, संगम	1. सच/समाज/ संगम
	2. सबध/साहचर्य	2. सबध/साहचर्य	2. साहचर्य/सबध, संगति	2. साहचर्य	2. सबध, साहचर्य, संगति	2. सबध/साहचर्य

1	2	3	4	5	6	7
Assume	1. ग्रहण करना	1. ग्रहण करना	1. ग्रहण करना, धारण करना	1. ग्रहण करना, श्वधारण-करना	1. ग्रहण करना, धारण करना, हाथ में लेना	1. ग्रहण करना
	2. कल्पना करना	2. कल्पना करना	2. मान लेना	2. मान लेना	2. मान लेना	2. कल्पना करना (हरि०)
Assumption	1. ग्रहण	1. ग्रहण	3. कल्पना करना	3. कल्पना करना	1. ग्रहण, धारण	1. ग्रहण
	2. कल्पना	2. कल्पना	1. ग्रहण, धारण	1. ग्रहण, श्वधारण	2. कल्पना-धारण	2. कल्पना (हरि०)
Assumption of charge	1. भार-ग्रहण	1. भार-ग्रहण	2. कल्पना	2. कल्पना	1. कार्यभार ग्रहण करना	2. कल्पना (हरि०)
Assurance	1. आश्वासन	1. आश्वासन	1. कार्य ग्रहण, भार ग्रहण	1. प्रभार ग्रहण	1. आश्वासन, दृढ़ता	1. भार-ग्रहण (हरि०)
	2. बीमा	2. बीमा	1. आश्वासन	1. आश्वासन	2. बीमा	2. बीमा
	3. हस्तांतरण-पत्र	3. हस्तांतरण-पत्र	2. बीमा	2. बीमा	3. हस्तांतरण, हस्तांतरण-पत्र	3. हस्तांतरण-पत्र (हरि०)
			3. हस्तांतरण/ हस्तांतरण-पत्र, अभिहस्तांतरण (त्रिधि)	3. हस्तांतरण-पत्र अभिहस्तांतरण (त्रिधि)		
Assure	1. आश्वासन करना	1. आश्वासन करना	1. आश्वासन देना,	1. आश्वासन करना, विश्वास दिलाना,	1. आश्वासन देना	1. आश्वासन करना (हरि०)
			2. बीमा करना	2. बीमा करना		
Atomic Energy	1. परमाणु-ऊर्जा	1. परमाणु-ऊर्जा	1. परमाणु-ऊर्जा	1. परमाणु-ऊर्जा	1. परमाणु-शक्ति	1. परमाणु-ऊर्जा (हरि०)
At par	1. सममूल्य पर	1. सममूल्य पर	1. सममूल्य पर	1. सममूल्य पर, बराबर पर	1. सममूल्य पर	1. बराबर पर

1	2	3	4	5	6	7
Attache	1. सहकारी/ अतासे	1. सहकारी	1. सहकारी/ अतासे	1. सहकारी/ अटेंची (वेटी) अटेंजे (धरिन) 2. आतमी	1. सहकारी	1. सहकारी/ अतासे (हरि०)
Attached	1. सलग्न	1. सलग्न	1. सलग्न, संबद्ध, 2. जुकं किया हुआ	1. सलग्न	1. सलग्न, साथ लगा हुआ, सगा हुआ, समुक्त, संयोजित, नरपी 2. जुकं, अभ्यागृहीत	1. सलग्न (हरि०)
Attachment	1. जुकीं	1. जुकीं	1. जुकीं	1. जुकीं 2. आनकिन	1. जुकीं (विधि) 1. आनकिन	1. जुकीं (हरि०)
Attendance	1. उपस्थिति, हाजिरी	1. उपस्थिति, हाजिरी	1. उपस्थिति 2. सेवा-नरिचर्या	1. उपस्थिति, हाजिरी 2. सेवा, शुश्रूया	1. उपस्थिति, हाजिरी	1. उपस्थिति, हाजिरी
Attention	1. ध्यान	1. ध्यान	1. ध्यान, सावधान (पुलिस)	1. ध्यान, सावधानी, सावधान	1. ध्यान, सावधानी	1. ध्यान (हरि०)
Attestation	1. अनुप्रमाणन/ साक्ष्यांकन/ तसदीक	1. अनुपासन/ साक्ष्यांकन/ तसदीक	1. अनुप्रमाणन, प्रमाणीकरण, साक्ष्यांकन तसदीक	1. अभिप्रमाणन अनुप्रमाणन तसदीक	1. अभिप्रमाणन/ अभिप्रमाणित करण/ साक्ष्यांकन, तसदीक	1. अनुप्रमाणन, साक्ष्यांकन, तसदीक
Audit	1. लेखा-नरीशा, सपरीशा	1. लेखा-नरीशा, अकेदा	1. लेखा-नरीशा, सबीशा, आपत्तियां,	1. लेखा-नरीशा, अकेशा, लेखा-नरीशा	1. लेखा-नरीशा, गणना-नरीशा,	1. लेखा-नरीशा

1	2	3	4	5		
			लेखा- आपत्तिया	करना, अकेशण करना	2. लेखा परीक्षा करना	
Audit objections	1. लेखा परीक्षा- आपत्तिया/ लेखा आपत्तिया	1. लेखा परीक्षा- आपत्तिया/ लेखा आपत्तिया/ अकेशा आपत्तिया	1. लेखा परीक्षा- आपत्तिया, लेखा आपत्तिया, सुपरीक्षा आपत्तियां	1. लेखा- आपत्तिया, अकेशा आपत्तिया	1. लेखा-परीक्षा- आपत्तिया	1. लेखा परीक्षा- आपत्तिया, लेखा आपत्तियां (हरि०)
Authentic	1. अधिप्रमाणित	1. अधिप्रमाणित, प्रमाणिक	1. अधिप्रमाणित, प्रमाणिक	1. अधिप्रमाणिक, प्रमाणिक	1. प्रामाणिक, प्राधिकृत, विश्वसनीय, मल्प, यास्तविक	1. अधिप्रमाणित (हरि०)
Authenticate	1. अधिप्रमाणित- करना	1. अधिप्रमाणित- करना	1. अधिप्रमाणित- करना, प्रमाणित करना, प्रमाणीकरण करना	1. अधिप्रमाणित- करना	1. प्रमाणीकरण करना	1. अधिप्रमाणित करना (हरि०)
Authentication	1. अधिप्रमाणन	1. अधिप्रमाणन	1. प्रमाणीकरण, अधिप्रमाणन	1. अधिप्रमाणन, प्रमाणीकरण	2. प्राधिकार- देना 1. प्रमाणीकरण	1. अधिप्रमाण (हरि०)

1	2	3	4	5	6	7
Authorise	1. प्राधिहृत करना	1. प्राधिहृत करना, प्राधिकार देना	1. प्राधिहृत करना, प्राधिकार देना	1. प्राधिहृत करना	1. प्राधिहृत करना, प्राधिकार देना	1. प्राधिहृत करना (हरि०)
Authority	1. प्राधिकारी	1. प्राधिकारी	1. प्राधिकारी, सत्ता	1. प्राधिकारी	1. प्राधिकारी, सत्ता	1. प्राधिकारी/ अधिकारी (हरि०)
	2. प्राधिकार	2. प्राधिकार	2. प्राधिकार	2. प्राधिकार, सत्ता	2. —	
	3. प्राधिकरण		3. —	3. —	3. प्राधिकरण	
			4. प्रमाण	4. प्रमाण	4. प्रमाण	
			5. अनुमति/अनुज्ञा			
Autograph	1. स्वाक्षर	1. स्वाक्षर/ आटोघ्राफ	1. स्वाक्षर	1. स्वाक्षर, स्वाक्षर करना	1. स्वाक्षर	1. स्वाक्षर (हरि०)
Autonomous	1. स्वायत्त	1. स्वायत्त	1. स्वायत्त	1. स्वायत्त	1. स्वायत्त, स्वायत्त- शासन सम्बन्धी	1. स्वायत्त (हरि०)
Auxiliary	1. सहायक/ सहकारी,	1. सहायक/सहकारी	1. सहायक, सहकारी	1. सहायक, सहाय	1. सहायक	1. सहायक/ सहकारी
	2. अतिरिक्त	2. अतिरिक्त	2. अतिरिक्त	2. अतिरिक्त		2. अनिरिक्त
		3. शीघ्र				
Available	1. प्राप्य/ उपलब्ध	1. प्राप्य/ उपलब्ध	1. प्राप्य, उपलब्ध, उपलब्ध	1. प्राप्य, उपलब्ध	1. प्राप्य, उपलब्ध, उपलब्ध	1. प्राप्य, उपलब्ध (हरि०)
			2. उपयोग्य, प्रयोज्य			
Avoid	1. वर्जन करना/ परिहार करना/ बचना	1. वर्जन करना/ परिहार करना/ बचना	1. परिहार करना, बचना,	1. परिवर्तन करना, हीन करना, शून्य करना	1. परिवर्तन- करना, परिहार करना, आनाकानी करना	1. वर्जन करना, परिहार करना, बचना

1	2	3	4	5	6	7
Avoidable	1. परिहार्य	1. परिहार्य	1. परिहार्य, निवार्य	1. परिहार्य	1. परिहार्य,	1. परिहार्य
Award	1. पचाट/ अधिनिर्णय	1. पचाट/ अधिनिर्णय/ पचनिर्णय	1. निर्णय, पंचनिर्णय 2. निर्णय करना, पचनिर्णय देना, देना, प्रदान करना	2. पचाट करना प्रदान करना	1. पचाट/ पचनिर्णय, निर्णय 2. देना, प्रदान करना 3. पुरस्कृत, पुरस्कार	1. पंचाट/ अधिनिर्णय (हरि०) 2. अधिनिर्णय करना (विधि) 3. पुरस्कार (विधि) 4. प्रदान करना (विधि)
Axiom	1. स्वयसिद्धि	1. स्वयसिद्धि	1. स्वयसिद्धि	1. स्वयसिद्ध, स्वयसिद्धि	1. स्वयसिद्ध, स्वयसिद्धि, स्वत सिद्ध 2. मूल	1. स्वयसिद्धि

B

Background	1. पृष्ठभूमि	1. पृष्ठभूमि	1. पृष्ठभूमि 2. पृष्ठाधार 3. भूमिका	1. पृष्ठभूमि 2. पार्श्व/ पृष्ठाधार	1. पृष्ठभूमि 2. पार्श्वभूमि 3. भूमिका	1. पृष्ठभूमि (हरि०)
-------------------	--------------	--------------	---	--	---	------------------------

	1	2	3	4	5	6	7
Backward classes	1. पिछड़े वर्ग	1. पिछड़े वर्ग	1. पिछड़े वर्ग	1. पिछड़े वर्ग	1. पिछड़े वर्ग	1. पिछड़े वर्ग, पिछड़े हुए वर्ग, पश्चवर्ती वर्ग	1. पिछड़े वर्ग
Bad character	1. दुश्चरित्रता/ बुराशील	1. दुश्चरित्रता, बुराशील	1. दुश्चरित्र, बुराशील, बदमाश	1. दुश्चरित्र, बुराशील, बदमाश	1. दुश्चरित्र, दानी बुराशील, बुराचरित्र	1. दुश्चरित्र/ बुराचारी, बदमाश	1. दुश्चरित्र
Bad conduct	2. दुःशील 1. दुराचरण	2. दुःशील 1. दुराचरण	2. दुःशील 1. दुराचरण	2. दुःशील 1. दुराचरण	2. दुःशील 1. दुराचरण, बदाचरण 2. कदाचारी	2. बुराशील 1. दुराचरण	2. दुःशील (हरि०) 1. दुराचरण (हरि०)
Balance	1. शेष/अतिशेष/ बाकी 2. तुला/तराजू 3. सतुलन	1. अतिशेष/बाकी 2. तुला/तराजू 3. सतुलन	1. अतिशेष/बाकी, शेष, बकाया 2. तुला, तराजू 3. सतुलन	1. अतिशेष/बाकी, शेष, शेष रोकड़ 2. तुला, कांटा, तराजू 3. समन्वयन, सतुलन	1. अतिशेष, बाकी, शेष, शेष रोकड़ 2. तुला, कांटा, तराजू 3. समन्वयन, सतुलन	1. रोकड़, बाकी, मिलाना, सतुलन करना 2. तोल करना 3. शेष	1. शेष/अतिशेष/ बाकी 2. तुला/तराजू 3. सतुलन (हरि०)
Balance Closing	1. अतशेष/ रोकड़ बाकी	1. अतशेष/ रोकड़ बाकी	1. अतशेष रोकड़ बाकी	1. अतशेष रोकड़ बाकी	1. अतशेष, अतिशेष, बाकी, रोकड़	1. अन्तिशेष, रोकड़ बाकी	1. अन्तिशेष/ रोकड़ बाकी (हरि०)
Balance Opening	1. आदिशेष/ रोकड़ जमा	1. आदिशेष/ रोकड़ जमा	1. आदिशेष, रोकड़ जमा	1. आदिशेष, रोकड़ जमा, आरम्भ शेष,	1. आदिशेष, रोकड़ जमा, आरम्भ शेष,	1. प्रारम्भिक शेष, पिछली बाकी, आरम्भ में निकले हुए शेष	1. आदि शेष/ रोकड़ जमा (हरि०)
Balance Sheet	1. तुलन-पत्र	1. तुलन-पत्र	1. तुलन-पत्र, स्थिति-पत्रक	1. तुलन-पत्र, स्थिति-पत्रक	1. तुलन-पत्र	1. आय-व्यय विवरण पत्र	1. तुलन-पत्र (हरि०)

1	2	3	4	5	6	7
			2. पक्का चिट्ठा	2	2 पक्का चिट्ठा आय-धन्य चिट्ठा	
Ballot	1. मत-पत्र, मतपत्र, बैलट, शलाका	1. मत-पत्र, मतपत्र, बैलट-पत्र	1. मत-पत्र, मतपत्र, बैलट-पत्र शलाका	1. मत-पत्र, मतपत्र, बैलट, शलाका	1. मत-पत्र, शलाका, शलाका-पद्धति	1. मत-पत्र, मतपत्र, बैलट, शलाका
Ballot Secre	1. गुप्त-मतदान	1. गुप्त-मतदान	1. गुप्त-मतदान	1. गुप्त-शलाका	1. गुप्त मतदान/ गुप्त मतपत्र	1. मतदान (हरि०) गुप्त-मतदान (हरि०)
Ballot box	1. मतपेटी/ शलाका पेटी	1. मतपेटी/ शलाका पेटी	1. मतपेटी, शलाका पेटी	1. मतपेटी, शलाका पेटी	1. मतपेटी, शलाका पेटी, मतपेटिका	1. मतपेटी, शलाका पेटी (हरि०)
Ballot Paper	1. मतपत्र/ मतपत्र, बैलट पत्र, शलाका	1. मत-पत्र/ मतपत्र, बैलटपत्र, शलाका	1. मत-पत्र, मतपत्र, बैलट पत्र, शलाका	1. मत-पत्र, शलाका-पत्र, छन्दक-पत्र, बैलट पत्र	1. मत-पत्र, मतदान-पत्र, शलाका पत्र	1. मत-पत्र, मतपत्र, बैलट पत्र, शलाका (हरि०)
Ban	1. प्रतिबन्ध/रोक/ पाबन्दी	1. प्रतिबन्ध/रोक/ पाबन्दी,	1. प्रतिबन्ध, रोक, पाबन्दी	1. प्रतिबन्ध, रोक, रोक लगाना	1. प्रतिबन्ध, रोक, बन्दी, प्रतिबन्ध करना, बन्दी करना, रोक लगाना, प्रतिबन्ध लगाना	1. प्रतिबन्ध/रोक/ पाबन्दी
Banquet	1. प्रीतिभोज	2. निषेध 1. प्रीतिभोज	1. ज्योतिष, संभोज		2. निषेध 1. भोज, महाभोज	1. प्रतिभोज (हरि०)

1	2	3	4	5	6 -	7
Basic	1. आधारी/मूल/ बुनियादी	1. मूल/बुनियादी	1. आधारी, मूल आधारभूत, आधारिक, बुनियादी	1. आधारभूत, मूलभूत, मूल, बुनियादी	1. आधारभूत, मूल, बुनियादी, प्रधान	1. मूल/बुनियादी (हरि०)
Basic Pay	1. मूल वेतन	1. मूल वेतन	1. मूल वेतन, आधारिक वेतन	1. मूल वेतन	1. मूल वेतन	1. मूल वेतन
Basic Scale of pay	1. मूल वेतन-मान	1. मूल वेतन-मान,	1. मूल वेतन-मान, आधारिक वेतन- मान	1. मूल वेतन-मान	1. मूल वेतन-मान, मूल वेतन-श्रेणी	(हरि०) 1. मूल वेतन-मान (हरि०)
Bearer	1. वाहक 2. बैरा 3. परिचर	1. वाहक 2. बैरा	1. वाहक 2. बैरा 3. अनुचर 4. (बैंक) बैरर	1. वाहक 2. बैरा 3. पत्र-वाहक	1. वाहक 2. बैरा 3. धारक	1. वाहक 2. बैरा 3. परिचर (हरि०)
Below par	1. अवमूल्य पर	1. अवमूल्य 2. औसत से कम	1. अवमूल्य	1. अवमूल्य पर 2. घाटा	1. अवमूल्य पर 2. औसत से कम, घाटे से, बट्टे से	1. अवमूल्य(हरि०)
Beneficial	1. फायदाप्रद/ लाभप्रद	1. फायदाप्रद/ लाभप्रद	1. लाभप्रद, लाभदायक, हितकारी	1. हितकारी, हितभायी	1. लाभप्रद, लाभकारी, लाभदायक, हितकर, हितकारक, हितकारी	1. फायदाप्रद, लाभदायक (हरि०)
Benefit	1. हित/फायदा/	1. हित/फायदा/	-2. सुविधाननक 1. हित/फायदा	1. हित, फायदा,	1. हित, फायदा,	1. हित, फायदा,

1	2	3	4	5	6	7
	सुविधा	सुविधा	सुविधा, लाभ	लाभ, लाभ उठाना	सुविधा, लाभ	सुविधा (हरि०)
Benevolent fund	1. हितकारी निधि	1. दातव्य निधि	1. दातव्य निधि	1. हितकारी निधि	1. उपकारी निधि हितपो निधि परोपकारी निधि उदार निधि	1. हितकारी निधि (हरि०)
Bibliography	1. सदभं ग्रथ-सूची	1. सदभं ग्रथ-सूची	1. सदभं ग्रथ-सूची	1. सदभं ग्रथ-सूची, ग्रथ-सूची	1. ग्रथ-वर्णन, ग्रथ-सूची, ग्रथ-वर्णन	1. सदभं ग्रथ-सूची (हरि०)
Bicameral	1. द्विसदन/ द्विसदनी	1. द्विसदन/ द्विसदनी	1. द्विसदन/ द्विसदनी	1. द्विसदनी, द्विसदनीय	1. द्विगृही, द्विकोटीय 2. दोहरा	1. द्विसदन, द्विसदनी(हरि०)
Bilateral	1. द्विपक्षीय	1. द्विपक्षीय, द्विपार्श्विक	1. द्विपक्षीय, द्विपार्श्विक, द्विदलीय	1. द्विपक्षीय, द्विपार्श्वीय, दुतरफा	1. द्विपक्षीय, दुतरफा, उभयपार्श्व, द्विपार्श्विक, उभयपक्ष	1. द्विपक्षीय
Bill	1. विपत्र/बिल 2. विधेयक	1. विपत्र/बिल 2. विधेयक	1. विपत्र/बिल/ धेयक 2. विधेयक 3. प्राप्यक	1. विपत्र, धेयक, बिल 2. विधेयक (सम्ब) 3. विनियम-पत्र हुडी (सागिन्ध)	1. बिल/विपत्र, बीजक, धेयक 2. विधेयक 3. हुडी 4. विज्ञप्ति 5. आलेख	1. विपत्र/बिल 2. विधेयक/ (हरि०)

	1	2	3	4	5	6	7
						6 चौप	
						7. आरोप-पत्र	
Black list	1. काली-सूची	1 काली-सूची	1. काली-सूची	1. काली-सूची	1. काली-सूची	1. काली-सूची	1. काली-सूची (हरि०)
Block	1. छड/ब्लॉक/ प्रखंड	1 छड/ब्लॉक/ प्रखंड	1. (बन, बिक्राम) छड	1. ब्लॉक (सभी अर्थों में) प्रखंड/छड, छडक	1. ब्लॉक (सभी अर्थों में) प्रखंड/छड, छडक	1. छड, सबर्ग, समूह	1. छड/ब्लॉक (हरि०)
			2. (मुद्रण) ब्लॉक	2. गूट	2. साचा	2. साचा	
					3. रोक देना/ मार्ग रोध करना	3. रोक देना/ मार्ग रोध करना	
Board	1. बोर्ड/परिषद्/ मंडल	1. बोर्ड/परिषद्/ मंडल	1. बोर्ड/परिषद्/ मंडल	1. बोर्ड/परिषद्/ मंडल	1. बोर्ड/परिषद्/ मंडल	1. बोर्ड, परिषद्/ मंडल, मंडली	1. बोर्ड, परिषद्/ मंडल (हरि०)
			2. भोजन	2. भोजन	2. भोजन	2. भोजन	
			3. गस्ता/दपती	3. तथता	3. पटरा, फलक, पाट, पट्टा	3. पटरा, फलक, पाट, पट्टा	
			4. सखना, पट्ट, फलक	4. जहाज पर खटना, खटना			
Board of studies	1. पाठ्य-समिति	1. पाठ्य-समिति	1. पाठ्य-समिति, विद्या परिषद्	1. पाठ्य-बोर्ड	1. पाठ्यक्रम समिति	1. पाठ्यक्रम समिति	1. पाठ्य-समिति (हरि०)
Body	1. निकाय	1. निकाय	1. निकाय	1. निकाय	1. निकाय	1. निकाय	1. निकाय
Body Guard	1. अगरक्षक	1. अगरक्षक	1. अगरक्षक	1. अगरक्षक/ बाडी गार्ड	1. अगरक्षक, शरीर रक्षक	1. अगरक्षक, शरीर रक्षक	1. अगरक्षक (हरि०)
Bona fide	1. वास्तविक/ असली	1 वास्तविक/ असली	1. वास्तविक, असली	1. वास्तविक, असली, यथार्थ	1. वास्तविक, असली	1. वास्तविक, असली	1. वास्तविक/ असली
	2. सद्भावी/	2. सद्भाव/	2. सद्भावी/	2. सद्भावी,	2. सद्भाव,	2. सद्भाव,	2. सद्भाव/

1	2	3	4	5	6	7
	सद्भावपूर्वक	सद्भावपूर्वक	सद्भावपूर्वक (विधि)	सद्भावपूर्वक	सद्भावपूर्वक	सद्भावपूर्वक (हरि०)
Bonafides	1. सद्भाव	—	1. सद्भाव, सदाशयता	3. निष्कपट (मूल) 1. सद्भाव	1. (विधि)सद्भाव, यथार्थपूर्वक	1. सद्भाव (हरि०)
Book value	1. अंकित मूल्य	1. अंकित मूल्य	1. अंकित मूल्य बही मूल्य छात्रा मूल्य	1. अंकित मूल्य बही मूल्य पुस्तक मूल्य किताबी कीमत	1. अंकित मूल्य	1. अंकित मूल्य (हरि०)
Booth	1. बूथ/कोष्ठ	1. बूथ	1. बूथ, कोष्ठ	1. बूथ, कोष्ठ, मंडप, मतदान- कोष्ठ	1. बरली, पल्ली, छपरौ, पाल, छान	1. बूथ/कोष्ठ (हरि०)
Booth —, Polling	1. मतदान-कोष्ठ/ मतदान-बूथ	1. मतदान कोष्ठ/ मतदान बूथ	1. मतदान-कोष्ठ, मतदान-बूथ	1. मतकोष्ठ, मतदान मंडप	1. मतदान केन्द्र, मतदान-मंडपी	1. मतदान-कोष्ठ, मतदान-बूथ (हरि०)
Breach	1. भंग	1. भंग	1. भंग, उल्लंघन 2. टूट, बरार	1. भंग 2. तोड़, टूट-फूट	1. भंग 2. संधि भेद	1. भंग (हरि०)
Breach of confidence	1. विश्वास-भंग	1. विश्वास-भंग विश्वासघात	1. विश्वास-भंग	1. विश्वास-भंग	1. विश्वासघात	1. विश्वास-भंग (हरि०)
Breach of contract	1. सविदा-भंग	1. सविदा-भंग	1. सविदा-भंग, ठेका भंग	1. सविदा-भंग	1. सविदा-भंग, अनुबंध-भंग, ठेका भंग, अनुबंध का उल्लंघन	1. सविदा-भंग (हरि०)

1	2	3	4	5	6	7
Breach of law	1. विधि भंग/ कानून तोड़ना	1. विधि भंग/ कानून तोड़ना	1. विधि-भंग, कानून तोड़ना	1. विधि भंग, कानून तोड़ना	1. विधि-भंग, विधि का भंग	1. विधि-भंग/ कानून तोड़ना
Breach of privilege	1. विशेषाधिकार- भंग	1. विशेषाधिकार- भंग	1. विशेषाधिकार- भंग, विशेषाधिकार का उल्लंघन	1. विशेषाधिकार- भंग	1. विशेषाधिकार- भंग, सुविधा भंग	1. विशेषाधिकार- भंग
Breach of trust	1. विश्वास-भंग 2. न्यास-भंग	1. विश्वास-भंग 2. न्यास-भंग	1. विश्वास-भंग 2. न्यास-भंग	1. विश्वास-भंग 2. न्यास-भंग	1. विश्वास-भंग 2. न्यास-भंग	1. विश्वास-भंग 2. न्यास-भंग
Break in Service	1. सेवा में भंग/ सेवा-विच्छेद	1. सेवा में भंग/ सेवा-विच्छेद	1. सेवा में व्यवधान	1. सेवा में भंग, सेवा में विभंग/ सेवा में विच्छेद	1. सेवा में भंग	1. सेवा में भंग, सेवा-विच्छेद
Brevity	1. संक्षेप	1. संक्षेप	1. संक्षेप/ संक्षिप्तता	1. संक्षेप	1. संक्षेप	1. संक्षेप
Brief	1. पक्ष-पत्र 2. पक्ष कथन/ श्रीक	1. पक्ष-पत्र 2. पक्ष कथन/ श्रीक	1. पक्ष-पत्र, 3. संक्षेप, सार (विधि) वाद- सारास	1. वादसार, वादबन्ध, पक्ष-पत्र, 2. पक्ष कथन, संक्षेप, संक्षिप्त 3. संक्षिप्त करना, विमोचन करना	1. संक्षिप्त, संक्षेप, संक्षिप्त विवरण 2. वादबन्ध, संक्षेप करना, (विधि)	1. पक्ष-पत्र 2. पक्ष कथन/ श्रीक (हरि०)
Brochure	1. विवरणिका	1. विवरणिका	1. पुरितिका/ विवरणिका	1. पुरितिका, विवरणिका	1. पुरितिका	1. विवरणिका (हरि०)

1	2	3	4	5	6	7
Budget	1. बजट/ आय-व्ययक	1. बजट/आय- व्ययक	1. बजट/आय- व्ययक	1. बजट/आय- व्ययक	1. बजट/आय- व्ययक	1. बजट/आय- व्ययक
Budget —, Balanced	1. सतुलित-बजट/ सतुलित आय- व्ययक	1. सतुलित-बजट/ सतुलित आय- व्ययक	1. सतुलित आय- व्ययक/सतुलित बजट	1. सतुलित बजट, आय-व्ययक	1. सतुलित बजट, सतुलित आय- व्ययक	1. सतुलित बजट (हरि०)
Budget —, Deficit	1. घाटे का बजट	1. घाटे का बजट	1. घाटे का बजट	1. घाटे का बजट	1. घाटे का बजट, घाटे का आय- व्यय पत्रक	1. घाटे का बजट (हरि०)
Budget —, Reapprop- riation	1. विनियोगातर, बजट/ पुनर्विनियोग बजट	1. विनियोगातर, बजट/ पुनर्विनियोग बजट	1. विनियोगातर बजट/ पुनर्विनियोग, बजट	1. पुनर्विनियोग, बजट/ विनियोगातर, बजट	1. पुनर्विनियोजन, बजट/ पुनर्विनियोग- आय-व्ययक	1. विनियोगातर, बजट/ पुनर्विनियोग- बजट (हरि०)
Budget —, Revised	1. परिशोधित- बजट	1. सशोधित बजट	1. सशोधित बजट	1. सशोधित बजट/ पुनरीक्षित बजट	1. सशोधित / पुनरीक्षित/ पुनरावृत्त/ परिशोधित- बजट / आय-व्ययक	1. परिशोधित- बजट (हरि०)
Budget —, Sanctioned	1. स्वीकृत बजट	1. स्वीकृत बजट	1. स्वीकृत बजट/ आय-व्यय	1. स्वीकृत बजट	1. स्वीकृत बजट	1. स्वीकृत बजट
Budget —, Supplemen- tary	1. पूरक बजट	1. पूरक बजट	1. पूरक बजट	1. अनुपूरक बजट	1. पूरक बजट, पूरक आय- व्ययक, अनुपूरक बजट,	1. पूरक बजट (हरि०)

	1	2	3	4	5	6	7
						अनुसूचक आय- व्ययक, पूरक आय-व्यय- पत्रक, आय-व्यय- व्ययक	
Budget estimate	1. बजट प्राक्कलन/ बजट अनुमान	1. बजट अनुमान	1. बजट प्राक्कलन, बजट अनुमान, आय-व्ययक अनुमान	1. बजट प्राक्कलन, बजट अनुमान	1. बजट अनुमान, बजट अनुमान	1. बजट अनुमान, आय-व्ययक- प्राक्कलन, आय-व्ययक- अनुमान	1. बजट प्राक्कलन, बजट अनुमान (हरि०)
Bureau	1. ब्यूरो, कार्यालय, केन्द्र	1. ब्यूरो, कार्यालय, केन्द्र	1. ब्यूरो, कार्यालय, केन्द्र	1. ब्यूरो, केन्द्र, अभिधान	1. ब्यूरो, केन्द्र, अभिधान	1. ब्यूरो, कार्यालय, आलय 2. विभाग	1. ब्यूरो, कार्यालय, केन्द्र (हरि०)
Bureaucracy	1. अधिकारी संघ/ नौकरशाही	1. अधिकारी संघ/ नौकरशाही	1. अधिकारी संघ/ नौकरशाही	1. अधिकारी संघ, नौकरशाही, अफसरशाही, रपत्रशाही	1. अधिकारी संघ, नौकरशाही, अफसरशाही, रपत्रशाही	1. अधिकारी संघ, नौकरशाही 2. अधिकारी वर्ग	1. अधिकारी संघ, नौकरशाही (हरि०)
Business	1. कार्य/काम/ कारोबार/ व्यवसाय	1. कार्य/कारोबार/ व्यापार	1. कार्य-व्यापार	1. कार्य, कार्य व्यवसाय, कारबार	1. कार्य, कार्य व्यवसाय, कारबार	1. कार्य, काम, कार्य-व्यय, सौदा, कारबार, कामकाज, कारोबार	1. कार्य/काम/ कारोबार/ व्यवसाय (हरि०)

1

2

3

4

5

6

7

Business hours 1. कार्य-समय

**By-hand
Bye-law**

1. दस्ती
1. उपविधि

1. कार्य-समय

1. दस्ती
1. उपविधि/
उपनियम

1. कार्य-समय

1. दस्ती
1. उपविधि

1. कार्य-समय

1. दस्ती, दस्ते
1. उपविधि

कामघंघा, घघा,
व्यापार-न्ययसाय

1. कार्य-समय

1. दस्ती
1. उपविधि

1. कार्य-समय
(हरि०)
1. दस्ती (हरि०)
1. उपविधि
(हरि०)

C

Cabinet

1. मन्त्रिमंडल

1. मन्त्रिमंडल

1. मन्त्रिमंडल

1. मन्त्रिमंडल,
केबिनेट

1. मन्त्रिमंडल

1. मन्त्रिमंडल
(हरि०)

Cadre

1. संवर्ग/काडर

1. संवर्ग/काडर

1. संवर्ग/काडर

1. संवर्ग

1. छोटा कमरा
3. दरवाजावाली-
संदूक, सडूकची
4. चौंसला

1. संवर्ग
2. कलेक्टर, डांचा

1. संवर्ग/काडर

Calculation

1. गणना/गिनती/
परिकलन

1. गणना/गिनती/
परिकलन

1. गणना, गिनती,
परिगणन

1. गणना, गिनती,
श्रुमान, कलन-
करना

1. गणना,
परिगणना

1. गणना/गिनती/
परिकलन
(हरि०)

Call book

1. निलबित
मामलो की बही/
कॉलबुक

1. निलबित
मामलों-की बही/
कॉलबुक

1. निलबित-
मामलो की
बही, कॉलबुक

1. निलबित-
मामलो की बही/
कॉलबुक

1. कॉलबुक

1. निलबित-
मामलो की
बही/कॉलबुक

	1	2	3	4	5	6	7
Call for an explanation	1. जवाबतलबी/स्पष्टीकरण-मांगना	1 जवाबतलबी/स्पष्टीकरण-मांगना	1. जवाबतलबी/स्पष्टीकरण मांगना	1. जवाबतलबी/स्पष्टीकरण-मांगना	1. जवाबतलबी/स्पष्टीकरण-मांगना	1. जवाबतलबी/स्पष्टीकरण-मांगना	1. जवाबतलबी/स्पष्टीकरण-मांगना (हरि०)
Call for inspection	1. निरीक्षण की माग	1. निरीक्षण की माग	1. निरीक्षण की माग	1. निरीक्षण की माग	1. निरीक्षण की माग	1. निरीक्षण की माग	1. निरीक्षण की माग (हरि०)
Call money	1. अखिलब राशि	1. अखिलब राशि	1. मागधन, माग राशि, अखिलब राशि	1. अखिलब राशि (प्र० ब०)	2 बोली जमा (बैक) 3. अभियाचित धन (विधि)	1. मांग का रुपया 2 — 3. अभियाचित धन (विधि)	1. अखिलब राशि (हरि०)
Calling	1. व्यवसाय/आजीविका	1. व्यवसाय/आजीविका	1. व्यवसाय/आजीविका	1. व्यवसाय/आजीविका	1. आजीविका	1. पेशा, आजीविका	1. व्यवसाय/आजीविका
Camera —, Meeting in	1. गुप्त बैठक/बंद बैठक	1. गुप्त बैठक/बंद बैठक	1. गुप्त बैठक/बंद बैठक	1. गुप्त बैठक/बंद बैठक	1. गुप्त बैठक/बंद बैठक	1. गुप्त बैठक/बंद कमरे की बैठक	1. गुप्त बैठक/बंद बैठक
Campaign	1. विशेष-प्रचार	1. विशेष-प्रचार 2. अभियान	1. अभियान 2. विशेष प्रचार	1. अभियान 2. अभियान	1. कैम्पेन 2. अभियान	1. मुहिम 2. अभियान 3. आन्दोलन 4. युद्ध/घावा	1. विशेष प्रचार (हरि०)
Cancel	1. रद्द करना	1. रद्द करना	1. रद्द करना, निरस्त करना	1. रद्द करना, विरहित करना	1. रद्द करना, विरहित करना	1. रद्द करना, विलोप करना,	1. रद्द करना (हरि०)

1 2 3 4 5 6 7

Candidate

1. अभ्यर्षी/
प्रार्थी/
उम्मीदवार

1. अभ्यर्षी/
प्रार्थी/
उम्मीदवार/
प्रत्याशी

1. अभ्यर्षी,
उम्मीदवार

1. अभ्यर्षी,
उम्मीदवार,
परीक्षार्थी

उद्दा देना,
प्रतिस्वत करना,
निरस्त करना

1. अभ्यर्षी,
पदाभिलाषी,
उम्मीदवार,
अभिलाषी

1. अभ्यर्षी,
प्रार्थी,
उम्मीदवार
(हरि०)

Capable

1. समर्थ

1. समर्थ

1. समर्थ

1. समर्थ, शक्ति

1. समर्थ, योग्य,
क्षम

1. समर्थ
(हरि०)

Capacity

1. क्षमता
2. धारिता

1 क्षमता
2. धारिता

1. क्षमता, सामर्थ्य
2 धारिता, समाई

1. सामर्थ्य,
2. धारिता, समाई

1. सामर्थ्य, क्षमता
2. धारिता, स्थिति,
समावेश-शक्ति,
ग्रहण-शक्ति

1. क्षमता
2. धारिता
(हरि०)

Capita, per
Capital

1. प्रतिव्यक्ति
1. पूंजी/मूलधन

3. हैसियत, पद
1. प्रतिव्यक्ति
1. पूंजी/मूलधन

3. हैसियत
1. प्रतिव्यक्ति
1. पूंजी/मूलधन

1. प्रतिव्यक्ति
1. पूंजी, मूलधन,
मूल, उदासी,
पूंजीगत

1. प्रतिव्यक्ति
1. पूंजी/मूलधन

1. प्रतिव्यक्ति(हरि०)
1. पूंजी/मूलधन

2. स्तमशीर्षं
3. राजधानी
4. मृत्यु से दहनीय

2. —
3. राजधानी

1. पूंजीगत लेखा

1. पूंजीगत लेखा

1. पूंजीगत लेखा

1. पूंजीगत लेखा,
पूंजी लेखा

2. स्तमशीर्षं
3. राजधानी
4. मृत्यु से दहनीय

2. स्तमशीर्षं
3. राजधानी
4. मृत्यु से दहनीय
(हरि०)

1. पूंजी लेखा,
पूंजी घाता,
पूंजी वा हिमांक

1. पूंजीगत लेखा
(हरि०)

Capital
account

	1	2	3	4	5	6	7
Card, Dead	1. बेकार कार्ड	1. बेकार कार्ड	1. बेकार कार्ड	1. बेकार कार्ड	1. बेकार कार्ड	1. बेकार कार्ड, मृत कार्ड	1. बेकार कार्ड (हरि०)
Card —, Index	1. सूचक पत्र/ कार्ड सूचक	1. सूचक पत्र/ सूचक कार्ड	1. सूचक कार्ड	1. सूचक कार्ड	1. सूचक कार्ड, अनुक्रम-कार्ड	1. सूचक-पत्र, निर्देशक-पत्र	1. सूचक पत्र/ सूचना कार्ड (हरि०)
Card-index	1. कार्ड सूची	1. कार्ड सूची	1. कार्ड सूची	1. कार्ड सूची	1. कार्ड सूची	1. पत्र-देशना	1. कार्ड-सूची (हरि०)
Care	1. सावधानी	1. सावधानी	1. सावधानी	1. सावधानी	1. अवधान, देखरेख	1. सावधानी, अवधान, अवेक्षा	1. सावधानी
	2. परवाह	2. परवाह	2. परवाह	2. परवाह	2. परवाह, मारफत, द्वारा		2. परवाह
	3. देखभाल/ रखवाली	3. देखभाल/ रखवाली	3. देखभाल	3. देखभाल	3. सतर्कता (क्रि०)- अवधान करना		3. देखभाल, रखवाली (हरि०)
Career	1. वृत्ति/जीविका/ जीवन	1. वृत्ति/जीविका/ जीवन	1. जीविका-क्रम, शारीक	1. जीविका-क्रम, शारीक	1. वृत्ति	1. वृत्ति, जीविका, जीवन	1. वृत्ति, जीविका, जीवन (हरि०)
			2. जीवन-क्रम, जीवन	2. जीवन-क्रम, जीवन			
			3. प्रगतिक्रम, प्रगति	3. प्रगतिक्रम, प्रगति			
Career —, Education	1. शैक्षणिक जीवन	1. शैक्षणिक- जीवन	1. शैक्षणिक जीवन	1. शैक्षणिक जीवन	1. शैक्षणिक- जीवन, वृत्ति	1. शैक्षणिक	1. शैक्षणिक जीवन (हरि०)
Caretaker	1. रखवाल/ अवधायक	1. रखवाल/ अवधायक	1. आघायकर, रखवाल	1. आघायकर, रखवाल	1. अभीक्षक, अवधायक	1. अवैलक, अवधायक,	1. अभीक्षक (हरि०)

1	2	3			6	7
					अवधायक, रखवाला, कामचलाऊ	
					2. देखभाल- करने वाला, संरक्षणकर्ता	
Carried down	1. तलशेष, अधोनीत	1. तलशेष	1. नीचे गया, अधोनीत	1. तलशेष (वाणिज्य)	1. नीचे ले जाया गया	1. तलशेष, अधोनीत {हरि० }
Carried forward	1. अग्रणीत	1. आनीतशेष	1. अग्रणीत, आगे गया	1. अग्रणीत, आनीत शेष, आगे जोड़ा	1. आगे ले जाया गया, अग्रणीत	1. अग्रणीत
Carry out	1. कार्यान्वित- करना/ पालन करना	1. कार्यान्वित- करना/पालन- करना	1. कार्यान्वित- करना	1. कार्यान्वित- करना, पालन करना	1. कार्यान्वित- करना, पूरा करना, पालन करना	1. कार्यान्वित करना/ पालन करना
Case	1. मामला/विषय/ प्रकरण	1. मामला/विषय/ प्रकरण	1. मामला/विषय/ प्रकरण	1. मामला/विषय/ प्रकरण	1. मामला, विचार्य विषय, प्रकरण/अवस्था	1. मामला/विषय/ प्रकरण
	2. स्थिति	2. स्थिति	2. स्थिति	2. स्थिति/दशा/ केस	2. दशा, विषय- प्रश्न	2. स्थिति
				3. मुकद्मा	3. मुकद्मा	
				4. रोगी	4. दिव्या	
				5. निर्णय	5. घटना	
				6. प्रमाण	6. अभियोग	
				7. व्यक्ति		

1	2	3	4	5	6	7
 Casting Vote	1. निर्णायक मत	1. निर्णायक मत	1. निर्णायक मत	1. निर्णायक मत	1. निर्णायक मत	1. निर्णायक मत (हरि०)
Casual Artist	1. नैमित्तिक- कलाकार	1. नैमित्तिक- कलाकार	1. नैमित्तिक- कलाकार	1. नैमित्तिक- कलाकार	1. नैमित्तिक- कलाकार	1. नैमित्तिक- कलाकार (हरि०)
Casual Labourer	1. नैमित्तिक- मजदूर	1. नैमित्तिक- मजदूर	1. नैमित्तिक- मजदूर	1. नैमित्तिक- मजदूर, अनियत- मजदूर	1. छूटक- मजदूर	1. नैमित्तिक मजदूर (हरि०)
Casual Leave	1. आकस्मिक- छुट्टी	1. आकस्मिक- छुट्टी/ आकस्मिक अवकाश	1. आकस्मिक- छुट्टी	1. आकस्मिक- छुट्टी	1. आकस्मिक- छुट्टी, आकस्मिक- अवकाश	1. आकस्मिक- छुट्टी (हरि०)
Casual Vacancy	1. आकस्मिक- रिक्ति	1. आकस्मिक- रिक्ति	1. आकस्मिक- रिक्ति	1. आकस्मिक- रिक्ति	1. आकस्मिक- रिक्ति, आकस्मिक- रिक्ति-स्थान	1. आकस्मिक- रिक्ति (हरि०)
Catalogue	1. ग्रन्थ-सूची/ सूची-पत्र	1. ग्रन्थ-सूची/ सूची-पत्र	1. सूची, सूची-पत्र, विवरण, पत्रिका	1. ग्रन्थ-सूची, सूची-पत्र	1. सूची, सूची-पत्र	1. ग्रन्थ-सूची/ सूची-पत्र (हरि०)
Catch word	1. सूचक शब्द	1. सूचक शब्द	1. सूचक शब्द	1. सूचक शब्द, पकड शब्द	1. सूचक शब्द	1. सूचक शब्द (हरि०)
Category	1. वर्ग/श्रेणी/ दर्जा	1. वर्ग/श्रेणी/ दर्जा	1. वर्ग	1. प्रवर्ग/कोटि	1. वर्ग, प्रवर्ग,	1. वर्ग, (हरि०)

1	2	3	6	7
	कोटि	कोटि	ार ... टे	दर्जा, कोटि (हरि०)
Caution	1. खबरदार/ सावधान	1. सावधान/ खबरदार	1. खबरदार, सावधान, सतर्क, चेतावनी, सावधान	1. खबरदार, सावधान
	2. सावधानी	2. सावधानी	2. सावधानी, सतर्कता	2. सावधानी (हरि०)
Caution money	1. अवधान-द्रव्य	1. अवधान-द्रव्य	1. प्रतिभूति धन	1. अवधान-द्रव्य (हरि०)
Celebration	1. समारोह	1. समारोह	1. समारोह, उत्सव, अनुष्ठान	1. समारोह, उत्सव, समारम्भ (हरि०)
Cell	1. कोष्ठ/कक्ष/ प्रकोष्ठ	1. कोष्ठ, कक्ष, प्रकोष्ठ	1. कोष्ठ, सेल, कोठरी	1. कोष्ठ/कक्ष/ प्रकोष्ठ (हरि०)
Censure	1. परिनिन्दा, निन्दा प्रस्ताव	1. परिनिन्दा	1. निन्दा करना, निन्दा, अधिक्षेप	1. निन्दा, परिनिन्दा, निन्दा करना (हरि०)
Censure motion	1. निन्दा प्रस्ताव	1. निन्दा प्रस्ताव	1. निन्दा प्रस्ताव	1. परिनिन्दा, निन्दा प्रस्ताव (हरि०)
Census	1. जनगणना	1. जनगणना, मर्दूम शुमारी	1. जनगणना, गणना	1. निन्दा का प्रस्ताव, निन्दा प्रस्ताव (हरि०)
			2. निकाय	1. जनगणना (हरि०)
			1. समवधान, चेतावनी, सावधान	
			2. सावधानी	
			1. अवधान घन	
			1. समारोह, उत्सव, अनुष्ठान	
			2. कोशाय/कोशिका	
			1. परिनिन्दा, परिनिन्दन, परिनिन्दा- करना	
			1. परिनिन्दा- प्रस्ताव	
			1. जनगणना, गणना	

1	2	3	4	5	6	7
Central	1. केन्द्रीय	1. केन्द्रीय	1. केन्द्रीय	1. केन्द्रीय	1. केन्द्रीय	1. केन्द्रीय
Centre	1. केन्द्र	1. केन्द्र	1. केन्द्र	1. केन्द्र, मध्य	1. केन्द्र, मध्य, बीचोबीच	1. केन्द्र (हरि०)
Certificate	1. प्रमाण-पत्र	1. प्रमाण-पत्र	1. प्रमाण-पत्र	1. प्रमाण-पत्र	1. प्रमाण-पत्र	1. प्रमाण-पत्र (हरि०)
Certificate —, Character	1. चरित्र प्रमाण- पत्र	1. चरित्र प्रमाण- पत्र	1. चरित्र प्रमाण- पत्र	1. चरित्र प्रमाण- पत्र	1. चरित्र प्रमाण- पत्र	1. चरित्र प्रमाण- पत्र (हरि०)
Certificate —, Last Pay	1. अन्तिम वेतन- पत्र	1. अन्तिम वेतन- पत्र	1. अन्तिम वेतन- पत्र	1. अन्तिम वेतन- पत्र	1. अन्तिम वेतन- पत्र	1. अन्तिम वेतन- पत्र (हरि०)
Certificate of competence	1. सक्षमता प्रमाण- पत्र	1. समर्थता- प्रमाण-पत्र	1. समर्थता प्रमाण पत्र	1. सक्षमता प्रमाण-पत्र	1. समर्थता- प्रमाण पत्र	1. सक्षमता प्रमाण-पत्र (हरि०)
Certificate of fitness	1. आरोग्य-प्रमाण- पत्र	1. आरोग्य-प्रमाण- पत्र	1. स्वस्थता प्रमाण पत्र/प्रमाणक	1. स्वस्थता/आरोग्य प्रमाण पत्र	1. आरोग्य- प्रमाण-पत्र	1. आरोग्य प्रमाण- पत्र
Certification	1. प्रमाणन/ प्रमाणीकरण	1. प्रमाणन/ प्रमाणीकरण	1. प्रमाणन, प्रमाण पत्र देना	1. प्रमाणन	1. प्रमाणन, प्रमाणीकरण	1. प्रमाणन/ प्रमाणीकरण (हरि०)
Certified copy	1. प्रमाणित प्रति/ प्रमाणित नकल	1. प्रमाणित-प्रति/ प्रमाणित नकल	1. प्रमाणित प्रति	1. प्रमाणित प्रति, नकल	1. प्रमाणित- प्रतिलिपि	1. प्रमाणित प्रति/ प्रमाणित नकल (हरि०)
Chairman	1. सभापति/	1. सभापति,	1. सभापति,	1. सभापति/ ...	1. अध्यक्ष/ ...

1	2	3	4	5	6	7
	अध्यक्ष		अध्यक्ष	अध्यक्ष, चैंयरमैन	अध्यक्ष	समाधिपति (हरि०)
Chancellor	1. कुलाधिपति	1. कुलाधिपति, कुलपति	1. कुलाधिपति, कुलपति	1. कुलपति 2. न्यायेश 3. महाग्यायेश 4. महामात्य	1. कुलाधिपति (हरि०)
Chancellor —, Pro	1. समकुलाधिपति	1. समकुलाधिपति	1. समकुलाधिपति	1. समकुलाधिपति	1. समकुलाधिपति (हरि०)
Chancellor —, Pro-vice	1. सम-कुलपति	1. सम-कुलपति	1. सम-कुलपति	1. सम-कुलपति	1. सम-कुलपति (हरि०)
Chancellor —, Vice	1. कुलपति	1. कुलपति	1. कुलपति	1. कुलपति	1. कुलपति	1. कुलपति (हरि०)
Change sl	1. परिवर्तन-पर्ची	1. परिवर्तन-पर्ची	1. परिवर्तन-पर्ची	1. परिवर्तन-पर्ची	1. परिवर्तन-पर्ची	1. परिवर्तन-पर्ची (हरि०)
Channel	1. माध्यम/ सरणि	1. माध्यम	1. माध्यम/ सरणि 2. प्रणाली, बरह्ना, शूल 3. जलसरणी	1. माध्यम/ सरणि 2. धारापथ 3. जलसरणी, नाला	1. पाट 2. कुलिका, छोटी नहर, जल सरणि 3. प्रवाह, जल-प्रवाह 4. मार्ग, परिपाटी	1. माध्यम, सरणि (हरि०)
Channel —, Through proper	1. उचित- माध्यम से	1. उचित- माध्यम से	1. उचित- माध्यम से	1. उचित, माध्यम से	1. उचित- माध्यम से	1. उचित- माध्यम से (हरि०)

	1	2	3	4	5	6	7
Character roll	1. चरित्र पुस्तक/ चरित्र पुस्तिका	1. चरित्र पुस्तक	1. चरित्र पुस्तक	1. चरित्र पुस्तक	1. चरित्र पुस्तक	1. चरित्र पत्रो, चरित्रावली, चरित्र-सुप्तिहा, चरित्र-पत्र	1. आचरण-पत्रो (हरि०)
Charge	(समा) 1. चार्ज 2. खर्च/प्रभार 3. कार्यभार 4. आरोप (क्रिया) 1. आरोप लगाना 2. चार्ज करना	(समा) 1. चार्ज 2. खर्च/प्रभार 3. कार्यभार 4. आरोप (क्रिया) 1. आरोप लगाना 2. चार्ज करना 3. भार साधन	(समा) 1. चार्ज 2. खर्च/प्रभार 3. कार्यभार 4. आरोप (क्रिया) 1. आरोप लगाना 2. चार्ज करना	(समा) 1. चार्ज 2. खर्च/प्रभार 3. कार्यभार 4. आरोप (क्रिया) 1. आरोप लगाना 2. चार्ज करना	(समा) 1. चार्ज 2. खर्च/प्रभार 3. कार्यभार 4. आरोप (क्रिया) 1. आरोप लगाना 2. चार्ज करना	(समा) 1. चार्ज 2. खर्च/प्रभार 3. कार्यभार 4. आरोप 5. भार साधन (क्रिया) 1. दोषारोपण करना आरोप लगाना 2. चार्ज करना 3. भारित करना, काम मौपना	(समा) 1. चार्ज 2. खर्च/प्रभार 3. कार्यभार 4. आरोप 5. भार साधन (क्रिया) 1. आरोप लगाना (हरि०) 2. चार्ज लगाना (हरि०)
Charge —, Assumption of	1. कार्यभार- ग्रहण	1. कार्यभार- ग्रहण	1. कार्यभार- ग्रहण	1. कार्यभार- ग्रहण	1. कार्यभार- ग्रहण	1. कार्यभार- ग्रहण	1. कार्यभार- ग्रहण (हरि०)
Charge —, Relinquishment of	1. कार्यभार- त्याग	1. कार्यभार- त्याग	1. कार्यभार- त्याग	1. कार्यभार- त्याग	1. कार्यभार- त्याग	1. कार्यभार- त्याग	1. कार्यभार- त्याग (हरि०)
Charge report	1. कार्यभार- रिपोर्ट	1. कार्यभार- रिपोर्ट	1. कार्यभार- रिपोर्ट	1. कार्यभार- रिपोर्ट	1. कार्यभार- रिपोर्ट	1. कार्यभार- रिपोर्ट	1. कार्यभार- रिपोर्ट (हरि०)
Charge sheet	1. आरोप-पत्र	1. आरोप-पत्र	1. आरोप-पत्र	1. आरोप-पत्र	1. आरोप-पत्र	1. आरोप-पत्र, दोषारोपण-पत्र	1. आरोप-पत्र (हरि०)

1	2	3	4	5	6	7
Cheque	1. चेक	1. चेक	1. चेक	1. चेक	1. चेक	2. प्रभार-पत्र, कार्यभार-पत्र
Cheque Bearer	1. धनीजोग चेक	1. धनीजोग चेक, वाहकदेय चेक	1. धनीजोग चेक, वाहकदेय चेक	1. धनीजोग चेक, वाहक चेक	1. धनीजोग चेक, वाहक चेक	1. चेक (हरि०) 1. धनीजोग चेक (हरि०)
Cheque Crossed	1. शाहजोग चेक	1. शाहजोग चेक, नामदेय चेक	1. शाहजोग चेक, नामदेय चेक	1. शाहजोग चेक, नामदेय चेक	1. शाहजोग चेक, रेखित चेक	1. शाहजोग चेक (हरि०)
Cheque En orsed	1. बेचान चेक	1. बेचान चेक	1. बेचान चेक	1. बेचान चेक	1. बेचान चेक, पृष्ठांकित चेक	1. बेचान चेक (हरि०)
Cheque Order	1. नामजोग- चेक	1. नामजोग- चेक, आदेश चेक	1. नामजोग- चेक	1. नामजोग- चेक	1. नामजोग चेक, आदेशी चेक, आज्ञा-धनादेश	1. नामजोग चेक (हरि०)
Chief	1. मुख्य/प्रमुख	1. मुख्य/प्रमुख	1. मुख्य/प्रमुख	1. मुख्य/प्रमुख	1. मुख्य, प्रमुख, मुखिया, प्रधान, नायक	1. मुख्य/प्रमुख (हरि०)
Chronological order	1. काल-क्रम	1. काल-क्रम	1. काल-क्रमानुसार/ कालक्रम से	1. कालक्रम	1. काल-क्रम, काल-क्रमानुसार, तिथि क्रमानुसार	1. काल-क्रम (हरि०)
Cipher (cypher)	1. बीज लेख 2. शून्य/सिफर	1. बीज लेख 2. शून्य/सिफर	1. बीजांक/बीज- लेख/बीजक — 2. शून्य/सिफर	1. बीज लेख/ गुड लेख	1. बीज लेख, गुड लेख, मुफ्त लिपि 2. शून्य	1. बीज लेख 2. शून्य/सिफर (हरि०)
Circle	1. इलाका, अंचल	1. इलाका, अंचल	1. हलका	1. हलका	1. इलाका, अंचल हलका	1. इलाका/अंचल (हरि०)

	1	2	3	4	5	6	7
				2. मण्डल/परिमण्डल 3. वृत्त	2. परिमण्डल 3. सर्किट	2. मंडल 3. वृत्त/वक्कर सगाना, वक्कर काटना	
Circular	1. गश्ती चिट्ठी/ परिपत्र	1. गश्ती चिट्ठी/ परिपत्र	1. गश्ती चिट्ठी/ परिपत्र	1. गश्ती चिट्ठी/ परिपत्र	1. गश्ती चिट्ठी/ परिपत्र 2. गोल/वृत्त	1. गश्ती चिट्ठी/ परिपत्र	1. परिपत्र (हरि०)
Circulation	1. परिचालन	1. परिचालन	1. परिचल/चल	1. परिचल/चल 2. चाल/चलन	1. परिचालन 2. परिवहन	1. परिचलन (as, of a bank note) 2. घुमाना, परिवहन प्रसार (as, of notice) 3. संचार, अभिसरण (as, of blood) 4. छपत, प्रसार, प्रचार (as, of a news paper)	1. परिचालन (हरि०)
Circumstances	1. परिस्थितियाँ	1. परिस्थितियाँ	1. परिस्थिति	1. परिस्थिति	1. परिस्थिति	1. परिस्थितियाँ	1. परिस्थितियाँ (हरि०)
Citation	1. उद्धरण 2. विरुद्धपत्र	1. उद्धरण 2. विरुद्धपत्र	1. उद्धरण/हवाला 2. विरुद्धपत्र 3. सम्मेलन/आह्वान 4. वाचन	1. उद्धरण/हवाला 2. विरुद्ध/विरुद्धपत्र	1. उद्धरण/श्रोद्धरण 2. विरुद्ध/विरुद्धपत्र	1. उद्धरण, हवाला, दृष्टान्त, प्रमाण 2. विरुद्ध-उदाहरण	1. उद्धरण 2. विरुद्धपत्र

1	2	3	4	5	6	7
Civil	1. सिविल	1. सिविल	1. सिविल/ असैनिक 2. दीवानी 3. नागरिक/सभ्य/ शिष्ट	1. सिविल/ असैनिक 2. दीवानी 3. नागरिक	1. सिविल/ असैनिक 2. दीवानी 3. सभ्य 4. सामाजिक	1. सिविल(हरि०)
Claim	1. दावा	1. दावा	1. दावा/अध्ययन	1. दावा	1. दावा 2. मांगना, माँग करना, अध्ययना करना, स्वस्था- धिकार प्रदर्शित करना	1. दावा (हरि०)
Clarification	1. स्पष्टीकरण	1. स्पष्टीकरण	1. स्पष्टीकरण	1. स्पष्टीकरण	1. स्पष्टीकरण, सफ़ाई 2. विभूद्धीकरण	1. स्पष्टीकरण (हरि०)
Classification	1. वर्गीकरण	1. वर्गीकरण	1. वर्गीकरण	1. वर्गीकरण 2. श्रेणीकरण/ श्रेणी-भाजन	1. वर्गीकरण 2. श्रेणीकरण (Edu)	1. वर्गीकरण (हरि०)
Clause	1. खंड	1. खंड	1. खंड 2. उपवाक्य	1. खंड 2. वाक्य-खंड	1. खंड, पद, चरण 2. वाक्यांश	1. खंड (हरि०)
Clear day	1. पूरा दिन	1. पूरा दिन	1. पूरा दिन	1. पूरा दिन	1. पूर्ण दिवस, पूरे दिन, पूर्ण दिन	1. पूरा दिन (हरि०)
Clear vacancy	1. स्पष्ट रिक्ति	1. स्पष्ट रिक्ति, स्पष्ट रिक्त-स्थान	1. स्पष्ट रिक्ति/ पूर्ण रिक्ति	1. स्पष्ट रिक्ति	1. स्पष्ट रिक्ति, रपायी रिक्ति, अबाध रिक्ति	1. स्पष्ट रिक्ति (हरि०)

1	2	3	4	5	6	7
Clerical error	1. लेखन अशुद्धि/ लेखन त्रुटि/ लिखाई की भूल	1. लेखन अशुद्धि/ लेखन त्रुटि/ लिखाई की भूल	1. लेखन अशुद्धि	1. लिपिक अशुद्धि	1. लिपिक-दोष	1. लिखाई की भूल (हरि०)
Clerical staff	1. लिपिक वर्ग	1. लिपिक वर्ग	1. लिपिक वर्ग	1. लिपिक वर्ग	1. लिपिक वर्ग	1. लिपिक वर्ग (हरि०)
Clerk	1. क्लर्क/लिपिक	1. लिपिक/क्लर्क	1. लिपिक/क्लर्क	1. लिपिक	1. लिपिक/क्लर्क	1. क्लर्क/लिपिक (हरि०)
Clerk —, Assistant	1. सहायक क्लर्क	1. सहायक लिपिक	1. सहायक लिपिक	1. सहायक लिपिक	1. सहायक लिपिक	1. सहायक क्लर्क (हरि०)
Clerk —, chief	1. मुख्य क्लर्क	1. मुख्य लिपिक	1. मुख्य लिपिक	1. मुख्य लिपिक	1. मुख्य लिपिक	1. मुख्य लिपिक (हरि०)
Clerk —, Head	1. प्रधान क्लर्क	1. प्रधान क्लर्क	1. प्रधान क्लर्क, प्रधान लिपिक	1. प्रधान लिपिक, प्रधान क्लर्क	1. प्रधान लिपिक	1. प्रधान क्लर्क (हरि०)
Closing Balance	1. अन्तशेष, रोकड़ बाकी	1. अन्तशेष/ रोकड़ बाकी	1. अन्तशेष/ दृतिशेष/ रोकड़ बाकी	1. अन्तशेष/ दृतिशेष/ रोकड़ बाकी	1. रोकड़ बाकी, अन्तिम रोकड़	1. रोकड़ बाकी, अन्तिम रोकड़ (हरि०)
Closing date	1. अन्तिम- तारीख	1. अन्तिम तारीख	1. अन्तिम दिनांक	—	1. अन्तिम तारीख	1. अन्तिम तारीख (हरि०)
Closure	1. समाप्ति/ समापन	1. समाप्ति/ समापन	1. समाप्ति/अन्त	1. समाप्ति/ समापन, बंद करना/बंदी	1. समाप्ति, समापन, बन्दो, अन्त, सवरण	1. समाप्ति (हरि०)
Code	1. सहिता 2. कोड/सकेत	1. सहिता 2. कोड/सकेत	1. सहिता 2. कोड/सकेत/	1. सहिता 2. कूट/साकेतिक	1. सहिता 2. कोड, सकेत,	1. सहिता 2. कोड/सकेत (हरि०)

1	2	3	4	5	6	7
Column	1. स्तम्भ/धाना	1. स्तम्भ/धाना	1. स्तम्भ/दण्ड/धाना/ धम्मा	1. स्तम्भ/धाना/ धम्मा	1. धाना, रक्षम्भ	1. स्तम्भ/धाना (हरि०)
			2. कासय (गुलित्त)	2. —	2. कासय (Accounting)	
					3. रक्षम्भ	
Command	1. कमान	1. कमान	1. हुकुम	1. कमान	1. कमान	1. कमान
	2. समादेश	2. समादेश	2. समादेश	2. समादेश	2. समादेश, सञ्चालन, आज्ञा	2. समादेश (हरि०)
Commemo- ration	1. स्मारक	1. स्मारक	1. स्मृति/स्मारक	1. —	1. स्मारक, 2. उत्सव, समारोह, स्मरणोत्सव	1. स्मारक (हरि०)
Commencement	1. प्रारम्भ	1. प्रारम्भ	1. प्रारम्भ	1. प्रारम्भ	1. प्रारम्भ, आरम्भ	1. प्रारम्भ, आरम्भ (हरि०)
Commensurate	1. अनुकूप	1. अनुकूप	1. अनुकूप/ समानुपाती	1. सम्मित	1. अनुकूप	1. अनुकूप (हरि०)
Comment	1. टीका/टिप्पणी	1. टीका/टिप्पणी	1. टीका/ आलोचना/ टिप्पणी	1. टीका-टिप्पणी	1. टिप्पणी, टीका-टिप्पणी	1. टीका-टिप्पणी (हरि०)
				2. — (क्रि०) टीका करना	2. टीका, समालोचना (क्रि०) टिप्पणी देना, टीका-टिप्पणी करना	

	1	2	3	4	5	6	7
Commentary —, Running	1. चल विवरण, चल वृत्तांत, आँखों देखा- हाल	1. चल विवरण, चल वृत्तांत, आँखों देखा- हाल	1. साथ-साथ टीका/अनुपद टीका	—	1. चल विवरण, चल वृत्तांत, आँखों देखा- हाल	1. आँखों देखा- हाल (हरि०)	
Commentator	1. विवरणकार 2. टीकाकार	1. विवरणकार 2. टीकाकार	1. वृत्तकार 2. टीकाकार	1. वृत्तकार 2. टीकाकार	1. व्याख्याता 2. टीकाकार, समालोचक, भाष्यकार, वृत्तवक्ता 3. वृत्तभाषक	—	
Commission	1. आयोग/कमीशन 2. दलाली/कमीशन आदत	1. आयोग/कमीशन 2. दलाली/कमीशन	1. आयोग 2. छूट/कमीशन 3. कृत 4. कायदेश	1. आयोग/कमीशन 2. कमीशन 3. करना 4. समाप्तपत्रि	1. आयोग/कमीशन 2. कमीशन 3. करना 4. समाप्तपत्रि	1. आयोग (हरि०) 2. दलाली कमीशन, आइत, बट्टा, छूट, दस्तूरी 3. (Criminal law) करना, कृत, किया जाना	1. आयोग (हरि०)
Commission —, Bring into	1. प्रवर्तन करना	1. प्रवर्तन करना	1. कार्यादिष्ट करना	—	1. प्रवर्तन करना	—	
Commission —, Emergency	1. आपाती आयोग, आपाती- कमीशन	1. आपाती आयोग, आपाती- कमीशन	1. आपाती आयोग	1. आपाती आयोग, आपाती- समाप्तपत्रि	1. आपाती आयोग, आपाती- समाप्तपत्रि	1. आपाती आयोग (हरि०)	

५

1	2	3	4	5	6	7
Commission —, Temporary	1. अस्थायी-कमीशन	1. अस्थायी-आयोग/अस्थायी-कमीशन	1. अस्थायी आयोग	1. अस्थायी आयोग/अस्थायी-समाज्ञापित	1. अस्थायी आयोग	1. अस्थायी-कमीशन (हरि०)
Commission of Inquiry	1. जाँच आयोग	1. जाँच आयोग	1. जाँच आयोग	1. जाँच आयोग/जाँच कमीशन	1. जाँच आयोग	1. जाँच आयोग (हरि०)
Commissioner	1. आयुक्त/कमिश्नर	1. आयुक्त/कमिश्नर	1. आयुक्त/कमिश्नर	1. आयुक्त/कमिश्नर 2. सभासद	1. कमिश्नर/आयुक्त	1. कमिश्नर
Commit	1. करना 2. सुदुर्द करना/भेजना	1. करना 2. सुदुर्द करना/भेजना	1. करना 2. सुदुर्द करना/भेजना	1. करना 2. सुदुर्द करना/सौपना	1. करना 2. सुदुर्द करना, सौपना, प्रेषित करना, उपासण	—
Committee	3. वचनबद्ध होना/वचनबद्ध करना	3. वचनबद्ध होना/वचनबद्ध करना	—	3. वचनबद्ध होना	3. वचनबद्ध करना	—
Communication	1. समिति 1. संचार 2. समूचना/सदेश 3. पत्रादि व्यवहार 4. संप्रेषण	1. समिति 1. संचार 2. समूचना/सदेश 3. पत्रादि व्यवहार 4. संप्रेषण	1. समिति 1. संचार/मातायात 2. समूचना/सदेश 3. पत्रादि व्यवहार 4. संप्रेषण 5. संपर्क	1. समिति/कमेटी 1. संचार/संचारण 2. समूचना/सदेश 3. पत्रादि 4. — 5. संपर्क	1. समिति 1. संचार, सबद्वर्त, सवाद-सबहून 2. समूचना, संचार-पत्र 3. पत्र-व्यवहार 4. — 5. संपर्क	1. समिति (हरि०) 1. संचार (हरि०)
Communique	1. विज्ञापित	1. विज्ञापित	1. विज्ञापित	1. विज्ञापित	1, विज्ञापित, सूचना	1. विज्ञापित (हरि०)

1	2	3	4	5	6	7
Commutation	1. परिवर्तन 2. लघूकरण	1. परिवर्तन 2. लघूकरण/ परिवर्तन	1. परिवर्तन 2. लघूकरण/ कम करना 3. राशिघन/ राशिमूल्य/ राशीकरण 4. निष्क्रय (वन)	1. परिवर्तन/ परिणति 2. लघूकरण	1. परिवर्तन, रूपान्तर, परिणति 2. कम करना, लघूकरण 3. सराशि दान एकराशि दान	1. परिवर्तन (हरि०) 1.2. रूपान्तरण (Change of one thing for another) (विधि)
Comparative statement	1. तुलनात्मक- विवरण	1. तुलनात्मक- विवरण	1. तुलनात्मक- विवरण	1. तुलनात्मक- विवरण	1. तुलनात्मक- विवरण	1. तुलनात्मक- विवरण(हरि०)
Comparison	1. तुलना 2. मिलान	1. तुलना 2. मिलान	1. तुलना 2. मिलान	1. तुलना 2. मिलान	1. तुलना 2. मिलान	1. तुलना 2. मिलान(हरि०)
Compartment	1. उपखंड/कक्ष/ खाना/डिब्बा	1. उपखंड/कक्ष/ खाना/डिब्बा	1. उपकक्ष/खंड/ कोष्ठ/कक्ष/ कम्पाटमेंट	—	1. कोष्ठ, कमरा, प्रकोष्ठ, डब्बा, सविभाग, खण्ड, विभाग	—
Compassionate	1. अनुकम्पा	1. अनुकम्पा	1. अनुकम्पा	1. अनुकम्पा	1. अनुकम्पा	1. अनुकम्पा (हरि०)
Compatible	1. सगत, अनुरूप	1. सगत, अनुरूप	1. सगत, अनुरूप	1. सगत, अनुरूप	1. अनुरूप, अनुकूल	—
Compel	1. विवश करना	1. विवश करना	1. विवश करना/ बाध्य करना	1. विवश करना/ बाध्य करना/ मजबूर करना	1. विवश करना, मजबूर करना, बाध्य करना	1. विवश करना (हरि०)
Compensation	1. प्रतिपूर्ति,	1. प्रतिकर,	1. प्रतिकर/	1. प्रतिकर/	1. प्रतिकर,	1. मुआवजा(हरि०)

	1	2	3	4	5	6	7
		ଅନିଷ୍ଟ, ସୁଧାବତୀ, ଅନିଷ୍ଟ	ସୁଧାବତୀ, ଅନିଷ୍ଟ	ସୁଧାବତୀ, ଅନିଷ୍ଟ	ସୁଧାବତୀ, ଅନିଷ୍ଟ	ସୁଧାବତୀ, ଅନିଷ୍ଟ	
Compensatory allowance	1 ଅନିଷ୍ଟ ଧର୍ମ, ସୁଧାବତୀ ଧର୍ମ, ଅନିଷ୍ଟ ଧର୍ମ	1 ଅନିଷ୍ଟ ଧର୍ମ, ସୁଧାବତୀ ଧର୍ମ, ଅନିଷ୍ଟ ଧର୍ମ	1 ଅନିଷ୍ଟ ଧର୍ମ, ସୁଧାବତୀ ଧର୍ମ, ଅନିଷ୍ଟ ଧର୍ମ	1 ଅନିଷ୍ଟ ଧର୍ମ, ସୁଧାବତୀ ଧର୍ମ, ଅନିଷ୍ଟ ଧର୍ମ	1 ଅନିଷ୍ଟ ଧର୍ମ, ଅନିଷ୍ଟ ଧର୍ମ	1 ଅନିଷ୍ଟ ଧର୍ମ, ଅନିଷ୍ଟ ଧର୍ମ, ଅନିଷ୍ଟ ଧର୍ମ, ଅନିଷ୍ଟ ଧର୍ମ	---
Competence	1 ଉପାଦାନ (ସାଧାରଣ) ଉପାଦାନ	1 ଉପାଦାନ ଉପାଦାନ	1 ଉପାଦାନ ଉପାଦାନ	1 ଉପାଦାନ ଉପାଦାନ	1 ଉପାଦାନ, ଉପାଦାନ, ଉପାଦାନ	1 ଉପାଦାନ, ଉପାଦାନ, ଉପାଦାନ	1 ଉପାଦାନ (ଅନିଷ୍ଟ)
Competitive examination	1 ଅନିଷ୍ଟ/ଅନିଷ୍ଟ- ଅନିଷ୍ଟ	1 ଅନିଷ୍ଟ/ଅନିଷ୍ଟ- ଅନିଷ୍ଟ	1 ଅନିଷ୍ଟ/ଅନିଷ୍ଟ- ଅନିଷ୍ଟ	1 ଅନିଷ୍ଟ/ଅନିଷ୍ଟ- ଅନିଷ୍ଟ	1 ଅନିଷ୍ଟ/ଅନିଷ୍ଟ- ଅନିଷ୍ଟ, ଅନିଷ୍ଟ/ଅନିଷ୍ଟ- ଅନିଷ୍ଟ, ଅନିଷ୍ଟ/ଅନିଷ୍ଟ- ଅନିଷ୍ଟ	1 ଅନିଷ୍ଟ/ଅନିଷ୍ଟ- ଅନିଷ୍ଟ, ଅନିଷ୍ଟ/ଅନିଷ୍ଟ- ଅନିଷ୍ଟ, ଅନିଷ୍ଟ/ଅନିଷ୍ଟ- ଅନିଷ୍ଟ	1 ଅନିଷ୍ଟ/ଅନିଷ୍ଟ- ଅନିଷ୍ଟ (ଅନିଷ୍ଟ)
Completion	1 ଉପାଦାନ	1 ଉପାଦାନ	1 ଉପାଦାନ	1 ଉପାଦାନ	1 ଉପାଦାନ	1 ଉପାଦାନ	1 ଉପାଦାନ (ଅନିଷ୍ଟ)
Complement	1 ସୁଧାବତୀ	1 ସୁଧାବତୀ	1 ସୁଧାବତୀ	1 ସୁଧାବତୀ	1 ସୁଧାବତୀ	1 ସୁଧାବତୀ	1 ସୁଧାବତୀ (ଅନିଷ୍ଟ)
Completion	1 ସାଧାରଣ	1 ସୁଧାବତୀ, ସୁଧାବତୀ, ଉପାଦାନ	1 ସାଧାରଣ, ଉପାଦାନ	1 ସୁଧାବତୀ, ଉପାଦାନ	1 ସୁଧାବତୀ, ସୁଧାବତୀ, ଉପାଦାନ	1 ସୁଧାବତୀ, ସୁଧାବତୀ, ଉପାଦାନ	1 ସାଧାରଣ (ଅନିଷ୍ଟ)
Compliance	1 ଅନିଷ୍ଟ/ଅନିଷ୍ଟ, ଅନିଷ୍ଟ	1 ଅନିଷ୍ଟ/ଅନିଷ୍ଟ, ଅନିଷ୍ଟ	1 ଅନିଷ୍ଟ/ଅନିଷ୍ଟ, ଅନିଷ୍ଟ	1 ଅନିଷ୍ଟ/ଅନିଷ୍ଟ, ଅନିଷ୍ଟ	1 ଅନିଷ୍ଟ/ଅନିଷ୍ଟ, ଅନିଷ୍ଟ	1 ଅନିଷ୍ଟ/ଅନିଷ୍ଟ, ଅନିଷ୍ଟ, ସୁଧାବତୀ, ଅନିଷ୍ଟ	1 ଅନିଷ୍ଟ/ଅନିଷ୍ଟ, ଅନିଷ୍ଟ (ଅନିଷ୍ଟ)

1	2	3	4	5	6	7
Complicated	1. जटिल, उलझनदार	1. जटिल, उलझनदार	1. जटिल	—	1. जटिल	1. जटिल, उलझनदार (हरि०)
Complimentary	1. मानार्थ	1. मानार्थ, सम्मानार्थ	1. मानार्थ, प्रशंसार्थक	1. मानार्थ/ मानोपहार	1. मानार्थ 2. प्रशसनीय, भराहनीय, बधाई के योग्य, सहपूरक	1. मानार्थ (हरि०) 1. अनुपालन करना, पालन करना (हरि०)
Comply with	1. अनुपालन करना, पालन करना	1. अनुपालन करना	1. अनुपालन करना, पालन करना	1. अनुपालन करना	1. अनुपालन करना, पालन करना	1. अनुपालन करना, पालन करना (हरि०)
Composition	1. रचना, निर्माण 2. मिश्रण 3. समिश्रण 4. प्रशमन	—	1. रचना/कृति 2. मिश्रण — 4. प्रशमन 5. समक्षीता/ समाधान/ निपटारा 6. सरचना (वन)	1. रचना/गठन 2. मिश्रण — 3. समिश्रण — 5. समाधान	1. रचना/निर्माण, बनावट 2. मिश्रण/मिल- मिलावट — 5. समक्षीता/ निपटारा	—

	1	2	3	4	5	6	7
Compromise	1. समझौता	1. समझौता	1. समझौता	1. समझौता	1. समझौता	1. (सजा) सम- झौता, मध्यमार्ग, (क्रिया) समझौता करना	1. समझौता (हरि०)
Compulsory	1. अनिवार्य, बाध्य	1. अनिवार्य, बाध्य	1. अनिवार्य/बाध्य	1. अनिवार्य/बाध्यारमक/ बिबशयक	1. अनिवार्य/ बाध्यारमक/ बिबशयक	1. अनिवार्य, बाध्य, आबशयक	1. अनिवार्य (हरि०)
Concern	1. प्रतिष्ठान 2. सबध	1. प्रतिष्ठान 2. सबध	1. व्यापार सस्था/ फर्म	1. व्यापार सस्था/ फर्म 2. सबध/विषय/ कार्य	1. सस्था —	1. सस्था, व्यापारिक- सस्था 2. सबध, विषय, कार्य, व्यापार, घन्घा	—
Concessional rate	1. रियायती दर	1. रियायती दर	1. रियायती दर	1. रियायती दर	3. व्यप्रता 1. रियायती दर	3. चिन्ता 1. रियायती, मुविधापूर्ण	1. रियायती दर (हरि०)
Conciliation	1. मुलह	—	1. समझौता/मुलह	1. समझौता/मुलह	1. अनुरजक	1. मुलह, भेल-मिसाप, निपटारा, समझौता, समाधान, मसालहूत	1. मुलह (हरि०)
Conclusion	1. समापन	1. समापन	1. समापन	1. समापन 2. सराघन	1. समापन 2. सराघन	1. अन्त/समाप्ति	1. समापन

	2	3	4	5	6	7
	2. निश्चय/ परिणाम	2. निश्चय, परिणाम	2. निष्कर्ष/ परिणाम	2. निष्कर्ष	2. निश्चय, परिणाम, निष्कर्ष	2. निश्चय, परिणाम, निष्कर्ष
Conclusive	1. निर्णयात्मक, निर्णायक, निश्चायक, निश्चयात्मक	1. निर्णयात्मक, निर्णायक, निश्चायक निश्चयात्मक	1. निर्णयात्मक, निर्णायक, निश्चायक, निश्चयात्मक	1. निर्णायक, निश्चायक	3. उपसहार	1. निर्णायक निश्चायक,
Concurrence	1. सहमति	1. सहमति	1. सहमति	1. सहमति	1. सहमति	1. सहमति
Concurrent list	1. समवर्ती सूची	1. समवर्ती सूची	1. समवर्ती सूची	1. समवर्ती सूची	1. सहमति, सम्मति	1. सहमति
Condemn	1. अनुपयोगी घोषित करना	1. अनुपयोगी घोषित करना	1. बेकार, निष्प्रयोज्य ठहराना	1. निष्प्रयोज्य ठहराना	2. समाधिकार Law	(हरि०)
	2. दडनीय घोषित, करना	2. दडनीय घोषित, करना	2. मूल्यदड देना	2. दडित करना	1. समवर्ती सूची	—
	3. निन्दा करना	3. निन्दा करना	3. गहूणा करना, दोषी ठहराना	3. गहित करना	1. निष्प्रयोज्य ठहराना, पराकरण करना, निरर्थ घोषित करना	—
Condition	1. शर्त/प्रतिबध	1. शर्त/प्रतिबध	1. शर्त/प्रतिबध	1. शर्त/अनुबध	2. दण्डाभा देना, दड देना	
	2. दशा/स्थिति	2. दशा/स्थिति	2. दशा/अवस्था	2. दशा/अवस्था,	3. निन्दा करना, दोषी ठहराना	
					1. शर्त, प्रतिबध ठहराना	
					1. शर्त, प्रतिबध परिस्थिति,	
					2. दशा	(हरि०)

	1	2	3	4	5	6	7
					स्थिति	दशा, अवस्था, स्थिति	
Conditional	1. सशर्त	1. सशर्त	1. सशर्त/शते के साथ, सप्रतिबध	1. सशर्त/शते के साथ, सप्रतिबध	1. सशर्त, शर्ती	3. टोक करना, अवस्थारित-करना, दृष्टानुकूल अवस्था में लाना	1. सशर्त (हरि०)
Conduct	1. (सज्ञा)—आचरण	1. आचरण, कार्य-संचालन	1. आचरण/कार्य संचालन/निर्देशन	1. आचरण/संचालन, परिपालन	1. आचरण, संचालन, परिपालन	1. आचरण, आचार	1. आचरण (हरि०)
	(क्रिया)— कार्य संचालन-करना			(क्रि०)— संचालन करना	(क्रि०)— संचालन करना	2. व्यवहार 3. संचालन, अधिसंचालन, परिचालन (क्रिया)— चलाना, संचालन करना, परिचालन करना, संचालित करना	
Conference Hall	1. सम्मेलन भवन/ कॉन्फेंस हॉल	1. सम्मेलन भवन/ कॉन्फेंस हॉल	1. सम्मेलन भवन/ हॉल	1. सम्मेलन भवन/ हॉल	1. सम्मेलन भवन/ हॉल	1. सम्मेलन भवन, कॉन्फेंस हॉल	—

1	2	3	4	5	6	7
Conferred	1. प्रदत्त	1. प्रदत्त	1. प्रदत्त	1. प्रदत्त	1. प्रदत्त, दिया हुआ, अपित, प्रदान किया हुआ, प्रदान किया	1. प्रदत्त (हरि०)
Confession	1. सस्वीकृति	1. सस्वीकृति	1. सस्वीकृति, सस्वीकार, कबूल करना, अपराधायीकरण	1. सस्वीकृति	1. सम्मेलन किया, मचना की	—
Confidence	1. विश्वास, भरोसा	1. विश्वास, भरोसा	1. विश्वास, भरोसा, विश्रम्भ	1. विश्वास, प्रत्यय	1. सस्वीकृति, अपराध-स्वीकृति, अपराध-अंगीकरण, अपराध-स्वीकार, दोष-स्वीकार	—
Confidential	1. (पत्र)— गोपनीय 2. (व्यक्ति)— अवरग	1. गोपनीय (पत्र) 2. अवरग (व्यक्ति)	1. गोपनीय/गोपन 2. अवरग	1. गोपनीय, प्रात्ययिक 2. अवरग	1. विश्वास, भरोसा, विश्रम्भ	1. विश्वास, भरोसा (हरि०) 1. गोपनीय (हरि०)
Confirmation	1. पुष्टि	1. पुष्टि	1. पुष्टि/पुष्टीकरण 2. स्थायीकरण	1. पुष्टि/सपुष्टि	1. गोपनीय, गुप्त 2. अवरग, सविश्रम्भ, शूढ़ 3. विश्र्वस्त	1. गोपनीय (हरि०)
Confiscate	1. अधिहरण करना,	1. अधिहरण करना,	1. राज्यसात् करना,	1. राजसात् करना, अधिहरण	1. पुष्टि, पुष्टिकरण 2. स्थायीकरण, स्थिरीकरण 3. समपहरण करना,	1. पुष्टि (हरि०)

	1	2	3	4	5	6	7
		जट्ट करना	जम्हा करना	जम्ह करना		हरण करना, जम्हा करना, राज्यमानु करना	
Conformity	1. अनुस्वरता/ अनुसरण	1. अनुस्वरता/ अनुसरण	1. अनुस्वरता, अनुसारिता	1. अनुस्वरता	1. अनुस्वरता	1. अनुस्वरता, अनुसारिता	1. अनुस्वरता (हरि०)
Consecutive	1. क्रमिक/ सपातातर	1. क्रमिक/ सपातातर	1. क्रमिक, सपातातर	1. क्रमिक, सपातातर, क्रमानुगत	1. क्रमिक, सपातातर, क्रमानुगत	1. क्रमिक, सपातातर, निरन्तर, अविच्छिन्न	1. क्रमिक, सपातातर (हरि०)
Consent	1. (सगा) — सम्मति, सहमति (विद्या) — सहमत होना	1. सम्मति/सहमति (कि०) सहमत होना	1. सम्मति, सहमति	1. सम्मति	1. सम्मति (कि०) सम्मत होना, सम्मति देना	1. सम्मति, सहमति (कि०) सम्मति देना	1. सम्मति, सहमति (कि०) सम्मति देना
Consequence	1. परिणाम, फल	1. परिणाम, फल	1. परिणाम, फल	1. परिणाम, फल	1. परिणाम	1. परिणाम, फल, नतीजा	1. परिणाम, फल
Consequent	1. अनुवर्ती 2. परिणामी	1. अनुवर्ती 2. फलस्वरूप	1. अनुवर्ती 2. परिणामी, फलस्वरूप होने- वाला	1. अनुवर्ती 2. परिणामी, फलस्वरूप होने- वाला	— 2. परिणामी	— 2. परिणामी, फलस्वरूप	—
Consideration	1. विचार 2. प्रतिफल	1. विचार 2. प्रतिफल	1. विचार, ध्यान 2. प्रतिफल, उत्पत्त्य	1. विचार, ध्यान 2. प्रतिफल, उत्पत्त्य	1. विचार 2. प्रतिफल, प्रतिमूल्य, परसमन	1. विचार, विमर्श 2. प्रतिफल	1. विचार (हरि०)

	1	2	3	4	5	6	7
Consideration —, Under Consistent	1. विचाराधीन	1. विचाराधीन	1. विचाराधीन	1. विचाराधीन	1. विचाराधीन	1. विचाराधीन	1. विचाराधीन
Consolidated fund	1. सगत	1. सगत	1. सगत, अनुरूप 2. दृढ़, अविचल	1. सगत, अनुरूप 2. दृढ़, अविचल	1. सगत 2. अविचल	1. सगत, सुसगत	1. विचाराधीन (हरि०) 1. सगत (हरि०)
Constructive	1. सचित निधि, समेकित निधि	1. सचित निधि, समेकित निधि, स्वीकृत निधि, सघटित निधि	1. सचित निधि, समेकित निधि, स्वीकृत निधि, सघटित निधि	1. सचित निधि, समेकित निधि, स्वीकृत निधि, सघटित निधि	1. सचित निधि	1. सचित निधि	1. सचित निधि (हरि०)
Construe	1. रचनात्मक	1. रचनात्मक	1. रचनात्मक	1. रचनात्मक	1. रचनात्मक	1. रचनात्मक, विधायक 2. प्रतक्षित, सार्वेतिक 3. अन्वयाधित	1. रचनात्मक (हरि०)
Consultation	1. अर्थ लगाना, समझना	1. अर्थ लगाना, समझना	1. अर्थ लगाना, समझना	1. अर्थ लगाना, समझना	1. अर्थ लगाना, समझना	1. अर्थ करना, अर्थ निकालना, अन्वय करना, व्याख्या करना, समझना	—
Consume	1. परामर्श	1. परामर्श	1. परामर्श	1. परामर्श	1. परामर्श	1. परामर्श	1. परामर्श (हरि०)
Contact	1. उपभोग करना, उपभोग होना	1. उपभोग, उपभोग होना	1. उपभोग करना	1. उपभोग करना	1. उपभोग करना	1. उपभोग करना	—
	1. सस्पर्श, सम्पर्क, स्पर्श	1. सस्पर्श, सपर्क, स्पर्श	1. सस्पर्श, सपर्क	1. सस्पर्श, सपर्क	1. सस्पर्श, सस्पर्श, स्पर्श	1. सस्पर्श, सम्पर्क	—

	1	2	3	4	5	6	7
					(क्र०) सरकं स्थापित करना, संस्था में आना	(क्र०) सम्पदं स्थापित करना	
Contemplated	1. अपेक्षित	1. अपेक्षित	1. सकल्पित, अनुध्यात, आयोजित, विचाराधीन	1. अपेक्षित/ अनुध्यात	1. अपेक्षित, आयोजित, चिन्तित, परिकल्पित	—	
Contents	1. विषय-सूची	1. विषय-वस्तु	1. विषय-वस्तु, विषय-सूची,	1. विषय-सूची, विषय-वस्तु	1. विषय-सूची, विषय-वस्तु	1. विषय, विषय- वस्तु, अंकित सारं, विषय-सूची, अनुक्रमिका	—
	2 अन्तर्वस्तु	2. अन्तर्वस्तु	2. अन्तर्वस्तु	2. अन्तर्वस्तु	2. अन्तर्वस्तु	2. अन्तर्वस्तु, आश्रय, अन्तर्विषय, अन्तर की- वस्तुएं, समाविष्ट	
	3 अद्य	3. अद्य	3. अद्य	3. अद्य	3. अद्य	3. — 4. परिभा	
Context	1. सदर्भ, प्रकरण, प्रसंग	1. सदर्भ, प्रकरण, प्रसंग	1. सदर्भ, प्रकरण, प्रसंग	1. सदर्भ, प्रसंग, प्रकरण	1. सदर्भ, प्रसंग, प्रकरण	1. सदर्भ, प्रसंग	—
Contingencies	1. आकस्मिक-व्यय, कुटकर व्यय	1. आकस्मिक व्यय, कुटकर व्यय	1. आकस्मिक व्यय, कुटकर व्यय, प्रासंगिक व्यय	1. आकस्मिक व्यय, कुटकर व्यय, प्रासंगिक व्यय	1. आकस्मिक व्यय, कुटकर व्यय	1. आकस्मिक-व्यय, कुटकर-व्यय	—
					2. आकस्मिकताएँ समाप्यताएँ		

1	2	3	4	5	6	7
Contingency	1. विशेष स्थिति, आकस्मिकता, प्रासंगिकता	1. विशेष स्थिति, आकस्मिकता, प्रासंगिकता	1. विशेष स्थिति, आकस्मिकता	1. आकस्मिकता	1. विशेष स्थिति, आकस्मिकता, प्रासंगिकता, अनिश्चित करना	1. आकस्मिकता
Continuation sheet	1. अनुवर्ती कागज	1. अनुवर्ती कागज	2. अनिश्चित-घटना, आकस्मिक-बवसर	2. अनिश्चित-घटना	2. संयोग	
Contraband	1. निषिद्ध	1. अनुवर्ती कागज निषिद्ध	1. अनुवर्ती कागज, कम पत्र	1. अनुवर्ती कागज	3. भावी प्रसंग	—
		1. विनिषिद्ध, निषिद्ध	1. विनिषिद्ध, निषिद्ध	1. विनिषिद्ध	1. अनुवृत्ति पत्र, अनुवर्ती कागज	—
Contract	1. ठेका/सविदा	1. ठेका/सविदा	1. सविदा, ठेका	1. विनिषिद्ध वस्तु	1. निषिद्ध, प्रतिषिद्ध, विधि निषिद्ध, विनिषिद्ध	
Contradictory	1. विरोधात्मक विरोधी	1. ठेका/सविदा	2. नियत	3. प्रति व्यापार	1. ठेका, सविदा	1. ठेका, सविदा
		1. विरोधात्मक, विरोधी	1. विरोधात्मक, परस्पर विरोधी, विरोधी	1. ठेका/सविदा, ठेकापत्र		
Contrary	1. विपरीत, प्रतिकूल	1. विपरीत, प्रतिकूल	1. प्रतिकूल, विपरीत	1. विरोधात्मक, परस्पर विरोधी	1. व्यापारी, परस्पर विरोधी	1. विरोधात्मक, विरोधी(हरि०)
				1. प्रतिकूल, विपरीत	1. प्रतिकूल, विरुद्ध, जलद, अन्यथा	1. विपरीत, प्रतिकूल(हरि०)

	1	2	3	4	5	6	7
Contravention	1. उल्लंघन	1. उल्लंघन	1. उल्लंघन	1. उल्लंघन	1. उल्लंघन, प्रतिकूल	1. उल्लंघन, प्रतिकूलना- विरोधी	1. उल्लंघन (हरि०)
Contribution	1. अशदान 2. योगदान 3. अभिदान	1. अशदान 2. योगदान	1. अशदान 2. योगदान	1. अशदान 2. योगदान	1. अशदान 2. योगदान 3. अशुनूदान	1. अशदान 2. योगदान 3. अशुनूदान	1. अशदान 2. योगदान (हरि०)
Controlled price	1. नियंत्रित कीमत	1. नियंत्रित कीमत	1. नियंत्रित कीमत/ मूल्य	1. नियंत्रित कीमत/ मूल्य	1. नियंत्रित मूल्य	1. नियंत्रित मूल्य	1. नियंत्रित कीमत
Controversial	1. विवादास्पद	1. विवादास्पद	1. विवादास्पद	1. विवादास्पद	1. विवादास्पद	1. विवादास्पद, प्रतिवादास्पद	1. विवादास्पद (हरि०)
Convene	1. सयोजन करना, बुलाना	1. बुलाना, सयोजन करना	1. सयोजित करना	1. सयोजन करना, बुलाना	1. सयोजन करना, बुलाना	1. सयोजित करना, बुलाना, समाह्वान- करना, आमंत्रित करना	1. सयोजन करना, बुलाना (हरि०)
Convener	1. सयोजक	1. सयोजक	1. सयोजक	1. सयोजक	1. सयोजक	1. सयोजक 2. आमन्त्रक, समाह्वयता	1. सयोजक
Convenience Convention	1. सुविधा 1. परिपाटी, अभिसमय, रुढ़ि	1. सुविधा 1. परिपाटी, अभिसमय, रुढ़ि	1. सुविधा 1. परिपाटी, अभिसमय, रुढ़ि	1. सुविधा 1. परिपाटी, अभिसमय, रुढ़ि	1. सुविधा 1. परिपाटी, अभिसमय, रुढ़ि, रीति	1. सुविधा, सोकमें 1. अभिसमय, निरुद्धि, प्रचलित प्रथा, रुढ़ि	1. सुविधा (हरि०)

1	2	3	4	5	6	7
Cooperative	2. सभागम	2. समागम	2. समागम, ससमय, सम्मेलन	2. सभागम	2. समा, सम्मेलन, प्रसभा	1. सहकारिता
Co-opt	1. सहकारिता	1. सहकारिता	1. सहकारिता, सहकारी	1. सहकारिता/ सहकारी	1. सहकारिता, सहकारी	1. सहकारिता
Co-ordination	1. सहयोजित- करना	1. सहयोजित- करना	1. सहयोजित- करना	1. सहयोजित- करना	1. सहयोजित- करना, ले सेना, सहवरण करना	1. सहयोजित- करना (हरि०)
Copy	1. समन्वय, तालमेल	1. समन्वय, तालमेल	1. समन्वय, तालमेल	1. समन्वय, समन्वयन, तालमेल	1. समन्वय, सुसूत्रता, एकरूपता, सहयोग	—
Corporation	1. प्रतिलिपि/नकल	1. प्रतिलिपि/नकल	1. प्रतिलिपि/नकल	1. प्रति/नकल/ प्रतिलिपि	1. प्रतिलिपि/नकल, अनुकृति	1. प्रतिलिपि/नकल
Correction	2. प्रति	2. प्रति	2. प्रति	2. प्रतिकृति	2. प्रति, प्रतिकृति	2. प्रति
Correspond	1. नियम, कापरिषद	1. नियम	1. नियम, नगर नियम, नगर महापालिका	1. नियम	1. नियम, महानगरपालिका, महापालिका- नगर पालिका	1. नियम (हरि०)
	1. भूल-सुधार, सुधार	1. भूल-सुधार, सशोधन, शुद्धि	1. सशोधन, शुद्धि	1. सशोधन, शुद्धि, शोधन	1. सशोधन, शुद्धीकरण, दृष्ट	1. भूल-सुधार (हरि०)
	1. पत्र-व्यवहार करना	1. पत्र-व्यवहार करना	1. पत्र-व्यवहार करना	1. पत्र-व्यवहार करना, पत्राचार करना	1. पत्र-व्यवहार करना	—

1	2	3	4	5	6	7
	2. समरूप होना, मेल घाना, समान होना	2. समरूप होना, मेल घाना, समान होना	2. समरूप होना, मेल घाना, समान होना	2. मेल घाना, अनुरूप होना, समरूप होना, समान होना	2. अनुरूप होना सहायी होना, उपसहायी होना	
Correspondence	1. पत्र-व्यवहार	1. पत्र-व्यवहार	1. पत्र-व्यवहार	1. पत्र-व्यवहार, पत्राचार	1. पत्र-व्यवहार, तदनुकृपता	1. पत्र-व्यवहार (हरि०)
Correspondent	1. सहायदाता 2. सपत्नी	—	1. सहायदाता	1. सहायदाता 2. सम्पत्नी	1. सहायदाता	1. सहायदाता (हरि०)
Corresponding	1. तदनुकृप	1. तदनुकृप	1. तदनुकृप	1. तदनुकृप, समरूप उपसह, अनुसारी	1. तदनुकृप	1. तदनुकृप (हरि०)
Corrigendum	1. शुद्धि-पत्र	1. शुद्धि-पत्र	1. शुद्धि-पत्र, शुद्धि, संशोधन	1. शुद्धि-पत्र	1. शुद्धि-पत्र, भूल-मुधार	1. शुद्धि-पत्र
Corrupt practice	1. भ्रष्टाचार	1. भ्रष्टाचार, भ्रष्ट आचरण	1. भ्रष्टाचार	1. भ्रष्टाचार	1. भ्रष्टाचार, कदाचार, दूषित व्यवहार	1. भ्रष्टाचार (हरि०)
Cost	1. लागत	1. लागत	1. लागत, लागत मूल्य 2. व्यय, खर्च	1. लागत/परिव्यय	1. लागत, परिव्यय 2. ध्यय, खर्च	1. लागत
Council	1. परिषद्	1. परिषद्	1. परिषद्	1. परिषद् 2. सभा	1. परिषद्	1. परिषद् (हरि०)
Councillor	1. पापंद	—	1. परिषद्, पापंद 2. विधायक	1. परिषद्, पापंद	1. परिषद्, पारिषद्	1. पापंद (हरि०)
Counter	1. काउंटर, पटल	1. पटल, काउंटर	1. पटल, काउंटर	1. पटल, काउंटर	1. पटल, काउंटर	—

1	2	3	4	5	6	7
	2. प्रति	2. प्रति	2. प्रति	2. प्रति-प्रतिकूल, खडित करना	2. प्रति	
	3. गणित्र	3. गणित्र		3. जवाबी	3. गणित्र, गणना- फलक, गणक	
	4. गणक				4. विक्रम फलक	
Counter charge	1. प्रत्यारोप	1. प्रत्यारोप	1. प्रत्यारोप	1. प्रत्यारोप	1. प्रत्यारोप	1. प्रत्यारोप
Counter foil	1. प्रतिपत्र	1. दूसरी प्रति	1. प्रतिपत्र	1. प्रतिपत्र, अधकट्टी	1. प्रतिपत्र, प्रतिरूप, दूसरी प्रति, अधपत्रना, मुसन्ना	1. प्रतिपत्र (हरि०) 1. प्रतिपत्र (हरि०)
Counter signature	1. प्रति हस्ताक्षर	1. प्रति हस्ताक्षर	1. प्रति हस्ताक्षर	1. प्रति हस्ताक्षर	1. प्रति हस्ताक्षर, प्रमाणोकरण के हस्ताक्षर	1. प्रति हस्ताक्षर (हरि०)
Course	1. मार्ग, दिशा	1. मार्ग, दिशा	1. मार्ग, दिशा	1. मार्ग, पथ, पर्या, कोर्स	1. मार्ग, दिशा प्रकार, गति, पथमार्ग	—
	2. क्रम	2. क्रम	2. क्रम	2. अनुक्रम	2. क्रम	
	3. विधि/प्रक्रिया	3. विधि/प्रक्रिया	3. विधि, प्रक्रिया		3. स्तर, रद्दा	
	4. पाठ्यक्रम	4. पाठ्यक्रम	4. पाठ्यक्रम, शिक्षण क्रम		4. पाठ्यक्रम, शिक्षाक्रम,	
Court	1. न्यायालय/कोर्ट	1. न्यायालय	1. न्यायालय/ कचहरी/ अदालत/कोर्ट	1. न्यायालय, कचहरी, अदालत, कोर्ट	1. न्यायालय	1. न्यायालय/कोर्ट

1	2	3	4	5	6	7
Cover	1. आवरण, लिफाफा	1. आवरण, लिफाफा	1. आवरण, लिफाफा	1. आवरण, कवर, छावनी के भीतर जाना, समावेश करना	1. आवरण, आच्छादन, चेप्टन, ढक्कन	1. आवरण, सिफाफा (हरि०)
Covering letter	1. आवरण-पत्र	1. आवरण-पत्र	1. आवरण-पत्र सहपत्र	1. उपरि-पत्र, आवरण-पत्र	2. समाधन, आधार	—
Creation	1. सृजन	1. सृजन	1. सृजन	1. सृजन	3. हानि-रक्षा रक्षा-राशि	1. सृजन (हरि०)
Credence	1. प्रत्यय-पत्र	1. प्रत्यय-पत्र	1. प्रत्यय-पत्र	1. विश्वम्भ-पत्र	1. उपरि-पत्र, व्याख्या-पत्र	1. प्रत्यय-पत्र (हरि०)
—, Letter of Credential	1. प्रत्यय-पत्र	1. प्रत्यय-पत्र	1. प्रत्यय-पत्र	1. प्रत्यय-पत्र	1. प्रत्यय-पत्र	1. प्रत्यय-पत्र (हरि०)
Credibility	1. विश्वसनीयता	1. विश्वसनीयता	1. विश्वसनीयता	1. विश्वसनीयता	1. विश्वास्यता, प्रत्ययनीयता	1. विश्वसनीयता (हरि०)
Credit	1. श्रेय, मान्यता 2. उधार, साख 3. जमा	1. श्रेय, मान्यता 2. उधार, साख 3. जमा	1. श्रेय, मान्यता 2. उधार, साख 3. जमा	1. श्रेय, मान्यता 2. उधार, साख, प्रत्यय 3. जमा, आकलन आकलित करना, जमा करना, श्रेय देना	1. श्रेयस्, 2. उधार, साख, प्रत्यय, विश्वास 3. आकलन, खाता, आकलन करना, जमा करना, नामे जमा करना	— 2. उधार साख 3. जमा (हरि०)

1	2	3	4	5	6	7
Crime Criterion	1. अपराध 1. मापदण्ड, कसौटी	1. अपराध 1. भापदण्ड, कसौटी	1. अपराध 1. मापदण्ड, कसौटी	1. अपराध 1. कसौटी	1. अपराध, दोष 1. मापदण्ड, कसौटी, मानदण्ड, निकर्ष, परख, स्तर	1. अपराध —
Cumulative	1. संचित, उपचिंत, उपचयी, सचयी	1. संचित, उपचयी, सचयी, उचित	1. संचित, उपचिंत, उपचयी, सचयी	1. संचय, संचित, आकलित 2. मिलित	1. सचयी, संयोजन शील, संचित, इकट्ठा 2. अधिक, समाधिक 3. उत्तर भोग	1. संचित (हरि०)
Current	1. चालू, प्रचलित	1. चालू, प्रचलित	1. चालू, प्रचलित	1. चालू, प्रचलित, वर्तमान 2. विद्युत-धारा 3. धारा	1. चालू, प्रचलित वर्तमान, चल 2. विद्युद्वाह 3. प्रवाह	—
Current Session	1. चालू सत्र, चालू अधिवेशन	1. चालू सत्र, चालू अधिवेशन	1. चालू सत्र, चालू अधिवेशन	1. चालू सत्र	1. चालू सत्र, चालू अधिवेशन	1. चालू सत्र, चालू अधिवेशन (हरि०)
Customs	1. सीमा-शुल्क	1. सीमा शुल्क	1. सीमा शुल्क	1. सीमा शुल्क/ शुल्क	1. आपात-निर्वाह- कर, चुगी 2. रीति-रिवाज, प्रथाए	1. सीमा शुल्क
Cut	1. कटन, कटौती	1. कटौती	1. कटन, कटौती	1. कटौती, कटार्क, काट 2. नाका (हरि०)	1. काटना, कटौती 2. कटान 3. धत	1. कटौती, कटन (हरि०)

	1	2	3	4	5	6	7
Cut motion	1. कटौती प्रस्ताव	1. कटौती प्रस्ताव	1. कटौती प्रस्ताव, कटौत प्रस्ताव	1. कटौती प्रस्ताव	1. कटौती प्रस्ताव	1. कटौती प्रस्ताव	1. कटौती प्रस्ताव (हरि०)
Cypher (cipher)	1. बीजलेख 2. शून्य, सिफर	1. बीजलेख 2. शून्य, सिफर	1. बीजलेख बीजांक 2. शून्य, सिफर	1. बीजलेख 2. शून्य, सिफर	1. बीजलेख 2. शून्य	1. मुद्रलेख, मुद्र लिपि 2. शून्य	—

D

Daily allowance	1. दैनिक भत्ता	1. दैनिक भत्ता	1. दैनिक भत्ता	1. दैनिक भत्ता	1. दैनिक भत्ता	1. दैनिक भत्ता	1. दैनिक भत्ता
Daily diary	1. दैनिकी, दैनिकिनी	1. दैनिकी, दैनिकिनी	1. दैनिकी, दैनिकिनी	1. दैनिकी	1. दैनिकी	1. दैनिकिनी, दैनिक विवरण, पत्रिका	1. दैनिकी (हरि०)
Daily routine	1. दैनिक कार्य, रोज का काम	1. दैनिक कार्य, रोज का काम	1. दैनिक कार्य, रोज का काम	1. दैनिक कार्य, दैनिक चर्चा	1. दैनिक कार्य, रोज का काम, राजमर्यादा	1. दैनिक कार्य, रोज का काम, राजमर्यादा	1. दैनिक कार्य, रोज का काम (हरि०)
Daily wages	1. दैनिक मजदूरी, दिहाडी	1. दैनिक मजदूरी	1. दैनिक मजदूरी, दिहाडी	1. दैनिक मजदूरी, दिहाडी	1. दैनिक मजदूरी, प्रतिदिन की मजदूरी	1. दैनिक मजदूरी, प्रतिदिन की मजदूरी	1. दैनिक मजदूरी (हरि०)
Damages	1. क्षति/नुकसान 2. हर्जाना	1. क्षति/नुकसान 2. हर्जाना	1. क्षति/नुकसान/ हानि	1. क्षति, नुकसान, बर्बादी	1. क्षति, नुकसान, हानि, उपघात (जगल)	1. क्षति, नुकसान, हानि, उपघात विध्वंसना, हानि- पहुंचाना	1. क्षति/नुकसान 2. हर्जाना (हरि०)

1	2	3	4	5	6	7
Data	1. आधार सामग्री	1. आधार सामग्री	1. आधार सामग्री, दस्तावेज	1. आधार सामग्री	1. आधार सामग्री, ग्राहक सामग्री	1. आधार सामग्री
Date	2. ऑफ़िस (साक्षिणी)	2. ऑफ़िस	2. ऑफ़िस (साक्षिणी)	2. ऑफ़िस/रिजा (पत्रागार)	2. टिप्पण/ऑफ़िस, रबीरूत टावर	2. ऑफ़िस (हरि०)
Date	1. दिनांक, तिथि, तारीख	1. दिनांक, तिथि, तारीख	1. दिनांक, तिथि, तारीख	1. दिनांक, तिथि, तारीख, तारीख सतना, दिनांकित- करना	1. दिनांक, तिथि, तारीख	1. दिनांक, तिथि, तारीख (हरि०)
Date —, Out of	1. पुराना, महाबधिक, अप्रचलित	1. पुराना, महाबधिक अप्रचलित	1. पुराना, अप्रचलित	—	1. पुराना, महाबधिक, विपत्तिसाल, अप्रचलित, मत्त प्रयोग	1. पुराना, महाबधिक अप्रचलित (हरि०)
Date —, Upto	1. आज तक का, अद्यतन	1. आज तक का, अद्यतन	1. महाबधिक	1. आज तक का, अद्यतन	1. आज तक का, अद्यतन, ताना, आधुनिकतम, मादिनांक, महाबधिक, समीचीन	1. आज तक का, अद्यतन (हरि०)
Dated	1. दिनांकित/ तारीख	—	1. दिनांकित	1. दिनांकित	1. दिनांकित, कालांकित, तिथि निर्धारित, समय निर्धारित	1. दिनांकित, तारीख (हरि०)

	1	2	3	4	5	6	7
Days of grace	1. रियायती दिन	1. रियायती दिन	1. रियायती दिन	1. रियायती दिन, अनुषङ्ग दिन	1. रियायती दिन, अनुषङ्ग काल, अनुषङ्ग दिवस	1. रियायती दिन, अनुषङ्ग दिन, अनुकम्पा-दिवस	1. रियायती दिन (हरि०)
Dead letter office (D.L.O.)	1. पुनः प्रेषण-केन्द्र	—	1. पुनः प्रेषण केन्द्र	1. पुनः प्रेषण-केन्द्र	1. पुनः प्रेषण-केन्द्र	1. पुनः प्रेषण-केन्द्र, मृत पत्र-कार्यालय, बेपत्ता चिट्ठी, घर पुनः प्रेषण, केन्द्र	1. पुनः प्रेषण-केन्द्र (हरि०)
Dead weight	1. कुल भार	1. कुल भार	1. कुल भार	1. कुल भार	1. कुल भार, अचल भार	1. कुल भार, भारी वस्तु, मृत भार, अचल भार, भार मूर्त	1. कुल भार (हरि०)
Dealing —, assistant	1. सबधित-सहायक	1. सबधित-सहायक	1. सबधित-सहायक	1. सबधित-सहायक, प्रकरण-सहायक	1. कार्यवाह-सहायक	1. सबधित-सहायक	1. सबधित-सहायक (हरि०)
Dealings	1. व्यवहार, लेन-देन	1. व्यवहार, लेन-देन	1. व्यवहार, लेन-देन	1. व्यवहार, लेन-देन	1. व्यवहार, व्योहार, लेन-देन	1. व्यवहार, लेन-देन लेना-देना	1. व्यवहार, लेन-देन (हरि०)
Dean (of a faculty)	1. डीन, सकाय-अध्यक्ष	1. डीन, शाखाध्यक्ष	1. डीन, शाखाध्यक्ष, सकायाध्यक्ष	1. डीन, शाखाध्यक्ष, सकायाध्यक्ष	1. डीन, शाखाध्यक्ष, प्राध्यक्ष	1. डीन, अधिष्ठाता, सकायाध्यक्ष	1. डीन, सकाय अध्यक्ष (हरि०)

1	2	3	4	5	6	7
Dearness allowance	1. मेंहगाई भत्ता	1. मेंहगाई भत्ता	1. मेंहगाई भत्ता	1. मेंहगाई भत्ता	1. मेंहगाई भत्ता	1. मेंहगाई भत्ता (हरि०)
Death anniversary	1. मृत्यु दिवस, पुण्य तिथि, बरसी	1. मृत्यु दिवस, पुण्य तिथि, बरसी	1. मृत्यु दिवस, बरसी	मृत्यु दिवस, पुण्य तिथि, बरसी	1. मृत्यु दिवस, पुण्य तिथि, बरसी	1. मृत्यु दिवस, पुण्य तिथि, बरसी (हरि०)
Death-cum-retirement gratuity	1. मृत्यु तथा निवृत्ति आनुतोषिक/ मृत्यु तथा निवृत्ति उपदान	1. मृत्यु तथा निवृत्ति उपदान	1. मृत्यु तथा निवृत्ति आनुतोषिक, मृत्यु तथा निवृत्ति उपदान	1. मृत्यु सह-निवृत्ति उपदान	1. मृत्यु तथा निवृत्ति उपदायी, निवृत्ति पारितोषिक, निवृत्ति पुरस्कार	1. मृत्यु तथा निवृत्ति आनुतोषिक/ मृत्यु तथा निवृत्ति उपदान (हरि०)
Debar	1. रोकना, बर्जित करना	1. रोकना, बर्जित करना	1. वारित करना, रोक देना, रोकना, बर्जित करना	1. निवर्जित करना, बर्जित करना	1. रोकना, रोक लगाना, निवर्जित करना, वञ्चित करना	1. रोकना, बर्जित करना (हरि०)
Debit	1. नामे/ नामे डालना/ नामे खर्च डालना	1. नामे, नामे डालना, नाम खर्च डालना	1. नामे लिखना, ...के नाम लिखना, नामे, नामे प्रविष्टि, नामे की धनराशि	1. नामे, नामे डालना, विकसित करना, व्यकलन	1. खर्च में लिखना, नामे डालना, नामे लिखना	1. नामे, नामे डालना, नामे खर्च डालना (हरि०)
Decency	1. शिष्टता	1. शिष्टता	1. शिष्टता	1. शिष्टता, शिष्टाचार, भद्रता	2. विकलन 1. शिष्टता, शिष्टाचार 2. शौचित्य	1. शिष्टता (हरि०)

1	2	3	4	5	6	7
Decentrali- sation	1. विकेन्द्रीकरण	1. विकेन्द्रीकरण	1. विकेन्द्रीकरण	1. विकेन्द्रीकरण	1. विकेन्द्रीकरण	1. विकेन्द्रीकरण (हरि०)
Decision	1. विनिश्चय	1. विनिश्चय	1. निश्चय	1. विनिश्चय	1. विनिश्चय, निश्चय	1. विनिश्चय
Decision -, Pending	2. निर्णय 1. विनिश्चित सापेक्ष, विनिश्चय होने तक, निर्णय होने तक	2. निर्णय 1. विनिश्चय होने तक, निर्णय होने तक	2. निर्णय 1. विनिश्चय सापेक्ष, विनिश्चय होने तक, निश्चय होने तक	2. निर्णय 1. विनिश्चय होने तक, निर्णय होने तक	2. निर्णय 1. निश्चित होने तक, निर्णय होने तक	2. निर्णय (हरि०) 1. निश्चित होने तक, निर्णय होने तक (हरि०)
Declaration	1. घोषणा	1. घोषणा	1. घोषणा 2. प्रख्यात/प्रख्यापन	1. घोषणा 2. निर्णयाधीन	1. घोषणा 2. ज्ञापन	1. घोषणा (हरि०) 1. घोषणा (हरि०)
Decontrol	1. विनियत्रण	1. विनियत्रण	1. विनियत्रण, विनियत्रित करना, नियत्रण हटा लेना	1. विनियत्रण	1. विनियत्रण, अपनियत्रण 2. नियत्रण- हटाना	1. विनियत्रण (हरि०)
Decorum	1. शिष्टता, शासीनता	1. शिष्टता, शासीनता	1. शिष्टता, शिष्टाचार, सभ्यता	1. शासीनता	1. शिष्टता, शासीनता	1. शिष्टता, शासीनता (हरि०)
Deduction	1. कटौती, घटाना	1. कटौती, घटाना	1. कटौती, घटाना, काटना, वाद	1. कटौती	1. कटौती, घटाना, काट, कमी, व्यपकलन	1. कटौती, घटाना (हरि०)

1	2	3	4	5	6	7
				2. निगमन, अनुमान	2. अनुमान, अनुमानित, अनुमानिक, निगमन, परिणाम, निष्कर्ष	
Deed	1. विलेख	1. विलेख	1. विलेख	1. विलेख	1 विलेख 2. कृति	1. विलेख (हरि०)
Deface	1. बिरुपित करना, मुहर लगाना	1. बिरुपित करना, मुहर लगाना	1. बिरुपित करना, मुहर लगाना	1. बिरुपित करना, मुहर लगाना	1. बिरुपित करना, विकृत करना, बियाडना	1. निरुपित करना, मुहर लगाना (हरि०)
De facto	1. वस्तुतः	1. वस्तुतः, वास्तविक	1. वस्तुतः, तथ्यतः	1. वस्तुतः, तथ्यतः	1. वस्तुतः, यथार्थ-तः, तथ्यतः	1. यथार्थ-तः (हरि०)
Defalcation	1. गबन	1. गबन	1. गबन	1. गबन	1. ह्रस्व, क्षयानत, व्यहरण	1. गबन (हरि०)
Defamation	1. मानहानि	2. कमी/घटती 1. मानहानि	2. कमी, घटती 1. मानहानि	1. मानहानि	1. मानहानि	1. मानहानि (हरि०)
Default	1. त्रुटि, चूक, व्यतिक्रम 2. बकाया	1. त्रुटि, चूक, व्यतिक्रम 2. बकाया	1. त्रुटि, चूक, व्यतिक्रम 2. बकाया, वितय	1. व्यतिक्रम, चूक, अभाव 2. बकाया	1. त्रुटि, चूक, दोष, अभाव, उपाय, अभाव 2. — 3. अनुपस्थिति-दोष 4. अनुपस्थिति, अनुपस्थान	1. त्रुटि, चूक 2. बकाया (हरि०)

1	2	3	4	5	6	7
Defaulter	1. चूक करने वाला, मुटिकारी, व्यतिक्रमी 2. बकायादार, बाकीदार	1. चूक करने वाला/ मुटिकारी, व्यतिक्रमी 2. बकायादार, बाकीदार	1. चूक करने वाला, मुटिकारी, वितथी 2. बकायादार, बाकीदार	1. चूक करने वाला, चूकने वाला, चूककर्ता 2. बाकीदार	1. चूक करने वाला, दोषी, मुटिकर्ता अनुपस्थापक, 2. ऋण न चुकाने-वाला, अनौभो ध्यपहर्ता	1. चूक करने वाला, मुटिकारी, व्यतिक्रमी 2. बकायादार, बाकीदार (हरि०)
Defence	1. रक्षा	1. रक्षा	1. रक्षा 2. प्रतिवाद 3. प्रतिवाद-पक्ष, प्रतिपक्ष	1. प्रतिरक्षा 2. प्रतिवाद	1. रक्षा, बचाव, प्रतिरक्षा 2. प्रतिवाद, सफाई 3. प्रतिवाद-पक्ष	1. रक्षा (हरि०)
Defendent	1. प्रतिवादी	1. प्रतिवादी	1. प्रतिवादी	1. प्रतिवादी,	1. प्रतिवादी	1. प्रतिवादी (हरि०)
Defer	1. आस्थगित करना	1. आस्थगित करना	1. स्थगित करना	1. आस्थगित-करना	1. स्थगित करना, विस्थगित करना, विसम्भ करना, आगे टालना	1. स्थगित करना (हरि०)
Deferred	1. आस्थगित	1. आस्थगित	1. आस्थगित, स्थगित	1. आस्थगित	1. आस्थगित, विस्थगित, स्थगित, विलम्बित	1. आस्थगित (हरि०)
Deferred expenditure	1. आस्थगित व्यय	1. आस्थगित व्यय	1. आस्थगित व्यय, स्थगित व्यय	1. आस्थगित व्यय	1. आस्थगित व्यय	1. आस्थगित व्यय (हरि०)

1	2	3	4	5	6	7
Deferred payment	1. आस्थगित भुगतान, आस्थागत-अदायगी	1. आस्थगित भुगतान, आस्थगित-अदायगी	1. आस्थगित भुगतान, स्थगित भुगतान, अदायगी	1. आस्थगित भुगतान, अदायगी	1. आस्थगित भुगतान, अदायगी	1. आस्थगित भुगतान, आस्थगित अदायगी (हरि०)
Defiance	1. उद्धता, अवज्ञा	1. अवज्ञा, विरोध	1. अवज्ञा, विरोध	1. अवज्ञा, उल्लघन	1. अवज्ञा, उल्लघन, अवहेलना	1. अवज्ञा (हरि०)
Dcficiency	1. कमी	1. कमी	1. कमी	1. कमी	1. कमी, अभाव-हीनता, म्यूनता	1. कमी
Deficit	1. घाटा, कमी	1. घाटा, कमी	1. घाटा, कमी, हीनता, हीनार्थता	1. घाटा, कमी	1. घाटा, कमी	1. घाटा, कमी (हरि०)
Define	1. निश्चित करना 2. परिभाषा देना	1. निश्चित करना, 2. परिभाषा देना	1. निर्धारित करना 2. परिभाषा करना 3. सीमांकित करना	1. निर्धारित करना 2. परिभाषा करना 3. निदिष्ट करना, परिनिश्चित-करना	1. निर्धारित करना 2. परिभाषा करना 3. सीमांकित करना	1. निश्चित करना 2. परिभाषा देना (हरि०)
Defunct	1. निष्क्रिय	1. निष्क्रिय	1. निष्क्रिय	1. निष्प्रभाव, निश्चेष्ट 2. समाप्त 3. मृत	1. निष्प्रभाव, निष्क्रिय, निश्चेष्ट, निश्चैव, 2. समाप्त 3. मृत, कार्य-विरत 4. निरुम्मा	1. निष्क्रिय (हरि०)

1	2	3	4	5	6	7
Degradation	1. पद घटाना, श्रेष्ठ घटाना	1. पद घटाना, श्रेष्ठ घटाना	1. पद घटाना, श्रेष्ठ घटाना	1. पद घटाना, अध-पतन, पदच्युति, कोटिच्युति	1. पदावनति, दुर्जा घटाना, गिरासट, अवनति, अवक्रमण, पतन, भ्रष्ट-पतन, परिमंथन, ह्रास	1. पद घटाना, श्रेष्ठ घटाना (हरि०)
Degree	1. डिग्री/उपाधि 2. मात्रा 3. कोटि 4. डिग्री/अण/ अर्थांक	1. डिग्री, उपाधि 2. मात्रा 3. कोटि 4. अण, अक्षर	1. उपाधि, डिग्री 2. मात्रा 3. कोटि 4. अण, अक्षर, डिग्री	1. उपाधि, आस्पद 2. मात्रा, संख्या 3. कोटि 4. अण, अक्षर, डिग्री	1. डिग्री, उपाधि 2. मात्रा 3. कोटि 4. अण 5. मर्यादा, पीढ़ी	1. डिग्री, उपाधि (हरि०)
Delay	1. विलंब	1. विलंब	1. विलंब करना, टालना	1. विलंब	1. विलंब करना, देर करना, देर लगाना, देर, विलंब	1. विलंब, देरी (हरि०)
Delegate	1. (सजा) — प्रतिनिधि 2. (क्रिया) — प्रत्या- योजित करना, दे देना, सौपना	1. प्रतिनिधि 2. प्रत्यायोजित करना, दे देना, सौपना	1. प्रतिनिधि 2. प्रत्यायोजित करना, दे देना, सौपना	1. प्रतिनिधि 2. प्रत्यायुक्त, प्रत्यायोजित करना	1. प्रतिनिधि, 2. सौपना, देना, प्रतिनिधि बनाना, प्रत्यायुक्त करना, प्रत्यायोजित करना	1. प्रतिनिधि 2. देना, सौपना (हरि०)

1	2	3	4	5	6	7
Delegation	1. प्रतिनिधि-मंडल 2. प्रत्यायोजन	1. प्रतिनिधि-मंडल 2. प्रत्यायोजन	1. प्रतिनिधि-मंडल 2. प्रतिनिधित्व	1. प्रत्यायोजन 2. सिष्टमंडल	1. प्रत्यायोजन, प्रत्यायुक्त, प्रतिनिधित्व 2. प्रतिनिधि-मंडल, सिष्टमंडल, सोचा जाना, दे देना, समर्पण, शक्ति-समर्पण	1. प्रतिनिधि-मंडल 2. प्रत्यायोजन (हरि०)
Delegation of powers	1. शक्तियों का प्रत्यायोजन	1. शक्तियों का प्रत्यायोजन	1. शक्तियों का प्रत्यायोजन, अधिकारों का प्रतिनिध्यान	1. शक्ति-प्रत्यायोजन	1. शक्तियों का प्रत्यायोजन, शक्ति का समर्पण, शक्ति का सोपना	1. शक्तियों का प्रत्यायोजन (हरि०)
Deliberately	1. जानबूझकर	1. जानबूझकर	1. जानबूझकर	1. जानबूझकर, विमर्शपूर्वक	1. जानबूझकर, सोच-विचार-कर, विमर्शित	1. जानबूझकर (हरि०)
Deliberation	1. विचार-विमर्श, विमर्श	1. विचार-विमर्श, विमर्श	1. विचार-विमर्श, विमर्श	1. विचार-विमर्श, विमर्श, विमर्शन	1. गृह्य विचार, विमर्श, ध्यानपूर्वक विचार, पर्यालोचन	1. विचार-विमर्श, विमर्श (हरि०)
Delimitation	1. परिचीमन	1. परिचीमन	1. परिचीमन, सीमांकन	1. सीमानिर्धारण	1. परिचीमन, सीमानिर्धारण, हृदबन्दी	1. परिचीमन (हरि०)

1	2	3	4	5	6	7
Delivery	1. परिदान, वितरण, न्युदंभी	1. वितरण, परिदान	1. परिदान, वितरण, सम्प्रदान, प्रसव, प्रभूति	1. परिदान, प्रदान, वितरण, सम्प्रदान, मातृसुहाई, न्युदंभी, प्रभूति, भाषण	1. परिदान, प्रदान, अरण, वितरण, न्युदंभी, प्रसव, प्रभूति, भुगतान	1. परिदान, वितरण, न्युदंभी (हरि०)
Demand	1. अभियाचना, माँग	1. अभियाचना, माँग	1. अभियाचना, माँग, उगादा	1. अभियाचना, माँग	1. अभियाचना, माँग	1. अभियाचना, माँग (हरि०)
Demand —, Supplementary	1. अनुपूरक माँग	1. अनुपूरक माँग	1. अनुपूरक माँग	1. अनुपूरक माँग	1. अनुपूरक माँग, अभियाचना	1. अनुपूरक माँग (हरि०)
Demands for notice	1. माँग-नोटिस	1. माँग-नोटिस, माँग की सूचना	1. माँग-नोटिस	1. माँग-नोटिस	1. माँग-नोटिस	1. माँग-नोटिस (हरि०)
Demarcation	1. सीमांकन	1. सीमांकन	1. सीमांकन, सीमा-बधन, सीमा-निर्धारण	1. सीमांकन	1. सीमांकन, विहित करना, सीमा-बधन, सीमा-निर्धारण, निर्धारण	1. सीमांकन (हरि०)
Demi official Letter (D O.)	1. अर्धसरकारी पत्र	1. अर्धसरकारी पत्र, अर्धशासकीय पत्र	1. अर्धसरकारी पत्र, अर्धशासकीय पत्र	1. अर्धसरकारी पत्र	1. अर्धसरकारी पत्र, अर्धशासकीय पत्र	1. अर्धसरकारी पत्र, अर्धशासकीय पत्र (हरि०)
Democratic	1. लोकतन्त्रात्मक	1. लोकतन्त्रात्मक	1. लोकतन्त्रात्मक, लोकतन्त्रीय	1. लोकतन्त्रात्मक	1. लोकतन्त्रात्मक	1. लोकतन्त्रात्मक (हरि०)

1	2	3	4	5	6	7
Demonstration	1. (show)— निदर्शन	1. निदर्शन, प्रदर्शन (show)	1. निदर्शन, प्रदर्शन	1. प्रयोग-प्रदर्शन, प्रदर्शन	1. निदर्शन, प्रत्यक्षीकरण, प्रयोग, प्रदर्शन	1. निदर्शन, प्रदर्शन
	2. (proof) प्रमाण	2. प्रमाण (Proof)		---		2. प्रमाण (हरि०)
		3. निरूपण (representation)		3. निरूपण		
Demote	1. पदावनत करना, पद घटाना	1. पदावनत करना, पद घटाना	1. पदावनत करना, पद घटाना	1. पदावनत करना	1. पदावनत करना, पद घटाना	1. पदावनत करना, पद घटाना (हरि०)
Demotion	1. पदावनति	1. पदावनति	1. पदावनति	1. पदावनति	1. पदावनति	1. पदावनति (हरि०)
Denial	1. अस्वीकार, इनकार	1. अस्वीकार, इनकार	1. अस्वीकार, इनकार, अनगीकरण	1. इनकार, नकार, प्रत्यास्थान, वचित करना	1. अस्वीकृति, प्रत्यास्थान, इनकार	1. अस्वीकार, इनकार (हरि०)
Denomination	1. अभिधान	1. अभिधान	1. अभिधान, नाम, मुल्य, समुदाय, वर्ग	1. अभिधान, नाम (सिक्का), जाति (धार्मिक)	1. अभिधान, नाम, सम्प्रदाय	1. अभिधान (हरि०)
Denote	1. नये सिरे से	1. नये सिरे से	1. नये सिरे से	1. नये सिरे से	1. नये सिरे से, अभिनवतमा	1. नये सिरे से (हरि०)
Depart	1. प्रस्थान करना, रवाना होना	1. प्रस्थान करना, रवाना होना	1. प्रस्थान करना, रवाना होना	1. प्रस्थान करना, रवाना होना	1. प्रस्थान करना, विदा होना, चले जाना	1. प्रस्थान करना, रवाना होना
	2. विचलित होना, हटना	2. विचलित होना, हटना	2. विचलित होना, हटना, विरत होना	2. विचलित होना, हटना	2. विचलित होना	2. विचलित होना, हटना

	1	2	3	4	5	6	7
		3. दिवगत होना, मरना	3. दिवगत होना, मरना	3. दिवगत होना, मरना	3. दिवगत होना, मरना	3. मरना	3. दिवगत होना, मरना (हरि०)
Department	1. विभाग	1. विभाग	1. विभाग	1. विभाग	1. विभाग	1. विभाग	1. विभाग (हरि०)
Departmental charges	1. विभागीय प्रभार	1. विभागीय प्रभार	1. विभागीय प्रभार	1. विभागीय-खर्च, प्रभार	1. विभागीय प्रभार	1. विभागीय प्रभार, कार्य-भार	1. विभागीय प्रभार (हरि०)
Departmental enquiry	1. विभागीय जाँच	1. विभागीय जाँच	1. विभागीय जाँच	1. विभागीय जाँच	1. विभागीय जाँच	1. विभागीय जाँच	1. विभागीय जाँच (हरि०)
Departmental inspection	1. विभागीय निरीक्षण	1. विभागीय निरीक्षण	1. विभागीय निरीक्षण	1. विभागीय निरीक्षण	1. विभागीय निरीक्षण	1. विभागीय निरीक्षण, पर्यवेक्षण	1. विभागीय निरीक्षण(हरि०)
Departmental order	1. विभागीय आदेश	1. विभागीय आदेश	1. विभागीय आदेश	1. विभागीय आदेश	1. विभागीय आदेश	1. विभागीय आदेश	1. विभागीय आदेश (हरि०)
Departmental permission	1. विभागीय अनुमति	1. विभागीय अनुमति	1. विभागीय अनुमति	1. विभागीय अनुमति	1. विभागीय अनुमति	1. विभागीय अनुमति	1. विभागीय अनुमति (हरि०)
Departmental Promotion	1. विभागीय पदोन्नति, विभागीय तरक्की	1. विभागीय पदोन्नति, विभागीय तरक्की	1. विभागीय पदोन्नति, विभागीय पदोन्नति	1. विभागीय प्रोन्नति, विभागीय पदोन्नति	1. विभागीय प्रोन्नति	1. विभागीय पदोन्नति, विभागीय, तरक्की	1. विभागीय पदोन्नति, विभागीय तरक्की (हरि०)
Departure	1. प्रस्थान	1. प्रस्थान	1. प्रस्थान	1. प्रस्थान	1. प्रस्थान	1. प्रस्थान, रवानगी, जाना	1. प्रस्थान
	2. विचलन, हटाना	2. विचलन, हटाना	2. विचलन, हटाना	2. विचलन, हटाना	2. अपसरण	2. विचलन 3. भेद, भिन्नता 4. अन्तर 5. मूल्य	2. विचलन, हटाना (हरि०)

	1	2	3	4	5	6	7
Deputy speaker	1. उपाध्यक्ष	1. उपाध्यक्ष	1. उपाध्यक्ष	1. उपाध्यक्ष	1. उपाध्यक्ष, उपसभामुख	1. उपाध्यक्ष	1. उपाध्यक्ष (हरि०)
De-requisition	1. अधिग्रहण- मोचन, अधिग्रहण से छुड़ाना	1. अधिग्रहण- मोचन, अधिग्रहण से छुड़ाना	1. अधिग्रहण- मोचन, अधिग्रहण से छुड़ाना	1. अधिग्रहण- मोचन, अधिग्रहण से छुड़ाना	1. अधिग्रहण- मोचन	1. अधिग्रहण उत्सर्ग, अधिग्रहणो- भ्रंजन	1. अधिग्रहण- मोचन, अधिग्रहण से छुड़ाना (हरि०)
Derogation	1. अनादर 2. अल्पीकरण	1. अनादर 2. अल्पीकरण	1. अनादर 2. अल्पीकरण, कम करना	1. अनादर 2. अल्पीकरण, कम करना	1. अनादर 2. अल्पीकरण, अप्रतिष्ठा	1. अनादर 2. अल्पीकरण, अप्रतिष्ठा, भ्रंजीकरण	1. अनादर (हरि०) 2. अल्पीकरण (हरि०)
Description	1. वर्णन, विवरण	1. वर्णन, विवरण	1. वर्णन, विवरण, वृत्तियाँ, रूप, प्रकार	1. वर्णन, विवरण, वृत्तियाँ, रूप, प्रकार	1. वर्णन, विवरण, अंकन, वृत्तियाँ, प्रकार, भाँति	1. वर्णन, विवरण, प्रकार	1. वर्णन, विवरण (हरि०)
Descriptive	1. वर्णनात्मक	1. वर्णनात्मक	1. वर्णनात्मक	1. वर्णनात्मक	1. वर्णनात्मक	1. वर्णनात्मक	1. वर्णनात्मक (हरि०)
Deserving	1. योग्य	1. योग्य	1. योग्य, मुपात्र	1. योग्य, मुपात्र	1. योग्य, पात्र	1. योग्य, पात्र, अधिकारी	1. योग्य (हरि०)
Designate	1. नामोद्दिष्ट करना, अभिहित करना	1. नामोद्दिष्ट करना, अभिहित करना	1. नामोद्दिष्ट करना, अभिहित करना, नाम देना, नामोद्दिष्ट	1. नामोद्दिष्ट करना, अभिहित करना, नाम देना, नामोद्दिष्ट	1. नामोद्दिष्ट करना, अभिहित करना, नामोद्देशन, नामोद्दिष्ट	1. नामोद्दिष्ट करना, नाम से पुकारना, पदांकित करना, नियुक्त करना, समीचीत, नामोद्दिष्ट, पदांकित	1. नामोद्दिष्ट करना, अभिहित करना (हरि०)

1	2	3	4	5	6	7
Designation	1. पद, पदनाम	1. पद, पदनाम	1. पदनाम	1. पदनाम	1. पदनाम, औहदा, अभिधान, नामोद्देश, पद, नियुक्त	1. पद-सत्ता(हरि०)
Despatch	1. (सत्ता) प्रेषण, रवानगी (क्रिया) प्रेषित करना, रवाना करना, भेजना	1. प्रेषण, रवानगी, (क्रि०) प्रेषित करना, रवाना करना	1. प्रेषण, रवानगी, शीघ्रता, (क्रि०) रवाना करना, प्रेषित करना, सप्रेषित करना, भेजना	1. प्रेषण, रवानगी, राजलेख, शीघ्रता	1. भेजना, प्रेषण	1. प्रेषण (हरि०)
Destination	1. गतव्य, लक्ष्य	1. गतव्य, लक्ष्य	1. गतव्य, गतव्य स्थान, लक्ष्य स्थान	1. गतव्य स्थान, मजिल	1. गतव्य स्थान, पूर्वोद्दिष्ट, इष्ट, मजिल, स्थान, ठिकाना, लक्ष्य	1. गतव्य, लक्ष्य (हरि०)
Detailed inspection	1. विस्तृत निरीक्षण	1. विस्तृत निरीक्षण	1. विस्तृत निरीक्षण	1. विस्तृत निरीक्षण, सविस्तार निरीक्षण	1. विस्तृत निरीक्षण, सविस्तार निरीक्षण	1. विस्तृत निरीक्षण (हरि०)
Detailed statement	1. ब्यौरेवार विवरण	1. ब्यौरेवार विवरण	1. ब्यौरेवार विवरण	1. ब्यौरेवार विवरण, सविस्तार विवरण	1. विस्तृत ब्यौरा, सविस्तार विवरण, विस्तृत बृत्तान्त	1. ब्यौरेवार विवरण (हरि०)
Detective	1. गुप्तचर, जासूस	—	1. गुप्तचर, जासूस	1. गुप्तचर, जासूस 2. जासूमी	1. गुप्तचर, जासूस, गुप्त 2. जासूमी	1. गुप्तचर, जासूस (हरि०)

1	2	3	4	5	6	7
Determination	1. अवधारण 2. सकल्प	1. अवधारण 2. सकल्प	1. अवधारण 2. सकल्प	1. अवधारण, निर्धारण 2. दृढ़ निश्चय, सकल्प 3. अवसान, अन्त	1. निर्धारण, निरूपण, निश्चय, अवधारण 2. मबलन 3. ममाप्ति, अवगान	1. अवधारण 2. सकल्प (हरि०)
Detriment	1. अहित	1. हानि	1. हानि	1. अहितकारी. अपाय	1. अहित	1. अहितकर, हानिकर (हरि०)
Development	1 विकास	1. विकास	1. विकास	1. विकास	1. विकास, उन्नति, वृद्धि	1. विकास (हरि०)
Deviate	1. विचलित होना	1. विचलित होना	1. विचलित होना	1. विचलित होना	1. विचलित होना, मार्ग छोड़ना	1. विचलित होना (हरि०)
Deviation	1. विचलन	1. विचलन	1. विचलन	1. विचलन 2. विचल (गणित)	1. विचलन, हटना 2. अन्तर, भिन्नता	1. विचलन
Diagram	1. आरेख	1. आरेख	1. रेखाचित्र	1. रेखाचित्र	1. चित्र, रेखाचित्र, आकृति	1. रेखाचित्र (हरि०)
Diary	1 दैनिकी, दैनिकिनी, डायरी	1. डायरी	1. डायरी, दैनिकी	1. डायरी, दैनिकी	1. डायरी, दैनिकिनी	1. डायरी (हरि०)
Dictation	1. श्रुतलेख	1 श्रुतलेख	1. श्रुतलेख	1. श्रुतलेखन, लेखापन, अधिदेशन	1. श्रुतलेख, आलेख	1. श्रुतलेख (हरि०)

1	2	3	4	5	6	7
Digest	1. सार-संग्रह	1. सार-संग्रह	—	1. सार-संग्रह, नियम, पचाना	1. सार-संग्रह, सक्षिप्त, क्रमशिका, निबन्ध, पाचन, पचाना, पाचन करना	1. सार-संग्रह (हरि०)
Dignitary	1. उच्चपदधारी, उच्चपदस्थ, महिमान्वित	1. उच्चपदधारी, उच्चपदस्थ	1. उच्चपदाधिकारी	1. सभ्रान्तजन	1. उच्चपदधारी, महाभाग, महानुभाव	1. उच्चपदधारी, उच्चपदस्थ, महानुभाव (हरि०)
Dignity	1. गौरव, मर्यादा, गरिमा	—	1. गौरव, मर्यादा, गरिमा	1. मर्यादा	1. गौरव, मर्यादा, गरिमा, प्रतिष्ठा	1. गौरव, मर्यादा (हरि०)
Diplomatic bag	1. राजनायिक डाक-थैला	1. राजनायिक डाक-थैला	1. राजनायिक डाक-थैला	1. राजनायिक डाक-थैला	1. राजनायिक डाक-थैला	1. राजनायिक डाक-थैला (हरि०)
Direct	1. (क्रि०) प्रत्यक्ष, सीधा (क्रिया) निदेश देना	1. प्रत्यक्ष, सीधा (क्रि०) निदेश देना	1. प्रत्यक्ष, सीधा (क्रि०) निदेश देना	1. प्रत्यक्ष, सीधा	1. प्रत्यक्ष, सीधा (क्रि०) निदेश देना, निर्देशित करना, संचालित करना	1. प्रत्यक्ष, सीधा (क्रि०) निदेश देना (हरि०)
Direct action	1. प्रत्यक्ष कार्यवाही, सीधी कार्यवाही	1. प्रत्यक्ष कार्यवाही, सीधी कार्यवाही	1. प्रत्यक्ष कार्यवाही, प्रत्यक्ष क्रिया	1. सीधी कार्यवाही	1. प्रत्यक्ष कार्यवाही, सीधी कार्यवाही	1. प्रत्यक्ष कार्यवाही, सीधी कार्यवाही (हरि०)
Direction	1. निदेश, निर्देशन	1. निदेश, निर्देशन	1. निदेश, निर्देशन	1. निदेश, निर्देशन 2. दिशा	1. निदेश, निर्देशन, निर्देशन 2. सञ्चालन, दिशा	1. निदेश, निर्देशन (हरि०)

	1	2	3	4	5	6	7
Directive	1. निदेश (सजा) (विशेषण)— निदेशात्मक	1. निदेश, (वि०) निदेशात्मक	1. निदेश (वि०) निदेशात्मक	1. निदेश (वि०) निदेशात्मक	1. निदेश (वि०) निदेशात्मक,	1. निदेश, निदेश-पत्र (वि०) नैदेशिक	1. (वि०) निदेशात्मक (हरि०)
Director	1. निदेशक, सचालक	1. निदेशक, सचालक	1. निदेशक, सचालक	1. निदेशक, सचालक	1. निदेशक	1. निदेशक, निदेशक, सचालक	1. निदेशक (हरि०)
Director General Directorate	1. महानिदेशक 1. निदेशालय, सचालनालय	— 1. निदेशालय	1. महानिदेशक 1. निदेशालय, सचालनालय	— 1. निदेशालय, सचालनालय	1. निदेशालय, सचालनालय	1. महासचालक 1. सचालनालय, सचालक-मंडल, निदेशालय, निदेशकालय, सचालन-वर्ग, सचालक-मंडल, निदेशक-मंडल, सचालन, सचालकत्व	1. महानिदेशक 1. निदेशालय (हरि०)
Directory	1. निर्देशिका	1. निर्देशिका	1. निर्देशिका, निदेशिका	1. निर्देशनी, निदेशिका	1. निर्देशनी	1. निर्देशिका, नामनिदेशिका	1. निर्देशिका (हरि०)
Disability	1. विकलांगता 2. निर्योग्यता	1. विकलांगता 2. निर्योग्यता	1. विकलांगता 2. निर्योग्यता	1. विकलांगता 2. निर्योग्यता	1. निर्योग्यता 2. अग्रहृदि, विकलांगता	1. अशक्तता, निर्योग्यता	1. विकलांगता 2. असमर्थता
Disadvantage	1. हानि, अहित	1. हानि, अहित	1. हानि, अहित, अलाभ	1. हानि, अहित, अलाभ	1. हानि, अहित, अलाभ	1. अहित, अलाभ, अनुविधा	1. हानि, अहित (हरि०)

1	2	3	4	5	6	7
Disagree	1. असहमत होना	1. असहमत होना	1. असहमत होना, मेल न घाना, अनुकूल न होना	1. असहमत होना, मेल न घाना	1. असहमत होना, असम्मत होना, विमत होना	1. असहमत होना (हरि०)
Disapproval	1. अननुमोदन, नापसदी	1. अननुमोदन	1. अननुमोदन, निरनुमोदन	1. अननुमोदन	1. अननुमोदन, निरनुमोदन, अस्वीकृति	1. अननुमोदन, नापसदी (हरि०)
Disbursement	1. सवितरण, बाँटना	1. सवितरण, बाँटना	1. सवितरण, वितरण, भुगतान, बाँटना	1. सवितरण, न्याय 9032	1. सवितरण, बाँटना, भुगतान, वितरण	1. सवितरण, बाँटना (हरि०)
Discard	1. अमान्य करना, अलग करना, हटा देना	1. अमान्य करना, अलग करना, हटा देना	1. अमान्य करना, अलग करना, हटा देना	1. अलग करना, हटा देना	1. फेंक देना, दूर करना, रद्द करना 2. निकालना, बर्खास्त करना	1. अमान्य करना, अलग करना, हटा देना (हरि०)
Discharge (as of duty)	1. निर्वहन, पालन	1. निर्वहन, पालन	1. कर्तव्यपालन	1. निर्वहन, पालन	1. निर्वहन करना, पालन करना, सम्पादन करना	1. निर्वहन, पालन (हरि०)
Discharge (as from debt)	1. उन्मोचन	1. उन्मोचन	1. उन्मोचन	1. उन्मोचन, ऋणमोचन	1. उन्मुक्त करना, आरोपमुक्त करना, भार-मुक्त करना, छोड़ना, मुक्त करना	1. उन्मोचन (हरि०)

1	2	3	4	5	6	7
Discharge (as from service)	1. सेवा-मुक्ति, कार्य-मुक्ति	1. सेवा-मुक्ति, कार्य-मुक्ति	1. सेवाप्रभुवन	1. सेवा-मुक्त	1. सेवा-मुक्त करना, अलग करना, निर्वहण, मन्त्रादेश	1. सेवा-मुक्ति, कार्य-मुक्ति (हरि०)
Discharge (as from Hospital)	1. छुट्टी	1. छुट्टी	1. छुट्टी	1. छुट्टी	1. छुट्टी	1. छुट्टी
Disciplinary action	1. अनुशासनिक कार्यवाही	1. अनुशासनिक कार्यवाही	1. अनुशासनिक कार्यवाही	1. अनुशासनात्मक कार्यवाही	1. अनुशासनिक कार्यवाही	1. अनुशासनिक कार्यवाही
Discipline	1. अनुशासन	1. अनुशासन	1. अनुशासन	1. अनुशासन	1. अनुशासन	1. अनुशासन (हरि०)
Disclaim	1. दावा छोड़ना, स्वत्व त्यागना	1. दावा छोड़ना, स्वत्व त्यागना	1. दावा छोड़ देना, स्वत्व त्यागना	1. दावा छोड़ देना	1. दावा छोड़ देना, स्वत्व त्याग करना	1. दावा छोड़ना
	2. अस्वीकार करना	2. अस्वीकार करना	2. अस्वीकार करना, इनकार करना		2. अस्वीकार करना	2. अस्वीकार करना (हरि०)
Disclose	1. प्रकट करना	1. प्रकट करना	1. प्रकट करना, उद्घाटित करना	1. प्रकट करना	1. प्रकट करना, घोसना, उद्घाटित करना	1. प्रकट करना (हरि०)
Discrepancy	1. विसंगति	1. विसंगति	1. भिन्नता, अंतर, विभेद, असंगति, गुटि	1. विभेद, विसंगति	1. विभेद, भेद, भिन्नता, विरोध, असंगति, कमी, घाति, विसबाद, गुणवत्ता	1. असंगति (हरि०)
Discretion	1. विवेक	1. विवेक	1. विवेक, स्वमत	1. विवेक	1. विवेक, स्वविवेक समग्र	1. विवेक (हरि०)

1	2	3	4	5	6	7
Discretionary power	1. विवेकाधिकार, स्वेच्छा-निर्णय-शक्ति, स्वेच्छा-निर्णय-अधिकार	1. विवेकाधिकार, स्वेच्छा	1. विवेकाधिकार, स्वेच्छानिर्णय शक्ति, स्वेच्छा निर्णय अधिकार	1. विवेक-शक्ति, स्वेच्छा निर्णय-शक्ति	1. विवेकाधीन अधिकार, विवेकाधिकार, स्वविवेक-शक्ति	1. विवेकाधिकार, स्वेच्छा निर्णय स्वेच्छा अधिकार (हरि०)
Discussion	1. विचार-विमर्श, चर्चा 2. बहस	1. विचार-विमर्श, चर्चा 2. बहस	1. विचार-विमर्श, विमर्श, विवाद 2. बहस, चर्चा	1. विमर्श, विचार 2. बहस	1. बातचीत, चर्चा 2. बहस, वाद-विवाद	1. विचार-विमर्श, चर्चा 2. बहस (हरि०)
Dishonour (a cheque)	1. अस्वीकार करना, नकारना	1. अस्वीकार करना, नकारना	1. नकारना	1. नकारना, अनादर करना, अनादर	1. अस्वीकृत धनदेश, अनादृत चैक; अप्रतिष्ठा, निरादर, अनादर, अनादर करना, अप्रतिष्ठा करना	1. अस्वीकार करना, नकारना (हरि०)
Dismiss	1. पदच्युत करना, बर्खास्त करना 2. खारिज करना	1. बर्खास्त करना, पदच्युत करना	1. बर्खास्त करना, पदच्युत करना, सेवाच्युत करना	1. बर्खास्त करना, 2. खारिज करना	1. पदच्युत करना, बर्खास्त करना, सेवानुसृत करना, निकालना, उतारना करना 2. खारिज करना, अपदस्त करना, निरस्त करना, समाप्त करना	1. बर्खास्त करना (हरि०)

1	2	3	4	5	6	7
Disperse	1. बिखराने करना, तितर-बितर करना	1. बिखराने करना, तितर-बितर करना	1. बिखराने करना, बिखराने करना, तितर-बितर करना	1. बिखराने करना, तितर-बितर करना, बिखर जाना, बिखरे देना	1. बिखराने करना, बिखराने करना, तितर-बितर करना, भंग करना	1. बिखराने करना, तितर-बितर करना (हरि०)
Displaced	1. विस्थापित	1. विस्थापित	1. विस्थापित	1. विस्थापित	1. विस्थापित, स्थानभ्रूत, विमुक्त, विधोहित	1. विस्थापित (हरि०)
Displeasure	1. अपसाद	1. अपसाद	1. अपसाद	1. अपसाद, नाराजगी, अप्रसन्नता	1. अपसाद, कोप, अपसन्नता, भङ्गना	1. अपसाद (हरि०)
Disposal	1. निपटान, निबर्तन	1. निपटान, निबर्तन	1. निपटान, निपटाना, निबर्तन, निस्तारण	1. निपटान, निबर्तन	1. निपटारा, व्यवस्था, निराकरण, निबर्तन	1. निपटान (हरि०)
Dispute	2. ध्वयन 1. विवाद	2. ध्वयन 1. विवाद	2. ध्वयन 1. विवाद 2. शय्या	2. ध्वयन 1. वाद 2. विवाद करना	2. अपवहन, ध्वयन 1. विवाद, वाद, शय्या 2. विवाद करना	1. विवाद (हरि०)
Disqualification	1. अयोग्यता, अनर्हता	1. अयोग्यता, अनर्हता	1. अयोग्यता, अनर्हता	1. अयोग्यता, अनर्हता	1. अयोग्यता, अनर्हता, निरर्हता	1. अयोग्यता (हरि०)

1	2	3	4	5	6	7
Draft	1. प्रारूप, मसौदा, नक्शा	1. प्रारूप, मसौदा	1. प्रारूप, मसौदा, प्रलेख 2. ड्यूटी, ड्राफ्ट, नक्शा	1. प्रारूप, मसौदा	1. प्रारूप, धातेख, मसौदा	1. प्रारूप, मसौदा (हरि०)
Draft for approval	1. अनुमोदनार्थ-प्रारूप, अनुमोदनार्थ-मसौदा	1. अनुमोदनार्थ-प्रारूप	1. अनुमोदनार्थ-प्रलेख, अनुमोदनार्थ-प्रारूप	1. अनुमोदन के लिए प्रारूप	1. अनुमोदनार्थ-मसौदा, अनुमोदनार्थ-प्रारूप	1. अनुमोदन के लिए प्रारूप (हरि०)
Draft sheet	1. प्रारूप-पत्र, मसौदा-पत्र	1. शरूप-पत्र	1. प्रालेख-पत्र, शरूप-पत्र, मसौदा-पत्र	1. प्रारूप-पत्र, मसौदा-पत्र	1. प्रारूप-पत्र, मसौदा-पत्र	1. प्रारूप-पत्र (हरि०)
Drive	—	1. अभियान 2. चलाना	1. अभियान 2. चखाना	1. प्रेरणा/शक्ति/आन्दोलन 2. चलाना 3. अनुपनन (घान)	1. — 2. चखाना, ह्रीकना 3. अनुपनन	1. अभियान
Due date	1. नियत तिथि, नियत तारीख	1. नियत तिथि, नियत तारीख	1. तिथि, तारीख	1. नियत तारीख, यथावत दिनांक, देय दिन, देय दिनांक	1. नियत तिथि, नियत तारीख, नियत दिनांक	1. नियत तिथि (हरि०)
Duly	1. विधिवत, यथाविधि	1. विधिबन्, यथाविधि	1. यथाविधि, यथारोति, यथोचित, रीति से	1. यथाविधि, सम्पन्न रूप से	1. यथाविधि, विधिबन्, यथासमय, यथानियम, यथामात्र, यथोचित,	1. विधिवत् (हरि०)

1

2

3

4

5

6

7

यथावत्,
सम्यक रूप से,
ठीक प्रकार से,
उचित रीति से,
पर्याप्त

Duplicating

1. अनुलिपिकरण

1. अनुलिपिकरण

1. अनुलिपिकरण

1. प्रतिलिपिकरण,
अनुलिपिकरण

1. अनुलिपिकरण

1. अनुलिपिकरण

Duration

1. अवधि

1. अवधि/कालावधि

1. अवधि

1. अवधि

1. अवधि, मियाद,

1. अवधि (हरि०)

Duty

1. ड्यूटी, काम,
कर्तव्यभार

1. ड्यूटी/काम/
कर्तव्यभार

1. कर्तव्य, काम,
कर्तव्य-भार

1 ड्यूटी, काम,
कार्य, कर्म,
कर्तव्य

1 काम, कर्तव्य

1. ड्यूटी, काम,

2. शुल्क

2. शुल्क

2. शुल्क, कर

2. शुल्क, कर

2. ड्यूटी, चुगी,
शुल्क, अधिकार

2. शुल्क (हरि०)

Duty
- . off

1. ड्यूटी के बाद,
कार्यसमय के
बाद

1. ड्यूटी के बाद,
कार्यसमय के
बाद

1. ड्यूटी के बाद,
कार्यसमय के
बाद

1. ड्यूटी के बाद,
कार्यसमय के
बाद, कार्य बिरत

1. अकर्तव्यस्य,
काम पर न
होना, कार्य से
छुट्टी पर, कार्य-
बिरत, काम के
बाद

1. ड्यूटी के बाद,
कार्यसमय के
बाद (हरि०)

1	2	3	4	5	6	7
Duty —, on	1. ड्यूटी पर, काम पर	1. ड्यूटी पर, काम पर	1. ड्यूटी पर, काम पर	1. ड्यूटी पर, काम पर	1. ड्यूटी पर, काम पर, काम करते हुए, कर्तव्यस्थ	1. काम पर, ड्यूटी पर (हरि०)
Duty —, On special	1. विशेष ड्यूटी पर	1. विशेष ड्यूटी पर, विशेष काम पर	1. विशेष छुट्टी पर	1. विशेष छुट्टी पर	1. विशेष- कर्तव्यस्थ	1. विशेष ड्यूटी पर (हरि०)
Duty roster	1. ड्यूटी रोस्टर, ड्यूटी पत्रिका	1. ड्यूटी पत्रिका	1. ड्यूटी पत्रिका, ड्यूटी रोस्टर	1. कर्तव्य कमिका रोस्टर ड्यूटी	1. ड्यूटी नामावली, ड्यूटी रोस्टर	1. ड्यूटी रोस्टर (हरि०)

E

Earmark	1. चिह्नित करना/ अलग करना	1. चिह्नित करना, अलग करना, उद्दिष्ट करना	1. विशेष प्रयोजन के लिए धन, अलग करना	1. विशेष प्रयोजन के लिए रख देना	1. विशेष प्रयोजन के लिए रखना	1. चिह्नित करना, अलग करना (हरि०)
Earned Leave	1. अर्जित छुट्टी	1. अर्जित छुट्टी, अर्जित अवकाश	1. अर्जित अवकाश	1. उपाजित-छुट्टी	1. अर्जित छुट्टी, अर्जित अवकाश, उपाजित- अवकाश, उपाजित छुट्टी	1. अर्जित छुट्टी (हरि०)
Earnest money	1. बयाना, अग्रिम- धन	1. बयाना, अग्रिम- धन	1. बयाना, साई, अग्रिमधन	1. बयाना/अग्रिम धन	1. बयाना, साई, बयाने का धन, साई की रकम	1. बयाना, अग्रिम-धन (हरि०)

1	2	3	4	5	6	7
Ecologist	1. परिस्थिति विज्ञानी	—	1. परिस्थिति विज्ञानी	1. परिस्थिति विज्ञानी	1. परिस्थिति विज्ञानी	1. परिस्थिति विज्ञानी
Economical	1. सस्ता 2. मितव्ययी	1. सस्ता 2. मितव्ययी	1. सस्ता, कम खर्च या मूल्य का 2. मितव्ययी	1. सस्ता 2. मितव्ययी	— 2. मितव्यय मितव्ययी, मित- 3. आर्थिक	1. सस्ता (हरि०)
Economist	1. अर्थशास्त्री	1. अर्थशास्त्री	1. अर्थशास्त्री	1. अर्थशास्त्री	1. अर्थशास्त्री, अर्थशास्त्रज्ञ	1. अर्थशास्त्री
Economy	1. अर्थ-व्यवस्था 2. किफायत	1. अर्थ-व्यवस्था 2. किफायत, मितव्ययिता	1. अर्थ-व्यवस्था 2. मितव्यय, मितव्ययता	1. अर्थ-व्यवस्था 2. किफायत मितव्ययिता	1. अर्थ-व्यवस्था 2. मितव्यय मितव्ययिता, किफायत 3. मुख्यवस्था	1. अर्थ-व्यवस्था 2. किफायत (हरि०)
Economy slip	1. किफायती पर्ची	1. किफायती पर्ची	1. किफायती पर्ची	1. किफायती पर्ची	1. किफायती पर्ची	1. किफायत पर्ची (हरि०)
Effect	1. प्रभाव 2. परिणाम	1. प्रभाव —	1. प्रभाव 2. परिणाम 3. शक्ति	1. प्रभाव 2. फल/परिणाम	1. प्रभाव	1. प्रभाव (हरि०)
Effective	1. प्रभावी, कार्यकारी	1. प्रभावी, कार्यकारी	1. प्रभावी 2. प्रभावशाली, सक्रिय 3. शक्तिशाली, सफल, कारगर	1. प्रभावशाली	1. प्रभावी, प्रभावशाली, परिणामजनक	1. प्रभावी (हरि०)

1	2	3	4	5	6	7
Efficiency	1. दक्षता, कार्यपटुता	1. दक्षता, कार्यपटुता	1. दक्षता, कार्यपटुता, कार्यक्षमता	1. दक्षता/ कार्यपटुता	1. दक्षता, कार्यक्षमता, कार्यपटुता, नियुक्तता, पटुता कुशलता, प्रयोगता	1. कार्यकुशलता (हरि०)
Efficiency bar	1. दक्षतारोध, दक्षतारोक	1. दक्षतारोध, दक्षतारोक	1. दक्षतारोध, दक्षतारोक	1. दक्षतारोध/ दक्षतारोक	1. दक्षतारोध/ दक्षतारोध	1. कुशलतारोध (हरि०)
Elected representative	1. निर्वाचित- प्रतिनिधि	1. निर्वाचित प्रतिनिधि	1. निर्वाचित- प्रतिनिधि	1. निर्वाचिन- प्रतिनिधि	1. निर्वाचिन- प्रतिनिधि	1. निर्वाचिन- प्रतिनिधि (हरि०)
Election	1. निर्वाचन	1. निर्वाचन	1. निर्वाचन	1. निर्वाचन, चुनाव	1. निर्वाचन, चुनाव	1. निर्वाचन
Electoral Roll	1. निर्वाचक सूची	1. निर्वाचक सूची	1. निर्वाचक सूची	1. मतदाता सूची	1. निर्वाचक- नामावली, निर्वाचक सूची, मतदाता सूची	1. निर्वाचक-सूची (हरि०)
Elementary	1. प्रारम्भिक	1. प्रारम्भिक	1. प्रारम्भिक	1. प्रारम्भिक	1. प्रारम्भिक, मूल	1. प्रारम्भिक (हरि०)
Eligible	1. पात्र	1. पात्र	1. पात्र	1. पात्र/योग्य	1. पात्र/योग्य, पात्र	1. पात्र
Embezzlement	1. गबन	1. गबन	1. गबन, व्यवहरण	1. गबन	1. गबन, धनहुरण, छलहुरण	1. गबन (हरि०)
Emblem	1. प्रतीक, चिह्न	1. प्रतीक, चिह्न	1. प्रतीक	1. प्रतीक/चिह्न 2. प्रतीक/चिह्न- द्वारा प्रगट करना	1. प्रतीक, दृग्बन्ध	1. प्रतीक, चिह्न (हरि०)

1	2	3	4	5	6	7
Emergency	1. आपात, आपातिक, आपात-स्थिति	1. आपात, आपातिक	1. आपात-आपातिक, सकट-कालीन	1. आपातिक	1. आपात स्थिति, आपातिक, आपात-	1. आपात, आपातिक, आपात-स्थिति (हरि०)
Emigrant	1. उत्प्रवासी	1. उत्प्रवासी	1. उत्प्रवासी	1. उत्प्रवासी	1. उत्प्रवासी, प्रवासी	1. उत्प्रवासी (हरि०)
Emoluments	1. परिलब्धियाँ	1. परिलब्धियाँ, उपलब्धियाँ	1. परिलब्धि, उपलब्धि	1. परिलब्धियाँ	1. उपलब्धियाँ, परिलाभ, लाभ	1. परिलब्धियाँ (हरि०)
Employ	1. नियुक्त करना, नियोजित करना	1. नियुक्त करना	1. नियुक्त करना, नियोजित करना	1. (क्रि०) नियोजित करना	1. नियुक्त करना	1. नियुक्त करना, नियोजित करना
	2. प्रयोग करना, काम में लाना		2. प्रयोग करना, काम में लाना	1. सेवा, नौकरी	2. सेवामुक्त करना, नौकर रखना, काम में लगाना	2. प्रयोग करना, काम में लाना (हरि०)
Employee	1. कर्मचारी	1. कर्मचारी	1. कर्मचारी	1. कर्मचारी/मुलाञ्जिम	1. कर्मचारी, नौकर, मुलाञ्जिम, सेवामुक्त, काम करने वाले	1. कर्मचारी (हरि०)
Employer	1. नियोजता	1. नियोजता/नियोजक	1. नियोजता/नियोजक	1. नियोजता/नियोजक/मालिक	1. नियोजता, मालिक, स्वामी, नियोजक, सेवामुक्त	1. नियोजता

	1	2	3	4	5	6	7
Employment	1. नौकरी, रोजगार, सेवायोजन, व्यवसाय, नियोजन	1. नौकरी, रोजगार, नियोजन (विधि)	1. नौकरी/सेवा/ रोजगार, सेवा योजन/ नियोजन/ व्यवसाय, सेनायुक्त, नियोजन(विधि)	1. नियोजन/ रोजगार	1. नौकरी/रोजगार/ सेवा योजन/ सेवा युक्ति/ सेवाकार्य/ नियुक्ति	1. रोजगार (हरि०)	
Employment Exchange	1. रोजगार कार्यालय	1. रोजगार कार्यालय	1. रोजगार-कार्यालय/सेवायोजन कार्यालय	1. नियोजनालय/ रोजगार कार्यालय	1. रोजगार-कार्यालय/ कामदिलाज्ज-दफ्तर/सेवा-नियोजनालय	1. रोजगार विभाग (हरि०)	
Empower	1. शक्ति देना/ अधिकार देना	1. शक्ति देना/ अधिकार देना	1. शक्ति देना/ अधिकार देना	1. शक्ति देना/ अधिकृत करना/ सशक्त करना	1. शक्ति देना/ सशक्त करना/ अधिकृत करना/ अधिकार देना	1. शक्ति देना/ अधिकार देना (हरि०)	
Enact	1. अधिनियम-बनाना/ अधिनियमित-करना	1. अधिनियमित-करना/ अधिनियम बनाना	1. अधिनियमित-करना 2. अधिनियम-बनाना	1. अधिनियमित-करना/ अधिनियम बनाना	1. अधिनियम-बनाना/ अधिनियमित-करना/ विधान बनाना	1. अधिनियम बनाना (हरि०)	
Enactment	1. अधिनियमन	1. अधिनियमन	1. अधिनियमन, अधिनियमिति	1. अधिनियमन/ अधिनियमिति	1. अधिनियमन, अधिनियमिति	1. अधिनियमन	

1	2	3	4	5	6	7
Encashment	1. भुनाना/तुडाना	1. मुनाना/तुडाना	1. भुनाना/तुडाना	1. भुनाना	1. भुनाना/तुडाना/ भुनाई	1. भुनाना/तुडाना (हरि०)
Enclose	1. बंद करना	1. बंद करना	1. बंद करना	1. साथ रखना/ अनुलग्नक करना	1. बंद करना	1. बंद करना
	2. साथ रखना	2. साथ रखना/ सलग्न करना	2. साथ रखना/ सलग्न करना	2- घेरना	2. साथ भेजना/ सलग्न करना/ मध्यस्थित करना/ मरथी करना	2. साथ रखना (हरि०)
Enclosure	1. अनुलग्नक	1. अनुलग्नक	3. घेरना 1. अनुलग्नक	1. अनुलग्नक	1. अनुलग्नक/ सहलग्न/सलग्न	1. अनुलग्नक (हरि०)
	2. बाडा/अह्लाता	2. बाडा/अह्लाता	2. बाडा/घेरा	2. बाडा/अह्लाता	2. समावृत्ति/ बाडा/ घेरा/अह्लाता	
			3. मलभक्त		3. समावरण	
Encroachment	1. अधिभ्रमण	1. अधिभ्रमण/ दबा लेना / अतिक्रमण	1. अतिक्रमण	1. अधिभ्रमण/ अतिक्रमण	1. अधिभ्रमण, अतिक्रम अतिचार, दबा लेना	1. अधिभ्रमण
Endorsement	1. पृष्ठांकन/ सही करना	1. पृष्ठांकन/ सही करना	1. पृष्ठांकन/ सही करना	1. पृष्ठांकन	1. पृष्ठांकन/अंकन/ अनुलेखन/ अनुलेख, पृष्ठलेख	1. पृष्ठांकन (हरि०)
	2. समर्थन	2. समर्थन करना	2. समर्थन 3. अनुमोदन	2. वेचान	2. वेचान	

1	2	3	4	5	6	7
Endowment	1. विन्यास 2. धर्मस्व/धर्मदा/ धर्मदाय/ अक्षय निधि	1. — 2. अक्षय निधि	1. — 2. धर्मस्व/धर्मदा अक्षय निधि/ सन्दान	1. — 2. धर्मदा स्थाई निधि/ अक्षय निधि	1. — 2. धर्मस्व/धर्मदा/ धर्मदाय, देन स्थायी निधि	1. — 2. अक्षय निधि (हरि०)
Enforce	1. प्रवर्तन करना/ प्रवर्तन कराना	1. प्रवर्तन करना, प्रवर्तन कराना	1. प्रवर्तन करना/ प्रवर्तन कराना/ प्रवर्तित करना/ प्रचलित करना	1. प्रवर्तन करना/ प्रवृत्त करना/ प्रवर्तित करना 2. बाध्य करना/ विवश करना	1. प्रवर्तित करना/ सांगू करना/ पालन करना बाध्य करना/ प्रचलित करना/ विवश करना	1. प्रवर्तन करना/ सांगू करना (हरि०)
Engagement	1. आवध/ बचनबध	1. आवध/ बचनबध 2. कार्य-सलग्नता	1. आवध बचनबध 2. कार्य	1. बचनबध 2. काम पर लगाना, काम 3. पूर्वनिश्चय (मिसने का) 4. वाग्दान 5. युद्ध/सझाई	1. बचनबध/वादा/ प्रतिज्ञा/ बन्धन/ठहूराव 2. काम/कार्य 3. — 4. वाग्दान/सगाई	1. आवध/ बचनबध (हरि०)
Engagement diary	1. कार्य-डायरी	1. कार्य डायरी	1. कार्य डायरी	1. कार्य डायरी	1. कार्य डायरी	1. कार्य डायरी (हरि०)
Engineer	1. अभियंता/ इञ्जीनियर	1. अभियंता/ इञ्जीनियर	1. अभियंता/ इञ्जीनियर	1. अभियंता/ इञ्जीनियर	1. अभियंता/ इञ्जीनियर/ यमी	1. अभियंता/ इञ्जीनियर (हरि०)

	1	2	3	4	5	6	7
Enter (to make an entry)	1 दर्ज करना/ प्रविष्ट करना	1. दर्ज करना/ प्रविष्ट करना	1. दर्ज करना/ प्रविष्ट करना	1. दर्ज करना/ प्रविष्ट करना	1. दर्ज करना/ प्रविष्ट करना	1. दर्ज करना/ प्रविष्ट करना/ नोट करना	1. दर्ज करना (हरि०)
Enter (upon an office)	1 कार्यभार संभालना/ कार्यभार ग्रहण करना	1. कार्यभार संभालना/ कार्यभार ग्रहण करना	1. कार्यभार संभालना/ कार्यभार ग्रहण करना	1. कार्यभार संभालना/ कार्यभार ग्रहण करना	1 नोकरी शुरू करना/आरंभ करना	1. कार्यभार संभालना/ ग्रहण करना/ पद ग्रहण करना/ प्रवेश करना/ पुसना	1. कार्यभार- संभालना (हरि०)
Entertainment	1. मनोरंजन	1 मनोरंजन	1. मनोरंजन	1. मनोरंजन	1 प्रमोद मनोरंजन	1. मनोरंजन/प्रमोद/ आमोद	1. मनोरंजन (हरि०)
			2. सरकार	2. सरकार		2. सरकार/ आतिथ्य/ दायत	
			3. ग्रहण	3. ग्रहण		3. ग्रहण	
			4. नियुक्ति	4. नियुक्ति			

1	2	3	4	5	6	7
Entitle	1. हकदार होना/ हकदार बनाना	1. हकदार होना/ हकदार बनाना/ अधिकार देना	1. हकदार होना/ हकदार बनाना/ अधिकार देना/ 2. पदवी देना/ उपाधि देना 3. नाम रखना/ नाम देना/ शीर्षक देना	1. हकदार करना/ हकदार बनाना होना 2. उपाधि देना, 3. नाम देना/ शीर्षक देना	1. हकदार होना/ हकदार बनाना/ हक होना/ अधिकारी होना/ स्वत्वाधिकार होना/ स्वत्वाधिकार देना 2. उपाधि देना/ खिताब देना 3. शीर्षक देना	1. हकदार होना (हरि०)
Entrance	1. प्रवेश/ 2. प्रवेश-द्वार	1. प्रवेश/ 2. प्रवेश-द्वार	1. प्रवेश	1. प्रवेश	1. प्रवेश/ 2. प्रवेश-द्वार/ भीतर जाने का मार्ग/द्वार	1. प्रवेश/ 2. प्रवेश-द्वार (हरि०)
Entrust	1. सौंपना/ न्यस्त करना	1. सौंपना/ न्यस्त करना	1. सौंपना/ न्यस्त करना	1. सौंपना/ मुपुर्द करना/ न्यस्त करना 2. विश्वास पर छोडना	1. सौंपना/ न्यस्त करना	1. सौंपना/ न्यस्त करना (हरि०)
Entry	1. इन्दराज/प्रविष्टि 2. प्रवेश	1. इन्दराज/प्रविष्टि 2. प्रवेश	1. (पत्रिकादि में) प्रविष्टि/इन्दराज 2. प्रवेश	1. प्रविष्टि/इन्दराज 2. प्रवेश	1. प्रविष्टि 2. प्रवेश/दाखिला 3. सेख/सेखे	1. प्रवेश (हरि०)

1	2	3	4	5	6	7
Entry —, Adverse	1. प्रतलकूल दुन्दररर/प्रतलकूल प्रवरलषल	1. प्रतलकूल दुन्दररर/प्रतलकूल प्रवरलषल	1. प्रतलकूल दुन्दररर/प्रतलकूल प्रवरलषल	1. प्रतलकूल प्रवरलषल	1. प्रतलकूल प्रवरलषल	1. प्रतलकूल दुन्दररर/प्रतलकूल प्रवरलषल (हरर०)
Envoy —, Extra-ordinary	1. दूत असररररण दूत	1. दूत असररररण दूत	1. दूत असररररण दूत	1. दूत असररररण दूत	1. दूत असररररण दूत	1. दूत असररररण दूत (हरर०)
Epitome	1. ललषकषर/सर	1. ललषकषर/सर	1. ललषकषर/सर/ संक्षरप	1. ललषकषर/सररररर	1. सर संघह	1. ललषकषर/सर (हरर०)
Equality	1. सरतर	1. सरतर	1. सरतर	1. सरतर	2. प्रलररूपक 1. सरतर/ सरतरतर	1. सरतर (हरर०)
Equipment	1. उपरकर	1. उपरकर/ सररसररर	1. उपरकर/ सरर-सरररर,/ सरररर/सररषी	1. सरररर/सरर- सरररर/उपरकर	1. उपकरण, सरररर/सरररर- सररषी/सरर- सररतर	1. उपकरण (हरर०)
Equitable	1. सररररुत	1. सररररुत/ सररररक	1. सररररुत/ सररररक/ सररररररर	1. सरररररर/सरररररर	1. सरररररर/सरररररर/सरररररर/सरररररर/सरररररर/सरररररर	1. सररररुत (हरर०)

1	2	3	4	5	6	7
Equivalent	(सजा) 1. तुल्याक/ तुल्यमान	1. तुल्याक/ तुल्यमान	1. तुलांक/तुल्य	1. समतुल्य	(सजा) 1. सममूल्य/ समादं/ समशक्ति (विशेषण) समान/सम/तुल्य	1. समकक्ष (हरि०)
	2. पत्र/पर्याय (विशेषण) तुल्य/समकक्ष	2. पर्याय	2. पर्याय (वि०) समकक्ष/सम			2. पर्याय (हरि०)
Errata	1. श्रुद्धि-पत्र	1. अश्रुद्धि-पत्र	1. अश्रुद्धि-पत्र	1. अश्रुद्धि-पत्र	1. श्रुद्धि-पत्र/ अश्रुद्धि-पत्र	1. श्रुद्धि-पत्र (हरि०)
Error	1. त्रुटि/भूल/ गलती	1. त्रुटि/भूल/ गलती	1. त्रुटि/भूल	1. भूल/अश्रुद्धि	1. त्रुटि/भूल/ गलती/ चूक/अश्रुद्धि/ विभ्रम	1. भूल (हरि०)
Escort	1. अनुरक्षण	1. मार्ग-रक्षी 2. मार्ग रक्षा करना	1. (स०) मार्ग-रक्षी 2. (क्रि०) मार्ग-रक्षा करना/ रक्षा में पहुँचना	1. मार्ग-रक्षी 2. मार्ग-रक्षण	1. अनुरक्षण/पहरा 2. पहरेदार/ मार्ग-रक्षी/मार्ग- रक्षक, पय-रक्षी/ अनुरक्षक	1. अनुरक्षण (हरि०)
Essential	1. अनिवार्य/ आवश्यक	1. अनिवार्य/ आवश्यक	1. अनिवार्य/ परमावश्यक 2. सारभूत/तात्त्विक	1. परमावश्यक	1. अनिवार्य/ आवश्यक/अति/ परमावश्यक/प्रधान 2. सारभूत	1. अनिवार्य/ आवश्यक (हरि०)

1	2	3	4	5	6	7
Establishment	1. स्थापना	1. स्थापना/ संस्थापना 2. कर्मचारी-वर्ग	1. स्थापना 2. अधिष्ठात	1. स्थापना	1. स्थापना 2. मर्यादा/ प्रतिष्ठात/ स्थापन/ मर्यादा/ प्रतिष्ठात/ सिम्बरी	1. स्थापना (हरि०)
Establishment Section	1. स्थापना अनुभाग	1. स्थापना अनुभाग	1. स्थापना अनुभाग	1. स्थापना अनुभाग	1. स्थापना अनुभाग	1. स्थापना अनुभाग(हरि०)
Estate	1. सम्पदा (मसा) 1. प्राक्कलन/ आकलन/ अनुमान (किमा) आकलन श्रमना/ अंकना/कृतना	1. सम्पदा 1. आकलन/ आकलन/ अनुमान आकलन करना/ अंकना/कृतना	1. सम्पदा 1. सारदा, सम्पत्ति/ आस्थापन/एस्टेट 1. प्राक्कलन/ अनुमान/अंक	1. सम्पदा 1. आरिज/सम्पदा/ इस्टेट 1. प्राक्कलन (स०) (कि०) प्राक्कलन करना	1. सम्पदा, सम्पत्ति/ आधारे/ आस्थापन, ठिकाना/ भूमिसंपत्ति 1. प्राक्कलन/अंक/ अनुमान/ अनुमान-पत्र (किमा०) प्राक्कलन करना/कृतना/ आकना/ अनुमान संगाना	1. सम्पदा (हरि०) 1. अनुमान/ प्राक्कलन (हरि०)

1	2	3	4	5	6	7
Etiquette	1. शिष्टाचार	1. शिष्टाचार	1. शिष्टाचार	1. शिष्टाचार	1. शिष्टाचार	1. शिष्टाचार (हरि०)
Evaluation	1. मूल्यांकन	1. मूल्यांकन	1. मूल्यांकन	1. मूल्यांकन	1. मूल्यांकन	1. मूल्यांकन (हरि०)
Eviction	1. बेदखली/ निष्कासन	1. बेदखली/ निष्कासन	1. बेदखली/ निष्कासन	1. बेदखली	1. बेदखली/ निष्कासन/ अधिनिष्कासन	1. बेदखली/ निष्कासन (हरि०)
Evidence	1. साक्ष्य/गवाही/ प्रमाण	1. साक्ष्य/गवाही/ प्रमाण	1. साक्ष्य/गवाही/ प्रमाण	1. साक्ष्य/गवाही/ प्रमाण	1. साक्ष्य/गवाही/ प्रमाण	1. साक्ष्य/गवाही (हरि०)
Evolue	1 विकसित करना	1 विकसित करना	1. विकसित करना, प्रस्तुत करना	1. विकसित करना	1. विकसित करना/ प्रकट करना/ प्रस्तुत करना	1. विकसित करना (हरि०)
Ex-cadre post	2. (शब्द) निर्माण करना 1. सर्वगंबाह्य पद	2 (शब्द) निर्माण करना 1. सर्वगंबाह्य पद	1. नि.सर्वगं पद	1 सर्वगंबाह्य पद	1. नि.सर्वगं पद	1. सर्वगंबाह्य पद (हरि०)
Exceptional	1. विशिष्ट/ अपवादात्मक	1 विशिष्ट/ अपवादात्मक	1. आपवादिक/ अपवाद/ असामान्य/ विशेष	1 आपवादिक/ विशेष/ असामान्य/ असाधारण	1. विशिष्ट/ अपवादात्मक/ आपवादिक/ असाधारण/ असामान्य	1. अपवादात्मक (हरि०)
Excess	1 अति/अधिकता/ ज्यादती	1 अति/अधिकता ज्यादती	1. अति/अधिकता/ ज्यादती/ अधिकता/बढ़ती	1. अधिक्य/ अधिकार्ई	1. अति/अधिकता/ ज्यादती/ आधिक्य/बढ़ती/ अतिरिक्तता/ अधिकार्ई/अतिरेक	1. अधिकता (हरि०)

	1	2	3	4	5	6	7
Exchange	1. विनिमय 2. केन्द्र	1. विनिमय 2. केन्द्र	2. अधिक (राशि- व्यय आदि)	1. विनिमय 2. विनिमय केन्द्र	1. (म०) विनिमय 2. इकसपैज (फि०) विनिमय करना	2. अतिरिक्त/ अधिक/पक्का हुआ	1. विनिमय 2. केन्द्र (हरि०)
Excise	1 उत्पादन-शुल्क 2 जाबकारी	1 उत्पादन-शुल्क 2. जाबकारी	1. उत्पादन-शुल्क 2. जाबकारी	1. उत्पादन-शुल्क 2. जाबकारी	1. उत्पादन-शुल्क 2. जाबकारी/	1. उत्पादन-शुल्क 2. जाबकारी	1. उत्पादन-शुल्क 2. जाबकारी (हरि०)
Exclude	1 बर्जित करना/ निकालना/ अपवर्जन	1. बर्जित करना/ निकालना	1. बर्जित करना/ निकालना/ अपवर्जन/ निकाल देना/ पृथक् करना/ 2. छोड़ देना	1. बर्जित करना/ निकालना/ अपवर्जित करना	1. बर्जित करना/ अपवर्जित करना	1. अपवर्जित करना/ अपवर्जन करना पृथक् करना/ अलग करना/ बाहुर करना/ निकाल देना/ निष्कासन	1. निकालना (हरि०)
Exclusive	1. अनन्य 2. रहित	1. अनन्य 2. रहित	1. अनन्य 2. केवल	1. अनन्य 2. छोड़कर	1. अनन्य/एकमात्र 2. छोड़कर	1. अनन्य/एकमात्र 2. केवल/मात्र/ अतिरिक्त/एकाकी/ अपवर्जा	1. अनन्य 2. रहित (हरि०)

1	2	3	4	5	6	7
Exclusively	1. अनन्य रूप से	1. अनन्य रूप से	1. केवल	1. अनन्य रूप से	1. अनन्य/केवल/ एकाकी रूप से/ पूर्णरूपेण	1. अनन्य रूप से
Exclusive Powers	1. अनन्य शक्तियाँ/ एकमात्र अधिकार	1. अनन्य शक्तियाँ/ एकमात्र अधिकार	1. अनन्य शक्तियाँ/ एकमात्र अधिकार/ अनन्य अधिकार	1. अनन्य शक्तियाँ	1. अनन्य शक्तियाँ/ एकमात्र अधिकार/ अनन्य अधिकार	1. अनन्य शक्तियाँ (हरि०)
Exclusive right	1. अनन्य अधिकार	1. अनन्य अधिकार	1. अनन्य अधिकार	1. अनन्य अधिकार	1. अनन्य अधिकार	1. अनन्य अधिकार (हरि०)
Execute	1. निष्पादन करना	1. निष्पादन करना	1. निष्पादित करना/ निष्पादन करना	1. निष्पादित करना	1. निष्पादन करना/ निष्पादित करना/लिखना/ सम्पादन करना/ सम्पादित करना	1. निष्पादन करना (हरि०)
			2. (का) पालन करना/ (का) कार्यान्वित करना	2. कार्यपालन करना/ अमल में लाना	2. कार्यपालन करना/ कार्यान्वित करना/निर्वाह करना/प्रवर्तन करना	
			3. फाँसी देना/ प्राणदण्ड देना	3. फाँसी देना/ प्राणदण्ड देना	3. फाँसी देना/ प्राणदण्ड देना	
				4. इजराय करना, लिखना	4. लिख देना/ लिखना	

1	2	3	4	5	6	7
			(संज्ञा)	(संज्ञा)		
Executive	1. कार्यपालिका	1. कार्यपालिका	1. कार्यपालिका	1. कार्यपालिका/ कार्यालय	1. कार्यपालिका	1. कार्यपालिका
	2. कार्यपालक/ प्रबन्धक	2. कार्यपालक/ प्रबन्धक/ कार्यकारी	2. कार्यपालक (विशेषण) कार्यकारी	2. कार्यकारी/ कार्यकारी (विशेषण) कार्यपालक	2. कार्यपालक/ निष्पादी/ कार्यकारी/ कार्यपालिका	2. कार्यपालक/ प्रबन्धक (हरि०)
		3. अधिशासी	3. अधिशासी		3. निष्पादक 4. प्रबन्ध- कारिणी	
Executive Engineer	1. कार्यपालक इञ्जीनियर	1. कार्यपालक इञ्जीनियर	1. अधिशासी अभियन्ता/ कार्यपालक अभियन्ता/ इञ्जीनियर	1. कार्यपालक अभियन्ता	1. कार्यपालक इञ्जीनियर	1. कार्यपालक इञ्जीनियर (हरि०)
Exempt	1. विमुक्त करना/ छूट देना/ माफी देना	1. विमुक्त करना/ छूट देना/ माफी देना	1. विमुक्त करना/ छूट देना/ माफी देना/ मुक्त करना	1. विमुक्त करना/ छूट देना	1. मुक्त करना/ छूट देना/ माफी देना	1. छूट देना/ माफी देना (हरि०)
Exemption	1. छूट/माफी	1. छूट/माफी	1. छूट/माफी/ मुक्ति/ विमुक्ति	1. छूट/माफी	2. मुक्त 1. छूट/माफी/ मुक्ति	1. छूट/माफी (हरि०)
Exercise	1. प्रयोग करना	1. प्रयोग करना	1. प्रयोग करना/ प्रयोग करना	1. प्रयोग करना	1. प्रयोग करना	1. प्रयोग करना (हरि०)

1	2	3	4	5	6	7
			2. अभ्यास करना 3. व्यायाम करना	2. अभ्यास करना 3. व्यायाम करना (सजा) 1. व्यायाम 2. अभ्यास	(सजा) 1. व्यायाम/ कवायद/ट्रिबल 2. अभ्यास/पाठ/ प्रश्नावली 3. प्रयोग/ अनुष्ठान	
Exercise of power	1. शक्ति-प्रयोग	1. शक्ति-प्रयोग	1. शक्ति-प्रयोग	1. शक्ति-प्रयोग	1. शक्ति का प्रयोग/ अधिकारी-प्रयोग	1. शक्ति-प्रयोग (हरि०)
Ex-gratia-payment	1. अनुग्रहपूर्वक अदायगी	1. अनुग्रहपूर्वक अदायगी	1. अनुग्रह भुगतान/ अनुग्रहपूर्वक अदायगी	1. अनुग्रहपूर्वक अदायगी	1. अनुग्रहपूर्वक अदायगी	1. अनुग्रहपूर्वक अदायगी (हरि०)
Exigency	1. अनिवार्य आवश्यकता/ अत्यावश्यकता	1. अनिवार्य आवश्यकता/ अत्यावश्यकता	1. अनिवार्य आवश्यकता/ अत्यावश्यकता	1. अनिवार्य आवश्यकता	1. अत्यावश्यकता/ अपेक्षा	1. अत्यावश्यकता (हरि०)
Ex-officio	1. पदेन	1. पदेन.	1. पदेन	1. पदेन	1. पदेन/ पद के नाते	1. पदेन (हरि०)
Expansion	1. विस्तार/प्रसार/ प्रसरण	1. विस्तार/प्रसार/ प्रसरण	1. विस्तार/प्रसार/ प्रसरण	1. प्रसार	1. विस्तार/प्रसारण/ प्रसार	1. विस्तार/प्रसार/ प्रसारण (हरि०)

1	2	3	4	5	6	7
Exparte	1. एकपक्षीय	1. एकपक्षीय	1. एकपक्षीय	1. एकतरफा/ एकपक्षीय	1. एकतरफा/ एकपक्षीय	1. एकतरफा एकपक्षीय (हरि०)
Expedite	1. शीघ्र कार्रवाई करना/ शीघ्र निबटाना	1. शीघ्र कार्रवाई करना/ शीघ्र निबटाना	1. शीघ्र कार्रवाई करना/ शीघ्र निबटाना/ शीघ्र करना/ (मे) शीघ्रता करना	1. शीघ्र कार्रवाई करना/ शीघ्रता करना	1. शीघ्र कार्रवाई करना/ शीघ्र निबटाना/ अतिशीघ्रता करना/ त्वर करना/ शीघ्रता करना/ शीघ्र सम्पादन करना	1. शीघ्र कार्रवाई करना (हरि०)
Expel	1. निकाल देना/ निष्कासित करना	1. निकाल देना/ निष्कासित करना	1. निष्कासित करना	1. निष्कासित करना/ बाहर निकालना	1. निकाल देना/ निष्कासन करना/ बाहर निकालना	1. निकाल देना/ निष्कासित करना
Expenditure	1. व्यय/खर्च	1. व्यय/खर्च	1. व्यय/खर्च	1. व्यय	1. व्यय/खर्च	1. व्यय/खर्च
Experiment	1. प्रयोग/परीक्षण	1. प्रयोग/परीक्षण	1. प्रयोग	1. प्रयोग (सं०) 2. प्रयोग करना (क्रिया)	1. प्रयोग/परीक्षण/ सपरीक्षा	1. प्रयोग/परीक्षण (हरि०)
Expert	1. विशेषज्ञ	1. विशेषज्ञ	1. विशेषज्ञ	1. विज्ञ/विशेषज्ञ 2. प्रवीण	1. विशेषज्ञ/ 2. प्रवीण/दक्ष/पटु	1. विशेषज्ञ (हरि०)
Expire	1. समाप्त	1. समाप्त	1. समाप्त	1. समाप्त/अन्त	1. समाप्त/ अवसान	1. समाप्त (हरि०)

1	2	3	4	5	6	7
Explanation	1. व्याख्या 2. स्पष्टीकरण	1. व्याख्या 2. स्पष्टीकरण	1. व्याख्या 2. स्पष्टीकरण/ जवाब-तलबी	1. व्याख्या 2. कैफियत/ स्पष्टीकरण/ जवाब-तलबी	1. व्याख्या 2. स्पष्टीकरण/ जवाब-तलबी	1. व्याख्या 2. स्पष्टीकरण/ जवाब-तलबी (हरि०)
Exploit	1. शोषण करना 2. समुपयोग करना	1. शोषण करना	1. शोषण करना 2. [अपलाभ लेना/ अनुचित लाभ उठाना/ उपयोग करना	1. शोषण करना	1. शोषण करना	1. शोषण करना (हरि०)
Expost facto	1. कार्योत्तर	1. कार्योत्तर	1. कार्योत्तर	1. कार्योत्तर	1. कार्योत्तर/ घटनोत्तर 2. पश्चात्/ कारणात्	1. कार्योत्तर (हरि०)
Ex-President	1. भूतपूर्व राष्ट्रपति 2. भूतपूर्व अध्यक्ष	1. भूतपूर्व राष्ट्रपति 2. भूतपूर्व अध्यक्ष	1. भूतपूर्व राष्ट्रपति 2. भूतपूर्व सभापति	1. भूतपूर्व राष्ट्रपति 2. भूतपूर्व अध्यक्ष	1. भूतपूर्व राष्ट्रपति 2. भूतपूर्व अध्यक्ष	1. भूतपूर्व राष्ट्रपति 2. भूतपूर्व अध्यक्ष (हरि०)
Express	(विशेषण) 1. तुरत 2. अभिव्यक्त	(विशेषण) 1. तुरत 2. अभिव्यक्त	(विशेषण) 1. तुरत 2. अभिव्यक्त/ स्पष्ट/ द्रुतगामी/आगु	(विशेषण) 1. अभिव्यक्त/व्यक्त/ द्रुतगामी/द्रुत	(विशेषण) 1. तुरत 2. अभिव्यक्त/ व्यक्त/स्पष्ट व्यक्तदिग्ध/निश्चित/ अतिदीर्घ/आगु/ आगुण/द्रुत/त्वरित	1. तुरत (हरि०)

1	2	3	4	5	6	7
	(सजा) एकसप्रेस (क्रिया) व्यक्त करना/ प्रकट करना/ अभिव्यक्त करना	(सजा) एकसप्रेस (क्रिया) व्यक्त करना/ प्रकट करना/ अभिव्यक्त करना	(क्रिया) व्यक्त करना/ प्रकट करना/ अभिव्यक्त करना	(क्रिया) अभिव्यक्त करता	(क्रिया) अभिव्यक्त करना/ व्यक्त करना/ प्रकट करना	
Expulsion	1. निष्कासन/ निर्वासन/ निकाल देना/ बहिष्करण	1. निष्कासन/ निर्वासन/ निकाल देना	1. निष्कासन/ निर्वासन/ निकाल देना/ बहिष्करण	1. निष्कासन	1. निष्कासन/ निर्वासन/ निकाल देना/ बहिष्करण/ अवसारण	1. निष्कासन/ निकाल देना/ बहिष्करण (हरि०)
Extend	1. बढ़ाना/ विस्तार करना 2. प्रचलित होना/ लागू होना	1. बढ़ाना/ विस्तार करना 2. प्रचलित होना/ लागू होना	1. बढ़ाना/ विस्तार करना 2. प्रचलित होना/ लागू होना 3. विस्तार होना/ फैलाना/ प्रसारित करना	1. बढ़ाना/बढ़ाना 2. लागू होना 3. विस्तार होना/ करना	1. बढ़ाना/फैलाना/ विस्तार करना — 3. अधिक विस्तृत करना/ विस्तृत होना	1. बढ़ाना/ विस्तार करना 2. प्रचलित होना/ लागू होना (हरि०)
Extension	1. विस्तार/बढ़ाना	1. विस्तार/बढ़ाना	1. विस्तार/बढ़ाना/ वृद्धि/प्रसार	1. विस्तार	1. विस्तार/प्रसार/ बढ़ाना/प्रसार/ वृद्धि 2. व्याप्ति 3. विस्तार-क्षेत्र	1. विस्तार/बढ़ाना (हरि०)

	1	2	3	4	5	6	7
F							
Fabricate	1. गढ़ना 2. निर्माण करना	1. गढ़ना 2. निर्माण करना	1. गढ़ना 2. निर्मित करना/ बनाना	1. गढ़ना 2. बनाना/रचना 3. जान बनाना	1. गढ़ना 2. बनाना/ निर्माण करना/ सबिखरचना करना 3. गढ़लेना/ जानी बनाना/ मिथ्या रचना करना	1. गढ़ना 2. निर्माण करना (हरि०)	
Face value	1. अंकित मूल्य	1. अंकित मूल्य/ प्रत्यक्ष मूल्य	1. अंकित मूल्य	1. मुद्रण मूल्य	1. अंकित मूल्य/ प्रत्यक्ष मूल्य/ अंकित अर्हति	1. अंकित मूल्य (हरि०)	
Facility	1. आसानी/सुविधा	1. आसानी/सुविधा	1. आसानी/सुविधा 2. सुकरता/ सरलता	1. आसानी/सुविधा 2. सोर्ये/ सहजियत	1. सुविधा 2. सोर्ये	1. आसानी/सुविधा (हरि०)	
Fact	1. तथ्य	1. तथ्य	1. तथ्य	1. तथ्य 2. वात	1. तथ्य 2. घटना/भूलाये/ वस्तुस्थिति	1. तथ्य (हरि०)	
Faculty	1. सहाय	1. सहाय/भाषा	1. सहाय/भाषा 2. शक्ति	1. अधिकार/भाषा	1. सहाय/निराज 2. सहाय/धमता/ योग्यता	1. सहाय (हरि०)	

1	2	3	4	5	6	7
					(विशेषण)	
Fair	1. स्वच्छ	1 स्वच्छ	1 स्वच्छ/साफ	1. स्वच्छ	1 स्वच्छ/सुवाच्य/ सुन्दर/स्पष्ट	1. स्वच्छ
	2 उचित	2 उचित	2. उचित	2 उचित, न्याय्य	2 उचित/न्याय्य/सत्य/ 2 न्यायोचित	2 उचित
	3. निष्कपट	3 निष्कपट	3 निष्पक्ष	3 निष्पक्ष	3 सच्चा	3 निष्कपट
	4 पर्याप्त/ साधारण	4. पर्याप्त/ साधारण	4 पर्याप्त/ समुचित/सुपाठ्य	5. नियमानुसार 6 मध्यम/सामान्य 7 सच्चा/गुद्ध	4. पर्याप्त	4 पर्याप्त/ साधारण(हरि०)
Fair copy	1. स्वच्छ प्रति	1. स्वच्छ प्रति	1 स्वच्छ प्रति	8 (स०) मेला	8 (स०)मेला/यात्रा	1. स्वच्छ प्रति (हरि०)
Fair deal	1. उचित व्यवहार/ निष्कपट व्यवहार	1 उचित व्यवहार/ निष्कपट व्यवहार	1 उचित व्यवहार/ न्याय्य व्यवहार	1 स्वच्छ व्यवहार	1. उचित व्यवहार/ निष्कपट व्यवहार/ सत्य व्यवहार/ न्याय्य व्यवहार	1 उचित व्यवहार (हरि०)
Fair price	1. उचित मूल्य/ उचित भाव	1. उचित मूल्य/ उचित भाव	1. उचित मूल्य	1 उचित मूल्य	1 उचित मूल्य/ उचित भाव	1. उचित मूल्य/ उचित भाव (हरि०)
Fairness	1. औचित्य/न्याय	1. औचित्य/न्याय	1. औचित्य/न्याय	1 औचित्य/न्याय	1 औचित्य/न्याय	1. औचित्य/न्याय (हरि०)
Farewell address	1. विदाई भाषण	1. विदाई भाषण	1 विदाई का अभिनन्दन-पत्र	1 विदाई-पत्र	1. विदाई भाषण	1. विदाई भाषण (हरि०)

	1	2	3	4	5	6	7
Fault		1. दोष/चूक	1. दोष/चूक	1. दोष 2. कसूर	1. त्रुटि/दोष 2. कसूर	1. दोष/त्रुटि 2. अपराध	1. दोष/चूक (हरि०)
Fault finding		1. छिद्रान्वेषण/ दोष निकालना	1. दोष निकालना	1. छिद्रान्वेषण/ दोष निकालना	1. दोषान्वेषण दोषान्वेषी	1. छिद्रान्वेषी/ दोषान्वेषी/ काक दृष्टि	1. छिद्रान्वेषण/ दोष निकालना (हरि०)
Faultless		1. दोषरहित	1. दोषरहित	1. दोषरहित	1. दोषरहित	1. दोषरहित, त्रुटिरहित	1. दोषरहित
Faulty		1. दोषपूर्ण/सदोष	1. दोषपूर्ण,सदोष	1. दोषपूर्ण/सदोष	1. दोषपूर्ण/सदोष	1. दोषपूर्ण/सदोष	1. दोषपूर्ण/सदोष (हरि०)
Favour		1. अनुग्रह/कृपा 2. पक्षपात/पक्ष	1. अनुग्रह/कृपा 2. पक्षपात/पक्ष	1. अनुग्रह/कृपा 2. पक्षपात/पक्ष	1. अनुग्रह/कृपा 2. पक्षपात/पक्ष	1. अनुग्रह/कृपा 2. पक्षपात/पक्ष 3. पक्षपात करना/ अनुग्रह करना	1. अनुग्रह/कृपा 2. पक्षपात/पक्ष (हरि०)
Favourable	1. अनुकूल	1. अनुकूल	1. अनुकूल	1. अनुकूल	1. अनुकूल	1. अनुकूल	1. अनुकूल (हरि०)
Favouritism	1. पक्षपात	1. पक्षपात	1. पक्षपात	1. पक्षपात	1. पक्षपात	1. पक्षपात	1. पक्षपात
Federation	1. सघीकरण 2. महासघ	1. सघीकरण 2. महासघ	1. सघीकरण 2. महासघ	1. सघ	1. सघीकरण 2. महासघ	1. सघ 2. सघान	1. सघीकरण 2. महासघ (हरि०)
Feeling	1. भाव/अनुभूति/ भावना	1. भाव/अनुभूति/ भावना	1. भावना	1. भावना	1. भाव, भावना	1. भावना	1. भावना (हरि०)
	2. सवेदन	2. सवेदन	2. सवेदन	2. सवेदन	2. सवेदन	2. सघान	1. सघीकरण 2. महासघ (हरि०)
	1. अधिसदस्य	1. पार्षद	1. पार्षद	1. पार्षद	1. अधिसदस्य/ पार्षद	1. अधिसदस्य	1. अधिसदस्य (हरि०)
Fellow (a member)							

1	2	3	4	5	6	7
				2. अधिवृत्तिक/ अध्येता	2. अधिछात्र	
				3. साथी	3. साथी	
					4. सह-	
					5. रत्न-सदस्य	
Fellow of an Academy	1. रत्न सदस्य	1. रत्न सदस्य	1. रत्न सदस्य	1. रत्न सदस्य	1. रत्न सदस्य	1. रत्न सदस्य (हरि०)
Fellow	1. अध्येता	1. अध्येता	1. अध्येता/ शोध पापंद	1. अध्येता	1. अध्येता	1. अध्येता(हरि०)
—, Research Fellowship	1. अध्येतावृत्ति	1. शिक्षावृत्ति	1. अधिछात्रवृत्ति	1. अधिवृत्तिका	1. शिक्षावृत्ति/ अधिछात्रवृत्ति	1. अध्येतावृत्ति (हरि०)
			2. अधिसदस्यता	2. अधिसदस्यता	2. अधिसदस्यता	
			3. मैत्री/भाईचारा			
Festival advance	1. उत्सव अग्रिम/ स्वोद्धार पेयगी	1. उत्सव अग्रिम/ उत्सवार्थ	1. उत्सव अग्रिम/ स्वोद्धार अग्रिम	1. उत्सव अग्रिम	1. उत्सव अग्रिम	1. उत्सव अग्रिम (हरि०)
Fictitious	1. काल्पनिक/ कल्पित	1. काल्पनिक/ कल्पित	1. काल्पनिक/ कल्पित	1. कल्पित/ काल्पनिक	1. काल्पनिक/ कल्पित/मनगढन्त	1. काल्पनिक/ कल्पित
	2. फर्जी	2. फर्जी	2. अवास्तविक, फर्जी	2. बनाबटो, फर्जी	2. अवास्तविक बनाबटो/ कृत्रिम/कूट	2. फर्जी (हरि०)
					3. कथाल्पक	
Fidelity	1. निष्ठा/ वफादारी	1. निष्ठा/ वफादारी	1. निष्ठा/भक्ति/ वफादारी	1. वफादारी/ एकनिष्ठा/ निष्ठा	1. निष्ठा/ वफादारी/ स्वामिभक्ति/ पातिव्रत्य/ एकनिष्ठा	1. निष्ठा/ वफादारी (हरि०)

	1	2	3	4	5	6	7
				2. विश्वस्तता/ ईमानदारी		2. विश्वस्तता	
			3. सातत्य				
Figure	1 अक	1 अक	1 अक	1. अक	1. अक	1. अक/मदरा, आंकड़ा	1. अक
	2 आकृति	2 आकृति	2 आकृति	2 आकृति	2 आकृति	2 आकृति, प्रतिरूप	2. आकृति (हरि०)
Figures	1 आंकड़े	1 आंकड़े	1 आंकड़े/अक	1. आंकड़े/अक	1. आंकड़े	3 मूर्ति	1. आंकड़े (हरि०)
			2 आकृति	2 आकृति	2 आकृति	1. आकड़े	
File	1 सचिका/मिसिल/ फाइल	1 सचिका/मिसिल/ फाइल	1. (सजा)सचिका/ मिसिल/फाइल/ पत्रावली/नत्वी	1. (सजा) फाइल/ सचिका/मिसिल	1. (सजा) फाइल/ सचिका/मिसिल	1. मिसिल/नत्वी/ फाइल	1. मिसिल/फाइल (हरि०)
	(क्रिया)	(क्रिया)	2. (पुलिस) फाइल/वसित (आपे-पीछे)	(क्रिया)	(क्रिया)	(क्रिया)	
	1 फाइल करना/ दाखिल करना	1 फाइल करना	1. नत्वी करना/ फाइल करना	1. फाइल करना/ (केस) फाइल करना/ दाखिल करना (ऑफ़िशेट) सचिकाबद्ध करना/ सचिका में रख देना	1. फाइल करना/ (केस) फाइल करना/ दाखिल करना (ऑफ़िशेट) सचिकाबद्ध करना/ सचिका में रख देना	1. फाइल करना/ नत्वी करना/ नस्तिबद्ध करना/ फाइल में रखना/ प्रकरण पत्र में सम्मिलित करना	

1	2	3	4	5	6	7
			2. निर्देगित करना/ दायर करना	2. दायर करना	2. दायर करना / निर्देगित करना 3. रेतना, रेती करना	
File cover	1. फाइल आवरण	1. फाइल आवरण	1. फाइल आवरण/ नरुपी आवरण	1. सचिका आवरण/ फाइल-आवरण	1. फाइल आवरण	1. फाइल आवरण (हरि०)
Filing system	1. फाइल पद्धति	1. फाइल पद्धति	1. फाइल पद्धति	1. फाइल पद्धति	1. फाइल पद्धति	1. फाइल पद्धति (हरि०)
Final	1. अन्तिम	1. अन्तिम	1. अन्तिम	1. अन्तिम/अन्त	1. अन्तिम	1. अन्तिम (हरि०)
Finalise	1. अन्तिम रूप देना	1. अन्तिम रूप देना	1. अन्तिम रूप देना	1. अन्तिम रूप देना	1. अन्तिम रूप देना	1. अन्तिम रूप देना (हरि०)
			2. परिनिश्चित करना		2. निश्चय करना	
Finance	1. वित्त (क्रि०) रुपया लगाना	1. वित्त, (क्रि०) रुपया लगाना	1. वित्त (क्रि०) रुपया लगाना	1. वित्त (क्रि०) रुपया लगाना	1. वित्त, अर्थ (क्रि०) रुपया लगाना, वित्त- व्यवस्था करना	1. वित्त (क्रि०) रुपया लगाना
Financial	1. वित्तीय/ वित्तसम्बन्धी/ वित्त	1. वित्तीय/ वित्तसम्बन्धी	1. वित्तीय/वित्त	1. वित्त/ वित्तीय/वित्त- सम्बन्धी	1. वित्तीय/ आर्थिक/वित्त- सम्बन्धी	1. वित्तीय/ वित्त-सम्बन्धी (हरि०)
Financial obligation	1. वित्तीय दायित्व/ वित्तीय आभार	1. वित्तीय दायित्व/ वित्तीय आभार	1. वित्तीय दायित्व/ वित्तीय आभार	1. वित्तीय आभार/ वित्तीय आभार	1. वित्तीय दायित्व/ वित्तीय आभार/ वित्तीय भार/ वित्त-सम्बन्धी भार	1. वित्तीय दायित्व/ वित्तीय आभार (हरि०)

144 / अखिल भारतीय प्रशासनिक शब्दकोश

1	2	3	4	5	6	7
Financial powers	1. वित्तीय शक्तियाँ/ वित्तीय अधिकार	1. वित्तीय शक्तियाँ/ वित्तीय अधिकार	1 वित्तीय शक्तियाँ/ वित्तीय अधिकार	1 वित्त-शक्ति	1. वित्तीय शक्तियाँ/ वित्तीय अधिकार/ वैतिक शक्ति	1. वित्तीय-शक्तियाँ/ वित्तीय अधिकार (हरि०)
Financial sanction	1. वित्तीय मजूरी/ वित्तीय सस्वीकृति	1. वित्तीय मजूरी/ वित्तीय सस्वीकृति	1 वित्तीय मजूरी/ वित्तीय सस्वीकृति	1. वित्तीय मजूरी	1. वित्तीय मजूरी/ वित्तीय सस्वीकृति	1. वित्तीय मजूरी (हरि०)
Financial year	1. वित्तीय वर्ष/ वित्त वर्ष	1. वित्तीय वर्ष वित्त वर्ष	1 वित्तीय वर्ष	1. वित्त-वर्ष/ वित्तीय वर्ष	1 वित्तीय वर्ष/ वित्त वर्ष/ आधिक वर्ष	1. वित्त वर्ष (हरि०)
Findings	1. निष्कर्ष	1. निष्कर्ष	1. निष्कर्ष	1. निष्कर्ष	1. निष्कर्ष/ निष्पन्न	1. निष्कर्ष (हरि०)
Fiscal	1. राजस्व-संबंधी	1. राजस्व-संबंधी	2. अधिपन्न 1. राजस्व-संबंधी/ राजस्व/ राजकोषीय/ वित्तीय	2 अधिपन्न 1. राजकोषीय/ राजस्व-संबंधी	1. निष्कर्ष/ निष्पन्न 2. उत्पत्ति	1. वित्त वर्ष (हरि०) 1. निष्कर्ष (हरि०)
Fitness certificate	1. आरोग्य प्रमाण-पत्र	1. आरोग्य प्रमाण-पत्र	1. आरोग्य प्रमाण-पत्र/आरोग्य-पत्र	1. स्वस्थता प्रमाण-पत्र/आरोग्य प्रमाण-पत्र 2 योग्यता प्रमाण-पत्र	1. आरोग्य प्रमाण पत्र/स्वस्थता प्रमाण-पत्र/ 2. उपयुक्तता प्रमाण-पत्र	1. राजस्व-संबंधी (हरि०) 1. आरोग्य प्रमाण-पत्र (हरि०)

1	2	3	4	5	6	7
Fixation (pay etc)	1. नियतन/ स्थिर करना	1. नियतन/ स्थिर करना/ स्थिरीकरण	1. नियतन/ स्थिर करना/ (धन) स्थिरीकरण/ निश्चित करना/ नियत करना	1. स्थिरीकरण/ निश्चयन/ नियतन	1. स्थिरीकरण/ स्थिरीभवन/ निर्धारण	1. नियतन/ स्थिर करना (हरि०)
Fixed (position)	1. स्थिर/बद्ध	1. स्थिर/बद्ध	1. स्थिर/निश्चित/ नियत	1. स्थिर, निश्चित/ नियत	2. लक्षबधन 1. स्थिर/ स्थिरीकृत/ बद्ध/स्थायी/ निश्चित	1. स्थिर/बद्ध (हरि०)
Fixed deposit	1. सावधिक निक्षेप/ आवधिक जमा	1. आवधिक निक्षेप/ सावधिक जमा	1. आवधिक निक्षेप/ आवधिक जमा/ मियादी जमा/ नियतावधि जमा/ नियतकालिक जमा	1. मियादी जमा/ नियत जमा/ आवधिक जमा/	1. आवधिक निक्षेप/ सावधि जमा/ मुद्दती धरोहर/ सावधि निक्षेप	1. आवधिक जमा (हरि०)
Fluctuation	1. उच्चावचन/ घट-बढ़/ उतार-चढ़ाव	1. उच्चावचन/ घट-बढ़/ उतार-चढ़ाव	1. उच्चावचन/ घट-बढ़/ उतार-चढ़ाव/	1. चढ़ाव-उतार/ घट-बढ़	1. उच्चावचन/ घट-बढ़/ घटा-चढ़ी/	1. घट-बढ़/ उतार-चढ़ाव

	1	2	3	4	5	6	7
				अस्थिरता			
Flyleaf	1. कोरा पन्ना	1. कोरा पन्ना	1. कोरा पन्ना	1. कोरा पन्ना	1. सचिवावरण	पटाव-बड़ाप/ उत्तर-बड़ाप/ परिवर्तन/ अस्थिरता	1. कोरा पन्ना (हरि०)
Folder	1. फोल्डर/पुटक	1. फोल्डर, पुटक	1. फोल्डर	1. फोल्डर, पुटक	1. फोल्डर, पुटक	1. कोरा पन्ना, निरक पत्र	1. फोल्डर, पुटक (हरि०)
Folio	1. पन्ना, फोलियो	1. पन्ना/फोलियो	1. पन्ना, फोलियो	1. पन्ना, फोलियो	1. फोलियो/ पत्रक पन्ना	1. पन्ना/फोलियो	1. पन्ना/फोलियो (हरि०)
Follow up action	1. अनुवर्ती कार्यवाही (कार्रवाई)	1. अनुवर्ती कार्यवाही	2. (लिखा बहो में) पृष्ठ 3. दुपन्ना/ चौपेओ/दुपेओ	1. अनुवर्ती कार्यवाही	1. अनुवर्ती कार्रवाई	2. पृष्ठ	1. कोरा पन्ना (हरि०)
Following	1. निम्नलिखित/ नीचे लिखा/ नीचे दिया	1. निम्नलिखित	1. निम्नलिखित/ नीचे लिखा/ नीचे दिया	1. निम्नलिखित/ नीचे लिखा/ नीचे दिया	1. नीचे लिखा/ निम्नलिखित/ निम्न/ निम्नांकित	1. अनुवर्ती कार्यवाही	1. फोल्डर, पुटक (हरि०)
	2. अनुगामी	2. अनुगामी	2. अनुगामी	2. अनुगामी	2. अवला, (मत्ता) अनुगामी, अनुगामी	1. निम्नलिखित/ नीचे लिखा	1. पन्ना/फोलियो (हरि०)
						2. अनुगामी (हरि०)	
						2. आगामी/ अनुवर्ती/ उत्तरवर्ती/ अनुगामी	

1	2	3	4	5	6	7
			3. अनुलिखित/ भाग लिखा या दिया हुआ			
Foodgrains	1. धान	1. धान	1. धान	1. धान	1. धान/अनाज	1. धान (हरि०)
Foot-note	1. पाद टिप्पणी	1. पाद टिप्पणी	1. पाद टिप्पणी	1. पाद टिप्पणी	1. पाद टिप्पणी	1. पाद टिप्पणी (हरि०)
Forbid	1. निषेध करना	1. निषेध करना	1. निषेध करना/ निषिद्ध करना	1. वर्ज्य/वर्जना/ निषेध करना	1. निषेध करना/ मना करना 2. निषेध	1. निषेध करना (हरि०)
Forecast	1. पूर्वानुमान	1. पूर्वानुमान	1. पूर्वानुमान	1. (संज्ञा)पूर्वभास/ पूर्वानुमान/ (क्रिया) पूर्वभासन/ पूर्वभासित करना	1. पूर्वानुमान/ भविष्य कथन/ पूर्व विचार/ दूरदर्शिता	1. पूर्वानुमान (हरि०)
Foreign	1. विदेशी	1. विदेशी	1. विदेशी	1. विदेशी, बाह्य	1. विदेशी, विदेशीय, वैदेशिक, बाह्य	1. विदेशी
Foregoing	1. पूर्वगत/ पूर्ववर्ती	1. पूर्ववर्ती/ पूर्ववत्	1. पूर्वगत/ पूर्ववर्ती/ पूर्वोक्त/ पूर्वलिखित/ पूर्वगामी	1. पूर्वगत/ पूर्ववर्ती/ पूर्वगामी	1. पूर्वगत/ पूर्वगामी/ पूर्ववर्ती	1. पूर्वगत/ पूर्ववर्ती (हरि०)
Forenoon	1. पूर्वाह्न/दोपहर से पहले	1. पूर्वाह्न/ दोपहर से पहले	1. पूर्वाह्न/ दोपहर से पहले	1. पूर्वाह्न	1. पूर्वाह्न	1. पूर्वाह्न (हरि०)

148 / अधिल भारतीय प्रशासनिक शब्दकोष

1	2	3	4	5	6	7
Forged	1. कूटरचित	1. कूटरचित/ जाली	1. कूटरचित/ जाली	1. जाली/ कूटरचित	1. कूटरचित/ जाली, कूट	1. कूटरचित (हरि०)
Forgery	1. जालसाजी/ कूट रचना	1. जालसाजी/ कूट रचना	1. कूट रचना/ जाल साजी/ जाल	1. जालसाजी/ कूट रचना	1. कूट रचना/ कूटकरण/ कूटकर्म/ जाल साजी	1. जालसाजी (हरि०)
Form	1. प्रपत्र/फार्म 2. रूप	1. प्रपत्र/फार्म 2. रूप	1. प्रपत्र 2. रूप	1 (मसा)फार्म/प्रपत्र 2. प्ररूप	1. प्रपत्र, फार्म 2. रूप/साङ्गति भाषार, स्वरूप	1. फार्म, प्रपत्र 2. रूप (हरि०)
Formal	1. औपचारिक	1. औपचारिक	3. रीति, प्रारूप	(विद्या) बनाना, बिबरचित करना, रूपायित करना	3. बनाना/ निर्माण करना	1. फार्म, प्रपत्र 2. रूप (हरि०)
			1. औपचारिक/ रीतिक	1. औपचारिक	1. औपचारिक	1. औपचारिक (हरि०)
					2. यथारोति 3. नियमानुसार/ यथानियम	
					4. यथारूप	
					5. यथाचार/ योग्यचार	

	1	2	3	4	5	6	7
Formation	1. निर्माण/रचना	1 निर्माण/रचना	1. निर्माण/रचना/ बनना/बनाना	1 निर्माण, विरचन/बनाना	1 निर्माण, विरचन/बनाना	6. बाह्यरूपिक 7. यथाकार/ यथावेश	1 निर्माण/रचना (हरि०)
Formula	1. सूत्र	1 सूत्र	1. सूत्र/पुर	4 विरचना (मित्तिट्टी से भी)	1 सूत्र	1. सूत्र	1 सूत्र (हरि०)
Forthcoming	1. आगामी	1. आगामी	2. नियम/सिद्धान्त	1. सूत्र	1. सूत्र	1. आगामी	1. आगामी (हरि०)
Forthwith	1. तत्काल	1. तत्काल/तत्क्षण/ इसी समय	1. आगामी	1. तत्काल/तत्क्षण/ पुरन्त/अविलम्ब/ इसी समय	1 आगामिक/ आगामी	1. तत्काल	1. आगामी (हरि०)
Fortnight	1. पक्ष/पखवाडा	1. पक्ष	1. पक्ष	1. पक्ष	1 पुरन्त/सट से तत्क्षण/तत्काल	1. तत्काल/पुरन्त/ उसी समय/ अविलम्ब/ तत्क्षण	1. तत्काल/पुरन्त (हरि०)
Forward	1. (विशे०)अग्रवर्ती (कि०)अग्रपिप्त करना	1. अग्रवर्ती	1. पक्ष	1. पक्ष	1. अग्रगामी/ अग्रवर्ती	1. पक्ष/पखवाडा	1. पक्ष/पखवाडा (हरि०)
			2. (परेड) आगे बढ़	2. —	2. —	1. (विशे०)अग्रगामी/ पुरोगामी	1. अग्रवर्ती/ (कि०)अग्रपिप्त करना (हरि०)
			3. (कि० बि०) आगे	3. आगे	3. आगे, अग्र	2. —	

1

2

3

4

5 /

6

7

(पित्रा)

1. आगे बचना/
प्रोन्नत करना

2. (आवेदन-पत्र
आदि)

अप्रसारित करना/
अप्रेषित करना

3. (माल) भेजना/
प्रेषित करना

1. अप्रेषण-पत्र/
अप्रसारण-पत्र

1. अप्रेषण-टिप्पणी/
अप्रसारण-नोट

1. शिलान्यास
2. नीव
3. सत्यापन

1. सत्यापक

1 सत्यापक,
अधिष्ठाता

4. साहसी,
5. अविनीत
(त्रिया)
आगे बचना/
आगे भेजना/
अप्रेषण करना/
अप्रसार करना/
प्रेषित करना

1. अप्रेषण-पत्र/
उपरि-पत्र
1. अप्रेषण-टिप्पणी

1. बुनियाद
2. नीव
3. प्रतिष्ठान
सत्यापन

1 सत्यापक,
प्रवर्तक,
प्रतिष्ठापक

1. अप्रेषण-पत्र
(हरि०)
1. अप्रेषण-टिप्पणी
(हरि०)
1. शिलान्यास
2. नीव/आधार
(हरि०).

1. सत्यापक

Forwarding
letter

Forwarding
note

Fundation

Founder

1. अप्रेषण-पत्र

1. अप्रेषण-टिप्पणी

1. शिलान्यास
2. नीव/आधार
3. प्रतिष्ठान

1. सत्यापक

1. अप्रेषण-पत्र

1. अप्रेषण-टिप्पणी

1. शिलान्यास
2. नीव/आधार
3. प्रतिष्ठान

1. सत्यापक

1	2	3	4	5	6	7
Fraud clerk	1. कपट-कार्य- लिपिक	1. कपट-कार्य- लिपिक	1. कपट-कार्य- लिपिक	1. कपट-कार्य- लिपिक	1. कपट-कार्य- लिपिक	1. कपट-कार्य- लिपिक (हरि०)
Free	1. नि शुल्क 2. अनग्न/मुक्त	1. नि शुल्क 2. मुक्त	1. नि शुल्क, बिना मूल्य 2. मुक्त 3. स्वतंत्र 4. अबाध/बिरोध	1. नि शुल्क 2. मुक्त 3. — 4. अबाध	1. नि.शुल्क/शुल्क- मुक्त 2. अलग्न/मुक्त 3. स्वतंत्र/ स्वाधीन/ निर्बाध 4. अनियमित/ अबाध 5. बिना प्रतै/ अप्रतिबन्ध	1. नि शुल्क (हरि०) 2. मुक्त (हरि०)
Free delivery	1. नि शुल्क वितरण	1. नि शुल्क वितरण	1. नि शुल्क वितरण	1. नि शुल्क वितरण	1. नि शुल्क वितरण	1. नि शुल्क वितरण (हरि०)
Frequent	1. बारबार	1. बारबार	1. बारबार होने वाला / प्राय होने वाला	1. बारबार	1. बारबार	1. बारबार (हरि०)
Fresh receipt	1. नई आवती	1. नई आवती	1. नई आवती/ नई रसीद	1. नई आवती	1. नई आवती	1. नई आवती (हरि०)
Function	1. कार्य/कृत्य 2. समारोह	1. कार्य/कृत्य 2. समारोह	1. कार्य/क्रिया/कृत्य 2. समारोह/उत्सव	1. कार्य/कृत्य 2. जायोजन/ समारोह 3. कृत्य करना/ कार्य करना	1. कार्य/कृत्य/काम 2. समारोह/उत्सव	1. कार्य/काम 2. समारोह (हरि०)

152 / अधिल भारतीय प्रशासनिक शब्दकोश

1	2	3	4	5	6	7
Functionary	1. कार्यकर्ता	1. कार्यकर्ता	1. कार्यकर्ता, श्रमिकारी	1. कार्यकर्ता	1. कार्यकर्ता	1. कार्यकर्ता
Fund	1. निधि	1. निधि	1. निधि	1 निधि	1. निधि	1. निधि (हरि०)
Fund —, Benevolent	1. हितकारी निधि	1. हितकारी निधि/ ओदाय	1. हितकारी निधि/ (पुलिस)दातव्य निधि	1. हितकारी निधि	1. हितकारी निधि	1. हितकारी निधि (हरि०)
Fund —, Provident	1. भविष्य निधि	1. भविष्य निधि	1. भविष्य निधि	1. भविष्य निधि	1. भविष्य निधि	1. भविष्य निधि (हरि०)
Fund Fundamental	1. मूल/मौलिक/ आधारिक/ आधारभूत	1. मौलिक/मूल/ आधारभूत	1. मूल	1. मूल/आधारभूत/ मौलिक/आधार- भूत	1. मूल/आधारभूत/ मूलभूत/मौलिक	1. मूल/मौलिक/ आधारिक/ आधारभूत (हरि०)
Furnish	1. देना	1. देना	1. देना	2. मूल तत्व 1. प्रस्तुत करना/ देना	2. मूल नियम 1. देना/प्रदान करना/प्रस्तुत करना	1. देना 2. सज्जित करना/ सजाया (हरि०)
Further action	2 सज्जित करना/ सजाना 1. आगे की कार्य- वाही/अगली कार्रवाई	2. सज्जित करना/ प्रस्तुत करना 1 आगे की कार्य- वाही/अगली कार्यवाही	2. सज्जित करना/ उपस्थित करना/ प्रस्तुत करना 1. आगे की कार्य- वाही / और कार्यवाही	2. सुसज्जित करना/ सजाना 1. आगे की कार्र- वाई/अगली कार्रवाई	2. सुसज्जित करना 2. सजाना/ सुसज्जित करना 1. आगे की कार्य- वाही/अगली कार्यवाही	2. सज्जित करना/ सजाया (हरि०) 1. आगे की कार्य- वाही/अगली कार्रवाई । (हरि०)

1	2	3	4	5	6	7
General (in defence)	1. जनरल	1. जनरल	1. जनरल	1. जनरल/ सेनानायक	1. जनरल/सेनानी/ सेनापति	1. जनरल (हरि०)
General (as in General Editor)	1. प्रधान	1. प्रधान	1. प्रधान	1. प्रधान	1. प्रधान	1. प्रधान (हरि०)
General (as in Director- General)	1 महा-	1 महा-	1. महा-	1. महा-	1. महा-	1. प्रधान (हरि०)
General (as in General Admini- stration)	1 सामान्य	1. सामान्य	1. सामान्य	1. सामान्य	1. महा-	1. महा- (हरि०)
General (as in General meeting)	1. साधारण	1. साधारण	1. साधारण	1. सामान्य	1. सामान्य	1. सामान्य (हरि०)
General (as in General Election)	1. आम	1. आम	1. आम	1. साधारण	1. साधारण	1. सामान्य (हरि०)
General Admini- stration	1. सामान्य प्रशासन	1. सामान्य प्रशासन	1. सामान्य प्रशासन	1. आम	1. आम/साधारण	1. आम (हरि०)
General Circular	1. सामान्य परिपत्र/ आम वरवी बिट्टी	1. सामान्य परिपत्र/ आम वरवी बिट्टी	1. सामान्य परिपत्र/ आम वरवी बिट्टी	1. सामान्य प्रशासन	1. सामान्य परिपत्र/ आम वरवी बिट्टी	1. सामान्य प्रशासन(हरि०) 1. सामान्य परिपत्र (हरि०)

1	2	3	4	5	6	7
General fund	1. सामान्य निधि	1. सामान्य निधि	1. सामान्य निधि	1. सामान्य निधि	1. सामान्य निधि	1. सामान्य निधि (हरि०)
General Practice	1. सामान्य प्रथा	1. सामान्य प्रथा	1. सामान्य प्रथा	1. सामान्य प्रथा	1 सामान्य प्रथा	1. सामान्य प्रथा (हरि०)
General Procedure	1. सामान्य कार्यविधि/ सामान्य प्रक्रिया	1. सामान्य कार्यविधि/ सामान्य प्रक्रिया	1. सामान्य कार्यविधि/ सामान्य प्रक्रिया	1. सामान्य प्रक्रिया/ कार्यविधि	1. सामान्य कार्यविधि/ सामान्य प्रक्रिया	1. सामान्य कार्य- विधि (हरि०)
General Proposal	1. सामान्य प्रस्ताव	1. सामान्य प्रस्ताव	1. सामान्य प्रस्ताव	1. सामान्य प्रस्ताव	1. सामान्य प्रस्ताव	1. सामान्य प्रस्ताव (हरि०)
Genius	1. प्रतिभा 2. प्रतिभाशाली	1. प्रतिभा 2. प्रतिभाशाली	1. प्रतिभा 2. प्रतिभावान व्यक्ति	1. प्रतिभा 2. प्रतिभाशाली	1. प्रतिभा 2. प्रतिभाशाली/ प्रतिभावान	1. प्रतिभा 2. प्रतिभाशाली (हरि०)
Genius of Language	1. भाषा की प्रकृति	1. भाषा की प्रकृति	1. प्रकृति की प्रकृति	1. भाषा की प्रकृति	1. भाषा की प्रकृति	1. भाषा की प्रकृति (हरि०)
Genuine	1. प्रामाणिक 2. यथार्थ/ वास्तविक/ सच्चा/असली	1. प्रामाणिक 2. यथार्थ/ वास्तविक/ सच्चा/असली	1. प्रामाणिक 2. यथार्थ/ वास्तविक/ सच्चा/असली	1. प्रामाणिक, असली 2. —	1. प्रामाणिक 2. यथार्थ/असली/ सच्चा/खरा/ सत्य	1. प्रामाणिक 2. यथार्थ वास्तविक सच्चा/असली (हरि०)
	3. विगूढ़	3. विगूढ़	3. विगूढ़	3. यथार्थ/सच्चा/ असली 4. विगूढ़, खरा	3. विगूढ़ 4. भौतिक	

1	2	3	4	5	6	7
Genuine signature	1. वास्तविक हस्ताक्षर/असली दस्तखत	1. वास्तविक हस्ताक्षर/असली दस्तखत	1. वास्तविक हस्ताक्षर	1. वास्तविक हस्ताक्षर	1. वास्तविक हस्ताक्षर/असली दस्तखत	1. वास्तविक हस्ताक्षर/असली दस्तखत
Genuine statement	1. यथार्थ कथन	1. यथार्थ कथन	1. यथार्थ कथन	1. यथार्थ कथन	1. यथार्थ कथन	1. यथार्थ कथन
Genuine text	1. प्रामाणिक पाठ	1. प्रामाणिक पाठ	1. प्रामाणिक पाठ	1. प्रामाणिक पाठ	1. प्रामाणिक पाठ	1. प्रामाणिक पाठ
Gift	1. उपहार/भेंट	1. उपहार/भेंट	1. उपहार/भेंट	1. उपहार/भेंट	1. उपहार/भेंट	1. उपहार/भेंट
Gist	1. भावार्थ	1. भावार्थ	1. भावार्थ/सारांश	2. दान (कि०) दान देना	1. उपहार/भेंट	1. उपहार/भेंट
Give effect to	1. कार्यान्वित करना	1. कार्यान्वित करना	1. कार्यान्वित करना	2. दान (कि०) दान देना	2. देन/दान	1. उपहार/भेंट (हरि०)
Glossary	1. शब्दावली/शब्द-संग्रह	1. शब्दावली/शब्द-संग्रह	1. शब्दावली/शब्द-संग्रह/शब्द-दीपिका	1. भावार्थ	1. भावार्थ	1. भावार्थ (हरि०)
Good behaviour	1. सद्भव्यवहार/अच्छा चलन	1. सद्भव्यवहार/अच्छा चलन	1. सद्भव्यवहार/अच्छा व्यवहार	1. कार्यान्वित करना/लागू करना	1. कार्यान्वित करना/प्रभावी करना	1. कार्यान्वित करना (हरि०)
				1. शब्दावली/शब्द-संग्रह	1. शब्दावली	1. शब्दावली/शब्द-संग्रह (हरि०)
				1. सद्भव्यवहार	1. सद्भव्यवहार/अच्छा चलन/सदाचार/अच्छा व्यवहार	1. सद्भव्यवहार/अच्छा चलन (हरि०)

1	2	3	4	5	6	7
Good character	1. सच्चरित्रता/ अच्छा शील	1. सच्चरित्रता/ अच्छा शील	1. सच्चरित्रता/ अच्छा शील	1. सच्चरित्रता/ अच्छा शील	1. सच्चरित्र/ अच्छा शील	1. सच्चरित्रता (हरि०)
Good conduct	1. सदाचरण	1. सदाचरण	1. सदाचरण	1. सदाचार	1. सदाचरण/ अच्छा आचरण	1. सदाचरण (हरि०)
Good faith	1. सद्भाव	1. सद्भाव	1. सद्भाव/ सदाशयता	1. सद्भाव/ सदाशयता	1. सद्भाव/ सद्भावना अच्छी नीयत नेकनीयती	1. सद्भाव (हरि०)
Good offices	1. मध्यस्थता	1. मध्यस्थता	1. मध्यस्थता/ अनुकूल/ सत्प्रभाव	1. मध्यस्थता, सत्सेवा	1. मध्यस्थता	1. मध्यस्थता (हरि०)
Good reason	1. पर्याप्त कारण/ अच्छा कारण	1. पर्याप्त कारण अच्छा कारण	1. पर्याप्त कारण/ अच्छा कारण	1. पर्याप्त कारण	1. पर्याप्त कारण/ योग्य कारण	1. पर्याप्त कारण अच्छा कारण (हरि०)
Goodwill	1. सुनाम 2. सद्भावना	1. सुनाम 2. सद्भावना	1. सुनाम 2. सद्भावना 3. सद्भाव/ सदिच्छा/ सुख्याति	1. सुनाम 2. सद्भावना/ सदिच्छा	1. सुनाम 2. सद्भाव 3. साख/ख्याति	1. सुनाम 2. सद्भाव(हरि०)
Govern	1. शासन करना 2. नियंत्रण करना	1. शासन करना 2. नियंत्रण करना	1. शासन करना 2. नियंत्रण करना	1. शासन करना/ शासित करना	1. शासन करना	1. शासन करना 2. नियंत्रण रखना (हरि०)

1	2	3	4	5	6	7
Governance	1. अभिशासन/ शासन	1. अभिशासन/ शासन	1. अभिशासन/ शासन	1. अभिशासन/ शासन, शासन कार्य	1. शासन	1. शासन (हरि०)
Governing body	1. शासी निकाय	1. शासी निकाय	1. शासी निकाय/ प्रबन्धक निकाय	1. शासी निकाय	1. शासी निकाय/ शासक निकाय/ शासन निकाय	1. शासी निकाय (हरि०)
Government	1. शासन/सरकार	1. शासन/सरकार	1. शासन/सरकार 2. शासकीय/ राजकीय/सरकारी	1. सरकार/शासन 2. सरकारी	1. सरकार/शासन	1. शासन/सरकार (हरि०)
Government affairs	1. राजकाज/ सरकारी मामले	1. राजकाज/ सरकारी मामले	1. राजकाज/ सरकारी मामले/ सरकारी कार्य	1. राजकाज/ सरकारी मामले	1. राजकाज/ सरकारी मामले	1. सरकारी मामले (हरि०)
Government business	1. सरकारी काम	1. सरकारी काम	1. सरकारी काम	1. सरकारी काम	1. सरकारी कार्य/ शासकीय कार्य	1. सरकारी काम (हरि०)
Government house	1. राजभवन (राज्य में) 2. राष्ट्रपति भवन (केन्द्र में)	1. राजभवन 2. राष्ट्रपति भवन	1. राजभवन 2. राष्ट्रपति भवन	1. राजभवन	1. राजभवन 2. राष्ट्रपति भवन	1. राजभवन 2. राष्ट्रपति भवन (हरि०)
Government of India Concern	1. भारत सरकार का प्रतिष्ठान	1. भारत सरकार- उद्योग संस्था	1. भारत सरकार का प्रतिष्ठान	1. भारत सरकार का प्रतिष्ठान	1. भारत सरकार का प्रतिष्ठान	1. भारत सरकार का प्रतिष्ठान (हरि०)
Government undertaking	1. भारत सरकार का उपक्रम	1. भारत सरकार- संस्था	1. भारत सरकार का उपक्रम	1. भारत सरकार का उपक्रम	1. भारत सरकार का उपक्रम	1. भारत सरकार का उपक्रम (हरि०)

1	2	3	4	5	6	7
Government regulation	1. सरकारी विनियम	1. सरकारी विनियम	1. सरकारी विनियम	1. सरकारी विनियम	1. सरकारी विनियम	1. सरकारी विनियम (हरि०)
Government securities	1. सरकारी प्रतिभूतियाँ	1. सरकारी प्रतिभूतियाँ	1. सरकारी प्रतिभूतियाँ/ सरकारी ऋणपत्र	1. सरकारी प्रतिभूतियाँ	1. सरकारी प्रतिभूतियाँ/ शासकीय ऋण-पत्र/ शासकीय तारण	1. सरकारी प्रतिभूतियाँ (हरि०)
Governor	1. राज्यपाल 2. अभिशासक/ गवर्नर/शासक 3. सूवेदार (मुगलकाल)	1. राज्यपाल/ 2. अभिशासक/ गवर्नर, शासक 3 सूवेदार	1. राज्यपाल 2. व्यवस्थापक/ गवर्नर	1. राज्यपाल	1. राज्यपाल 2. शासक	1. राज्यपाल 2. गवर्नर/शासक (हरि०)
Grace	1. अनुग्रह/प्रसाद 2. रिवायत	1. अनुग्रह/प्रसाद 2. रिवायत	1. अनुग्रह	1. अनुग्रह/कृपा 2. रिवायत	1. अनुग्रह/प्रसाद 2. अनुकम्पा	1. अनुग्रह/प्रसाद 2. रिवायत (हरि०)
Grace —, Day of	1. रिवायती दिन	1. रिवायती दिन	1. रिवायती दिन/ अनुग्रह दिन	1. रिवायती दिन	1. रिवायती दिन	1. रिवायती दिन (हरि०)
Gradation list	1. पदक्रम सूची	1. पदक्रम सूची	1. पदक्रम सूची	1. कोटिक्रम सूची/ पदक्रम सूची	1. पदक्रम सूची/ क्रम-सूची	1. पदक्रम सूची (हरि०)
Grade	1. श्रेणी/पदक्रम/ ग्रेड/कोटि	1. श्रेणी/पदक्रम/ ग्रेड/कोटि	1. श्रेणी/कोटि/ ग्रेड/पदक्रम	1. ग्रेड/श्रेणी/ कोटि/कोटिक्रम/ वर्ग/पदक्रम 2. वेतनक्रम 3. दान	1. श्रेणी/पदक्रम/ क्रम/प्रक्रम, वर्ग 2. वेतनमान 3. दर्जा	1. श्रेणी/पदक्रम/ ग्रेड/कोटि (हरि०)

	1	2	3	4	5	6	7
Grant		1. अनुदान (क्रिया) स्वीकार करना/ प्रदान करना	1. अनुदान (क्रिया) स्वीकार करना प्रदान करना	1. अनुदान	1. अनुदान	1 अनुदान/प्रदान/ प्रदाय (क्रिया) प्रदान करना/ मनूर करना	1. अनुदान (हरि०)
Grant —, Extra	1. अतिरिक्त अनुदान	1. अतिरिक्त अनुदान	1. अतिरिक्त अनुदान	2. प्रदान (क्रिया) स्वीकार करना/ देना/प्रदान करना	2. स्वीकृति (क्रिया) अनुदान करना/ देना स्वीकृत करना	1. अतिरिक्त अनुदान	1. अतिरिक्त अनुदान (हरि०)
Grant —, Fixed	1. नियत अनुदान	1. नियत अनुदान	1. नियत अनुदान	1. अतिरिक्त अनुदान	1. अतिरिक्त अनुदान	1. नियत अनुदान	1. नियत अनुदान (हरि०)
Grant —, Interim	1. अंतरिम अनुदान	1. अंतरिम अनुदान	1. अंतरिम अनुदान	1. नियत अनुदान	1. नियत अनुदान	1. अतिरिक्त अनुदान	1. अतिरिक्त अनुदान (हरि०)
Grant —, Maintenance	1. अनुरक्षण अनुदान/ भरण-पोषण अनुदान	1. अनु रक्षण अनुदान/ भरण-पोषण अनुदान	1. अनु रक्षण अनुदान/ भरण-पोषण/ अनुदान	1. अंतरिम अनुदान	1. अंतरिम अनुदान	1. अतिरिक्त अनुदान	1. अतिरिक्त अनुदान (हरि०)
Grant —, Non-recurring	1. अनावर्ती अनुदान	1. अनावर्ती, अनुदान/ अनावर्त अनुदान	1. अनावर्ती अनुदान/ अनावर्त अनुदान/ अनावर्तक अनुदान	1. अनु रक्षण अनुदान	2. छोर-पीना 1. अनावर्तक अनुदान/ अनावर्ती अनुदान	1. अनु रक्षण अनुदान/ भरण-पोषण अनुदान	1. अनु रक्षण अनुदान/ भरण-पोषण अनुदान (हरि०)
						1. अनावर्ती अनुदान/ अनावर्त अनुदान	1. अनावर्ती अनुदान (हरि०)

1	2	3	4	5	6	7
Grant —, Preliminary	1. प्रारम्भिक अनुदान	1. प्रारम्भिक अनुदान	1. प्रारम्भिक अनुदान	1. प्रारम्भिक अनुदान	1. प्रारम्भिक अनुदान	1. प्रारम्भिक अनुदान (हरि०)
Grant —, Recurring	1. आवर्ती अनुदान	1. आवर्ती अनुदान/ आवर्त अनुदान/	1. आवर्ती अनुदान/ आवर्त अनुदान/ आवर्तक अनुदान	1. आवर्तक अनुदान/ आवर्ती अनुदान	1. आवर्ती अनुदान	1. आवर्ती अनुदान (हरि०)
Grant —, special	1. विशेष अनुदान	1. विशेष अनुदान	1. विशेष अनुदान	1. विशेष अनुदान	1. विशेष अनुदान	1. विशेष अनुदान (हरि०)
Grant —, Supplemen- tary	1. अनुपूरक अनुदान	1. अनुपूरक अनुदान	1. अनुपूरक अनुदान	1. अनुपूरक अनुदान	1. अनुपूरक अनुदान	1. अनुपूरक अनुदान (हरि०)
Grant-in-aid	1. सहायता अनुदान	1. सहायता/ अनुदान	1. सहायता अनुदान	1. सहायता अनुदान/सहायक अनुदान	1. सहायता अनुदान/सहायतायें अनुदान	1. सहायता अनुदान (हरि०)
Granted	1. स्वीकृत	1. स्वीकृत	1. स्वीकृत/ 2. प्रदत्त	1. स्वीकृत 2. अनुदत्त/दी गयी	1. स्वीकृत 2. अनुदत्त, दी गई	1. स्वीकृत (हरि०)
Granter	1. अनुदाता	1. अनुदाता	1. अनुदाता	1. अनुदाता	1. अनुदाता	1. अनुदाता (हरि०)
Gratis	1. नि.शुल्क/मुफ्त	1. नि.शुल्क/मुफ्त	1. नि.शुल्क/मुफ्त	1. बिना मूल्य/ मुफ्त	1. नि.शुल्क/मुफ्त/ बिना मूल्य	1. नि.शुल्क/ मुफ्त (हरि०)
Gratuitous	1. आनुग्रहिक 2. मुफ्त	1. आनुग्रहिक 2. मुफ्त	1. आनुग्रहिक 2. मुफ्त/नि:शुल्क	1. आनुग्रहिक 2. अयाचित/ वेमपि/मुफ्त	1. नि:मूल्य/ नि:शुल्क/ 2. मुफ्त 3. अकारण	1. आनुग्रहिक 2. मुफ्त (हरि०)

1	2	3	4	5	6	7
Gratuity	1. उपदान/ आनुतोषिक	1. उपदान/ आनुतोषिक	1. उपदान/ आनुतोषिक	1. उपदान	1. उपदान/ निवृत्ति- पुरस्कार/निवृत्ति- पारितोषिक/ दनाम	1. उपदान (हरि०)
Greeting	1. शुभकामना/ बधाई 2. अभिवादन	1. शुभकामना/ बधाई 2. अभिवादन	1. शुभकामना 2. अभिवादन	1. बधाई/ अभिनन्दन	1. अभिनन्दन	1. शुभकामना/ बधाई 2. अभिवादन (हरि०)
Grievance	1. शिकायत	1. शिकायत	1. शिकायत/कष्ट	1. शिकायत, व्यथा	1. शिकायत/व्यथा/ कष्ट/दुःख/ दुःख वा शरण	1. शिकायत (हरि०)
Gross	1. सकल/कुल 2. घोर/भारी	1. सकल/कुल 2. घोर/भारी	1. सकल/कुल/ स्थूल/कच्चा 2. घोर/भारी	1. कुल/ममस्त/ सकल 2. भारी, घोर	1. सकल/कुल/ स्थूल 2. अमध्य/अन्वील	1. सकल/कुल (हरि०)
Gross abuse	1. घोर दुरुपयोग	1. घोर दुरुपयोग	1. घोर दुरुपयोग	1. भारी दुरुपयोग/ घोर दुरुपयोग	3. शोष/प्रशस्नक 1. घोर दुरुपयोग/ भारी दुरुपयोग/ भारी दुरुपयोग/	1. घोर दुरुपयोग (हरि०)
Gross amount	1. कुल राशि/ कुल रकम	1. कुल राशि/ कुल रकम	1. कुल रकम/ सकल धनराशि	1. भारी दुरुपयोग/ घोर दुरुपयोग	1. कुल राशि/ कुल रकम	1. घोर दुरुपयोग (हरि०)
Gross assets	1. कुल परिसंपत्ति/ कुल आस्तियाँ	1. कुल परिसंपत्ति/ कुल आस्तियाँ	1. कुल परिसंपत्ति/ कुल आस्तियाँ	1. कुल रकम/ सकल धनराशि 1. कुल मालमत्त/ समस्त परि- सम्पत्ति	1. कुल परिसंपत्ति/ कुल आस्तियाँ	1. कुल परिसंपत्ति/ कुल आस्तियाँ (हरि०)

1	2	3	4	5	6	7
Gross error	1. घोर त्रुटि/ भारी गलती	1. घोर त्रुटि/ भारी गलती	1. भारी भूल	1. भारी भूल	1. घोर त्रुटि/ भारी गलती	1. घोर त्रुटि/ भारी गलती (हरि०)
Gross income	1. कुल आमदनी/ सकल आय	1. कुल आमदनी/ सकल आय	1. स्थूल आय/ कच्ची निकासी	1. समस्त आय/ कुल आमदनी	1. कुल आमदनी/ सकल आय/ सम्पूर्ण आय	1. कुल आमदनी (हरि०)
Gross misconduct	1. घोर दुराचरण	1. घोर दुराचार	1. घोर दुराचार	1. घोर दुराचरण	1. घोर दुराचरण	1. घोर दुराचरण (हरि०)
Gross mistake	1. भारी भूल	1. भारी भूल	1. भारी भूल	1. भारी भूल	1. भारी भूल	1. भारी भूल (हरि०)
Gross neglect	1. घोर उपेक्षा	1. घोर उपेक्षा	1. घोर उपेक्षा	1. घोर उपेक्षा	1. घोर उपेक्षा/ घोर गफलत	1. घोर उपेक्षा (हरि०)
Gross negligence	1. घोर प्रमाद/ भारी सापरवाही	1. घोर प्रमाद/ भारी सापरवाही	1. घोर प्रमाद/ भारी सापरवाही/ घोर उपेक्षा	1. घोर प्रमाद/ भारी सापरवाही/ घोर उपेक्षा	1. घोर प्रमाद/ घोर उपेक्षा/ घोर गफलत	1. घोर प्रमाद/ भारी सापरवाही (हरि०)
Gross revenue	1. कुल राजस्व	1. कुल राजस्व	1. कुल राजस्व/ स्थूल राजस्व	1. समस्त राजस्व/ कुल राजस्व/ कुल सरकारी जमा	1. कुल राजस्व/ कुल आमदनी/ सकल आय/ सम्पूर्ण आय	1. कुल राजस्व (हरि०)
Gross total	1. सकल योग	1. सकल योग	1. सकल योग	1. सकल योग	1. सकल योग	1. सकल योग (हरि०)
Gross value	1. कुल मूल्य/ सकल मूल्य	1. कुल मूल्य/ सकल मूल्य	1. कुल मूल्य/ सकल मूल्य	1. कुल मूल्य/ सकल मूल्य	1. कुल कीमत/ सम्पूर्ण मूल्य	1. कुल मूल्य (हरि०)

	1	2	3	4	5	6	7
Grouping and grading	1. वर्गीकरण और कोटीकरण/ वर्गीकरण और पदक्रमण	1. वर्गीकरण और कोटीकरण	1. वर्गीकरण और कोटीकरण	1. वर्गीकरण और कोटीकरण	1. वर्गविभाजन और कोटिक्रमण/ वर्गीकरण और पदक्रमण	1. वर्गीकरण और कोटीकरण/ वर्गीकरण और पदक्रमण/ वर्गीकरण और श्रेणीकरण	1. वर्गीकरण और कोटीकरण (हरि०)
Guard book	1. रक्षक-पुस्तक	1. रक्षक-पुस्तक	1. रक्षकपुस्तक/ गार्डबुक/ रक्षण-पञ्जी	1. रक्षकपुस्तक/ गार्डबुक/ रक्षण-पञ्जी	1. रक्षीपुस्तक/ गार्डबुक	1. रक्षक पुस्तक/ सतरी पुस्तक/ गारद बुक	1. रक्षक-पुस्तक (हरि०)
Guard file	1. रक्षक-मिसिल/ निवेदन-फाइल	1. गार्ड फाइल/ रक्षक-मिसिल	1. गार्ड फाइल/ रक्षण फाइल/ रक्षक फाइल/ पत्र-रक्षी	1. गार्ड फाइल/ रक्षी-सचिक्ता		1. रक्षक-मिसिल/ गार्डफाइल	1. रक्षक-मिसिल (हरि०)
Guardian	1. अभिभावक/ बन्धी/सरक्षक	1. सरक्षक/ अभिभावक	1. सरक्षक/ अभिभावक/ बन्धी	1. अभिभावक/ सरक्षक		1. अभिभावक/ सरक्षक/ बन्धी/रक्षक	1. अभिभावक/ बन्धी/सरक्षक (हरि०)
Guardianship certificate	1. अभिभावकता प्रमाण-पत्र	1. सरक्षक प्रमाण-पत्र/ अभिभावक प्रमाण-पत्र	1. अभिभावक प्रमाण-पत्र	1. अभिभावकता प्रमाण-पत्र/ अभिभावक प्रमाण-पत्र/ सरक्षकता प्रमाण-पत्र	1. अभिभावक प्रमाण-पत्र	1. अभिभावकता प्रमाण-पत्र	1. अभिभावकता प्रमाण-पत्र (हरि०)
Guest House	1. अतिथि-गृह	1. अतिथि-गृह	1. अतिथि गृह अतिथि-माला	1. अतिथि भवन/ अतिथि-गृह	1. अतिथि-गृह	1. अतिथि-गृह	1. अतिथि-गृह (हरि०)

1	2	3	4	5	6	7
Guidance	1. मार्गदर्शन/ निर्देशन	1. मार्गदर्शन/ निर्देशन	1. मार्गदर्शन/ मार्गनिर्देश/ पथ-प्रदर्शन	1. मार्ग-दर्शन	1. मार्ग-दर्शन/ मार्ग-प्रदर्शन पथ-प्रदर्शन	1. मार्ग-दर्शन (हरि०)
Guide	1. परिदर्शक/ गाइड (क्रि०) सदर्शन करना/ मार्गदर्शन करना/ मार्ग दिखाना	1. परिदर्शक	1. परिदर्शक/ मार्गदर्शक/ निर्देशक (क्रि०) मार्ग दिखाना/ मार्गप्रदर्शन करना/सदर्शन करना	1. मार्गदर्शक/ गाइड/ परिदर्शक	1. गाइड/ निर्देशक/ मार्गदर्शक/ मार्ग-प्रदर्शक/ पथ-प्रदर्शक	1. परिदर्शक/ गाइड (हरि०)
Guiding price	1. निर्देशक मूल्य	1. निर्देशक मूल्य	1. निर्देशक मूल्य	1. निर्देशक मूल्य	1. निर्देशक मूल्य	1. निर्देशक मूल्य (हरि०)
Guilt	1. अपराध, दोष	1. अपराध, दोष	1. अपराध, दोष, दोषिता	1. दोष, कसूर	1. अपराध, दोषिता	1. अपराध, दोष
Guilty	1. दोषी	1. दोषी	1. दोषी/अपराधी	1. दोषी/मुजरिम कसूरवार	1. दोषी/अपराधी 2. दूषित	1. दोषी (हरि०)

1 2 3 4 5 6 7

H

Habit	1. स्वभाव/आदत	1. स्वभाव/आदत	1. स्वभाव/आदत	1. आदत	1. स्वभाव/आदत/ प्रकृति	1. स्वभाव/आदत
	2. अभ्यास	2. अभ्यास	2. अभ्यास 3. प्रवृत्ति		2. अभ्यास	2. अभ्यास
Habitual defaulter	1. आभ्यासिक व्यक्ति/मी/ आभ्यासिक दोषी	1. आभ्यासिक दोषी/ आभ्यासिक व्यक्ति/मी	1. आभ्यासिक व्यक्ति/मी/ आभ्यासिक दोषी/ आभ्यासिक व्यक्ति/मी	1. आभ्यासिक दोषी	1. अभ्यस्त अपराधी	1. आभ्यासिक दोषी
	2. आभ्यासिक बकायादार	2. आभ्यासिक बकायादार	2. अभ्यस्त वितथी	2. आदन बाकीदार/ आभ्यासिक बकायादार	2. अभ्यस्त आरोधी/ बकायादार/ स्वभावतः बाकीदार	
Half mast band	1. झुका/अर्धनत 1. कर्मचारी	1. झुका/अर्धनत 1. कर्मचारी	1. अर्धनत करना 1. कर्मचारी	1. आधा झुका हुआ 1. कर्मचारी/ मजदूर	1. झुका/अर्धनत 1. कर्मचारी	1. झुका/अर्धनत 1. कर्मचारी
	2. हस्तलेख/ लिखावट	2. हस्तलेख/ लिखावट	2. हस्तलेख/ लिखावट	2. हस्तलेख/ लिखावट	2. हस्तलेख/ लिखावट	2. हस्तलेख/ लिखावट
Handicap	1. बाधा	1. बाधा, असमर्थता	1. बाधा, असमर्थता, रुकावट	1. बाधा, असमर्थता	1. बाधा, विघ्न, अड़चन, रुठनाई	1. बाधा

	1	2	3	4	5	6	7
Head of office		1. कार्यालय अध्यक्ष	1. कार्यालय अध्यक्ष	1. कार्यालय अध्यक्ष	1. कार्यालय अध्यक्ष	1. कार्यालय अध्यक्ष	1. कार्यालय अध्यक्ष
Head of state		1. राष्ट्र का प्रधान	1. राष्ट्र का प्रधान	1. राष्ट्र का प्रधान	1. राज्याधिराजि/राज्यप्रधान/राष्ट्र का प्रधान	1. राष्ट्र का प्रधान	1. राष्ट्र का प्रधान
Head-Quarters		1. मुख्यालय, हेडक्वार्टर	1. मुख्यालय, मुख्य कार्यालय	1. मुख्यालय, हेडक्वार्टर	1. मुख्यालय	1. मुख्यालय	1. मुख्यालय, हेडक्वार्टर
Head Reader		1. प्रधानवाचक	1. प्रधानवाचक	1. मुख्य प्रक-शोधक	1. प्रधानवाचक	1. प्रधानवाचक	1. प्रधानवाचक
Heading		1. शीर्षक	1. शीर्ष	1. शीर्षक	1. शीर्षक	1. शीर्षक	1. शीर्षक
Health officers		1. स्वास्थ्य अफसर	1. स्वास्थ्य अफसर	1. शीर्षक 2. जनति	1. स्वास्थ्य अफसर/अधिकारी	1. स्वास्थ्य अधिकारी	1. स्वास्थ्य-अफसर
Hearing		1. सुनवाई	1. सुनवाई	1. स्वास्थ्य अधिकारी/अफसर	1. सुनवाई	1. सुनवाई/भवण	1. सुनवाई
Heir		1. वारिस	1. वारिस/दायाद	1. सुनवाई	1. वारिस/रिक्वभापी	2. लोकचार्ता	1. वारिस
Hereditary		1. पैतृक/मौरुही/आनुवंशिक	1. पैतृक/मौरुही/आनुवंशिक	1. वारिस/दायाद	1. वारिस/रिक्वभापी	1. वारिस/दायाद/उत्तराधिकारी	1. वारिस
			1. पैतृक/मौरुही/आनुवंशिक/व्यवसायिक/प्रमाणित		1. वंशागत/मौरुही/पैतृक	1. पैतृक/मौरुही/आनुवंशिक/दुस्तेनी	1. पैतृक/मौरुही/आनुवंशिक

1	2	3	4	5	6	7
					पित्रागत/ कुलपरम्परागत/ वशानुगत/ परंपरागत	
Her Majesty	1. महामहिम	1. महामहिम	1. महामहिम	1. हरमजेस्टी	1. महामहिम/ परमश्रेष्ठ	1. महामहिम
Hierarchy	1. उत्क्रम/ सोपान 2. धर्मसत्ता	1. उत्क्रम/ सोपान 2. धर्मसत्ता	1. उत्क्रम/ सोपान	1. उत्क्रम/ सोपान	1. उत्क्रम/ सोपान 2. धर्मसत्ता	1. उत्क्रम/सोपान 2. धर्मसत्ता
Higher- authority	1. उच्चतर प्राधिकारी	1. उच्चतर प्राधिकारी	1. उच्चतर प्राधिकारी	1. उच्चतर प्राधिकारी	1. उच्चतर प्राधिकारी	1. उच्चतर प्राधिकारी
High way	1. राजपथ/ राजमार्ग	1. राजपथ/ राजमार्ग	1. राजपथ/ राजमार्ग/ मूध्य मार्ग	1. राजमार्ग/ राजपथ/ मुख्य मार्ग	1. राजपथ/ राजमार्ग/ बही सड़क	1. राजपथ/ राजमार्ग
Hindrance	1. बाधा/ अडचन	1. बाधा/ अडचन	1. बाधा/ अडचन	1. रुकावट/ प्रतिबाधा/ अडचन	1. बाधा/अडचन/ रोक	1. बाधा/अडचन
Hint	1. सकेत/इशारा	1. सकेत/इशारा	1. सकेत	1. इंगित/ इशारा/ सकेत	1. सकेत/इशारा	1. सकेत/इशारा
Hire charges	1. भाड़ा	1. भाड़ा	1. भाड़ा	1. भाड़ा	1. भाड़ा	1. भाड़ा
His Excellency	1. परमश्रेष्ठ	1. परमश्रेष्ठ	1. परमश्रेष्ठ	1. महामहिम	1. परमश्रेष्ठ/ महामहिम	1. परमश्रेष्ठ
His Majesty	1. महामहिम	1. महामहिम	1. महामहिम/श्रेष्ठ	1. महाधिराज	1. महामहिम/ परमश्रेष्ठ	1. महामहिम

1

History sheet

Hold over

Holograph
Homage

Home

Home
Secretary

Honorarium

Honorary

2

1. इतिवृत्त

1. स्पणित करना,
रोक लेना,
उठा रचना
2. अतिधारण
करना

- 1 स्वनेषन
1. धडांनति

1. गृह

1 गृह सचिव

1. मानदेय

1. अवैतनिक

3

1. इतिवृत्त

1. स्पणित करना,
रोक लेना,
उठा रचना
2. अतिधारण
करना

1. स्वनेषन
1. धडांनति

1. गृह

1. गृह सचिव

1. मानदेय

1. अवैतनिक

4

1. वृत्तनेय

- 1 (गुणित)अराद्य
लेख स्पणित करना,
रोक रचना
2. धारण किय
रहना

1. स्वनेषन
1. धडांनति/
धडा

1. गृह/स्वदेश

2. स्वराष्ट्र

3. पर/निवास

1. गृह सचिव

1. मानदेय

1. अवैतनिक

5

1. इतिवृत्त/इतिवृत्त

1. रोक रचना,
रोक लेना

1. स्वनेषन
1. धडांनति

2. वश्यता
अयोगार

1 पर/गृह

2. स्वराष्ट्र

1. गृह सचिव

1. मानदेय/
सम्मानकी

1. अवैतनिक

2. सम्मानक

6

1. इतिवृत्त वचक/
पूर्वातराप्र-वच/
पूर्व इतिहास-
वचक

1. मासपणित करना,
रोक रचना

2. धारण किय
रहना/
अतिधारण करना

1. स्वनेषन

1. धडांनति/
निष्ठाभाव/
भक्तिभाव

1. गृह/निवास/पर

2. स्वदेश

1. गृह सचिव

1. मानदेय

1. अवैतनिक

2. मानवेधी

7

1. इतिवृत्त

1. रोक लेना,
उठा रचना

2. अतिधारण
करना

1. स्वनेषन

1. धडांनति

1. गृह

1. गृह सचिव

1. मानदेय

1. अवैतनिक

1	2	3	4	5	6	7
Honorary Degree	1. सम्मानिक उपाधि	1. सम्मानिक उपाधि	1. सम्मानिक उपाधि	1. सम्मानक उपाधि	1. सम्मानिक उपाधि	1. सम्मानिक उपाधि
Honorary Secretary	1. अवैतनिक सचिव	1. अवैतनिक सचिव	1. अवैतनिक सचिव	1. अवैतनिक सचिव	1. अवैतनिक सचिव	1. अवैतनिक सचिव
Honoric prefix	1. सम्मान शब्द	1. सम्मान शब्द	1. सम्मान शब्द/ आदरसूचक पूर्वपद	1. सम्मान शब्द	1. सम्मान शब्द	1. सम्मान शब्द
Honourable	1. माननीय 2. सम्मानपूर्ण	1. माननीय 2. सम्मानपूर्ण	1. माननीय	1. माननीय	1. माननीय	1. माननीय 2. सम्मानपूर्ण
Hospitality	1. आतिथ्य/ सत्कार	1. आतिथ्य/ सत्कार	1. आतिथ्य/ सत्कार/ अतिथि- सत्कार	1. आतिथ्य/ सत्कार	1. आतिथ्य/ अतिथि- सत्कार	1. आतिथ्य/ सत्कार
Host	1. आतिथेय	1. आतिथेय/ परित्रीपी	1. (वन) पोषक	1. आतिथेय/ मेजबान	1. आतिथेय/ यजमान 2. पोषित	1. आतिथेय
Hostess	1. सत्कारिणी	1. सत्कारिणी	1. सत्कारिणी	1. सत्कारिणी	1. सत्कारिणी	1. सत्कारिणी
Hours of business	1. कार्य-समय	1. कार्य-समय	1. कार्य-समय	1. कार्य-समय	1. कार्य-समय	1. कार्य-समय
Hour of employment	1. काम के घटे	1. काम के घटे	1. काम के घटे	1. काम के घटे	1. काम के घटे	1. काम के घटे
House of people	1. लोकसभा	1. लोकसभा	1. लोकसभा	1. लोकसभा	1. लोकसभा	1. लोकसभा
House rent	1. मकान-किराया	1. मकान-किराया	1. मकान-किराया/ मकान-भाड़ा	1. मकान-किराया	1. मकान-किराया	1. मकान-किराया/ घर-भाड़ा

	1	2	3	4	5	6	7
Humanitarian ground	1. मानवहित का आधार/ मानवीय आधार	1. मानवहित का आधार/ मानवीय आधार	1. मानवहित का आधार/ मानवीय आधार	1. मानवीय आधार	1. मानवहितवादी, मानवहित सवधी	1. मानवीर आधार	1. मानवीर आधार
Hatment	1. अस्थापी मकान	1. अस्थापी मकान	1. अस्थापी मकान	1. अस्थापी मकान	1. अस्थापी मकान	1. अस्थापी मकान	1. अस्थापी मकान
Identification	1. पहचान/ गिनाछत	1. गिनाछत/पहचान	1. पहचान/ अभिज्ञान	1. पहचान/ गिनाछत/ अभिज्ञा	1. पहचान/ गिनाछत/ अभिज्ञा	1. पहचान/ गिनाछत/ अभिज्ञापन	1. पहचान/ गिनाछत

I

Identification mark	1. पहचान-चिह्न/ गिनाछत-चिह्न, गिनाछत निशान	1. पहचान-चिह्न/ गिनाछत-चिह्न/ गिनाछत के निशान	1. पहचान-चिह्न/ गिनाछत-चिह्न/ गिनाछत के निशान	1. पहचान-चिह्न/ गिनाछत के निशान/ पहचान-चिह्न	1. पहचान-चिह्न/ गिनाछत के निशान/ पहचान-चिह्न	1. पहचान-चिह्न/ गिनाछत-चिह्न/ गिनाछत का निशान/ परिचय-चिह्न	1. पहचान-चिह्न/ गिनाछत-चिह्न/ गिनाछत-निशान
Identity	1. पहचान	1. पहचान	1. पहचान 2. अभिज्ञान	1. पहचान 2. गिनाछत	1. पहचान 2. गिनाछत	1. पहचान/परिचय 2. गिनाछत/ अभिज्ञान 3. अभिन्नता/ एकामेवा/ समानरुच/ तादात्म्य	1. पहचान
			3. अभिन्नता/तद्रूपता/ अनन्यता	3. अनन्यता	3. अनन्यता	4. स्वरूप	

1

2

3

4

5

6

7

Ill will

1. वैमनस्य

1. वैमनस्य

1. वैमनस्य

1. वैमनस्य/
द्वेष/दुर्भाव

1. वैमनस्य/
द्वेष/
दुर्भावना/
दुर्भाव/
दुष्भावना/
दुर्गति

1. वैमनस्य

Immediate

1. तत्काल

1. तत्काल/
अविमम्ब

1. तत्काल/
तुरन्त/
अविलम्ब

1. तात्कालिक,
अविलम्ब/
तुरन्त/
तत्काल

1. तत्काल/
अविलम्ब/
तुरन्त

1. तत्काल

2. अव्यवहित/
आसन्न

2. अव्यवहित/
आसन्न

2. आसन्न

2. अव्यवहित/आसन्न/2. अव्यवहित/
विनान्तर आसन्न

2. अव्यवहित/
आसन्न

Immigration
Authority

1. आमवास
प्राधिकारी

1. आमवास
प्राधिकारी

3. निकटतम
1. आमवास
प्राधिकारी

2. अव्यवहित/आसन्न/2. अव्यवहित/
विनान्तर
3. निकटतम
1. आमवास
प्राधिकारी

3. निकटतम
1. आमवास
प्राधिकारी/
आमवास
प्राधिकारी

1. आमवास
प्राधिकारी

Imminent

1. आसन्न

1. आसन्न

1. आसन्न/
सम्पुर्णव्यव/
सन्निकट

1. सन्निकट/
आसन्न

1. आसन्न/
सन्निकट

1. आमवास
प्राधिकारी

1. आसन्न

Impartial
Impediment

1. निष्पक्ष
1. अडचन/
बाधा

1. निष्पक्ष
1. अडचन/
बाधा

1. निष्पक्ष
1. अडचन/
बाधा

1. निष्पक्ष
1. अडचन

1. निष्पक्ष
1. अडचन/
रहाबट/
बाधा/
अवबाधा

1. निष्पक्ष
1. अडचन/बाधा

1	2	3	4	5	6	7
Impersonation	1. प्रतिरूपण	1. प्रतिरूपण	1. प्रतिरूपण	1. प्रतिरूपण/ छद्मरूपण	1. प्रतिरूपण/ पररूपधारण/ परनामधारण	1. प्रतिरूपण
Implement	1. कार्यान्वित करना/ अमल में लाना/ परिपालन करना	1. कार्यान्वित करना/ अमल में लाना/ परिपालन करना	1. कार्यान्वित करना/ अमल में लाना/ परिपालन करना	1. कार्यान्वित करना/ अमल में लाना/ कार्यरूप देना/ परिपालन करना	1. कार्यान्वित करना/ अमल में लाना/ परिपालन करना/ अभिपूरण करना	1. अमल में लाना/ परिपालन करना
Implication	1. विवक्षा/मसा 2. फौसा जाना/ फौसना/फौसाना	1. विवक्षा/मसा 2. फौसा जाना/ फौसना/फौसाना	1. विवक्षा/मसा, आशय 2. फौसा जाना/ फौसना/फौसाना 3. बालिप्त करना भार/बाधित 4. अभिप्रेत अर्थ	1. मसा/आशय, तात्पर्य 2. फौसना/फौसाना 3. लिप्ति/आलिप्ति 4. अभिप्रेत अर्थ	1. विवक्षा/आशय, मसा, तात्पर्य 2. फौसाब/उलक्षाब 3. अभिप्रमन/ आलिप्ति 4. निकाला हुआ तात्पर्य/ निकलने वाला तात्पर्य/ ध्वनितार्थ/ सक्षण/ उपलक्षण/ गूढ़ार्थ/ गूढ़तात्पर्य/ गर्भित	1. विवक्षा/मसा 2. फौसा जाना फौसना/फौसाना

1	2	3	4	5	6	7
	2. मन पर प्रभाव	2. धारणा				
Imprest	1. अप्रदाय/ उचन्त	1 अप्रदाय	2. मन पर प्रभाव, धारणा	2 धारणा/प्रभाव/ असर	2. धारणा/प्रभाव/ सत्कार	2. मन पर प्रभाव
Improper	1 अनुचित	1. अनुचित	3. सत्करण	3. अनुपुत्रण		
Improvement	1 सुधार/ सगोधन	1. सुधार/ सगोधन	4 टान, दबाव	1 अप्रदाय/ उचन्त	1 अप्रदाय/ उचन्त/पिशागी	1. अप्रदाय
	2 समुन्नति/ अभिवृद्धि	2 समुन्नति/ अभिवृद्धि	1 अनुचित	1 अनुचित/ अनुपयुक्त	1 अनुचित/ अनुपयुक्त	1. अनुचित
Improvisation	1 कामचलाऊ/ तात्कालिक (व्यवस्था)	1 कामचलाऊ/ तात्कालिक (व्यवस्था)	1 सुधार	1 सुधार	1 सुधार	1. सुधार/ सगोधन
Impute	1 लाछन लगाना	1 लाछन लगाना	2 अभिवृद्धि	2 जनति	2 समुन्नति/ उन्नति/सुधारकार्य	
			1 कामचलाऊ/ तात्कालिक (व्यवस्था)	1 कामचलाऊ/ तात्कालिक (व्यवस्था)	1 कामचलाऊ/ तात्कालिक (व्यवस्था)	1. कामचलाऊ
			1 (रोप आदि का व्यक्ति मे) आरोप करना	1 लाछन लगाना/ अभिरोपित करना/ गले मढ़ना	1 लाछन लगाना/ आरोप लगाना/ मढ़ना/लगाना/ आम्प्यारोपण करना	1. लाछन लगाना
In abejance	1. निलम्बित/ आस्थगित	1 निलम्बित/ आस्थगित	1. निलम्बित/ आस्थगित	1. आस्थगित	1. निलम्बित स्थिति मे/ आस्थगित/ टला हवा	1 निलम्बित

1	2	3	4	5	6	7
Inability	1 अयोग्यता	1 अयोग्यता	1 असमर्थता	1 अयोग्यता/ असमर्थता	1 अयोग्यता/ असमर्थता/ अशक्यता	1 अयोग्यता
Inaccuracy	1 अन्वयापेक्षा/ अशुद्धि	1 अन्वयापेक्षा/ अशुद्धि	1 अन्वयापेक्षा/ अशुद्धि	1 अतथ्यता/ अपरिगुण्यता/ अन्वयापेक्षा/ अशुद्धि	1 अन्वयापेक्षा/ अपरिगुण्यता/ अशुद्धि	1 अन्वयापेक्षा
Inadmissible	1 अस्वीकार्य/ अप्राप्त	1 अस्वीकार्य/ अप्राप्त	1 अस्वीकार्य/ अप्राप्त	1 अस्वीकार्य/ अप्राप्त	1 अस्वीकार्य अप्राप्त	1 अस्वीकार्य
Inadvertently	1 अनजाने/ अज्ञानस्थानी से	1 अनजान/ अज्ञानस्थानी से	1 अनजाने/ अज्ञानस्थानी से/ अज्ञानस्थानता से	1 अनजान/ अज्ञान से/ अज्ञानस्थानी से	1 अनजाने 2 अज्ञेय	1 अनजाने/ अज्ञानस्थानी से
Inapplicable	1 अयोग्य	1 अयोग्य	1 अयोग्य	1 अयोग्य/ लागू न होने वाला	1 अनजाने/ अज्ञानस्थानी से/ अज्ञानस्थानता से/ अज्ञानस्थानतापूर्वक	1 अयोग्य
Inauguration	1 उद्घाटन	1 उद्घाटन	1 उद्घाटन 2 प्रारम्भ	1 उद्घाटन	1 अयोग्य/ लागू न होने वाला	1 अयोग्य
Incamera	1 गुप्त बैठक	1 गुप्त बैठक	1 गुप्त बैठक	1 गुप्त बैठक	1 उद्घाटन	1 उद्घाटन
Incautious	1 योग्याह्व	1 योग्याह्व	1 योग्याह्व/ वेरथा	1 बहावा/ उत्तरथा	1 अज्ञेय/अज्ञेय/ अज्ञेय/अज्ञेय अज्ञेय/अज्ञेय	1 योग्याह्व

1	2	3	4	5	6	7
Incharge (as in office- incharge)	1. प्रभारी/ भारसाधक/ इर्बाज	1 प्रभारी	2. उत्तेजना 1. प्रभारी/ भारसाधक	1 प्रभारी/ भारसाधक	2 उद्दीपक/ उत्तेजक 1. प्रभारी/ कार्यभारी/ इर्बाज/ भार-साधक भार-प्रभारी/ भार-धारक/ भार-वाहक/ स्थानापन्न/ कार्य-भार रखने वाला	1. कार्यभारी
Incidental	1 आनुपगिक/ प्रासगिक	1 आनुपगिक/ प्रासगिक	1. आनुपगिक/ प्रासगिक	1 आनुपगिक/ प्रासगिक	1. आनुपगिक/ प्रासगिक	1. प्रासगिक
Incite	1 उद्दीपित करना/ भडकाना/ उकसाना	1 उद्दीपित करना/ भडकाना/ उकसाना	1 उद्दीपित करना/ भडकाना/ उकसाना/ उभारना	1 उद्दीपित करना/ उकसाना/ उभारना	2 आपाती 1. उद्दीपित करना/ भडकाना/ प्रेरित करना/ दुस्साहित करना/ उत्तेजित करना	1. भडकाना/ उकसाना
Inclusive	1. सहित	1 सहित	1. सहित/लेकर/ मिलाकर	1 सम्मिलित करके/सामिल करके/मिलाकर	1. सहित/समेत/ सम्मिलित करके/सम्मिलित करते हुए	1. सहित

	1	2	3	4	5	6	7
Incognito	1 अज्ञात 2. गुप्तरूप से	1 अज्ञात 2. गुप्तरूप से	1 अज्ञात 2 गुप्तरूप से	1 अज्ञात 2 गुप्तरूप से	1 अज्ञात 2 गुप्तरूप से	1 अज्ञात 2 गुप्तरूप से 3. अज्ञातवासी	1 अज्ञात
Incompatible	1 बेमेल	1 बेमेल	1 बेमेल/ असंगत	1 बेमेल	1 बेमेल	1. बेमेल/मेल न छाता हुआ/ असंगत/ अननुरूप/ विरुद्ध/विसंगत	1. बेमेल
Incompetency	1 अक्षमता	1 असमता	1 अक्षमता	1 अक्षमता	1 अक्षमता	1. असमता	1. अक्षमता
Incomplete	1 अधूरा	1 अधूरा	1 अपूर्ण, अधूरा	1 अपूर्ण, अधूरा	1 अपूर्ण, अधूरा	1. अधूरा, अपूर्ण	1. अधूरा
Inconclusive	1 अनिर्णित	1 अनिर्णित	1 अनिर्णायक/ अनिश्चायक	1 अनिर्णायक/ अनिश्चायक	1 अनिर्णित	1. अनिर्णायक/ अनिश्चायक	1. अनिर्णित
Incongruous	1 असंगत/ बेतुका	1 असंगत/बेतुका	1 असंगत/बेतुका/ अयुक्त	1 बेमेल/बेतुका/ विषम/असंगत	1 बेमेल/बेतुका/ विषम/असंगत	1. विसंगत/बेतुका/ असम्बन्ध/ अपौरुष्य/अननुगत	1. असंगत/बेतुका
Inconsistent	1 असंगत	1 असंगत	1 असंगत	1 असंगत	1 असंगत	1. असंगत	1. असंगत
Inconvenience	1 असुविधा	1 असुविधा	1 असुविधा	1 असुविधा	1 असुविधा	1. असुविधा	1. असुविधा
Increment	1 वेतन-वृद्धि/ वेतन तरक्की	1 वेतन-वृद्धि	1 वेतन-वृद्धि/ वेतन तरक्की	1 वेतन-वृद्धि/ वेतन तरक्की	1 वेतन-वृद्धि	1. वेतन-वृद्धि या तरक्की/बढ़ती	1. वेतन-वृद्धि
Incumbent	1 पदस्थ/पदधारी	1 पदस्थ/पदधारी	2 वृद्धि 1 पदस्थ/पदधारी	2 वृद्धि 1 धारक/पदस्थ/ पदधारी	2 वृद्धि 1 धारक/पदस्थ/ पदधारी	1. धारी/धारक/ अवलम्बी/ वृत्तिधोषी/ धारण करने वाला	1. पदधारी

1	2	3	4	5	6	7
				2 आश्रयी	2 आरूढ़/लेटा हुआ/आश्रित/ सहारा लिया हुआ	
				3. लाञ्छिनी		
Indemnifi- cation	1 क्षतिपूरण	1 क्षतिपूरण	1. क्षतिपूरण/ क्षतिपूति	1 क्षतिपूरण/ क्षतिपूति/ हर्जाना	1 क्षतिपूति/ क्षतिपूरण/तारण	1 क्षतिपूति
Indemnity bond	1 क्षतिपूति बन्धपत्र/ इडेन्सिटी बन्ध-पत्र	1 क्षतिपूति बन्ध-पत्र	1. क्षतिपूति बन्ध-पत्र	1 क्षतिपूरण-बन्ध/ क्षतिपूति बन्ध- पत्र	1 क्षतिपूति बन्ध- पत्र/क्षतिपूरक बन्ध/इडेन्सिटी बन्ध-पत्र	1 क्षतिपूति बन्धपत्र
Indent	1. मागपत्र, इण्डेंट	1 मागपत्र, इण्डेंट	1 मागप	1. मागपत्र, इण्डेंट, आदेश	1 मागपत्र, इण्डेंट, वस्तु- आदेश, व्यादेश 2 अपेक्षित वस्तुसूची	1. इण्डेंट
Independent note	1. स्वतन्त्र टिप्पणी	1. स्वतन्त्र टिप्पणी	1. स्वतन्त्र टिप्पणी	1 स्वतन्त्र टिप्पणी	1. स्वतन्त्र टिप्पणी	1 स्वतन्त्र टिप्पणी
In detail	1. सविस्तार/ ब्यौरेवार	1 सविस्तार/ ब्यौरेवार	1. सविस्तार/ ब्यौरेवार	1 सविस्तार/ ब्यौरेवार	1 सविस्तार/ विस्तार से/ ब्यौरेवार	1. सविस्तार/ ब्यौरेवार/ विस्तार से
Index	1. सूचक/अनुक्रमणी	1. सूचक/अनुक्रमणी	1. सूचक/अनुक्रमणी/ अनुक्रमणिका	1. अभिसूचक/ अनुक्रमणी/ सकेत-सूची/ सूचक	1. सूचक/ अनुक्रमणिका/ निर्देशक-सूची/ क्रम-सूची/ देराना	1. सूचक/ अनुक्रमणी

	1	2	3	4	5	6	7
Index card		1 सूचक-पत्र/ सूचक-कार्ड	1 सूचक-पत्र/ सूचक-कार्ड	1 सूचक-पत्र/ सूचक-कार्ड/ कार्ड अनुक्रमणी	1 अनुक्रमणी/ सूचक-पत्र या कार्ड	1 सूचक-कार्ड/ सूचक-पत्र/ निदेशक-पत्र	1 सूचक-पत्र/ सूचक-कार्ड
Index number		1 अनुक्रमणी अंक/ सूचक अंक	1 अनुक्रमणी अंक/ सूचक अंक	1 सूचकांक	1 सूचकांक/ अनुक्रमणी अंक	1 अनुक्रमणी अंक/ सूचक-अंक/दिरानाक/ निदेशक-तड्या	1 सूचक-अंक
Index slip		1 सूचक-पर्ची	1 सूचक-पर्ची	1 सूचक-पर्ची	1 सूचक-पर्ची/ अनुक्रम-पत्र	1 सूचक-पर्ची	1 सूचक-पर्ची
Indication		1. संकेत/सूचना	1. संकेत/सूचना	1. संकेत/सूचना/ निर्देश	1. संकेत	1. संकेत/सूचना निर्देश	1. संकेत/सूचना
Indigenous		1. देशी	1. देशी	1. देशी/स्थानीय/ देशज/स्वदेशी	1. देशज/देशी	1. देशी/स्वदेशी/ तत्स्थानीय	1. देशी
Indiscipline		1 अनुशासन- हीनता	1. अनुशासन- हीनता	1 अनुशासन- हीनता	1. अनुशासन- हीनता	1 अनुशासन- हीनता	1 अनुशासन- हीनता
Indispensable		1 अपरिहार्य	1 अपरिहार्य	1 अनिवार्य	1. अनिवार्य	1 अपरिहार्य/ अत्यावश्यक/ अनिवार्य	1 अपरिहार्य
Individual Inspection		1 पृथक्-पृथक् निरीक्षण	1. पृथक्-पृथक् निरीक्षण	1. व्यक्तिगत- निरीक्षण/ अलग-अलग निरीक्षण	1 पृथक्-पृथक् निरीक्षण	1. पृथक्-पृथक् निरीक्षण	1. पृथक्-पृथक् निरीक्षण
Inefficiency		1 अदक्षता	1. अदक्षता	1 अदक्षता	1 अकुशलता/ अदक्षता	1. अदक्षता/ अपटता/ अप्रवीणता/ कार्याक्षमता	1. अक्षमता

	1	2	3	4	5	6	7
Ineligible Inexpedient	1 अपात्र 1 असमीचीन	1 अपात्र 1 असमीचीन	1 अपात्र 1 असमीचीन	1 अपात्र 1 अनुपयुक्त/ अकार्योचित	1 अपात्र 1 अकार्योचित/ अनुपयुक्त/ असमीचीन	1 अपात्र 1 असमीचीन/ अनुपयुक्त/ अवाछनीय	1 अपात्र 1 असमीचीन
Inferior	1 निम्न/अवर/ छोटा	1 निम्न/अवर/ छोटा	1 निम्न/अवर/ छोटा	1 अवर	1 अवर/निम्न/ घटिया/छोटा	1 अवर/निम्न/ छोटा/घटिया/ हलका/निचला/ निम्नस्थ/ निम्नश्रेणी का निम्नकोटि का अधोवर्ती/ अवकृष्ट	1 निम्न/अवर/ छोटा
In force	1 प्रवृत्त/लागू	1 प्रवृत्त/लागू	1 प्रवृत्त/लागू	1 प्रवृत्त/लागू	1 प्रवृत्त/लागू	1 प्रवृत्त/लागू/ प्रचलित/प्रभाव- शील/प्रवर्तमान	1 लागू
Informal	1 अनौपचारिक	1 अनौपचारिक	1 अनौपचारिक	1 अनौपचारिक	1 अनौपचारिक	1 अनौपचारिक/ अरीतिक/ अध्याख्य	1 अनौपचारिक
Information	1 सूचना, वार्ता	1 सूचना, वार्ता, जानकारी	1 सूचना, जानकारी	1 सूचना, जानकारी	1 सूचना, जानकारी	1 सूचना, जानकारी	1 सूचना
Infringement	1 अतिलपन	1 अतिलपन	1 अतिलपन	1 अतिलपन	1 अतिलपन 2. इत्तिला (पुलिस)	1 अतिलपन, उल्लपन	1 अतिलपन
					1 अधिकारापहरण		

	1	2	3	4	5	6	7
Initial	1. प्रारम्भिक		1. प्रारम्भिक	1. प्रारम्भिक		1. प्रारम्भिक/ आरम्भिक/ आदि/आदिम/ प्राच/पहला	1. प्रारम्भिक
Initials	1 आद्यक्षर	1. आद्यक्षर/ लघुहस्ताक्षर	1 आद्यक्षर	1. आद्यक्षर	1. प्रारम्भिक/ आदि/लघु हस्ताक्षर करना	1. आद्यक्षर/ छोटे दस्तखत/ सविप्ताहस्ताक्षर/ हस्ताक्षर	1. प्रथमाक्षर
Initiate	1. प्रारम्भ करना/ उपक्रमण/ पहल करना	1. प्रारम्भ करना/ उपक्रमण/ पहल करना	1. प्रारम्भ करना/ (का) सूत्र-पाठ करना	1 सूत्रपाठ करना/ आरम्भ करना	1. प्रारम्भ करना/ उपक्रम करना/ पहल करना/ सूत्रपाठ करना/ शुरु करना	1. आरम्भ करना/ पहल करना	1. प्रथमाक्षर
Initiative	1 सूत्रपाठ/क्षमता पहल	1. सूत्रपाठ/क्षमता पहल	1. सूत्र-पाठ/ आरम्भ/उपक्रम/ सूत्रपाठ-क्षमता/ पहल	2 दीक्षित करना	1. पहल/उपक्रमण/ उपक्रम सूत्र-पाठ-क्षमता	1. सूत्र पाठ/पहल	1. प्रथमाक्षर
			2. अग्रसरता/ प्रारम्भिकता/ नेतृत्व/अभिक्रम-शीलता		2. प्रेरक व्यक्ति/ प्रेरणा/प्रेरति		

1	2	3	4	5	6	7
Inquiry	1 पूछताछ 2 जांच	1 पूछताछ 2 जांच	1. पूछताछ 2 जांच	1. पूछताछ 1. जांच	1 पूछताछ 2. जांच/ जांच-पडताल/ परिप्रेषन/समीक्षण/ परिपृच्छा	1 पूछताछ 2. जांच
Inquiry —, Depart- mental	1. विभागीय जांच	1 विभागीय जांच	1. विभागीय जांच	1. विभागीय जांच	1. विभागीय जांच	1. विभागीय जांच
Inquiry —, Secret	1. गुप्त जांच	1. गुप्त जांच	1. गुप्त जांच	1 गुप्त जांच	1. गुप्त जांच	1. गुप्त जांच
Inspection	1 जांच, निरीक्षण	1 जांच, निरीक्षण	1. जांच, निरीक्षण	1. जांच, निरीक्षण	1 जांच, निरीक्षण/ परिवेक्षण	1 जांच, निरीक्षण
Inspection at site	1. मौके पर निरीक्षण	1 मौके पर निरीक्षण	1. मौके पर निरीक्षण	1. मौके पर निरीक्षण	1 मौके पर निरीक्षण	1: मौके पर निरीक्षण
Inspection —, Periodical	1. आवधिक निरीक्षण	1. आवधिक निरीक्षण	1. आवधिक निरीक्षण	1. आवधिक निरीक्षण	1. आवधिक निरीक्षण	1. आवधिक निरीक्षण
Inspectorate	1. निरीक्षणालय	1. निरीक्षणालय	1 निरीक्षणालय	1. निरीक्षणालय	1. निरीक्षणालय/ निरीक्षकालय	1 निरीक्षणालय
Installation (in office)	1. सस्थापन/ अधिष्ठापन	1. सस्थापन/ अधिष्ठापन	1. सस्थापन/ अधिष्ठापन 2 निरोपण	1 अधिष्ठापन/ सस्थापन 2. अभियेक	1. स्थापना/ प्रतिष्ठापन/ अधिष्ठापन	1. सस्थापन
Instigation	1. उकसाना	1. उकसाना	1. उकसाना	1. उकसाना/ उभाडना/ उत्तेजित करना	1. उकसाहट/ अपोतेजन	1. उकसाना

	1	2	3	4	5	6	7
Instruction	1 अनुदेश/ हिसायत		1. अनुदेश/ हिसायत	1 अनुदेश			
Instrument	1. यन/उपकरण/ औडार 2. लेखपत्र/लिखत	1. उपकरण/ औडार/यन 2. लिखत		1 उपकरण/ उपयन 2. लिखत करणपत्र/ दस्तावेड	1 औडार/ उपकरण 2 लिखत (as Instru- ment of accession)	1. अनुदेश/ हिसायत 2. सीध 3. मिशा 1. उपकरण/यन/ औडार 2. लिखत, यनेष/ अधिकार-पत्र	1. अनुदेश/ हिसायत 1. यन/उपकरण/ औडार 2. लिखत
Insubordination	3 साधन 1 अनधीनता	1. अनधीनता/ अवज्ञा		1. अनधीनता		3. साधन 1. अनधीनता/ अधीनता न मानना/ अनधीनस्थता/ अवज्ञा/ अनाज्ञाकारिता	3. साधन 1. अनधीनता
Insurance	1 बीमा	1. बीमा	1. बीमा	1. बीमा	1. बीमा	1. बीमा	1. बीमा
Integral	1. अभिन्न/ अविभाग्य	1. अभिन्न/ अविभाग्य	1. अभिन्न/ अविभाग्य (मुद्रण) समाकलन	1. अभिन्न/ अविभाग्य	1. अखड/अभिन्न	1. अभिन्न/ अविभाग्य	1. अभिन्न
					2. पूर्ण साधियक (गमित मे)		
					3. अनुकूल		

1	2	3	4	5	6	7
Integration	1. एकीकरण/ समाकलन/ समेकीकरण/ समेकन/सकलन	1. एकीकरण/ समाकलन	1. एकीकरण 2. एकता	1. समाकलन/ एकीकरण — 3 सकलन (शिक्षा में)	1. एकीकरण	1. एकीकरण
Integrity	1. सत्यनिष्ठा/ ईमानदारी 2. अखडता	1. सत्यनिष्ठा/ ईमानदारी	1. सत्यनिष्ठा/ ईमानदारी 2. अखडता	1. सत्यनिष्ठा 2. अखडता	1. सच्चाई/ सनिष्ठा/ शौलनिष्ठता/ प्रामाणिकता 2. साकल्य/पूर्णता/ अखडता	1. सत्यनिष्ठा/ ईमानदारी 2 अखडता
Intelligence	1. गुप्तवार्ता/ खुफिया 2. आसूचना	1. गुप्तवार्ता/ खुफिया 2. आसूचना	1. गुप्तवार्ता/ खुफिया 2. अभिसूचना 3. बुद्धि	1. खुफिया 2 आसूचना 3 प्रज्ञा/बुद्धि	1. गुप्तवार्ता/ गुप्तचर्या 2. खुफिया- समाचार 3. प्रज्ञा/बुद्धि/समझ/ प्रज्ञान	1. गुप्तवार्ता/ खुफिया 2. आसूचना
Intelligence Bureau	1. गुप्तवार्ता विभाग	1. गुप्तवार्ता विभाग	1. खुफिया ब्यूरो/ अभिसूचना केन्द्र	1 आसूचना अभिष्ठान/ आसूचना ब्यूरो/ खुफिया ब्यूरो	1. गुप्तवार्ता विभाग/ गुप्तचर्या कार्यालय	1. गुप्तवार्ता विभाग
Intensive	1. गहन/प्रकृष्ट/तीव्र	1. गहन/प्रकृष्ट	1. तीव्र 2. प्रगाढ़/सघन	1. गहन 2. प्रगाढ	1. गहन 2. प्रगाढ़/घना/बहुत	1. गहन

	1	2	3	4	5	6	7
<i>Intensite drive</i>	1. तीव्र आन्दोलन/ दहन आन्दोलन	1. तीव्र आन्दोलन/ दहन आन्दोलन	1. तीव्र आन्दोलन/ दहन आन्दोलन	1. तीव्र आन्दोलन/ दहन आन्दोलन	1. तीव्र आन्दोलन/ दहन आन्दोलन	1. तीव्र आन्दोलन/ दहन आन्दोलन	1. तीव्र आन्दोलन/ दहन आन्दोलन
<i>Intent</i>	1. आशय	1. आशय	1. आशय	1. आशय, अभिप्राय	1. आशय	1. आशय, विचार/ अभिप्राय/ उद्देश्य	1. तीव्र उद्देश्य 2. तीव्र उद्देश्य
<i>Intentionally</i>	1. साभिप्राय, शास्त्र	1. साभिप्राय, शास्त्र	1. साभिप्राय	1. साभिप्राय	2. दृढ़पट्टन	1. साभिप्राय/ शास्त्र, मानद्वृत्त- कर, अभिप्राय- पूर्वक	1. साभिप्राय शास्त्र
<i>Inter alia</i>	1. साथ-साथ	1. साथ-साथ, अन्य बातों के साथ	1. अन्य बातों के साथ-साथ	1. साथ-साथ अन्य बातों के साथ- साथ	1. साथ-साथ अन्य बातों के साथ/ और बातों के साथ-साथ	1. दूसरी बातों के साथ-साथ/ और बातों के साथ-साथ/ भारत व/ अन्तर्गत विषयों व	1. साथ-साथ और बातों व
<i>Inter Departmental</i>	1. अन्तर- विभागीय	1. अन्तर- विभागीय	1. अन्तर्विभागीय	1. अन्तर्विभागीय	1. अन्तर्विभागीय	1. अन्तर्विभागीय	1. अन्तर्विभागीय
<i>Inter Departmental reference</i>	1. अन्तरविभागीय पत्राचार	1. अन्तरविभागीय पत्राचार	1. अन्तरविभागीय पत्राचार	1. अन्तरविभागीय पत्राचार	1. अन्तरविभागीय पत्राचार	1. अन्तरविभागीय पत्राचार	1. अन्तरविभागीय पत्राचार
<i>Intersectional references</i>	1. अन्तरानुभागीय पत्राचार	1. अन्तरविभागीय पत्राचार	1. अन्तरानुभागीय पत्राचार	1. अन्तरविभागीय पत्राचार	1. अन्तरानुभागीय पत्राचार	1. अन्तरविभागीय पत्राचार	1. अन्तरानुभागीय पत्राचार

1	2	3	4	5	6	7
Interception	1. अन्तर्ग्रहण/ बीच में पड़ लेना/रोक लेना/मुन लेना/ अन्तरावरोध	1. अन्तर्ग्रहण/ बीच में पड़ लेना/रोक लेना/मुन लेना/ अन्तरावरोध	1. अन्तर्ग्रहण/ बीच में पड़ लेना/मुन लेना/ बीच में रोकना/ अतर्ग्रहण/ अन्तरावरोध	1. अन्तर्ग्रहण अन्तारोध/ अन्तरावरोध	1. बीच में रोकना/ माँग में रोक लेना/ अन्तरावरोध	1. बीच में पड़ लेना/ रोक लेना/ मुन लेना/ अन्तरावरोध
Interfere	1. हस्तक्षेप करना	1. हस्तक्षेप करना	1. हस्तक्षेप करना	1. हस्तक्षेप करना/ दखल देना/ रुकावट डालना	1. हस्तक्षेप करना/ बाधा डालना	1. हस्तक्षेप करना
Interference	1. हस्तक्षेप	1. हस्तक्षेप	1. हस्तक्षेप	1. हस्तक्षेप, रुकावट 2. अन्तराय	1. हस्तक्षेप, बाधा	1. हस्तक्षेप
Interim	1. अन्तरिम	1. अन्तरिम	1. अन्तरिम	1. अन्तरिम काल/ अन्तर्कालीन	1. अन्तरिम/ अन्त.कालीन/ मध्यवर्ती/ मध्यकालीन/ अन्तर्वर्ती	1. अन्तरिम
Interim order	1. अन्तरिम आदेश	1. अन्तरिम आदेश	1. अन्तरिम आदेश	1. अन्तरिम आदेश	1. अन्तरिम आदेश	1. अन्तरिम आदेश
Interim reply	1. अन्तरिम उत्तर	1. अन्तरिम उत्तर	1. अन्तरिम उत्तर	1. अन्तरिम उत्तर	1. अन्तरिम उत्तर	1. अन्तरिम उत्तर
Intermediary	1. मध्यवर्ती	1. मध्यवर्ती	1. मध्यवर्ती	1. विचोनिया/ मध्यवर्ती	1. मध्यवर्ती/ अन्त स्थायी/ अन्तस्थ/ मध्यस्थ/माध्यम	1. मध्यवर्ती
			2. मध्यग	2. मध्यग		

1	2	3	4	5	6	7
Internal	1. आंतरिक/ आम्पांतरिक	1 आंतरिक आम्पांतरिक	1. आंतरिक/ आम्पांतरिक/ आन्तर	1. आंतरिक/ अन्तर/आन्त / आम्पांतरिक	1. आंतरिक/ आम्पांतरिक/ आम्पांतर/ अन्त रूप/भीतरी/ भीतर का/ अन्दरूनी	1. आंतरिक
Interpretation	1. निबन्धन 2 व्याख्या	1 निबन्धन 2 अर्थ सप्ताना	1 निबन्धन 2. व्याख्या/ भीमासा 3 भाषान्तरण	1 निबन्धन, अर्थ-निर्णय/ 2 टोका/ भाषान्तर व्याख्या, निवृत्ति/ 3 भाषान्तरण	1. निबन्धन 2. व्याख्या/ अर्थ 3. उल्ला/ भाषान्तरण	1. अर्थ-निर्णय
Interruption	1 बाधा, विघ्न/ स्वच्छान/ अवरोध	1 बाधा, विघ्न/ स्वच्छान/ अवरोध	1 बाधा, विघ्न/ स्वच्छान/ अवरोध/ अवरोध व्याधान	1 बाधा/अवरोध/ विघ्न/टोक/ व्याधान/ स्वच्छान	1. बाधा, विघ्न/ हस्तक्षेप/रोक/ रुकावट, व्याधान	1. बाधा, विघ्न स्वच्छान
Interval	1 अन्तरावधि/ अन्तराल	1. अन्तरावधि/ अन्तराल	1 अन्तराल/ अन्तर 2 मध्यवर्धमान/ अवकाश	1 अन्तर/बीच का अवकाश 2 मध्यवर्धमान/ दूरत्वम्/ मध्यान्तर/ अन्तराल 3. स्वराश्रय	1 अन्तरावधि/ अन्तरवेला/ अन्तर 2. मध्यवर्धमान/ मध्यान्तर	1. अन्तराल

1	2	3	4	5	6	7
Interview	1. साक्षात्कार/ इंटरव्यू/ प्रत्यक्ष भेंट	1. साक्षात्कार/ प्रत्यक्ष भेंट	1. साक्षात्कार/ भेंट/ प्रत्यक्ष भेंट/ साक्ष्य परीक्षा	1. इंटरव्यू/ अन्तर्वीक्षा/ साक्षात्कार 2. मुलाकात/ भेंट/ममालाप	1. साक्षात्कार/भेंट/ समक्ष-भेंट	1. साक्षात्कार/ प्रत्यक्ष भेंट
Intimation	1. प्रज्ञापन/सूचना/ इत्तिला	1. प्रज्ञापन/सूचना/ इत्तिला	1. प्रज्ञापन/सूचना/ इत्तिला	1. सूचना/प्रज्ञापन/ खबर/इत्तिला	1. प्रज्ञापन/सूचना/ इत्तिला/सज्ञापन	1. सूचना/इत्तिला
In toto	1. सपूर्णत / पूरी तरह से	1. सपूर्णत /पूरी तरह से	1. सपूर्णत / पूरी तरह से	1. सपूर्णत /पूरी तरह से	1. सपूर्णत /पूर्णतया	1. पूर्णत /पूरी तरह से
Intricacy	1. जटिलता	1. जटिलता	1. जटिलता	1. जटिलता	1. जटिलता	1. जटिलता
Introduce	1. प्रस्तुत करना 2. परिचय कराना 3. समाविष्ट करना	1. प्रस्तुत करना 2. परिचय कराना 3. समाविष्ट करना	1. पुर स्थापित करना/प्रस्तुत करना 2. परिचय करना 3. समाविष्ट करना	1. पुर स्थापित करना/पिण करना 2. परिचय देना 3. समारम्भ करना	1. प्रस्तुत करना 2. परिचय देना/ प्रारम्भ करना/ प्रवर्तन करना 3. पुर स्थापित करना/पुरः स्थापन करना	1. प्रस्तुत करना 2. परिचय करना 3. समाविष्ट करना
Invalid	1. अशक्त 2. अविधिमान्य	1. अशक्त 2. अविधिमान्य	1. अशक्त 2. असाधु/अमान्य	1. अक्षमर्थ/अशक्त 2. अमान्य/ अविधि मान्य	1. अक्षमज/रोग- दुर्बल/दुर्बल/अयोग्य 2. विधिहीन/ विधिरहित/ अवैध/अमान्य 3. अक्षमर्थ 4. अव्यहार्थ	1. अक्षम 2. अवैध/अमान्य

1	2	3	4	5	6	7
Invalidity	1. असमर्थता/ अशक्तता	1. असमर्थता/ अशक्तता	1. अमान्यता/ असाधुता	1. अमान्यता/ अविधिमान्यता असमर्थता/ अशक्तता	1. असमर्थता अमान्यता	1. अर्बेद्यता/ अमान्यता
Inventory	1. सूची/फर्द/ फेहरिस्त	1. सूची/फर्द/ फेहरिस्त	1. सूची/फर्द/ फेहरिस्त/ तालिका	1. फर्द/वस्तुसूची/ तालिका	1. सूची/विवरण सूची/तालिका	1. सूची/फर्द/ फेहरिस्त
Investigation	1. अन्वेषण, जांच, जाँच-पड़ताल, तफ्तीस	1. अन्वेषण, अनुसंधान/जाच पड़ताल, तफ्तीस	1. अन्वेषण, अनुसंधान, जाँच-पड़ताल तफ्तीस	1. अनुसंधान, अन्वेषण/छोज, जाँच, छानबीन, तहकीकात	1. अनुसंधान, जाच, जाँच-पड़ताल, तफ्तीस, छानबीन, अन्वेषण	1. अन्वेषण, जांच
Invitation	1. निमन्त्रण 2. माँगना/ आमन्त्रण	1. निमन्त्रण 2. माँगना/ आमन्त्रण	1. निमन्त्रण 2. आमन्त्रण	1. निमन्त्रण/ 2. आमन्त्रण/ माँगना	1. निमन्त्रण	1. निमन्त्रण 2. माँगना/ आमन्त्रण
Inward returns	1. आवक विवरणियाँ	1. आवक विवरणियाँ	1. आवक विवरणियाँ	1. आवक विवरणियाँ	1. आवक विवरणियाँ	1. आवक विवरणियाँ
Inso facto	1. यथातथ्यत / इसी बात से	1. यथातथ्यत / इसी बात से	1. यथातथ्यत / इसी बात से	1. यथातथ्यत / इसी बात से	1. तदन्त /स्वयमेव/ स्वत /स्वच्छत से ही/कार्य से ही/ पटना से ही/ अपने आप से ही	1. यथातथ्यत / इसी बात से
Ipsa jure	1. विधितः	1. विधितः	1. विधित/ विधि से ही	1. विधितः	1. विधित / विधिप्रवर्तन से	1. विधितः

1	2	3	4	5	6	7
Irregular	1. अनियमित	1 अनियमित	1. अनियमित 2. विषम/असम	1. अनियमित 2 असमाकृति/ असम्मति/ असमान/विषम 3. बेकायदा/ बेतरतीब	1 अनियमित/ अनियमी 2. विषम	1. अनियमित
Irrelevant	1. असंबद्ध, विसंगत	1. असंबद्ध/विसंगत	1. असंबद्ध/विसंगत/ असंगत	1 विसंगत/असंबद्ध	1 असंगत/असंबद्ध	1 असंगत/असंबद्ध
Irrespective —, of	1. का विचार किए बिना/का लिहाज किए बिना	1 का विचार किए बिना/का लिहाज किए बिना	1 (का) विचार किए बिना/ (की) अपेक्षा किए बिना/ का लिहाज किए बिना	1 (का) विचार किए बिना/का लिहाज किए बिना/अपेक्षा बिना	1. असंबद्ध/ अनाधित/ के अनपेक्ष्य/ बिना ध्यान दिए	1. का विचार किए बिना/का लिहाज किए बिना
Irresponsible	1. अनुत्तरदायी/ बेजबाबदार गैरजिम्मेदार	1 अनुत्तरदायी/ गैरजिम्मेदार	1. अनुत्तरदायी/ बेजबाबदार/ गैरजिम्मेदार	1. अनुत्तरदायी/ गैरजिम्मेदार	1. अनुत्तरदायी/ गैरजिम्मेदार	1. अनुत्तरदायी/ गैरजिम्मेदार
Irrevocable	1. अटल	1. अटल/अप्रति सहाय्य/ अपरिवर्तनीय	1. अटल	1. अटल/ अविध्वंस्य	1. अटल/ अविध्वंस्य	1. अटल
Issue	1. निर्गम	1. निर्गम	1. निर्गम/निकासी	1 निर्गत/इजाराह/ प्रेषक	1. निर्गम/परिणाम	1. निर्गम
	2. वाद-पद	2. वाद-पद	2. वाद-पद/वाद- प्रश्न/साध्य	2. वाद-पद/विचार वस्तु	2. वाद-पत्र/वाद- विषय/विवाद-विषय	2. वाद-विवाद

1	2	3	4	5	6	7
J						
Job	1. नौकरी	1. नौकरी	1. नौकरी/ 2. कार्य/काम	1. नौकरी/घघा 2. कार्य/फुटकर काम	1. नौकरी/ 2. काम/कार्य, छुट्यक/ फुटकर काम	1. नौकरी
Job Card	1. कार्य-कार्ड/ जॉब-कार्ड	1. कार्य-कार्ड/ जॉब-कार्ड	1. कार्य-कार्ड/ जॉब-कार्ड	1. कार्य-कार्ड/ जॉब-कार्ड	1. कार्य-कार्ड/ जॉब-कार्ड	1. कार्य-कार्ड/ जॉब-कार्ड
Job work	1. छुटपुट काम/ फुटकर काम	1. छुटपुट काम/ फुटकर काम	1. छुटपुट काम/ फुटकर काम/ ठेके का काम	1. छुटपुट काम/ फुटकर कार्य	1. छुटपुट काम/ फुटकर कार्य	1. फुटकर काम
Join	1. कार्यभार ग्रहण करना/नौकरी शुरू करना	1. कार्यभार ग्रहण करना/नौकरी शुरू करना	1. (कार्य) ग्रहण करना	1. सेवारम्भ करना/पद-ग्रहण करना	1. कार्य ग्रहण करना/पद संभालना/ कार्यभार संभालना/ सेवारम्भ करना	1. कार्यभार ग्रहण करना/नौकरी शुरू करना
	2. सम्मिलित होना	2. सम्मिलित होना	2. सम्मिलित होना/ काम पर आना	2. शामिल होना	2. मिलना	
	3. संयोजित करना		3. जोड़ना	3. जोड़ना (स०) जोड़, केन्द्र, बिन्दु	3. जोड़ना/मंजुक्त करना/ सम्मिलित होना/संयोजित होना/प्रविष्ट होना/जुड़ जाना/जुड़ना/ सलम्न होना	

	1	2	3	4	5	6	7
Joining date	1. कार्यपट्टण तारीख, कार्यारम्भ तारीख	1. कार्यपट्टण तारीख	1. कार्यपट्टण तारीख, कार्यपट्टण दिनांक नोदरी शुल्क करने की तारीख	1. कार्यपट्टण तारीख, नोदरी शुल्क करने की तारीख	1. कार्यपट्टण तारीख, नोदरी शुल्क करने की तारीख, मेकार्डन नियम	1. कार्यपट्टण तारीख, नोदरी शुल्क करने की तारीख	1. कार्यपट्टण तारीख
Joining period	1. कार्यारम्भ-अवधि/पदपट्टण-अवधि	1. कार्यपट्टण-अवधि, पदपट्टण-अवधि	1. कार्यारम्भ-अवधि, पदपट्टण-अवधि	1. कार्यारम्भ-अवधि	1. कार्यपट्टण-अवधि, काल	1. कार्यारम्भ-अवधि/	1. कार्यारम्भ-अवधि
Joining report	1. कार्यारम्भ प्रतिवेदन	1. कार्यपट्टण प्रतिवेदन/ कार्यारम्भ प्रतिवेदन	1. कार्यारम्भ प्रतिवेदन	1. कार्यारम्भ प्रतिवेदन	1. कार्यपट्टण रिपोर्ट, मेकार्डन रिपोर्ट, उपस्थित होने की सूचना	1. कार्यारम्भ प्रतिवेदन, कार्यपट्टण प्रतिवेदन	1. कार्यारम्भ प्रतिवेदन
Joining time	1. कार्यारम्भ-काल, योग-काल	1. कार्यपट्टण-काल/कार्यारम्भ काल/योग-काल	1. कार्यपट्टण-काल, योग-काल	1. कार्यपट्टण-काल, योग-काल	1. कार्यपट्टण-अवधि, काल	1. कार्यपट्टण अवधि/ कार्यपट्टण-काल/ योग-काल	1. कार्यपट्टण अवधि
Joint	1. संयुक्त	1. संयुक्त	1. संयुक्त	1. संयुक्त	1. (विजे०) संयुक्त (सं०) जोड़/सधि/सभेद 2. बदली समय	1. संयुक्त/सह 2. भग/सधि/बोड़	1. संयुक्त

1	2	3	4	5	6	7
Joint attestation	1. संयुक्त-साक्ष्यांकन	1. संयुक्त अनुप्रमाणन/संयुक्त साक्षात्करण	1. संयुक्त साक्ष्यांकन	1. संयुक्त साक्ष्यांकन	1. संयुक्त साक्ष्यांकन	1. संयुक्त साक्ष्यांकन
Joint concurrence	1. संयुक्त सहमति	1. संयुक्त सहमति	1. संयुक्त सहमति	1. संयुक्त सहमति	1. संयुक्त सहमति	1. संयुक्त सहमति
Joint consultation	1. सम्मिलित परामर्श	1. सम्मिलित परामर्श	1. सम्मिलित परामर्श	1. सम्मिलित परामर्श	1. सम्मिलित परामर्श	1. सम्मिलित परामर्श
Joint liabilities	1. संयुक्त दायित्वा/संयुक्त दायित्व	1. संयुक्त दायित्व	1. संयुक्त दायित्व/संयुक्त दायित्वा	1. सम्मिलित देयता/संयुक्त दायित्व/संयुक्त दायित्वा	1. संयुक्त दायित्व	1. संयुक्त दायित्व
Joint representation	1. संयुक्त प्रतिनिधान/संयुक्त अभिवेदन	1. संयुक्त अभिवेदन/संयुक्त अभ्यावेदन	1. संयुक्त प्रतिनिधान/संयुक्त अभिवेदन/संयुक्त प्रत्यावेदन	1. संयुक्त प्रतिनिधान/संयुक्त प्रतिवेदन/प्रत्यावेदन, संयुक्त प्रतिनिधान	1. संयुक्त अभिवेदन/संयुक्त प्रत्यावेदन/प्रतिनिवेदन	1. संयुक्त प्रतिवेदन/संयुक्त प्रतिनिधान
Jointly	1. संयुक्त रूप से	1. संयुक्त रूप से	1. संयुक्त रूप से	1. संयुक्त रूप से	1. संयुक्त रूप से	1. संयुक्त रूप से
Jointly and Severally	1. संयुक्त और पृथक् रूप से	1. संयुक्त और पृथक् रूप से	1. संयुक्त और पृथक् रूप से	1. संयुक्त और पृथक् रूप से	1. संयुक्त तथा पृथक् रूप से	1. संयुक्त और पृथक् रूप से
Journal	1. दैनिकी/रोजनामचा	1. दैनिकी/रोजनामा	1. दैनिकी/रोजनामा	1. दैनिकी/रोजनामचा वही-खाता	1. दैनिकी/रोजनामचा/घड़ीखाता	1. दैनिकी/रोजनामचा
	2. पत्रिका/जरनल	2. पत्रिका	2. पत्रिका	2. पत्रिका/जर्नल/जरनल	2. पत्रिका/पत्र	2. पत्रिका/जरनल
			3. दैनिक-वही/वृत्त-पत्र		3. वृत्त-पत्र	

1	2	3	4	5	6	7
Jubilee	1. जयती	1. जयती	1. जयती	1. जयती	1. जयती	1. जयती
Jubilee —, Diamond	1. हीरक-जयती	1. हीरक-जयती	1. हीरक-जयती	1. हीरक-जयती	1. हीरक-जयती	1. हीरक-जयती
Jubilee —, Golden	1. स्वर्ण-जयती	1. स्वर्ण-जयती	1. स्वर्ण-जयती	1. स्वर्ण-जयती	1. स्वर्ण-जयती	1. स्वर्ण-जयती
Jubilee —, Silver	1. रजत-जयती	1. रजत-जयती	1. रजत-जयती	1. रजत-जयती	1. रजत-जयती	1. रजत-जयती
Judge —Advocate	1. न्यायाधीश अधिवक्ता/ जज-एडवोकेट	1. न्यायाधीश अधिवक्ता/ जज-एडवोकेट	1. न्यायाधीश अधिवक्ता/ जज-एडवोकेट	1. न्यायाधीश/ न्यायाधीश/ अधिवक्ता	1. न्यायाधीश अधिवक्ता/ जज-एडवोकेट	1. न्यायाधीश अधिवक्ता/ जज-एडवोकेट
Judge Advocate —General	1. न्यायाधीश महाअधिवक्ता/ जज-एडवोकेट जनरल	1. न्यायाधीश महाअधिवक्ता/ जज-एडवोकेट जनरल	1. न्यायाधीश महाअधिवक्ता/ जज-एडवोकेट जनरल	1. न्यायाधीश महाअधिवक्ता/ जज-एडवोकेट जनरल	1. न्यायाधीश महाअधिवक्ता/ जज-एडवोकेट जनरल	1. न्यायाधीश महाअधिवक्ता/ जज-एडवोकेट जनरल
Judgment	1. निर्णय	1. निर्णय	1. निर्णय	1. न्याय-निर्णय/ निर्णय/कैमसा	1. निर्णय/कैमसा	1. निर्णय
			2. विचार/समझ/ दृष्टि	2. बिवेक	2. निर्णय-बुद्धि/ निर्णय-भावित/ बिवेक	
				3. निश्चय		
Judicial	1. न्यायिक/ अदालती	1. न्यायिक	1. न्यायिक/न्याय-/ अदालती	1. न्यायिक/ अदालती	1. न्यायिक/ अदालती/ न्यायन्यायाधीश-/ 	1. अदालती

1	2	3	4	5	6	7
					न्यायालय-/ न्यायाधिकार सबधी/न्याय- सबधी	
Judicial —enquiry	1. अदालती जांच	1. न्यायिक जांच	1. न्यायिक जांच/ अदालती जांच	1. न्यायिक जांच/ अदालती जांच	1. न्यायिक जांच/ अदालती जांच	1. अदालती जांच
Judicial Service Judiciary	1. न्यायिक सेवा 1. न्यायपालिका	1. न्यायिक सेवा 1. न्यायपालिका	1. न्याय सेवा 1. न्यायपालिका/ न्यायाग	1. न्यायिक सेवा 1. न्यायाग/ न्यायपालिका/ न्यायकारी	1. न्यायिक सेवा 1. न्यायपालिका/ न्याय-विभाग	1. न्यायिक सेवा 1. न्यायपालिका
Junior (as in junior inspector)	1. कनिष्ठ	1. कनिष्ठ	2. न्यायाधीश-वर्ग 1. कनिष्ठ	1. कनिष्ठ/ जूनियर/ कनीय	2. न्यायाधिकारण 1. कनिष्ठ/ परचातुर्वर्ती/ निम्नस्थ/ जूनियर	1. कनिष्ठ
Junior (as in Junior Training College)	1. अवर	1. अवर	2. अवर 1. अवर	2. अवर 3. छोटा 1. अवर	2. अवर 1. अवर	1. अवर
Junior Accountant	1. कनिष्ठ लेखापाल	1. कनिष्ठ लेखापाल	1. कनिष्ठ लेखापाल/ कनिष्ठ लेखाकार	1. कनिष्ठ लेखापाल/ कनीय लेखापाल	1. कनिष्ठ लेखापाल	1. कनिष्ठ लेखापाल

1	2	3	4	5	6	7	
Jurisdiction	1. अधिकार क्षेत्र/ क्षेत्राधिकार/ अधिकारिता	1. अधिकार क्षेत्र क्षेत्राधिकार/ अधिकारिता	1. अधिकार क्षेत्र/ क्षेत्राधिकार/ अधिकारिता/ अधिसेत्र	1. अधिकार क्षेत्र/ क्षेत्राधिकार/ अधिकारिता अधिसेत्र	1. अधिकार क्षेत्र/ क्षेत्राधिकार/ अधिकारिता अधिसेत्र	1. अधिकार क्षेत्र/ अधिकारिता	1. अधिकार क्षेत्र
Jurist	1. विधिशास्त्री	1. विधिशास्त्री	1. विधिशास्त्री/ विधिवेत्ता	1. विधिशास्त्री/ विधिवेत्ता	1. विधिवेत्ता/ विधिपटित/ न्यायशास्त्री	1. विधिवेत्ता/ विधिपटित/ न्यायशास्त्री	1. विधिशास्त्री
Just	1.. न्याय्य/उचित/ ठीक	1 न्यायपूर्ण/ उचित/ठीक	1. न्याय्य/उचित/ ठीक/न्याय सगत	1. न्याय्य/न्यायपूर्ण न्याय सगत यथोचित/ठीक, उचित	1. न्यायपूर्ण/ यथोचित/ न्यायसगत/ न्याय्य/ न्यायानुगत	1. न्यायपूर्ण/ यथोचित/ न्यायसगत/ न्याय्य/ न्यायानुगत	1. ठीक
Justice	1 न्याय 2. न्यायमूर्ति	1. न्याय 2. न्यायमूर्ति	1. न्याय 2. न्यायमूर्ति 3. न्यायपति	1. न्याय 2. न्यायमूर्ति/ न्यायाधिपति	1. न्याय 2. न्यायाधिपति	1. न्याय 2. न्यायाधिपति	1. न्याय 2. न्यायमूर्ति
Justifiable	1 न्यायोचित 2. समर्थनीय	1. न्यायोचित 2. समर्थनीय	1. न्यायोचित 2. समर्थनीय/ उचित	1. तर्क-सगत/ न्याय्य/ न्यायसगत/ न्यायोचित 2. समर्थनीय	1. न्यायोचित/ न्यायसगत/ न्यायसम्भ्य 2. समर्थनीय	1. न्यायोचित 2. समर्थनीय	1. न्यायोचित

1	2	3	4	5	6	7
Justification	1. तर्कसंगत/ औचित्य	1. तर्कसंगत/ औचित्य	1. औचित्य/ समर्थन/ न्यायोचित	1. न्यायोचित्य/ तर्कसंगत/ औचित्य	1. औचित्य/ समर्थन/ न्यायानुमतता	1. तर्कसंगत/ औचित्य
Justify	1. न्यायोचित ठहराना/ सफाई देना/ न्यायसंगत सिद्ध करना/उचित सिद्ध करना	1. न्यायोचित ठहराना/उचित सिद्ध करना/ सफाई देना/ न्यायसंगत सिद्ध करना	1. न्यायोचित ठहराना/ सफाई देना/ उचित सिद्ध करना/(का) समर्थन करना	1. न्यायोचित ठहराना/ सफाई देना/ न्यायसंगत सिद्ध करना/ न्याय्य ठहराना/ उचित सिद्ध करना	1. उचित सिद्ध करना/न्याय- संगत सिद्ध करना/सफाई देना/उचित ठहराना	1. न्यायोचित ठहराना/ उचित सिद्ध करना
Juvenile	1. बाल/बाल्य/ किशोर	1. किशोर/बाल	1. बाल/बाल्य/ किशोर अवयस्क	1. बाल/किशोर/ अल्पवयस्क	2. समर्थन करना 3. निरपराध ठहराना 4. समकरण करना	1. बाल/किशोर
K						
Keeper of Archaeology	1. अध्यक्ष, पुरातत्व	1. अध्यक्ष, पुरातत्व	1. अध्यक्ष, पुरातत्व	1. अध्यक्ष, पुरातत्व	1. अध्यक्ष, पुरातत्व	1. अध्यक्ष, पुरातत्व
Keeper of Archives	1. (शासकीय) अभिलेखाध्यक्ष	1. अभिलेखाध्यक्ष	1. अभिलेखाध्यक्ष	1. अभिलेखाध्यक्ष	1. अभिलेखाध्यक्ष	1. अभिलेखाध्यक्ष

1	2	3	4	5	6	7
Keeper of Records	1. अभिलेखागल	1. अभिलेखागल	1. अभिलेखागल	1. अभिलेखागल	1. अभिलेखागल	1. अभिलेखागल
Key-board	1. कुजीपटल/ की बोर्ड	1. कुजीपटल/ की बोर्ड	1. कुजीपटल/ कुजीपलक/ की बोर्ड	1. कुजीबोर्ड/ कुजीपलक/ बावीपट्ट/ कुजीपटल/ की बोर्ड	1. कुजीपटल/ की बोर्ड	कुजीपटल/ की बोर्ड
Key map	1. मूल नक्शा	1. मूल नक्शा	1. मूल नक्शा/ आधार योजना/ कुजी मानचित्र/ निर्देशक मानचित्र	1. कुजी मानचित्र/ मूल नक्शा	1. मूल नक्शा	1. मूल नक्शा

L

Labour	1. श्रम	1. श्रम	1. श्रम	1. श्रम/सिंहनत/ परिश्रम	1. श्रम/परिश्रम	1. श्रम
	2. श्रमिक-वर्ग	2. श्रमिक-वर्ग	2. श्रमिक	2. श्रमिक/मजदूर/ श्रमिक-वर्ग	2. मजदूर/ कामगार/ श्रमिक/ श्रमिक-वर्ग/ श्रम-जीवी	
			3. (चिह्नितमा) प्रसव/ प्रसव वेदना	3. प्रसव/प्रसूति	3. प्रसव वेदना/ प्रसूति वेदना	

1	2	3	4	5	6	7
Labour commissioner	1. श्रम आयुक्त	1. श्रम आयुक्त	1. श्रम आयुक्त	1. श्रम आयुक्त	1. श्रम आयुक्त	1. श्रम आयुक्त
Labour relations	1. श्रम संपर्क/ श्रमिक संपर्क	1. श्रम संपर्क/ श्रमिक संपर्क	1. श्रम संपर्क/ श्रमिक संपर्क	1. श्रम संपर्क/ श्रमिक संपर्क	1. श्रम संपर्क/ श्रमिक संपर्क	1. श्रम संपर्क
Labour welfare	1. श्रम कल्याण/ श्रमिक कल्याण	1. श्रम कल्याण/ श्रमिक कल्याण	1. श्रम कल्याण	1. श्रम हित/ श्रम कल्याण	1. श्रम कल्याण/ श्रमिक कल्याण	1. श्रम कल्याण
Labourer	1. श्रमिक/मजदूर	1. श्रमिक/मजदूर	1. श्रमिक/मजदूर/ श्रमजीवी	1. श्रमिक/मजदूर/ श्रमजीवी/कामगार	1. श्रमिक/मजदूर/ श्रमजीवी	1. श्रमिक/मजदूर
Lady attendant	1. परिचारिका	1. परिचारिका	1. परिचारिका	1. परिचारिका	1. परिचारिका	1. परिचारिका
Lady superintendent	1. अधीक्षिका	1. अधीक्षिका	1. अधीक्षिका	1. अधीक्षिका	1. अधीक्षिका	1. अधीक्षिका
Lady supervisor	1. पर्यवेक्षिका	1. पर्यवेक्षिका	1. पर्यवेक्षिका	1. पर्यवेक्षिका	1. पर्यवेक्षिका	1. पर्यवेक्षिका
Land acquisition	1. भूमि अर्जन	1. भूमि अर्जन	1. भूमि अर्जन/ भूमि अध्याप्ति/ भूमि अधिग्रहण	1. भूमि अर्जन/ भू-अर्जन	1. भू-अर्जन	1. भू-अर्जन
Land mark	1. सीमा चिह्न	1. सीमा चिह्न	1. सीमा चिह्न	1. सीमा चिह्न	1. सीमा चिह्न/ निशान/सीमा भूमि चिह्न/ विभेदक चिह्न	1. सीमा चिह्न
			2. उल्लेखनीय घटना या वस्तु/ मोड/बिन्दु		2. प्रमुख स्थान	
					3. युगप्रवर्तक घटना	

1	2	3	4	5	6	7
Land records	1. भू-अभिलेख	1. भू-अभिलेख	1. भू-अभिलेख	1. भू-अभिलेख	1. भू-अभिलेख	1. भू-अभिलेख
Land revenue	1. भू-राजस्व/ मातगुजारी	1. भू-राजस्व/ मातगुजारी	1. भू-राजस्व/ मातगुजारी	1. भू-राजस्व/ मातगुजारी/ भू-भामगुजारी	1. भू-राजस्व/ मातगुजारी/ भूमि-कर/ भू-भामगुजारी/ भू-आगम	1. भू-राजस्व/ मातगुजारी
Land tenure	1. पट्टेदारी/ भू-धृति	1. पट्टेदारी/ भू-धृति	1. पट्टेदारी/ भू-धृति	1. भू-धारण/ भू-धृति	1. पट्टेदारी/ भू-धृति/ भू-धारण	1. पट्टेदारी/ भू-धृति
Language Division	1. भाषा-प्रभाग	1. भाषा-प्रभाग	1. भाषा-प्रभाग	1. भाषा-प्रभाग	1. भाषा-प्रभाग	1. भाषा-प्रभाग
Language Expert	1. भाषा विशेषज्ञ	1. भाषा विशेषज्ञ	1. भाषा विशेषज्ञ	1. भाषा विशेषज्ञ	1. भाषा विशेषज्ञ	1. भाषा विशेषज्ञ
Lapse	1. (समाप्ति) लय/ बीतना/ व्यपगत/ (त्रिया) लय होना/बीत जाना/व्यपगत होना	1. (समाप्ति) बीतना/ व्यपगत/ (त्रिया) व्यपगत होना/ बीत जाना	1. (समाप्ति) बीतना/ व्यपगत	1. (समाप्ति) लय/व्यपगत बीतना/बची/ दाय/होना	1. (समाप्ति) व्यपगत/ समाप्ति, भय	1. लय/बीतना
			2. चूक (त्रिया) लय होना/ व्यपगत होना/ समाप्त होना/बीतना	2. श्रुति/संज्ञन (त्रिया) लय होना/बीत जाना/व्यपगत होना	2. चूक (त्रिया) बीत जाना/ समाप्त होना/ व्यतीत होना/ व्यपगत होना	

1	2	3	4	5	6	7
Lapsing of deposits	1. जमा का व्ययगमन	1. जमा का व्ययगमन	1. जमा का व्ययगमन	1. जमा का व्ययगमन	1 जमा का व्ययगमन	1. जमा का व्ययगमन
Last pay certificate (LPC.)	1. अन्तिम वेतन-पत्र	1. अन्तिम वेतन प्रमाण-पत्र/ अन्तिम वेतनपत्र	1. अन्तिम वेतन प्रमाण-पत्र/ अन्तिम वेतन-पत्र	1 अन्तिम वेतन-पत्र/अन्तिम वेतन प्रमाण-पत्र	1. अन्तिम वेतन प्रमाण-पत्र	1. अन्तिम वेतन-पत्र
Late	1. विलंब/देर	1 विलंब/देर	1. विलंबित	1 विलंब/विलंब से/देरी से/ पछेनी	1. देर/विलंब/ समथोसर	1. विलंब/देर
	2. स्वर्गीय	2. स्वर्गीय	2. स्वर्गीय	2 स्वर्गीय	2. स्वर्गीय/ धंकुण्टवाही/ दिवंगत	2. स्वर्गीय
Late payment Law	1. देर से अदायगी 1. विधि/कानून	1. देर से अदायगी 1 विधि/कानून	3. भूतपूर्व 1. देर से अदायगी 1. विधि/कानून/ विधान 2 नियम	3 भूतपूर्व 1 देर से अदायगी 1. विधि/कानून 2. नियम (गणित)	3 भूतपूर्व 1. देर से अदायगी 1. विधि/कानून/ राजनियम 2. नियम	1. देर से अदायगी 1. विधि/कानून
Lay off	1. कामबंदी जबरी छुट्टी	—	—	1 जबरछुट्टी, कामबंदी	—	1. कामबंदी
Lay out	1. अभिन्यास/ खाका/नक्शा	1. अभिन्यास/ खाका/नक्शा	1. अभिन्यास/ खाका/नक्शा (क्रिया) अभिन्यास करना	1 अभिन्यास/ खाका/विन्यास/ ले-आउट (क्रि०) परवान या चप्पल पर चठना (परि०)	1. अभिन्यास/ खाका/नक्शा	1. खाका/नक्शा

1	2	3	4	5	6	7
				2. विभाजन करना/ भयभङ्गा करना		
Leader of the house	1. सदन का नेता	1. सदन का नेता	1. सदन का नेता	1. सदन का नेता	1. सदन का नेता/ सभा का नेता/ सभा-नेता/ सभासभा	1. सदन का नेता
Leader of the opposition	1. विरोधी दल का नेता	1. विरोधी दल का नेता	1. विरोधी दल का नेता/नेता विरोधी दल	1. विरुद्ध-नेता	1. विरोधी दल का नेता/प्रतिपक्षी-नेता/विरुद्ध-नेता	1. विरोधी दल का नेता
Lease	1. पट्टा 2. पट्टे पर देना	1. पट्टा 2. पट्टे पर देना	1. पट्टा 2. पट्टा करना/ पट्टे पर देना	1. पट्टा 2. पट्टे पर देना	1. पट्टा, भाड़ा/ विराया 2. पट्टे पर देना/ विराया पर देना/ भाड़े पर देना	1. पट्टा
Lease for Life Lease —, Mortgage	1. आजीवन पट्टा 1. बंधक पट्टा	1. आजीवन पट्टा 1. बंधक पट्टा	1. आजीवन पट्टा 1. बंधक पट्टा	1. आजीवन पट्टा 1. बंधक पट्टा	1. आजीवन पट्टा 1. बंधक पट्टा	1. आजीवन पट्टा 1. बंधक पट्टा
Lease holder	1. पट्टाधारी	1. पट्टाधारी	1. पट्टाधारी	1. पट्टाधारी/ पट्टेदार	1. पट्टाधारी/ पट्टेधारी/ पट्टेदार	1. पट्टाधारी
Lease system	1. पट्टा धारिता	1. पट्टा धारिता	1. पट्टा धारिता	1. पट्टा धारिता	1. पट्टा धारिता पट्टेधारी पद्धति	1. पट्टा धारिता
Leave	1. छुट्टी/अवकाश	1. छुट्टी/अवकाश	1. छुट्टी/अवकाश	1. छुट्टी/अवकाश	1. छुट्टी/ अवकाश/विश्राम	1. छुट्टी/अवकाश

1	2	3	4	5	6	7
Leave —, Earned	1. अर्जित छुट्टी	1. अर्जित छुट्टी	1. अर्जित छुट्टी/ अर्जित अवकाश	1. उपाजित छुट्टी	1. अर्जित छुट्टी	1. अर्जित छुट्टी
Leave —, Extra-ordinary	1. असाधारण छुट्टी	1. असाधारण छुट्टी	1. असाधारण छुट्टी या अवकाश	1. असाधारण छुट्टी	1. असाधारण छुट्टी	1. असाधारण छुट्टी
Leave —, Maternity	1. प्रसूति छुट्टी	1. प्रसूति छुट्टी	1. प्रसूति छुट्टी/ प्रसवावकाश	1. प्रसूति छुट्टी	1. प्रसूति छुट्टी	1. प्रसूति छुट्टी
Leave —, Medical	1. चिकित्सा छुट्टी	1. चिकित्सा छुट्टी	1. चिकित्सा छुट्टी/ चिकित्सावकाश	1. बीमारी की छुट्टी/स्वास्थ्य छुट्टी/ चिकित्सा/छुट्टी	1. चिकित्सा छुट्टी	1. बीमारी की छुट्टी
Leave —, Prepara- ration	1. तैयारी के लिए छुट्टी	1. तैयारी के लिए छुट्टी	1. तैयारी की छुट्टी/ परीक्षायुक्त छुट्टी	1. तैयारी के लिए छुट्टी	1. तैयारी के लिए छुट्टी	1. तैयारी के लिए छुट्टी
Leave —, Quarantine	1. सगरौघ छुट्टी/ क्वारेण्टाइन छुट्टी	1. सगरौघ छुट्टी/ क्वारेण्टाइन छुट्टी	1. सगरौघावकाश/ सगरौघ छुट्टी/ क्वारेण्टाइन छुट्टी	1. सगरौघ छुट्टी/ क्वारेण्टाइन छुट्टी	1. सगरौघ छुट्टी/ क्वारेण्टाइन छुट्टी	1. सगरौघ छुट्टी
Leave —, Restricted	1. प्रतिबंधित छुट्टी	1. प्रतिबंधित छुट्टी	1. प्रतिबंधित छुट्टी	1. प्रतिबन्धित छुट्टी	1. प्रतिबंधित छुट्टी	1. प्रतिबंधित छुट्टी
Leave —, Study	1. अध्ययनार्थ छुट्टी	1. अध्ययनार्थ छुट्टी	1. अध्ययनार्थ छुट्टी/अध्ययन अवकाश	1. अध्ययन छुट्टी/ अध्ययनार्थ छुट्टी	1. अध्ययनार्थ छुट्टी	1. अध्ययन छुट्टी

	1	2	3	4	5	6	7
Leave not due	1. अर्जनशोध्य छुट्टी	1. छुट्टी शेष नहीं	1. अदेय अवकाश/ छुट्टी शेष नहीं	1. अदेय छुट्टी/ अनुपाजित छुट्टी	1. अदेय छुट्टी/ अनुपाजित छुट्टी 2. छुट्टी शेष नहीं	1. छुट्टी शेष नहीं	1. छुट्टी बाकी नहीं है, छुट्टी अदेय है
Leave of absence	1. अनुपस्थिति की अनुमति	1. अनुपस्थिति की अनुमति	1. अनुपस्थिति की अनुमति	1. अनुपस्थिति की छुट्टी/ अनुपस्थिति इजाजत/ अनुपस्थिति की अनुमति	1. अनुपस्थिति छुट्टी/ अनुपस्थिति इजाजत/ अनुपस्थिति की अनुमति	1. अनुपस्थिति की अनुमति	1. अनुपस्थिति की अनुमति
Leave not earned	1. अनर्जित छुट्टी	1. अनर्जित छुट्टी	1. अनर्जित छुट्टी	1. अनुपाजित छुट्टी	1. अनुपाजित छुट्टी	1. अनर्जित छुट्टी	1. अनर्जित छुट्टी
Leave preparatory to retirement	1. सेवानिवृत्ति- पूर्व-छुट्टी	1. सेवा-निवृत्ति- पूर्व-छुट्टी	1. निवृत्ति-पूर्व अवकाश/छुट्टी	1. निवृत्ति-पूर्व- छुट्टी	1. निवृत्ति-पूर्व- छुट्टी	1. पेंशन पर जाने के पूर्व की छुट्टी/ निवृत्ति- पूर्व-छुट्टी/ निवृत्त्यर्थ छुट्टी/निवृत्ति अवकाश या छुट्टी	1. सेवा-निवृत्ति- पूर्व-छुट्टी
Leave Salary	1. छुट्टी का वेतन	1. छुट्टी का वेतन	1. छुट्टी का वेतन/छुट्टी- वेतन	1. छुट्टी का वेतन/ छुट्टी वेतन	1. छुट्टी का वेतन/ छुट्टी वेतन	1. छुट्टी का वेतन	1. छुट्टी का वेतन
Leave vacancy	1. अवकाश रिक्ति/ छुट्टी रिक्ति	1. अवकाश रिक्ति/ छुट्टी-रिक्ति	1. अवकाश रिक्ति	1. अवकाश रिक्ति	1. अवकाश रिक्ति	1. अवकाश रिक्ति	1. अवकाश रिक्ति

1	2	3	4	5	6	7
Leave without pay	1. अवैतनिक छुट्टी/ बिना वेतन छुट्टी	1. अवैतनिक छुट्टी/ बिना वेतन छुट्टी	1. अवैतनिक अवकाश/ अवैतनिक छुट्टी/ बिना वेतन छुट्टी/ निवेतन अवकाश	1. बिना वेतन छुट्टी/ निवेतन छुट्टी	1. अवैतनिक छुट्टी/ बिना वेतन छुट्टी	1. बिना वेतन छुट्टी
Leave with pay	1. वैतनिक छुट्टी/ सवैतनिक छुट्टी	1. वैतनिक छुट्टी/ सवेतन छुट्टी	1. वैतनिक अवकाश या छुट्टी/ सवेतन छुट्टी/ सवेतन अवकाश	1. सवेतन छुट्टी	1. वैतनिक छुट्टी/ सवेतन छुट्टी	1. वेतन सहित छुट्टी
Lecture Hall	1. भाषण भवन/ लेक्चर हॉल	1. लेक्चर हॉल/ व्याख्यान कक्षा/ व्याख्यानशाला	1. व्याख्याशाला लेक्चर हॉल	1. व्याख्यान कक्ष	1. व्याख्यान-कक्ष	1. भाषण भवन
Lecturer	1. प्राध्यापक/ लेक्चरर	1. प्राध्यापक/ लेक्चरर	1. प्राध्यापक/ लेक्चरर/ व्याख्याता	1. लेक्चरर/ व्याख्याता	1. व्याख्याता/ उपाध्याय	1. प्राध्यापक
Lectures Guide	1. व्याख्याता परिदर्शन	1. व्याख्याता परिदर्शन	1. व्याख्याता परिदर्शक	1. व्याख्याता परिदर्शक	1. व्याख्याता परिदर्शक	1. व्याख्याता परिदर्शक
Ledger	1. खाता	1. खाता	1. खाता/ खाताबही	1. खाता/ खाताबही	1. खाता/ खाताबही/ प्रपत्री/ लेखा-बही	1. खाता

1	2	3	4	5	6	7
Legal	1. विधि	1. वैद्य/विधिक	1. वैद्य/विधिक	1. वैद्य/कानूनी वैधिक 2. विधि वैद्य	1. विधि/ विधि-सम्बन्धी/ कानून सम्बन्धी 2. कानूनी/विधि/ वैधानिक/ अध्ययनकूल	1. विधि
Legation	1. दूतावास	1. विधि बनाना	1. दूतावास	1. दूतप्रेषण दूतावास दूत-पद	1. दूतावास/ दूतपद/ उपदूतावास/ प्रणिध्यावास (प्रणिधि+आवास)	1. दूतावास
Legation of India	1. भारतीय दूतावास	1. भारतीय दूतावास	1. भारतीय दूतावास	1. भारतीय दूतावास	1. भारतीय दूतावास	1. भारतीय दूतावास
Legible	1. सुवाच्य/ पढ़ा जाने योग्य	1. सुवाच्य/ पढ़ा जाने योग्य	1. सुवाच्य/ पढ़ा जाने योग्य	1. सुवाच्य	1. सुवाच्य/ पढ़ा जाने योग्य/स्पष्ट/ सुपाठ्य	1. पढ़ा जाने योग्य
Legislative assembly	1. विधान सभा	1. विधान सभा	1. विधान सभा	1. विधान सभा	1. विधान-सभा	1. विधान सभा
Legislative business	1. विधायी कार्य	1. विधायी कार्य	1. विधायी कार्य	1. विधान कार्य	1. विधायी कार्य	1. विधायी कार्य
Legislative council	1. विधान परिषद्	1. विधान परिषद्	1. विधान परिषद्	1. विधान परिषद्	1. विधान परिषद्	1. विधान परिषद्
Legislative function	1. विधायी कार्य	1. विधायी कार्य/ विधायी प्रकार्य	1. विधायी कार्य/ विधायी कृत्य	1. विधान कृत्य	1. विधायी कार्य	1. विधायी कार्य

1	2	3	4	5	6	7
Legislative measure	1. विधायी कार्य/ विधायी उपाय	1. विधायी उपाय	1. विधायी कार्य/ विधायी उपाय/ विधान- कार्यवाही	1. वैधानिक कार्यवाही/ विधायी कार्य विधायी उपाय	1. विधायी कार्य/ विधायी उपाय	1. विधायी कार्य
Legislature Legitimate	1. विधान-मंडल 1. उचित/ विधिसम्मत/ विधिसंगत	1. विधान-मंडल 1. उचित/वैध/ सहसंगत	1. विधान मंडल 1. उचित/वैध/ विधिसम्मत	1. विधान मंडल 1. वैध/ सहसंगत	1. विधान मंडल 1. यथार्थ/ वास्तविक वैध, उचित सहसंगत/ मुचितसंगत	1. विधान मंडल 1. उचित/वैध
	2. धर्मंत्र	2. औरस	2. धर्मंत्र	2. औरस	2. औरस, धर्मंत्र, धर्मंत्रात 3 न्याय्य/ न्यायोचित/यथायोग्य	
Leisure	1. अवकाश/ फुरसत	1. अवकाश फुरसत	1. अवकाश/ मुचितता/ निश्चिन्तता	1. अवकाश/ फुरसत/फुरसत	1. अवकाश/ फुरसत	1. अवकाश/ फुरसत
Length of service	1. सेवा काल	1. सेवा काल	1. सेवा काल/ सेवा की अवधि	1. सेवा काल	1. सेवा काल	1. सेवा काल
Leniency	1. नरमी/उदारता	1. नरमी/उदारता	1. नरमी/उदारता	1. भौदार्य/मार्दव/ दिलार्ई	1. उदारता/मार्दव/ दिलार्ई	1. नरमी/उदारता
Letter book	1. पत्र-पुस्तकी	1. पत्र-पुस्तकी	1. लेटर बुक	1. पत्र-पुस्तकी	1. पत्र-पुस्तकी	1. पत्र-पुस्तकी
Letter head	1. सरनामा/ शीर्षनाम	1. सरनामा/ शीर्षनाम	1. सरनामा/ पत्र शीर्षक	1. सरनामा/ शीर्ष नाम	1. सरनामा	1. सरनामा

1	2	3	4	5	6	7
Liabie (to pay)	1. देनदार	1. देनदार	1. देनदार	1. देनदार	1. देनदार	1. देनदार
Liaison	1. सम्पर्क	1. सम्पर्क	1. सम्पर्क	1. सम्पर्क	1. सम्पर्क/सहकार/ सहकार्य	1. सम्पर्क
Librarian	1. पुस्तकाध्यक्ष	1. पुस्तकाध्यक्ष	1. पुस्तकाध्यक्ष/ ग्रन्थाध्यक्ष	1. पुस्तकाध्यक्ष/ ग्रन्थामारिक	1. पुस्तकाध्यक्ष/ ग्रन्थपाल	1. पुस्तकाध्यक्ष
License (Licence)	1. अनुमति/ साइसेस	1. अनुमति/ साइसेस	1. अनुमति/ साइसेस	1. अनुमति/ साइसेस	1. अनुमति/ साइसेस/ अनुमति-पत्र	1. अनुमति/ साइसेस
Licence holder	1. अनुमतिधारी/ साइसेसदार	1. अनुमतिधारी/ साइसेसदार	1. अनुमतिधारी/ साइसेसदार	1. साइसेसदार/ साइसेसी	1. अनुमतिधारी/ साइसेसदार	1. अनुमतिधारी/ साइसेसदार
Licensee	1. अनुमतिधारी/ साइसेसधारी	1. अनुमतिधारी/ साइसेसधारी	1. अनुमतिधारी/ साइसेसधारी/ साइसेसदार	1. अनुमतिधारी/ साइसेसदार/ साइसेसी	1. अनुमतिधारी/ अनुमति-पत्र- धारक	1. अनुमतिधारी/ साइसेसधारी
Lien	1. पुनर्ग्रहणाधिकार	1. पुनर्ग्रहणाधिकार/ लियन	1. पुनर्ग्रहणाधिकार, लियन	1. ग्रहणाधिकार	1. पुनर्ग्रहणाधिकार/ लियन	1. लियन
	2. धारणाधिकार		2. गहन	2. गहन	2. ग्रहणाधिकार/ संबन्ध/अधिकार	
Limitation	1. सीमा	1. सीमा	1. सीमा	1. सीमा	1. परिसीमा/पर्याप्त	1. सीमा
	2. अवधि	2. अवधि	2. अवधि परिसीमा	2. कालावधि, मिपाद	2. अवधि	2. अवधि
			3. परिसीमन	3. परिसीमन	3. प्रतिबन्ध	
			4. कमी/पुनरा/ असमर्थता			

1	2	3	4	5	6	7
Limited concern	1. सीमित दायिता प्रतिष्ठाान	1. सीमित दायिता व्यवसाय	1. सीमित दायिता व्यवसाय	1. परिसीमित दायिता/ सीमित दायिता व्यवसाय	1. सीमित दायिता व्यवसाय	1. सीमित दायिता व्यवसाय
Link	1. (वि०) सलग्न/संबद्ध (स०) कड़ी/श्रृंखला/बंध/लिक	1. सलग्न/संबद्ध (स०) कड़ी/श्रृंखला/बंध	1. संलग्न/संबद्ध (स०) कड़ी/संबंध/संयोजक	1. योजक	1. संबंध, जुड़ाई	1. संबंध
Link Language	2. संपर्क			2. संपर्क		
Linked file	1. संपर्क भाषा	1. संपर्क भाषा	1. संपर्क भाषा	1. संपर्क भाषा	1. संपर्क भाषा	1. संपर्क भाषा
	1. सलग्न फाइल/सलग्न मिसिल/संबद्ध फाइल/संबद्ध मिसिल	1. सलग्न फाइल	1. मलग्न फाइल/सलग्न मिसिल/संलग्न सविका/संबद्ध पत्रावली/संलग्न पत्रावली	1. सलग्न सविका या फाइल	1. सलग्न फाइल/सलग्न मिसिल/संबद्ध फाइल/संबद्ध मिसिल	1. संबद्ध फाइल/सलग्न फाइल
Liquidation	1. परिसमापन	1. परिसमापन	1. समापन	1. परिसमापन	1. समाप्ति/विघटन	1. परिसमापन
	2. शोधन	2. शोधन	2. शोधन	2. निर्धारण	—	
	3. निर्धारण	3. निर्धारण	3. अपाकरण	3. अपाकरण	3. अवसादन	
List	1. सूची	1. सूची	1. सूची	1. सूची	1. सूची	1. सूची
List of business	1. कार्य-सूची	1. कार्य-सूची	1. कार्य-सूची	1. कार्य-सूची	1. कार्य-सूची	1. कार्य-सूची
Literacy	1. साक्षरता	1. साक्षरता	1. साक्षरता	1. साक्षरता	1. साक्षरता	1. साक्षरता
Literal	1. शाब्दिक	1. शाब्दिक	1. शाब्दिक	1. शब्दरत्न/अक्षर-शाब्दिक	2. शब्दश/शाब्दिक	1. शाब्दिक
Litigant	1. वादकारी मुकद्मा करने वाला	1. वादकारी/मुकद्मा करने वाला	1. वादकारी	1. मुकद्देबाज	1. वादकारी/मुकद्मा करने वाला	1. मुकद्मा करने वाला

1	2	3	4	5	6	7
Liabie (to pay)	1. देनदार	1. देनदार	1. देनदार	1. देनदार	1. देनदार	1. देनदार
Liaison	1. सम्पर्क	1. सम्पर्क	1. सम्पर्क	1. सम्पर्क	1. सम्पर्क/सहकार/ सहकार्य	1. सम्पर्क
Librarian	1. पुस्तकाध्यक्ष	1. पुस्तकाध्यक्ष	1. पुस्तकाध्यक्ष/ ग्रन्थाध्यक्ष	1. पुस्तकाध्यक्ष/ प्रयोगारिक	1. पुस्तकाध्यक्ष/ ग्रन्थपाल	1. पुस्तकाध्यक्ष
License (Licence)	1. अनुज्ञप्ति/ साइसेंस	1. अनुज्ञप्ति/ साइसेंस	1. अनुज्ञप्ति/ साइसेंस	1. अनुज्ञप्ति/ साइसेंस	1. अनुज्ञप्ति/ साइसेंस/ अनुमति-पत्र	1. अनुज्ञप्ति/ साइसेंस
Licence holder	1. अनुज्ञप्तिधारी/ साइसेंसदार	1. अनुज्ञप्तिधारी/ साइसेंसदार	1. अनुज्ञप्तिधारी/ साइसेंसदार	1. साइसेंसदार/ साइसेंसो	1. अनुज्ञप्तिधारी/ साइसेंसदार	1. अनुज्ञप्तिधारी/ साइसेंसदार
Licensee	1. अनुज्ञप्तिधारी/ साइसेंसधारी	1. अनुज्ञप्तिधारी/ साइसेंसधारी	1. अनुज्ञप्तिधारी/ साइसेंसधारी	1. अनुज्ञप्तिधारी/ साइसेंसदार/ साइसेंसो	1. अनुज्ञप्तिधारी/ अनुमतिधारी/ अनुमति-पत्र- धारक	1. अनुज्ञप्तिधारी/ साइसेंसधारी
Lien	1. पुनर्ग्रहणाधिकार	1. पुनर्ग्रहणाधिकार/ तियन	1. पुनर्ग्रहणाधिकार, तियन	1. ग्रहणाधिकार	1. पुनर्ग्रहणाधिकार/ तियन	1. तियन
	2. धारणाधिकार		2. ग्रहण	2. ग्रहण	2. ग्रहणाधिकार/ संबध/अधिकार	
Limitation	1. सीमा	1. सीमा	1. सीमा	1. सीमा	1. परिसीमा/मर्यादा	1. सीमा
	2. अवधि	2. अवधि	2. अवधि	2. कालावध, मर्यादा	2. अवधि	2. अवधि
			3. परिसीमन	3. परिसीमन	3. प्रतिबंध	
			4. कमी/पुनला/ असमर्यता			

1	2	3	4	5	6	7
Limited concern	1. सीमित दायित्वा प्रतिष्ठाान	1. सीमित दायित्वा व्यवसाय	1. सीमित दायित्वा व्यवसाय	1. परिसीमित दायित्वा/ सीमित दायित्वा व्यवसाय	1. सीमित दायित्वा व्यवसाय	1. सीमित दायित्वा व्यवसाय
Link	1. (वि०) संलग्न/संबद्ध (स०) कड़ी/शृंखला/वध/लिक	1. सलग्न/संबद्ध (म०) कड़ी/शृंखला/वध	1. सलग्न/संबद्ध (स०) कड़ी/संबध/सयोजक	1. योजक	1. संबध, जुड़ाई	1. संबध
Link Language	1. सपर्क भाषा	1. संपर्क भाषा	1. सपर्क भाषा	1. सपर्क भाषा	1. सपर्क भाषा	1. सपर्क भाषा
Linked file	1. सलग्न फाइल/सलग्न मिसिल/संबद्ध फाइल/संबद्ध मिसिल	1. संलग्न फाइल	1. सलग्न फाइल/सलग्न मिसिल/सलग्न सचिका/संबद्ध पत्रावली/सलग्न पत्रावली	1. सग्न सचिका या फाइल	1. सलग्न फाइल/सलग्न मिसिल/संबद्ध फाइल/संबद्ध मिसिल	1. संबद्ध फाइल/सलग्न फाइल
Liquidation	1. परिसमापन 2. शोधन 3. निष्पारण	1. परिसमापन 2. शोधन 3. निष्पारण	1. समापन 2. शोधन 3. अपाकरण	1. परिसमापन 2. निष्पारण 3. अपाकरण	1. समाप्ति/विघटन — 3. अवसापन	1. परिसमापन
List	1. सूची	1. सूची	1. सूची	1. सूची	1. सूची	1. सूची
List of business	1. कार्य-सूची	1. कार्य-सूची	1. कार्य-सूची	1. कार्य-सूची	1. कार्य-सूची	1. कार्य-सूची
Literacy	1. साक्षरता	1. साक्षरता	1. साक्षरता	1. साक्षरता	1. साक्षरता	1. साक्षरता
Literal	1. शाब्दिक	1. शाब्दिक	1. शाब्दिक	1. अक्षरमः/ अक्षर-शाब्दिक	1. शब्दमः/शाब्दिक	1. शाब्दिक
Litigant	1. वादकारी मुकद्दमा करने वाला	1. वादकारी/ मुकद्दमा करने वाला	1. वादकारी	1. मुकद्दमाबाज	1. वादकारी/ मुकद्दमा करने वाला	1. मुकद्दमा करने वाला

	1	2	3	4	5	6	7
Litigation		1. मुकद्देबाजी	1. मुकद्देबाजी	1. मुकद्देबाजी/ 2. वादकरण	1. मुकद्देबाजी/ 2. वादकरण	1. मुकद्देबाजी/ 2. वादकरण/ वादकार्यवाही/ वादहारिता	1. मुकद्देबाजी
Livelihood		1. जीविका	1. जीविका	3. वाद/मुकद्दमा 1. जीविका	3. मुकद्दमा 1. जीविका/ आजीविका	3. अधिभोग 1. जीविका/ अजीविका	1. जीविका
Living Expense		1. निर्वाह खर्च	1. निर्वाह खर्च	1. निर्वाह खर्च	1. निर्वाह खर्च	1. निर्वाह खर्च	1. निर्वाह खर्च
Local body		1. स्थानीय निकाय	1. स्थानीय निकाय	1. स्थानीय निकाय	1. स्थानीय निकाय	1. स्थानीय निकाय	1. स्थानीय निकाय
Local purchase		1. स्थानीय खरीद/ स्थानीय क्रय	1. स्थानीय खरीद	1. स्थानीय खरीद/ स्थानीयक्रय	1. स्थानीय खरीद/ स्थानीयक्रय	1. स्थानीय खरीद/ स्थानीयक्रय	1. स्थानीय खरीद
Lock out		1. तालाबन्दी	1. तालाबन्दी	1. तालाबन्दी	1. तालाबन्दी	1. तालाबन्दी	1. तालाबन्दी
Lodging		1. वास	1. वासगृह	1. वासगृह/आवास	1. वासगृह/आवास/ वास-गृह	1. वासगृह/ सवास/निवास/ सवास गृह/ वसति गृह	1. वास
Log book		1. कार्य-पत्री/ लॉग-बुक	1. कार्य-पत्री/ लॉग बुक/ वृत्तपत्री	1. कार्य-पत्री/ लॉग-बुक/ वृत्तपत्री	2. फलन गिरना 1. लॉग-बुक/ कार्य-पत्री/ कर्म-पुस्ती	1. कार्य-पत्री लॉग-बुक/ 1. कार्य-पत्री	1. कार्य-पत्री/ लॉग-बुक
Loss in transit		1. मार्ग में हानि	1. मार्ग में हानि	1. मार्ग में हानि	1. मार्ग में हानि/ परिवहन में हानि	1. मार्ग में हानि	1. मार्ग में हानि

1	2	3	4	5	6	7
Loss of resale	1. पुनर्विनाय मे हानि	1. पुनर्विनाय मे हानि	1. पुनर्विनाय मे हानि	1. पुनर्विनाय मे हानि	1. पुनर्विनाय मे हानि	1. पुनर्विनाय मे हानि
Lounge	1. विधाम बर	1. विधाम बर	1. विधाम बर	1. विधाम बर	1. विधाम बर/ सुस्ताने का स्थान	1. विधाम बर
Lower age limit	1. निम्न आयु सीमा	1. निम्न वय सीमा	1. निचली वय सीमा	1. निम्नतम आयु सीमा/निचली आयु सीमा/ निम्न वय: सीमा	1. निम्न वय: सीमा	1. निचली आयु सीमा
Lower Division Clerk	1. निम्न श्रेणी लिपिक/अवर श्रेणी लिपिक	1. निम्न श्रेणी लिपिक/अवर श्रेणी लिपिक	1. निम्न श्रेणी लिपिक	1. निम्न श्रेणी लिपिक या क्लर्क/ निम्न वर्गीय लिपिक या क्लर्क	1. निम्न श्रेणी लिपिक/ अवर श्रेणी लिपिक	1. निम्न श्रेणी लिपिक/ अवर श्रेणी लिपिक
Lower Selection grade clerk	1. निम्न प्रवर्ण कोटि लिपिक	1. निम्न प्रवर्ण कोटि लिपिक	1. निम्न प्रवर श्रेणी लिपिक	1. निम्न प्रवर कोटि लिपिक या क्लर्क/ निम्न सेलेक्शन ग्रेड क्लर्क	1. निम्न वरण ग्रेड लिपिक/ निम्न प्रवर क्रम लिपिक	1. निम्न प्रवरण कोटि लिपिक
Lowest rate	1. न्यूनतम दर/ निम्नतम दर	1. न्यूनतम दर/ निम्नतम दर	1. न्यूनतम दर/ निम्नतम दर	1. न्यूनतम दर/ निम्नतम दर	1. न्यूनतम दर/ निम्नतम दर	1. न्यूनतम दर/ निम्नतम दर
Lumpsum	1. एक राशि/ एक मुश्त	1. एक राशि/ एक मुश्त	1. एक राशि/ एक मुश्त/ एक मुश्त धन/ पिण्ड राशि	1. एक राशि/ एक मुश्त रकम/ पिण्ड राशि	1. एक मुश्त/ दकट्टा/इकट्टी राशि/ पिण्ड राशि	1. एक मुश्त/ एक राशि/

1	2	3	4	5	6	7
Machine tool	1. उपयंत्र	1. उपयंत्र/ मशीन टूल	1. उपयंत्र, मशीन- औजार	1. उपयंत्र, मशीन- औजार	1. उपयंत्र/ यंत्रोपकरण/ मशीन औजार	1. मशीन औजार
Machinery of Government	1. शासन-व्यवस्था	1. शासन-व्यवस्था	1. शासन-व्यवस्था	1. शासन-तंत्र	1. शासन-व्यवस्था	1. शासन-व्यवस्था
Magazine	1. गोदाम 2. बारूदघर/ आयुधगार	1. गोदाम 2. बारूदघर/ आयुधगार	1. गोदाम 2. शस्त्रागार मैगज़ीन/ दूषी (रायफल या पिस्तौल)	1. — 2. मैगज़ीन/ बारूदघर	1. भण्डागार 2. बारूदघर/ बारूदखाना/ शस्त्रागार/ मैगज़ीन	1. गोदाम 2. बारूदघर
Magistrate	3. पत्रिका 1. मजिस्ट्रेट	3. पत्रिका 1. मजिस्ट्रेट	3. पत्रिका 1. मजिस्ट्रेट/ दंडाधिकारी	3. पत्रिका 1. मजिस्ट्रेट/ दंडाधिकारी	3. मैगज़ीन/पत्रिका 1. मजिस्ट्रेट/ दंडाधिकारी/ दंडन्यायाधीश/ दंडन्यायाधिकारी	3. पत्रिका 1. मजिस्ट्रेट
Magistrate —, City	1. नगर मजिस्ट्रेट	1. नगर मजिस्ट्रेट	1. नगर/सिटी- मजिस्ट्रेट	1. नगर दंडाधिकारी/ सिटी मजिस्ट्रेट	1. नगर मजिस्ट्रेट/ नगर दंडाधिकारी	1. नगर मजिस्ट्रेट
Mail	1. डाक	1. डाक, डाक में डालना	1. डाक	1. डाक, डाक में डालना	1. डाक	1. डाक
Mail Escort	1. डाक-अनुरक्षी	1. डाक-अनुरक्षी	1. डाक-अनुरक्षी	1. डाक-अनुरक्षी/ डाक-रक्षक	1. डाक-अनुरक्षी	1. डाक-अनुरक्षी
Mail guard	1. डाक-रक्षक	1. डाक-रक्षक	1. डाक-रक्षक	1. डाक-रक्षक	1. डाक-रक्षक/ डाकरक्षी	1. डाक-रक्षक
Mailing list	1. डाक-सूची	1. डाक-सूची	1. डाक-सूची	1. डाक-सूची	1. डाक-सूची	1. डाक-सूची
Maintain (account)	1. (लेखा) रखना	1. लेखा रखना	1. लेखा रखना	1. लेखा रखना	1. लेखा रखना	1. लेखा रखना

1	2	3	4	5	6	7
Maintain (a family)	1. (परिवार का) भरण-पोषण करना	1. भरण-पोषण करना	1. (परिवार का) भरण-पोषण करना	1. भरण-पोषण करना	1. भरण-पोषण करना	1. भरण-पोषण करना
Maintain (a garden)	1. (बाग का) अनु-रक्षण करना	1. अनुरक्षण करना	1. अनुरक्षण करना	1. अनुरक्षण करना	1. अनुरक्षण करना	1. अनुरक्षण करना
Maintain (Law & order)	1. (कानून और व्यवस्था) बनाए रखना	1. बनाए रखना	1. (कानून और व्यवस्था) बनाए रखना	1. बनाए रखना	1. बनाए रखना	1. बनाए रखना
Maintenance	1. अनुरक्षण 2. रखना/ भरण-पोषण	1. अनुरक्षण 2. भरण-पोषण/ रखना	1. अनुरक्षण/ रखरखाव 2. भरण-पोषण/ पोषण/रखना	1. अनुरक्षण 2. संधारण-पोषण भरण-पोषण/	1. अनुरक्षण/ परिरक्षण/रक्षण/ बनाये रखना/ संधारण 2. पोषण/ प्रशासन/ भरण-पोषण 3. व्यवस्था	1. अनुरक्षण/ देव-भार 2. भरण-पोषण
Major	1. ब्यस्त/प्राप्तव्य 2. मुख्य 3. मेजर	1. ब्यस्त/बालिग 2. मुख्य 3. मेजर	1. ब्यस्त/ प्राप्तव्य/बालिग 2. मुख्य 3. प्रधान/प्रमुख	1. ब्यस्त/बालिग/ प्राप्तव्य 2. मुख्य/बृहत् 3. मेजर	1. ब्यस्त/ प्राप्तव्य/बडा 2. मुख्य/बडा/ प्रधान	1. ब्यस्त 2. मुदन 3. मेजर
Major head	1. मुख्य शीर्ष	1. मुख्यशीर्ष	1. मुख्यशीर्षक/ प्रधान शीर्षक	1. मुख्य शीर्षक, बृहत् शीर्षक	1. मुख्य शीर्षक/ प्रधान शीर्ष	1. मुख्य शीर्ष
Majority	1. बहुमत	1. बहुमत	1. बहुमत	1. अधिकांश/ बहुमत	1. बहुमत	1. बहुमत

1	2	3	4	5	6	7
	2. वयस्कता/ वालिगपन/ प्राप्तवयता	2. —	2. वयस्कता/ वालिगपन/ प्राप्तवयता	2. वयस्कता/ वालिगपन/ प्राप्तवयता	2. वयस्कता/ वालिगपन	2. —
	3. बहुसंख्यक	3. बहुसंख्यक	3. बहुसंख्यक	3. बहुसंख्यक	3. बहुसंख्यक	3. बहुसंख्यक
Malafides	1. कदाशय	1. कदाशयता/ दुराशयता	1. कदाशयता	1. कदाशयना/ नुरा इरादा	1. कदाशयता/ दुर्भाव/ असद्भाव	1. दुर्भाव
Malpractice	1. अनाचार	1. अनाचार	1. अनाचार	1. अनाचार	1. कदाचार/ दुराचार/कुरीति/ दुराचरण	1. अनाचार/ कुरीति
Man (Defence)	1. सैनिक/जवान	1. सैनिक/जवान	1. सैनिक/जवान	1. सैनिक/जवान	1. सैनिक/जवान	1. सैनिक/जवान
Man days	1. श्रम दिन	1. श्रम दिन	1. श्रम दिन	1. श्रम दिन	1. श्रम दिन	1. श्रम दिन
Man hours	1. श्रम घंटे	1. श्रम घंटे	1. श्रम घंटे	1. श्रम घंटे	1. श्रम घंटे	1. श्रम घंटे
Management	1. प्रबन्ध	1. प्रबन्ध	1. प्रबन्ध	1. प्रबन्ध	1. प्रबन्ध/ व्यवस्था/वन्दोवस्त	1. प्रबन्ध
				2. प्रबन्धाधिकरण		
Manager	1. प्रबन्धक/ मैनेजर/ व्यवस्थापक	1. प्रबन्धक/ मैनेजर/ व्यवस्थापक	1. प्रबन्धक/ मैनेजर व्यवस्थापक	1. प्रबन्धक/ मैनेजर	1. प्रबन्धक/ मैनेजर/ व्यवस्थापक/ प्रबन्धकर्ता/कर्ता	1. प्रबन्धक/ मैनेजर
Manager —, General	1. प्रधान प्रबन्धक	1. प्रधान प्रबन्धक	1. प्रधान प्रबन्धक	1. प्रधान प्रबन्धक	1. प्रधान प्रबन्धक	1. प्रधान प्रबन्धक
Manager cum-clerk (catering)	1. प्रबन्धक-व- लिपिक (खान-पान)	1. प्रबन्धक-व- लिपिक	1. प्रबन्धक-व- लिपिक	1. प्रबन्धक-व- लिपिक	1. प्रबन्धक-व- लिपिक	1. प्रबन्धक-व- लिपिक

	1	2	3	4	5	6	7
Manager of works		1. प्रबन्धक, निर्माण-कार्य	1. प्रबन्धक, निर्माण-कार्य	1. प्रबन्धक, निर्माण-कार्य		1. प्रबन्धक, निर्माण-कार्य	1. प्रबन्धक, निर्माण-कार्य
Manteda	1. अधिदेश		1. अधिदेश		1. निर्माण-प्रबन्धक/प्रबन्धक, निर्माण-कार्य		
Manadatory	1. अधिदेशात्मक, 2. अधिदेशप्राप्त 3. अनिवार्य, 4. आज्ञापत्र	1. आदेशात्मक		1. अधिदेश/समादेश 1. समादिष्ट 2. — 3. अनिवार्य	1. अधिदेश, प्रादेश/ 1. प्रादेशात्मक 2. प्रादेश प्राप्त	1. अधिदेश/आदेश	1. अधिदेश
Manifesto	1. घोषणा-पत्र	1. घोषणा-पत्र		1. घोषणा-पत्र		1. आदेशात्मक	1. अधिदेशात्मक
Manipulate	1. चलाना 2. जोड़-तोड़ करना	1. चलाना 2. जोड़-तोड़ करना	1. हाथ से चलाना/ 2. चालाकी से चलाना/ जोड़-तोड़ करना 3. कुशलता से प्रबन्ध करना	1. चलाना 2. जोड़-तोड़-करना/ कारसाजी करना	1. घोषणा-पत्र 1. घोषणा-पत्र 2. सौक-घोषणा 3. नीति-घोषणा 4. सघोषणा/ सघोषणा-पत्र	1. घोषणा-पत्र	1. घोषणा-पत्र
Manipulation	1. हस्त-कौशल	1. हस्त-कौशल	1. हाथ से चलाना	1. किया-कौशल/ चालन	1. हस्त-कौशल/ प्रहस्तन/ हाथ की सफाई/ यन-साधन	1. चलाना 2. जोड़-तोड़ करना	1. हस्त-कौशल

1	2	3	4	5	6	7
	2. जोड-तोड/ हेरफेर	2. जोड-तोड/ हेरफेर	2. चतुरार्ड/ चात्ताकी हेरफेर घटाना-बढाना	2. हेरफेर हस्त-प्रयोग/	2. छलयोजना/ छलसाधन/ साधना/ काट-छाट कर बनाना/	2. जोड-तोड/ हेर-फेर/
Manpower	1. मनुष्य-शक्ति	1. मनुष्य-शक्ति	3. कुशल प्रबन्धन 1. मनुष्य-शक्ति/ जन-शक्ति मानव-बल	3. कुशल प्रयोग 1. मनुष्य-शक्ति	3. चत्ताना 1. मनुष्य-शक्ति/ मनुष्य बल जन-बल/ जन-शक्ति	1. मनुष्य-शक्ति
Manual	1. (विशे०) शारीरिक/हस्त- 1. (सं०) गुटका/ पुस्तिका 2. नियम पुस्तक/ नियमावली	1. शारीरिक 1. (सं०) पुस्तिका, 2. नियम पुस्तक	1. हाथ का/हस्त- शारीरिक 1. (सं०) नियम- सग्रह/सग्रह	1. हस्तक/पद्धति/ 1. (सं०) गुटका 2. मनुबल	1. हाथ का/हस्त- 1. (सं०) पुस्तिका 2. नियमावली/ मनुबल/ सक्षिप्त ग्रथ	1. नियम पुस्तक
Manual Labour	1. शारीरिक श्रम	1. शारीरिक श्रम	1. शारीरिक श्रम/ हस्त-श्रम	1. शारीरिक श्रम 2. हाथ का कार्य	1. शारीरिक श्रम/ हाथ का कार्य हस्त-श्रम	1. शारीरिक श्रम
Manufacture	1. बिनर्माण/ औद्योगिक निर्माण/ व्यापारिक निर्माण	1. निर्माण/ औद्योगिक निर्माण/ व्यापारिक निर्माण	1. बिनर्माण/ व्यापारिक निर्माण/ निर्माण	1. बिनर्माण, बिनर्माण करना	1. निर्माण	1. व्यापारिक निर्माण

	1	2	3	4	5	6	7
Manuscript		1. पाठुतिवि	1. पाठुतिवि	1. पाठुतिवि/ हस्तलेख/ हस्तलिपि	1. पाठुतिवि/ हस्तलेख	1. पाठुतिवि/ हस्तलेख/ हस्तलिपि	1. पाठुतिवि
Margia		1. हाशिया 2. गुंजाइश 3. उपात	1. हाशिया/ 2. गुंजाइश/ 3. उपात	1. हाशिया 2. गुंजाइश 3. उपात	1. हाशिया, अन्तर 2. गुंजाइश 3. उपात	1. हाशिया, 2. गुंजाइश 3. किनारा/ तट/ पारवैप्राग्त	1. हाशिया 2. गुंजाइश
Marginal- adjustment		1. उपातिक समायोजन	1. उपातिक समायोजन	1. उपातिक समायोजन	4. सीमान्त 5. परिसर 6. पट्टी	4. सीमान्त 5-6. —	
Marginal note		1. हाशिया टिप्पणी	1. हाशिया टिप्पणी	1. उपातिक समायोजन	1. उपातिक समायोजन	7. मात्रा 1. पार्श्व समायोजन मूनतम समायोजन	1. उपातिक समायोजन
Marker		1. निशानकर्ता, मार्कर	1. निशानकर्ता, मार्कर	1. हाशिया टिप्पणी/ उपान्त लेख/ उपान्त टिप्पणी	1. हाशिया टिप्पणी/ उपान्त टिप्पणी	1. हाशिया की टिप्पणी/ पार्श्व टिप्पणी	1. हाशिया टिप्पणी
Market value		1. बाजार मूल्य	1. बाजार मूल्य	1. निशानकर्ता, मार्कर, चिह्नक, दर्शक	1. निशानकर्ता, मार्कर, चिह्नक निशाननवीस	1. निशानकर्ता, अंकित करने- वाला	1. निशानकर्ता, मार्कर
				1. बाजार मूल्य	1. बाजार मूल्य	1. बाजार मूल्य	1. बाजार मूल्य

1	2	3	4	5	6	7
Marketing officer	1. पणन-अधिकारी	1. पणन-अधिकारी	1. पणन-अधिकारी	1. प्रय-विक्रय/पणन पदा-धिकारी/विपणन अधिकारी	1. विपणन अधिकारी/स्थापार सुधार-अधिकारी/बाजार अधिकारी	1. पणन-अधिकारी
Marking	1. नंबर देना/ नंबर डालना 2. अंकन/ चिह्न लगाना	1. नंबर देना 2. चिह्न लगाना	1. नंबर देना/ नंबर डालना 2. अंकन/ चिह्न लगाना/ अंक देना	1. नंबर देना 2. अंकन/ चिह्न लगाना	1. नंबर देना 2. चिह्न/अंकन/ चिह्न-अंकन/ वन में वृक्षों पर कटाई करने या अन्य किसी विचार से चिह्न लगाना	1. नंबर डालना 2. चिह्न लगाना
	3. निशान लगाना	3. निशान लगाना	3. निशान लगाना/ चिह्नकित 4. (वन) छपान	3. निशान लगाना		3. निशान लगाना
Marks sheet	1. अंक-सूची	1. अंक-सूची	1. अंक-सूची	1. सन्धाक सूची/ अंक-सूची	1. अंक-सूची	1. अंक-सूची
Mason/Mistry	1. राज/राजमिस्त्री	1. राज/राजमिस्त्री	1. राज/राजमिस्त्री/ राजगौर/घवई 2. कटिया	1. राज/राजमिस्त्री	1. राज/राजमिस्त्री/ चित्तिकार/ कटिया	1. राज/राजमिस्त्री

	1	2	3	4	5	6	7
Mast		1. मस्तूत	1. मस्तूत	1. मस्तूत 2. डबजदड 3. (बन) लिवबबान/ बपपल	1. मस्तूत/डोल	1. मातूत	1. मस्तूत
Material	1. सामघी	1. सामघी	1. सामघी/ सामान/पदार्थ/ द्रव्य/मास/ उपादान	1. (सजा) सामघी/ उपादान (विशेषण) 2. भौतिक 3. सारभूत/ सात्विक	1. (सं०) सामघी/ सामान/द्रव्य/ पदार्थ (विशेषण) 1. महत्वपूर्ण/ सारबान/ सारपूत/ 2. भौतिक 3. आधिक	1. (सं०) सामघी/ सामान/द्रव्य/ पदार्थ (विशेषण) 1. महत्वपूर्ण/ सारबान/ सारपूत/ 2. भौतिक	1. सामघी
Maternity	1. प्रसूति/मातृत्व	1. प्रसूति/मातृत्व	1. प्रसूति/मातृत्व	1. मातृ-मातृत्व/ प्रसूति			
Matter	1. विषय/मामला	1. विषय/मामला	1. विषय/मामला 2. वस्तु/सामघी/ द्रव्य 3. विषयवस्तु	1. विषय/मामला 2. द्रव्य/पदार्थ 3. विषयवस्तु/ उपादान 4. जडवस्तु	1. विषय/मामला 2. वस्तु/ पूत द्रव्य/द्रव्य/ पदार्थ 3. विषयवस्तु	1. प्रसूति 1. विषय/मामला	

	1	2	3	4	5	6	7
Maximum		1. अधिकतम/ ज्यादा से ज्यादा	1. अधिकतम/ ज्यादा से ज्यादा	1. अधिकतम	1. अधिकतम/ महत्तम/ ज्यादा से ज्यादा	1. अधिकतम/ अधिक से अधिक/ उच्चतम	1. अधिकतम/ ज्यादा से ज्यादा
Mayor		1. महापौर/मेयर	1. महापौर/मेयर	1. महापौर/मेयर/ नगरप्रमुख	1. महापौर/मेयर	1. महापौर/मेयर/ नियमाध्यक्ष/ महानगर- पालिकाध्यक्ष/ नगर-निगमा- ध्यक्ष/ नगराध्यक्ष	1. महापौर/मेयर
Means		1. साधन/उपाय	1. साधन/उपाय	1. साधन/उपाय	1. साधन 2. मध्यपद 3. से तात्पर्य है/ अभिप्रेत है	1. साधन/उपाय	1. साधन/उपाय
Measure		1. उपाय 2. माप 3. मान 4. कार्रवाई/ कार्यवाही	1. उपाय 2. माप/माप 3. मान/मात्रा 4. कार्रवाई/ कार्यवाही	1. उपाय 2. माप/माप 3. मान 4. कार्रवाई	1. उपाय 2. माप/माप 3. मान 4. कार्रवाई	1. उपाय/योजन/ कार्य 2. माप/माप 3. मात्रा/परिमाण 4. कार्यवाही/ क्रियाकार 5. सीमा-मर्यादा 6. ताल 7. रङ	1. उपाय 2. माप 3. मान 4. कार्यवाही

	1	2	3	4	5	6	7
Measure —, Precautionary		1. पूर्वोपाय/ एहतियाती कार्रवाई	1. पूर्वोपाय/ एहतियाती कार्रवाई	1. पूर्वोपाय/ एहतियाती कार्रवाई	1. पूर्वोपाय/ एहतियाती कार्रवाई	1. पूर्वोपाय/ एहतियाती कार्रवाई	1. एहतियाती कार्रवाई
Measure —, Preventive		1. निवारक उपाय/ रोकथाम-सम्बन्धी उपाय	1. निवारक उपाय/ रोकथाम-सम्बन्धी उपाय	1. निवारक उपाय/ रोकथाम-सम्बन्धी उपाय	1. निवारक उपाय/ निरोधक उपाय	1. निवारक उपाय/ रोकथाम-सम्बन्धी उपाय	1. रोकथाम-सम्बन्धी उपाय
Mechanic		1. यांत्रिक/ मेकैनिम	1. यांत्रिक/ मेकैनिम	1. यांत्रिक/मिस्त्री/ मेकैनिम	1. यांत्रिक/मिस्त्री/ मेकैनिम	1. यांत्रिक/मिस्त्री/ मेकैनिम	1. यांत्रिक/ मेकैनिम
Mediation		1. मध्यस्थता/ बीच-बचाव	1. मध्यस्थता	1. मध्यस्थता/ बीच-बचाव	1. मध्यस्थता/ बीच-बचाव	1. मध्यस्थता	1. मध्यस्थता
Medical aid		1. चिकित्सा-सहायता	1. चिकित्सा-सहायता	1. डाक्टरों सहायता	1. चिकित्सा-सहायता	1. चिकित्सा-सहायता	1. चिकित्सा सहायता
Medical benefit		1. चिकित्सा-सुविधा	1. चिकित्सा-सुविधा	1. चिकित्सा-सुविधा/ चिकित्सा लाभ	1. चिकित्सा-सुविधा	1. चिकित्सा-सुविधा	1. चिकित्सा-सुविधा
Medical certificate of fitness		1. स्वस्थता प्रमाण-पत्र	1. स्वस्थता प्रमाण-पत्र	1. स्वस्थता का डाक्टरों प्रमाण-पत्र/ स्वस्थता प्रमाण-पत्र	1. स्वस्थता का डाक्टरों प्रमाण-पत्र/ स्वस्थता प्रमाण-पत्र	1. स्वस्थता प्रमाण-पत्र	1. स्वस्थता का डाक्टरों प्रमाण-पत्र
Medical record card		1. चिकित्सा अभिलेख-पत्र/ चिकित्सा अभिलेख-कार्ड	1. चिकित्सा अभिलेख-कार्ड	1. चिकित्सा अभिलेख-पत्र/ अभिलेख-कार्ड	1. डाक्टरों द्वारा कार्ड/ चिकित्सा अभिलेख-कार्ड	1. चिकित्सा अभिलेख-पत्र/ चिकित्सा अभिलेख-कार्ड	1. चिकित्सा अभिलेख-पत्र

1	2	3	4	5	6	7
Meeting	1. बैठक/सभा/ मीटिंग	1. बैठक/सभा/ मीटिंग	1. बैठक/मीटिंग सभा 2. अधिवेशन, मिलन 3. पूति 1. सदस्य	1. बैठक 2. अधिवेशन 3. छर्च उठाना 1. सदस्य 2. कर्मी 3. अंग	1. बैठक/सभा 2. सम्मिलन/ अधिवेशन 3. सदस्य	1. बैठक/सभा/ मीटिंग 1. सदस्य
Member	1. सदस्य	1. सदस्य	3. अंग, अवयव	1. सहयोजित सदस्य/ सहयुक्त सदस्य	1. सदस्य	1. सदस्य
Member —, Associate	1. सह-सदस्य	1. सहयोजित सदस्य	1. सहयोजित सदस्य/ सहयुक्त सदस्य	1. सहयोजित सदस्य	3. अंग, भाग, अंग, अवयव 1. सहयोजित सदस्य	1. सह-सदस्य
Member —, co-opted	1. सहयोजित सदस्य	1. सहयुक्त सदस्य	1. सहयोजित सदस्य/ सहभेसित सदस्य	1. सञ्चित सदस्य/ सहयोजित सदस्य	1. सहयोजित सदस्य	1. सह-सदस्य
Member —, Corres- ponding	1. सवादी सदस्य	1. सवादी सदस्य	1. सवादी सदस्य	1. समरूपी सदस्य/ तदनुसारी सदस्य/ सर्वप्रथम सदस्य/ संस्थापनी सदस्य	1. सवादी सदस्य	1. सहयोजित सदस्य
Member of Parliament	1. संसद-सदस्य (संसत्सदस्य)	1. संसद-सदस्य	1. संसद-सदस्य	1. संसद-सदस्य	1. संसद-सदस्य	1. संसद-सदस्य

1	2	3	4	5	6	7
Memorandum	1. ज्ञापन	1. ज्ञापन	1. ज्ञापिका, ज्ञापन ज्ञाप	1. ज्ञापन	1. ज्ञापन	1. ज्ञापन
Memorial	1. स्मारक 2. श्रम्यावेदन	1. स्मारक 2. श्रम्यावेदन	1. स्मारक 2. श्रम्यावेदन 3. विनिवेदन	1. स्मारक 2. स्मरण-पत्र/ श्रम्यावेदन 3. प्रज्ञप्ति	1. स्मारक 2. स्मरण-पत्र/ श्रम्यावेदन/ विनयी-पत्र	1. स्मारक
Merger	1. विलयन	1 विलयन	1. विलयन/विलय	1. विलयन/विलय	1. संविलयन/ त्रिसीनीकरण	1. विलयन
Merit	1. गुण	1. गुण	1. गुण 2. योग्यता 3. तत्त्व 4. गुण-दोष	1. गुण 2. योग्यता 3. तत्त्व 4. गुण-दोष	1. गुण/ कुशलता 2. योग्यता/ सुयोग्यता — 4. गुण-दोष	1. गुण
Merits and demerits	1. गुणावगुण	1. गुणावगुण	1. गुणावगुण/ गुण-दोष	1. गुणावगुण	1. गुणावगुण/ गुण-दोष	1. गुणावगुण
Message	1. संदेश	1. संदेश	1. संदेश	1. संदेश	1. संदेश	1. संदेश
Midwife	1. छात्री/दाई/ घाय	1. छात्री/दाई/ घाय	1. दाई/प्रसूतिका	1. छात्री	1. छात्री/दाई प्रभाविका	1. दाई/घाय
Migrant	1. प्रवासी	1. प्रवासी	1. प्रव्रजक	1. प्रवासी/प्रवाजी/ प्रव्रजक	1. प्रवासी/प्रवाजक/ प्रवासक/प्रव्रजक	1. प्रवासी

1	2	3	4	5	6	7
				2. ऋतु के साथ आने वाला पक्षी		
Migration	1. प्रवास	1. प्रवास	1. प्रव्रजन/व्रजन	1. प्रव्रजन/प्रवास	1. प्रवास/प्रव्रजन/देशान्तरगमन	1. प्रवास
Minimum	1. न्यूनतम/कम से कम	1. कम से कम/न्यूनतम	1. न्यूनतम/कम से कम	1. अल्पतम/कम से कम/न्यूनतम	1. न्यूनतम/कम से कम	1. न्यूनतम/कम से कम
Minister	1. मंत्री	1. मंत्री	1. मंत्री	1. मंत्री	1. मंत्री	1. मंत्री
Minister —, Chief	1. मुख्यमंत्री	1. मुख्यमंत्री	1. मुख्यमंत्री	1. मुख्यमंत्री	1. मुख्यमंत्री	1. मुख्यमंत्री
Minister —, Deputy	1. उपमंत्री	1. उपमंत्री	1. उपमंत्री	1. उपमंत्री	1. उपमंत्री	1. उपमंत्री
Minister —, Prime	1. प्रधानमंत्री	1. प्रधानमंत्री	1. प्रधानमंत्री	1. प्रधानमंत्री	1. प्रधानमंत्री	1. प्रधानमंत्री
Minister-Envoy	1. मंत्री-दूत	1. मंत्री-दूत	1. मंत्री-दूत	1. मंत्री-दूत	1. मंत्री-दूत	1. मंत्री-दूत
Minister without Portfolio	1. निविभाग मंत्री	1. निविभाग मंत्री	1. निविभाग मंत्री	1. निविभाग मंत्री	1. बिना विभाग के मंत्री/निविभाग मंत्री	1. बिना विभाग के मंत्री
Ministerial	1. लिपिक-वर्गीय/अनुसचिवीय	1. लिपिक-वर्गीय/अनुसचिवीय	1. लिपिक-वर्गीय/अनुसचिवीय/लिपिकीय 2. मंत्रीय	1. अनुसचिवीय/लिपिक वर्गीय 2. मन्त्रालय-सदस्यी	1. लिपिक-वर्गीय/अनुसचिवीय 2. मंत्री-सदस्यी/मन्त्रालयिक 3. प्रवासी	1. लिपिक-वर्गीय

1	2	3	4	5	6	7
Ministerial staff	1. लिपिक-वर्गीय कर्मचारी/ दफ्तरी स्टाफ	1. लिपिक-वर्गीय कर्मचारी/ दफ्तरी स्टाफ	1. कार्यालय कर्मचारीवर्ग/ लिपिक-वर्गीय कर्मचारी/ दफ्तरी स्टाफ	1. लिपिक-वर्गीय कर्मचारी/ दफ्तरी स्टाफ	1. लिपिक-वर्गीय कर्मचारी/ दफ्तरी स्टाफ	1. लिपिक-वर्गीय कर्मचारी/ दफ्तरी स्टाफ
Ministry	1. मन्त्रालय	1. मन्त्रालय	1. मन्त्रालय	1. मन्त्रालय	1. मन्त्रालय	1. मन्त्रालय
Minor	1. अवयस्क/ अप्राप्तवय/ नाबालिग	1. अवयस्क/ नाबालिग	1. अवयस्क/ नाबालिग/ अप्राप्तवय	1. अवयस्क/ नाबालिग/ अप्राप्तवय	1. अवयस्क/ नाबालिग	1. नाबालिग
Minor head	2. सधु/गौण	2. सधु/गौण	2. सधु/गौण/छोटा	2. सधु/गौण	2. छोटा/सधु/गौण/ अमुह्य/अल्प	2. गौण
Minority	1. सधु शीर्ष/ गौण शीर्ष	1. सधु शीर्ष/ गौण शीर्ष	1. सधु शीर्ष/ गौण शीर्ष/ गौण शीर्षक	1. सधु शीर्ष/ सधु शीर्षक	1. गौण शीर्ष/ छोटा शीर्ष/ सधु शीर्ष/उप-पद	1. सधु शीर्ष/ गौण शीर्ष
Minority	1. अल्पसंख्यक/ अल्पसंख्या/ अल्पसंख्यक वर्ग	1. अल्पसंख्यक/ अल्पसंख्यक वर्ग/ अल्प संख्या	1. अल्पसंख्यक/ अल्प संख्या/ अल्पसंख्यक वर्ग	1. अवयस्कता/ अप्राप्तवयता	1. अल्पसंख्यक वर्ग	—
Minutes	2. अल्पमत	2. अल्पमत	2. अल्पमत	2. अल्प संख्या/ अल्पमत	2. अल्पमत	2. अल्पमत
Minutes	3. अवयस्कता	3. अवयस्कता	3. अवयस्कता/ अप्राप्तवयता	3. अल्पसंख्यक वर्ग/ अल्पसंख्यक	3. अवयस्कता	3. अवयस्कता
Minutes	1. कार्यवृत्त	1. कार्यवृत्त	1. कार्यवृत्त	1. वृत्त/कार्यवृत्त/ मिनट	1. (समा) कार्यवृत्त/ कार्यविवरण/ 2. निर्देश-पत्र/ ज्ञापन-पत्र	1. कार्यवृत्त

1	2	3	4	5	6	7
				3. कला	3. मिनट/कला (विशेष) छोटी- छोटी/सूक्ष्म/क्षुद्र	
Misappropriation	1. दुर्विनियोग/ दुर्विनियोजन	1. दुर्विनियोग	1. दुर्विनियोग	1. दुर्विनियोग	1. दुर्विनियोग/ दुर्योजन/ अपाहरण/ दुरुपयोग/भवन	1. गवन
Misbehaviour	1. दुर्व्यवहार/ कदाचार	1. दुर्व्यवहार/ कदाचार	1. दुर्व्यवहार	1. दुर्व्यवहार	1. दुर्व्यवहार/ कदाचार/ कुन्धवहार	1. दुर्व्यवहार
Miscellaneous	1. फुटकर/विविध	1. फुटकर/विविध/ प्रकीर्ण	1. फुटकर/विविध/ प्रकीर्ण	1. फुटकर/ विविध/प्रकीर्ण	1. फुटकर/विविध/ प्रकीर्ण	1. फुटकर/विविध
Misconduct	1. अवचार/ कदाचार	1. अवचार/ कदाचार	1. अवचार/ कदाचार/ दुराचार	1. कदाचार	1. अवचार/ दुराचार/ दुर्व्यवहार/ भुरी हरकत	1. अवचार/ कदाचार
Mismanagement	1. कुप्रबन्ध	1. कुप्रबन्ध	1. कुप्रबन्ध	1. कुप्रबन्ध/ अव्यवस्था	1. कुप्रबन्ध	1. कुप्रबन्ध
Misrepresentation	1. अन्यायाकथन	1. अन्यायाकथन	1. अन्यायाकथन/ व्यपदेशन	1. अन्यायाकथन/ श्लथवयानी/ मिथ्यास्थापन/ मिथ्यानिरूपण/ मिथ्याव्यपदेशन/ 2. दुर्व्यपदेशन	1. अन्यायाकथन/ श्लथवयानी/ अणुद/ उपस्थापन/ मिथ्याप्रदर्शन/ प्रान्त वर्णन	1. अन्यायाकथन

1	2	3	4	5	6	7
Movable	1. चल/जगम/ अस्थिर	1. चल/जगम/ अस्थिर	1. चल	1. चल/जंगम	1. चल/जगम/ अस्थायी	1. चल/अस्थिर
Move	1. प्रस्ताव रखना/ प्रस्तावित करना	1. प्रस्ताव रखना/ प्रस्तावित करना	1. प्रस्ताव रखना/ प्रस्तावित करना/ प्रस्तुत करना 2. प्रचलित करना 3. चलाना/ गतिमान करना 4. हटाना	1. प्रस्ताव करना/ प्रस्ताव रखना 2. प्रचलित करना 3. चाल	1. प्रस्तावित करना/ प्रस्तुत करना/ संचार करना 2. प्रचलित करना 3. चलाना/गति देना 4. स्थान परिवर्तन करना 5. आना-जाना	1. प्रस्तावित करना/ प्रस्तावित करना
Movement	1. संचलन	1. संचलन	1. संचलन/संचरण 2. आंदोलन	1. संचलन 2. हलचल/ आन्दोलन 3. गति	1. संचलन 2. आन्दोलन 3. गति 4. स्पन्द 5. गमनागमन/ आना-जाना 6. गतिविधि	1. संचलन
Movement register	1. संचलन पंजी/ संचलन रजिस्टर	1. संचलन पंजी/ संचलन रजिस्टर	1. संचलन पंजी/ संचलन रजिस्टर	1. आवाजाही रजिस्टर/ संचलन रजिस्टर	1. संचलन रजिस्टर/ संचलन-पत्री	1. संचलन रजिस्टर/ संचलन पंजी
Multipurpose	1. बहुउद्देशीय	1. बहुउद्देशीय/ बहुमुखी/ बहुप्रयोजन	1. बहुउद्देशीय/ बहुमुखी/ बहुप्रयोजन/बहुमुखी	1. बहुउद्देशीय बहुमुखी	1. बहुमुखी/ बहुप्रयोजन	1. बहुउद्देशीय

1	2	3	4	5	6	7
National	1. राष्ट्रीय 2. राष्ट्रिक	1. राष्ट्रीय 2. राष्ट्रिक	1. राष्ट्रीय 2. राष्ट्रिक 3. देशीय	1. राष्ट्रीय 2. राष्ट्रिक	1. राष्ट्रीय	1. राष्ट्रीय
National anthem	1. राष्ट्रगान	1. राष्ट्रगान	1. राष्ट्रगान	1. राष्ट्रगान/ राष्ट्रगीत	1. राष्ट्रगान	1. राष्ट्रगान
National-debt	1. राष्ट्रीय ऋण	1. राष्ट्रीय ऋण	1. राष्ट्रीय ऋण/ राष्ट्र-ऋण	1. राष्ट्रीय ऋण	1. राष्ट्रीय ऋण/ सरकारी ऋण	1. सरकारी ऋण
National flag	1. राष्ट्र-ध्वज/ राष्ट्रीय झंडा	1. राष्ट्र ध्वज/ राष्ट्रीय झंडा	1. राष्ट्र ध्वज/ राष्ट्रीय झंडा	1. राष्ट्र ध्वज/ राष्ट्रीय झंडा	1. राष्ट्र ध्वज/ राष्ट्रीय झंडा/ राष्ट्रीय ध्वज/ राष्ट्रीय पताका	1. राष्ट्रीय झंडा
National income	1. राष्ट्रीय आय	1. राष्ट्रीय आय	1. राष्ट्रीय आय	1. राष्ट्रीय आय	1. राष्ट्रीय आय	1. राष्ट्रीय आय
National Language	1. राष्ट्रभाषा	1. राष्ट्रभाषा	1. राष्ट्रभाषा	1. राष्ट्रभाषा	1. राष्ट्रभाषा	1. राष्ट्रभाषा
National song	1. राष्ट्रगान/ राष्ट्रगीत	1. राष्ट्रगान/ राष्ट्रगीत	1. — राष्ट्रगीत	1. राष्ट्रगान/ राष्ट्रगीत	1. राष्ट्रगान/ राष्ट्रगीत	1. राष्ट्रगीत
Nationality	1. राष्ट्रिकता	— 2. राष्ट्रियता	1. राष्ट्रिकता 2. राष्ट्रियता	1. राष्ट्रिकता 2. राष्ट्रियता	1. राष्ट्रिकता 2. राष्ट्रियता	— 2. राष्ट्रियता
Nationalization	1. राष्ट्रीयकरण	1. राष्ट्रीयकरण	1. राष्ट्रीयकरण	1. राष्ट्रीयकरण	1. राष्ट्रीयकरण	1. राष्ट्रीयकरण
Native	1. प्राकृतिक/प्राकृत/ सहज 2. देशी/देशज (स०) मूल निवासी	1 प्राकृतिक/प्राकृत/ रुहज 2. देशी/देशज (स०) मूल निवासी	— 2. देशी/देशज (स०) देशवासी	1. प्राकृत/अकृतिय 2. देशी/देशज (स०) जन्म-वासी, जन्मजात, अग्रिम	— 2 देशी/देशज (स०) स्वदेशी/ स्थानिक/स्थानीय/ गैवार	— 2. देशी/देशज (स०) मूल निवासी

1	2	3	4	5	6	7
Native Language	1. देशीय भाषा	1. देशीय भाषा/ देशी भाषा	1. देश भाषा	1. देशीय भाषा	1. देशीय भाषा	1. देशीय भाषा
Natural resources	1. प्राकृतिक ससाधन	1 प्राकृतिक विभव/ प्राकृतिक सपत्ति/ प्राकृतिक स्रोत	1 प्राकृतिक संसाधन, प्राकृतिक विभव, प्राकृतिक सपत्ति, प्राकृतिक स्रोत	1. प्राकृतिक संसाधन, प्राकृतिक स्रोत, प्राकृतिक साधन, प्राकृतिक संचय	1. प्राकृतिक ससाधन प्राकृतिक सपत्ति, प्राकृतिक स्रोत, प्राकृतिक साधन	1. प्राकृतिक सपत्ति
Necessary action	1 आवश्यक कार्रवाई	1. आवश्यक कार्रवाई	1. आवश्यक कार्यवाही	1. आवश्यक कार्रवाई	1. आवश्यक कार्रवाई	1. आवश्यक कार्यवाही
Needful	1. आवश्यक कार्रवाई	1. आवश्यक कार्रवाई	1. आवश्यक/उपयुक्त	1 आवश्यक/यथावश्यक	1. आवश्यक कार्रवाई	1. आवश्यक कार्यवाही/अपेक्षित कार्यवाही
Negative	1. निषेधात्मक	1. निषेधात्मक	2 हरिद/दुखी 1. निषेधात्मक/ नकारात्मक 2. अभावात्मक 3. ऋणात्मक 4. निगेटिव	1 निषेधात्मक/ निषेधक 2. अभावात्मक 3. ऋणात्मक/ऋण 4. निगेटिव/परिवृत्त चिन्न 5. नकार करना/ नकारना	1. निषेधात्मक/ नकारात्मक/नकार — 3. ऋण 4. प्रनिलोम/निगेटिव परिचिन्न	1. निषेधात्मक
Neglect of duty	1. कर्तव्य की उपेक्षा	1. कर्तव्य की उपेक्षा	1. कर्तव्य-उपेक्षा/ कर्तव्य की उपेक्षा	1. कर्तव्य की उपेक्षा 2. कर्तव्य के प्रति लापरवाही	1. कर्तव्य की उपेक्षा	1. कर्तव्य की उपेक्षा

1	2	3	4	5	6	7
Negligence	1. उपेक्षा/प्रमाद/ गफलत	1 उपेक्षा/प्रमाद/ गफलत	1 उपेक्षा/प्रमाद/ गफलत 2. असावधानी	1. उपेक्षा/प्रमाद/ गफलत 2. असावधानी 3. सापरवाही	1. उपेक्षा/प्रमाद/ गफलत 2. असावधानी	1. उपेक्षा/प्रमाद
Negotiate	1 परश्रामण करना/ बातचीत करना	1. बातचीत करना	1. परश्रामण करना, संक्रामित करना, बातचीत करना, सौदा करना 2. समझौता करना	1. परश्रामण करना, बेचान करना, सौदा करना 2 समझौते की बातचीत करना, समझौता करना 3. पार करना	1. परश्रामण करना, बेचान करना, सौदा करना 2. समझौते की बातचीत करना, समझौता वार्ता करना	1. उपेक्षा/प्रमाद
Negotiable instrument	1. परश्राम्य लिखत	1. परश्राम्य लिखत	1. परश्राम्य लिखत	1. परश्राम्य लिखत/ सश्राम्यकरणपत्र	1. परश्राम्य लिखत	1. उपेक्षा/प्रमाद
Negotiated Contract	1. बातचीत से तय किया गया ठेका, बातचीत से तय की गई सविदा	1. बातचीत से तय किया गया ठेका, बातचीत से तय की गई सविदा	1. बातचीत से तय किया गया ठेका, बातचीत से तय की गई सविदा	1. बातचीत से तय की गई सविदा	1. बातचीत से तय किया गया ठेका, बातचीत से तय की गई सविदा	1. बातचीत से तय किया गया ठेका
Negotiation	1. (समझौते की) बातचीत 2. परश्रामण	1. (समझौते की) बातचीत	1. (समझौते की) बातचीत, वार्ता, समझौते 2. श्रामण परश्रामण	1. समझौता बातचीत, वार्ता (समझौता) समझौता (वार्ता) 2 परश्रामण 3. सौदा	1. समझौते की बातचीत, सविदा, वार्ता	1. समझौते की बातचीत

1	2	3	4	5	6	7
Nepotism	1. स्वजन-पशपात/ भाईभतीजाबाद	1. स्वजन-पशपात, भाईभतीजाबाद	1. स्वजन-पशपात, भाईभतीजाबाद, सधु-पशपात	1. स्वजन-पशपात, भाईभतीजाबाद	1. स्वजन-पशपात, बन्धु-पशपात, मुनबाररसनी, भाईभतीजाबाद	1. भाई भतीजाबाद
Net amount	1. निवल राशि, शुद्ध राशि	1. अवशिष्ट राशि, शुद्ध राशि	1. शुद्ध रकम,	1. शुद्ध राशि	1. शुद्ध राशि	1. निवल राशि, शुद्ध राशि
Net assets	1. निवल परिसरति, शुद्ध परिसरति	1. अवशिष्ट, परिसरति, शुद्ध परिसरति	1. अवशिष्ट, परिसरति शुद्ध परिसरति	1. शुद्ध आस्तिर्वा	1. अवशिष्ट, शुद्ध परिसरति	1. निवल परिसरति, शुद्ध परिसरति
Net total	1. शुद्ध जोड़	1. शुद्ध जोड़	1. शुद्ध जोड़	1. शुद्ध जोड़	1. शुद्ध जोड़	1. शुद्ध जोड़
Net weight	1. निवल भार, शुद्ध भार नेट भार	1. शुद्ध भार, निवल भार	1. शुद्ध भार, निवल भार, नेट भार	1. शुद्ध भार	1. निवल भार, शुद्ध भार, नेट भार	1. निवल भार, शुद्ध भार
Neutral	1. तटस्थ	1. तटस्थ	1. तटस्थ, मध्यम, उदासीन	1. तटस्थ, उदासीन	1. तटस्थ, मध्यम 2. न्यूनक, बनीव	1. तटस्थ
News Editor	1. समाचार सपादक	1. समाचार संपादक	1. समाचार संपादक	1. समाचार सपादक	1. समाचार सपादक	1. समाचार सपादक
News Reader	1. समाचार वाचक	1. समाचार वाचक	1. समाचार वाचक	1. समाचार वाचक	1. समाचार वाचक	1. समाचार वाचक
News Reporter	1. समाचारदाता	1. सबाददाता	1. सबाददाता	1. सबाददाता	1. सबाददाता	1. सबाददाता
Night shift	1. रात की पारी	1. रात की पारी	1. रात की पारी	1. रात की पारी, रात-पारी	1. रात की पारी	1. रातपारी

1	2	3	4	5	6	7
No-confidence motion	1. अविश्वास प्रस्ताव	1. अविश्वास प्रस्ताव	1. अविश्वास प्रस्ताव	1. अविश्वास प्रस्ताव	1. अविश्वास का प्रस्ताव	1. अविश्वास प्रस्ताव
No demand certificate	1. वेवाकी, (प्रमाण) पत्र	1. वेवाकी, (प्रमाण) पत्र	1. वेवाकी, (प्रमाण) पत्र	1. वेवाकी, प्रमाण-पत्र कारखबी पत्र	1. वेवाकी, प्रमाण-पत्र	1. वेवाकी-पत्र
No objection certificate	1. अनापत्ति (प्रमाण) पत्र	1. अनापत्ति (प्रमाण) पत्र	1. अनापत्ति (प्रमाण) पत्र	1. अनापत्ति प्रमाण-पत्र, निरापेक्ष प्रमाण-पत्र	1. अनापत्ति प्रमाण-पत्र	1. अनापत्ति-पत्र
Nominal inspection	1. नाममात्र का निरीक्षण	1. नाममात्र का निरीक्षण	1. नाममात्र का निरीक्षण	1. नाममात्र निरीक्षण	1. नाममात्र निरीक्षण	1. नाममात्र का निरीक्षण
Nominal member	1. नाममात्र का सदस्य	1. नाममात्र का सदस्य	1. नाममात्र सदस्य	1. नाममात्र का सदस्य	1. नाममात्र का सदस्य	1. नाममात्र का सदस्य
Nominal value	1. अंकित मूल्य	1. अंकित मूल्य	1. अंकित मूल्य	1. अभिहित मूल्य	1. मूल्य, नाममात्र कीमत	1. अंकित मूल्य
Nominate	1. नामित करना	1. मनोनीत करना	1. नामित करना, मनोनीत करना	1. नामित करना, नाम निर्देशन करना, मनोनीत करना	1. मनोनीत करना, नामरुद करना, नाम निर्देशन	1. मनोनीत करना
Nomination	1. नाम-निर्देशन 2. मनोनयन, नामन, नामाकन	1. नाम-निर्देशन 2. मनोनयन	1. नाम-निर्देशन 2. मनोनयन, नामन	1. नाम-निर्देशन 2. मनोनयन, नामरुदगो	1. नाम-निर्देशन 2. नामाकन, निवोजन, मनोनयन, नामरुदगी	1. नामन 2. नामाकन

1	2	3	4	5	6	7
Non-acceptance	1. अस्वीकृति	1. अस्वीकृति	1. अस्वीकृति	1. अस्वीकृत, अस्वीकार, अप्रतिग्रहण	1. अस्वीकृत	1. अस्वीकृति
Non-advertised	1. अविज्ञापित	1. अविज्ञापित	1. अविज्ञापित	1. अविज्ञापित	1. अविज्ञापित	1. अविज्ञापित
Non-age	1. अवयस्कता	1. अवयस्कता	1. अवयस्कता	1. अवयस्कता, नाबालिगी	1. अवयस्कता	1. अवयस्कता
Non-compliance	1. अपालन	1. अपालन	1. अपालन	1. अपालन, अननुपालन	1. अपालन, अननुपालन, अननुवर्तन	1. अपालन
Non-confidential	1. अगोपनीय	1. अगोपनीय	1. अगोपनीय	1. अगोपनीय	1. अगोपनीय	1. अगोपनीय
Non consent	1. असहमति	1. असहमति	1. असहमति	1. असहमति, असम्मति	1. असहमति	1. असहमति
Non-delivery	1. अवितरण	1. अवितरण	1. अवितरण	1. अवितरण 2. गैरसुपुर्दगी 3. अप्रदान, अपरिदान 4. अप्रसंब 5. गैर डिचिवरी	1. अवितरण	1. अवितरण
Non-Gazetted	1. अराजपत्रित	1. अराजपत्रित	1. अराजपत्रित	1. अराजपत्रित	1. अराजपत्रित	1. अराजपत्रित
Non-observance	1. अपालन	1. अपालन	1. अपालन, अननुपालन	1. अपालन, अननुपालन	1. अपालन, न बरतना	1. अपालन
Non-official	1. गैरसरकारी, अशासकीय,	1. गैरसरकारी, अशासकीय,	1. गैरसरकारी, अशासकीय,	1. गैरसरकारी, अशासकीय,	1. गैरसरकारी, अशासकीय	1. गैरसरकारी, अशासकीय

1	2	3	4	5	6	7
	अनधिकारिक	अनधिकारिक	अशासकीय, अनधिकारिक, गैरअधिकारी	अशासकीय, अनधिकारिक, गैरअधिकारी		
Non payment certificate	1. अशोधन (प्रमाण) पत्र अदेनगी (प्रमाण) पत्र	1. अशोधन (प्रमाण) पत्र अदेनगी (प्रमाण) पत्र	1. अशोधन (प्रमाण) पत्र	1. अशोधन प्रमाण-पत्र, गैरअदायगी प्रमाण-पत्र, अनभुगतान प्रमाण-पत्र,	1. अशोधन पत्र, न चुकाने का पत्र, भुगतान व करने का पत्र	1. अदेनगी पत्र
Non-pensionable	1. अपेंशनी/ गैरपेंशनी	1. गैरपेंशनी/ अपेंशनी	1. पेंशनरहित	1. अपेंशनी/ गैरपेंशनी	1. अपेंशनी/ गैरपेंशनी	1. अपेंशनी/ गैरपेंशनी
Non-practising allowance	1. प्रैक्टिसबन्दी भत्ता	1. प्रैक्टिसबन्दी भत्ता	1. प्रैक्टिसबन्दी भत्ता	1. प्रैक्टिसबन्दी भत्ता 2. व्यवसायबन्दी भत्ता	1. प्रैक्टिसबन्दी भत्ता	1. प्रैक्टिसबन्दी भत्ता
Non-recurring expenditure	1. अनावर्त व्यय/ अनावर्ती व्यय	1. अनावर्त व्यय/ अनावर्ती व्यय	1. अनावर्त व्यय/ अनावर्ती व्यय/ अनावर्त व्यय	1. अनावर्ती व्यय	1. अनावर्ती व्यय/ अनावर्त व्यय	1. अनावर्ती व्यय
Non-safable	1. अविश्लेष्य	1. अविश्लेष्य	1. अविश्लेष्य	1. अविश्लेष्य	1. अविश्लेष्य	1. अविश्लेष्य
Non-selection post	1. अप्रवर्ण पद	1. अप्रवर्ण पद	1. अप्रवर्ण पद/ गैरसिलेबशन पद	1. अप्रवर्ण पद	1. अप्रवर्ण पद	1. अप्रवर्ण पद
Non-standard	1. अमानक/ मानक के अनुसार नहीं	1. अमानक/ मानक के अनुसार नहीं	1. अमानक/ मानक के अनुसार नहीं	1. अमानक	1. अमानक/ मानक के अनुसार नहीं	1. मानक के अनुसार नहीं

1	2	3	4	5	6	7
Non-voted	1. अदत्त मत	1. अदत्त मत	1. अदत्त मत	1. अदत्त मत	1. अदत्त मत	1. अदत्त मत
Non-working day	1. अवकाश/ छुट्टी का दिन	1. अवकाश/ छुट्टी का दिन	1. छुट्टी का दिन/ अनघराय	1. कार्यरहित दिन	1. अवकाश/ छुट्टी का दिन	1. अवकाश/ छुट्टी का दिन
Note	1. टिप्पणी/नोट	1. टिप्पणी/नोट	1. टिप्पणी/नोट	1. टिप्पणी/नोट/ पत्र/टीप	1. टिप्पणी/नोट/ टिप्पण/टीप	1. टिप्पणी/नोट
Note of dissent	1. असहमति नोट	1. असहमति नोट	1. असहमति नोट/ असहमति टिप्पणी	1. विमति टिप्पणी	1. असहमति नोट	1. असहमति नोट
Note sheet	1. टिप्पणी-पत्र	1. टिप्पणी-पत्र	1. टिप्पणी-पत्र	1. टिप्पणी-पत्र	1. टिप्पणी-पत्र/ टीप-पत्र	1. टिप्पणी-पत्र
Noted	1. नोट कर लिया	1. नोट किया	1. नोट कर लिया	1. नोट कर लिया/ टिप्पणित/टीप हूआ	1. नोट किया/ज्ञान किया/सूचित किया/टीप लिया	1. नोट किया
Noter	1. टिप्पणी लेखक	1. टिप्पणी लेखक	1. टिप्पणी लेखक/ टिप्पणीकार	1. टिप्पणीकार	1. टिप्पणकार/ टीपलेखक	1. टिप्पणी लेखक
			2. उपलेखक	2. लेखक		
Notes cover	1. टिप्पणी आवरण	1. टिप्पणी आवरण	1. टिप्पणी आवरण	1. टिप्पणी आवरण	1. टिप्पणी आवरण	1. टिप्पणी आवरण
Notice board	1. सूचनापट्ट/ नोटिसबोर्ड	1. सूचनापट्ट/ नोटिसबोर्ड	1. सूचनापट्ट/ सूचनाबोर्ड/ नोटिसबोर्ड	1. सूचनापट्ट	1. सूचनापट्ट/ सूचनाबोर्ड/ सूचनाफलक	1. सूचनापट्ट

1	2	3	4	5	6	7
Notice of discharge	1. कार्यमुक्ति सूचना/ कार्यमुक्ति नोटिस	1. कार्यमुक्ति सूचना/ कार्यमुक्ति नोटिस	1. कार्यमुक्ति सूचना	1. बरखास्तगी नोटिस	1. कार्यमुक्ति सूचना/ कार्यमुक्ति नोटिस	1. कार्यमुक्ति सूचना
Notification	1. अधिसूचना	1. अधिसूचना	1. अधिसूचना/ वितरित	1. अधिसूचना/ वितरित	1. अधिसूचना वितरित	1. अधिसूचना
Notified area	1. अधिसूचित क्षेत्र/ नोटीफाइड एरिया	1. अधिसूचित क्षेत्र/ नोटीफाइड एरिया	1. अधिसूचित क्षेत्र/ नोटीफाइड एरिया	1. अधिसूचित क्षेत्र	1. अधिसूचित क्षेत्र/ विज्ञापित क्षेत्र	1. अधिसूचित क्षेत्र
Noting	1. टिप्पणी लेखन	1. टिप्पणी लेखन	1. टिप्पणी लेखन	1. टिप्पण	1. टिप्पणी लेखन	1. टिप्पणी लेखन
Null and void	1. वातिल और शून्य	1. वातिल और शून्य/अहत और शून्य/प्रभाव-शून्य	1. वातिल और शून्य/अहत और शून्य	1. अहत और शून्य	1. वातिल और शून्य/ अर्थ और शून्य/ निरर्थक और अर्थ/ शून्य और उपर्य	1. अहत और शून्य
Nullify	1. वातिल करना/ अहत करना	1. वातिल करना/ अहत करना	1. अहत करना/ अर्थ करना 2. निरर्थक करना	1. अहत करना 2. निरर्थक करना	1. रद्द करना/ शून्यकरण 2. निरर्थक करना/ नहीं के बराबर करना	1. अहत करना

1	2	3	4	5	6	7
Numeral	1. सख्यांक/अंक	1 सख्यांक/अंक	1. सख्यांक/अंक	1 सख्या/अंक	1. सख्या/अंक	1. संख्या/अंक
Nurse	1. नर्स/ परिवारिका/ उपचारिका	1 उपचारिका	1. परिवारक/ उपचारक	1. नर्स/ परिवारिका	1. परिवारिका/ उपचारिका	1. नर्स/ परिवारिका
Nurse (Male)	1 परिवारक/ उपचारक	1. परिवारक	2. धावी/शर्ई 3 पोपक (वन) 1. परिवारक/ उपचारक	1 परिवारक	2. धामी/धाय/शर्ई 1. उपचारक/ परिवारक	1. परिवारक

O

Oath	1 शपथ	1. शपथ	1. शपथ	1 शपथ	1. शपथ	1. शपथ
—Of allegiance	1. निष्ठाशपथ, राजनिष्ठा- शपथ	1. निष्ठाशपथ, राजनिष्ठा- शपथ	1. निष्ठाशपथ, राजनिष्ठा- शपथ	1. निष्ठा की शपथ	1. निष्ठाशपथ/ निष्ठा की शपथ	1. निष्ठाशपथ
—Of office	1. पद-शपथ	1 पद-शपथ	1. पद-शपथ	1. पद-शपथ	1. पद-शपथ/ पद की शपथ	1. पद-शपथ
—Of secrecy	1. गोपनीयता- शपथ	1. गोपनीयता- शपथ	1. गोपनीयता- शपथ, गोपन-शपथ	1. गोपनीयता की शपथ, गुप्तता-शपथ	1. गोपनीयता-शपथ	1. गोपनीयता-शपथ
Obedience	1. आज्ञापालन, आज्ञानुवर्तन	1. आज्ञापालन	1. आज्ञापालन/ आज्ञाकारिता, पालन या मानना	1 आज्ञापालन, आज्ञानुवर्तन अनुपालन	1. आज्ञापालन, आज्ञाकारिता	1. आज्ञापालन

1	2	3	4	5	6	7
Object	1. (श०) वस्तु (कि०) आपत्ति उठाना/ आपत्ति करना	1. वस्तु/प्रयोजन/ उद्देश्य (कि०) आपत्ति करना/विरोध करना/आपत्ति उठाना	1. वस्तु/ पदार्थ/ उद्देश्य, विषय (कि०) आपत्ति करना	1. वस्तु/पदार्थ विषय, उद्देश्य, बिम्ब (कि०) आपत्ति उठाना/आपत्ति करना	1. वस्तु/पदार्थ विषय, भाजन, उद्देश्य/प्रयोजन/ हेतु (कि०) आपत्ति करना/आपत्ति उठाना	1. वस्तु/पदार्थ (त्रि०) आपत्ति उठाना/आपत्ति करना
Objection	1. आपत्ति	1. आपत्ति	1. आपत्ति, आरोप	1. आपत्ति	1. आपत्ति, आरोप	1. आपत्ति
Obligation	1. बाध्यता/ दायित्व/ आभार/बन्धन	1. बाध्यता/ दायित्व/ आभार/बन्धन	1. बाध्यता/ दायित्व/ आभार/ देनदारी/बन्धन	1. बाध्यता/ दायित्व/ आभार/बन्धन	1. बाध्यता/बद्धता/ बन्धन/दायित्व/ आभार/अनुग्रह/ बर्त्स्यता,	1. बन्धन/ दायित्व/ आभार/बन्धन
Obligatory	1. बाध्यकर/ अनिवार्य	1. बाध्यकारी/ अनिवार्य	1. बाध्यकर/ अनिवार्य/ आग्रही	1. बाध्यकर/ अनिवार्य/ आभार्य	1. बाध्यकर/ अनिवार्य	1. अनिवार्य
Obscene	1. अश्लील	1. अश्लील	1. अश्लील	1. अश्लील	1. अश्लील	1. अश्लील
Observance	1. पालन	1. पालन	1. पालन/ अनुपालन/ मानना	1. पालन/ अवनीकन	1. पालन/ अनुपालन/ अवनीकन	1. पालन
Observation	1. प्रेक्षण/सप्रेक्षण 2. तेद्या-टिप्पणी, समुक्ति	1. प्रेक्षण 2. तेद्या-टिप्पणी	1. संप्रेक्षण/ समीक्षण 2. अव्युक्ति/ तेद्याटिप्पणी निरीक्षण/ वचन	1. प्रेक्षण 2. आपोचन/ अवनीकन/ वचन	1. प्रेक्षण/ परिबीक्षण/पालन 2. अव्युक्ति/ टिप्पणी/ आपोचन/ वचन	1. प्रेक्षण

1	2	3	4	5	6	7
			प्रेक्षित-अक/ अवलोकन			अवलोकन, विचार, वचन, उक्ति
Observatory, Astronomical Observer	1. वेधशाला	1. वेधशाला	1. वेधशाला	1. वेधशाला	1. वेधशाला	1. वेधशाला
	1. प्रेक्षक	1. प्रेक्षक	1. प्रेक्षक/सवीक्षक	1. प्रेक्षक, दर्शक	1. प्रेक्षक, परिबीक्षक, दृश्य- अवलोकक, देखनेवाला, पालनकरने वाला	1. प्रेक्षक
Obsolete	1. लुप्त/अप्रचलित	1. लुप्त/अप्रचलित	1. लुप्तप्रयोग, अप्रचलित, अप्रयुक्त	1. लुप्तप्रयोग, अप्रचलित	1. अप्रचलित, गतप्रयोग लुप्तप्रयोग, पुराना	1. लुप्त/अप्रचलित
Obstruction	1. बाधा	1. बाधा	1. बाधा/रुकावट अवरोध	1. बाधा/अवरोध, विघ्न	1. बाधा/विघ्न/ रुकावट/अड़ंगा	1. बाधा
Obvious	1. स्पष्ट	1. स्पष्ट	1. स्पष्ट	1. स्पष्ट/सुस्पष्ट/ प्रत्यक्ष/एकदम	1. स्पष्ट/प्रत्यक्ष	1. स्पष्ट
Occasional	1. यदाकदा, अनियत, प्रासंगिक	1. यदाकदा, अनियत, प्रासंगिक	1. यदाकदा सामयिक	1. यदाकदा आवसरिक	1. यदाकदा, आकस्मिक प्रासंगिक, क्वचित्त	1. यदाकदा, अनियत
Occupation	1. उपजीविका/ व्यवसाय/धंधा	1. उपजीविका/ व्यवसाय/धंधा	1. उपजीविता/ व्यवसाय/पेशा	1. उपजीविका/धंधा	1. उपजीविका/ व्यवसाय/धंधा	1. व्यवसाय/धंधा

1	2	3	4	5	6	7
	2. अधिभोग 3. अधिशहण	— 3. कन्डा	2. भोग 3. कन्डा	2. अधिभोग 3. दखत	2. अधिवास 3. आधिपत्य/ दखल	
Occupy	1. अधिकार में करना/दखल करना	1. अधिकार में करना/ दखल करना	1. अधिकार में करना/ दखल करना	1. अधिभोग/करना दखल करना	1. अधिपत्य में लेना/ अधिवासित करना/बस जाना	1. अधिकार में करना/ दखल करना
Occurrence	2. स्थान घेरना 1 घटना	2. स्थान घेरना 1 घटना	2. स्थान घेरना 1. घटना 2. होना	1. घटना 2. होना 3. प्राप्ति-स्थान	1. घटना	2. स्थान घेरना 1. घटना
Octroi duty Off duty	1. चुंगी 1. काम के बाद/ काम पर न होना	1. चुंगी 1. काम के बाद/ काम पर न होना	1. चुंगी 1. काम के बाद/ काम पर न होना	1. चुंगी 1. काम के बाद/ काम पर न होना	1. चुंगी 1. काम के बाद/ काम पर न होना/ कार्य से छुट्टी पर/कार्य-विरत	1. चुंगी 1. काम के बाद/
Offence	2. खाली दिन 1. अपराध	1. अपराध	2. खाली दिन 1. अपराध	1. अपराध	2. खाली दिन 1. अपराध/ दुश्चरण	2. खाली दिन 1. अपराध
Offender	1. अपराधी	1. अपराधी	2. कष्ट/क्षोभ साधक 1. अपराधी/ अपराधकारी	1. अपराधी	1. अपराधी	1. अपराधी

1	2	3	4	5	6	7
Office —, attached	1. सलमन कार्यालय/ सलमन दफ्तर	1. सलमन कार्यालय/ सलमन दफ्तर	1. सलमन कार्यालय/ सलमन दफ्तर	1. सलमन कार्यालय	1. सलमन कार्यालय/ सलमन दफ्तर	1. सलमन कार्यालय
Office Subordinate	1. अधीनस्थ कार्यालय/ अधीन कार्यालय	1. अधीनस्थ कार्यालय/ अधीन कार्यालय	1. अधीन कार्यालय/ अधीनस्थ कार्यालय	1. अधीनस्थ कार्यालय/ अधीन कार्यालय	1. अधीनस्थ कार्यालय/ अधीन कार्यालय	1. अधीन कार्यालय
Office-bearer	1. पदाधिकारी	1. पदाधिकारी	1. पदाधिकारी	1. पदाारी	1. पदाारी/ पदाधिकारी	1. पदाारी
Office-copy	1. कार्यालय-प्रति/ दफ्तर की प्रति	1. कार्यालय-प्रति/ दफ्तर की प्रति	1. कार्यालय-प्रति/ दफ्तर की प्रति	1. कार्यालय-प्रति/ दफ्तर-कारी	1. कार्यालय-प्रति	1. कार्यालय-प्रति
Office-hours	1. कार्यालय-समय	1. कार्यालय-समय	1. कार्यालय-समय	1. कार्यालय-समय	1. कार्यालय समय	1. कार्यालय समय
Office-note	1. कार्यालय टिप्पणी/ कार्यालय नोट	1. कार्यालय- टिप्पणी	1. कार्यालय- टिप्पणी/ कार्यालय नोट	1. कार्यालय- टिप्पणी	1. कार्यालय टिप्पणी/ कार्यालय नोट/ कार्यालयीन टिप्पणी	1. कार्यालय- टिप्पणी
Office-order	1. कार्यालय आदेश	1. कार्यालय आदेश	1. कार्यालय आदेश	1. कार्यालय आदेश	1. कार्यालय आदेश	1. कार्यालय आदेश
Officer- in-charge	1. प्रभारी अधिकारी	1. प्रभारी अधिकारी	1. प्रभारी अधिकारी	1. प्रभारी पदाधिकारी/ कार्यभार पदाधिकारी	1. प्रभारी अधिकारी/ प्रभारी पदाधिकारी	1. कार्यभारी अधिकारी
Officer-on- special duty	1. विशेष कार्य अधिकारी	1. विशेष कार्य अधिकारी	1. विशेष कार्य अधिकारी/ विशेषाधिकारी	1. कार्य विशेष पदाधिकारी	1. विशेष कर्तव्यस्थ/ अधिकारी/ विशेषाधिकारी	1. विशेष कार्य अधिकारी
Official	1. शासकीय/ सरकारी	1. शासकीय/ सरकारी	1. शासकीय	1. शासकीय/ सरकारी/ राजकीय	1. शासकीय/ सरकारी	1. सरकारी कर्मचारी

	1	2	3	4	5	6	7
		2. आधिकारिक	2. आधिकारिक	2. आधिकारिक	2. आधिकारिक 3. पदीय/ पदावधि	2. आधिकारिक/ कार्यालयीन	
Official benches	1. सरकारी पदा	1. सरकारी पदा/ शासकीय पदा	1. सरकारी पदा	1. सरकारी पदा	1. सरकारी पदा	1. सरकारी पदा	1. सरकारी पदा
Official business	1. सरकारी काम	1. सरकारी काम	1. सरकारी काम	1. सरकारी काम	1. सरकारी काम	1. सरकारी काम/ शासकीय कार्य	1. सरकारी काम
Official duty	1. पदीय कर्तव्य	1. पदीय कर्तव्य	1. पदीय कर्तव्य/ आधिकारिक कर्तव्य/ शासकीय कर्तव्य	1. पदीय कर्तव्य/ आधिकारिक कर्तव्य/ शासकीय कर्तव्य	1. पदीय कर्तव्य/ सरकारी काम	1. पदीय कर्तव्य	1. पदीय कर्तव्य
Official Gallery	1. सरकारी दीर्घा	1. सरकारी दीर्घा	1. सरकारी दीर्घा	1. सरकारी दीर्घा	1. सरकारी दीर्घा	1. सरकारी दीर्घा	1. सरकारी दीर्घा
Official Language	1. राजभाषा	1. राजभाषा	1. राजभाषा	1. राजभाषा	1. राजभाषा	1. राजभाषा/ शासकीय भाषा/ सरकारी भाषा/ कार्यालयीन भाषा	1. राजभाषा
Official Secret	1. सरकारी गुप्त	1. सरकारी गुप्त/ सरकारी रहस्य	1. सरकारी गुप्त	1. सरकारी गुप्त	1. शासकीय गोपनीयता	1. सरकारी गुप्त	1. सरकारी गुप्त
Official Version	1. सरकारी कथन	1. सरकारी कथन/ 2. आधिकारिक कथन	1. सरकारी कथन	1. सरकारी कथन 2. आधिकारिक कथन	1. सरकारी कथन 2. आधिकारिक कथन	1. सरकारी कथन 2. आधिकारिक कथन	1. सरकारी कथन
Officiate	1. स्थानापन्न होना 2. स्थानापन्न रूप में काम करना	1. स्थानापन्न होना 2. स्थानापन्न रूप में काम करना	1. स्थानापन्न होना 2. स्थानापन्न रूप में काम करना	1. स्थानापन्न होना 2. स्थानापन्न रूप में काम करना	1. स्थानापन्न होना 2. स्थानापन्न रूप में काम करना	1. स्थानापन्न होना	1. स्थानापन्न होना

1	2	3	4	5	6	7
Officiating	1. स्थानापन्न	1. स्थानापन्न	1. स्थानापन्न	1. स्थानापन्न	1. स्थानापन्न/ कार्यवाहक	1. स्थानापन्न
On deputation	1. प्रतिनियुक्ति पर	1. प्रतिनियुक्ति पर	1. प्रतिनियुक्ति पर	1. प्रतिनियुक्ति पर	1. प्रतिनियुक्ति पर	1. प्रतिनियुक्ति पर
On probation	1. परीक्षाधीन/ परखाधीन	1. परीक्षाधीन/ परिबीक्षा पर/ आवमाइमी	1. परीक्षाधीन	1. परीक्षाधीन	1. परीक्षा पर/ परखाधीन	1. परखाधीन
Onus	1. भार/दायित्व	1. भार/दायित्व	1. भार/दायित्व	1. भार	2. परीक्षात्मक रूप से 1. भार/दायित्व	1. भार/दायित्व
Open delivery	1. खुला परिदान/ खुली सुपुर्दगी	1. खुली सुपुर्दगी	1. खुला परिदान/ खुली सुपुर्दगी/ खुला माल देना/ खुला बितरण	1. खुला बितरण खुली सुपुर्दगी/	1. खुला परिदान/ खुली सुपुर्दगी	1. खुली सुपुर्दगी
Open session	1. खुला अधिवेशन	1. खुला अधिवेशन	1. खुला अधिवेशन	1. खुला अधिवेशन	1. खुला अधिवेशन	1. खुला अधिवेशन
Opening balance	1. अग्रशेष/रोकड़ जमा/आदिशेष	1. अग्रशेष/रोकड़ जमा	1. अग्रशेष/रोकड़ जमा	1. अग्रशेष/ आरंभ शेष	1. प्रारंभिक शेष/ पिछली बाकी/ प्रारंभ में निकले हुए शेष	1. पिछली बाकी
Operation	1. प्रचालन	1. प्रवर्तन	1. परिपालन/चालन/ प्रवर्तन/प्रवृत्त होना	1. परिचालन/ प्रवर्तन	1. प्रचलन/चालन/ प्रवर्तन/प्रभाव/ प्रभावशीलता	1. प्रचालन
	2. सत्रिया		2. कार्य/क्रिया/ सत्रिया	2. क्रिया/सक्रिया/ कार्यवाही	2. क्रिया/कार्य/ सकार्य/कार्यवाही	2. सत्रिया
	3. शल्यक्रिया/ ऑपरेशन		3. शल्यकर्म	3. शल्यक्रिया	3. शल्य कर्म/क्रिया	
					4. प्रयोग	

1	2	3	4	5	6	7
Order of merit	1. गुणानुक्रम	1. योग्यताक्रम, गुणानुक्रम	1. योग्यताक्रम से	1. योग्यताक्रम	1. योग्यताक्रम से, गुणानुक्रम, योग्यतानुसार	1. योग्यताक्रम से
Ordinance	1. अध्यादेश	1. अध्यादेश	1. अध्यादेश	1. अध्यादेश	1. अध्यादेश	1. अध्यादेश
Ordinance Officer	1. आयुध अधिकारी/ आर्दिनेंस अफसर	1. आयुध अधिकारी	1. आयुध अधिकारी	1. आयुध अधिकारी	1. आयुध अधिकारी	1. आयुध अधिकारी
Organisation	1. सगठन	1. सगठन	1. सगठन/सघटन/ संस्था, व्यवस्था	1. सघटन, व्यवस्था	1. सगठन	1. सगठन
Orientation & study centre	1. अभिविन्यास तथा अध्ययन केन्द्र	1. अभिविन्यास तथा अध्ययन केन्द्र	1. अभिविन्यास तथा अध्ययन केन्द्र	1. अभिविन्यास तथा अध्ययन केन्द्र	1. अभिविन्यास तथा अध्ययन केन्द्र	1. अभिविन्यास तथा अध्ययन केन्द्र
Original	1. मूल प्रति (वि०) मूल/ मौलिक	1. मूल प्रति (वि०) मूल/ मौलिक	1. मूल प्रति (वि०) मूल/ मौलिक/ आरम्भिक	1. मूल (वि०) मौलिक/ आरम्भिक	1. मूल प्रति (वि०) मूल/ मौलिक/ आरम्भिक/ नवीन	1. मूल प्रति (वि०) मूल, मौलिक
Original copy	1. मूल प्रति	1. मूल प्रति	1. मूल प्रति	1. मूल प्रति	1. मूल प्रति	1. मूल प्रति
Out of date	1. पुराना/ गतावधिक/ अप्रचलित	1. पुराना/ गतावधिक	1. पुराना/ गतावधिक/ अप्रचलित	1. अप्रचलित/ अनूभवन	1. पुराना/ गतावधिक/ अप्रचलित/ गतप्रयोग	1. पुराना/ अप्रचलित
Out of order	1. खराब/चालू नहीं/ बिगड़ी दशा में	1. खराब/चालू नहीं/ बिगड़ी दशा में	1. बिगड़ी दशा में	1. खराब/चालू नहीं/ बिगड़ी दशा में	1. खराब/बिगड़त/ बिगड़ा हुआ/ चालू नहीं	1. खराब/चालू नहीं/ बिगड़ी दशा में
	2. अव्यवस्थित/ अनियमित	2. अव्यवस्थित/ अनियमित	2. अव्यवस्थित/ अनियमित	2. नियमवाह्य	2. नियमवाह्य	

1	2	3	4	5	6	7
Out of turn allotment	1. बिना पारी आवंटन	1. बिना पारी आवंटन	1. बिना पारी आवंटन 2. बिना पारी नियतन	1. पारी बाहर आवंटन	1. बिना पारी आवंटन	1. बिना पारी आवंटन
Out door Patients Department	1. बहिरंग रोगी विभाग, बाह्य रोगी विभाग	1. बहिरंग रोगी विभाग	1. बहिरंग रोगी विभाग, बाहरी रोगी विभाग, अत्यात्मिक रोगी विभाग	1. बाहरी रोगी विभाग, बहिर्वासी रोगी विभाग	1. बहिरंग रोगी विभाग/ बाह्य रोगी विभाग	1. बाह्य रोगी विभाग
Outfit allowance	1. परिधान भत्ता	1. परिधान भत्ता	1. सज्जा भत्ता/ सामग्री भत्ता	1. परिधान भत्ता, सज्जा भत्ता	1. परिधान भत्ता/ सज्जा भत्ता	1. परिधान भत्ता
Outgoing Bites	1. जाने वाली फाइलें/निर्गामी फाइलें	1. जाने वाली फाइलें/ निर्गामी फाइलें/ निर्गामी मिसिलें	1. जाने वाली फाइलें/निर्गामी फाइलें/निर्गामी मिसिलें/निर्गामी पचावनिर्पा	1. निर्गामी सचिका	1. जाने वाली फाइलें, निर्गामी फाइलें, सचिकायें, मिसिलें, बहिर्गमन फाइलें, बाह्य जाने वाली फाइलें	1. जाने वाली फाइलें
Out lay	1. परिष्यय 2. प्रारूप/छाया	1. परिष्यय 2. प्रारूप/छाया	1. परिष्यय	1. उद्ध्यय 2. छाया	1. उद्ध्यय, छर्ष 2. सागत	1. सागत 2. प्रारूप/छाया
Out put	1. उत्पादन/उत्पाद	1. उत्पादन	1. उत्पादन/ पैदावार 2. निष्पाती	1. उत्पादन 2. निष्पत्ति 3. पैदावार	1. उत्पादन 2. किया काम 3. पैदावार/उत्पन्न/प्रदान 4. प्रदान, भवदान	1. उत्पादन/उत्पाद

1	2	3	4	5	6	7
Outstanding	1. उत्कृष्ट/प्रकृष्ट	1. उत्कृष्ट/विशिष्ट 2. बकाया/शेष	1. उत्कृष्ट/विशिष्ट 2. अवशिष्ट/ बकाया 3. अशोधित/अदत्त/ अप्राप्त/खडा	1. उत्कृष्ट 2. अप्राप्त/बकाया 3. अशोधित 4. परादेय/निर्वैल्य	1. उत्कृष्ट 2. शेष/बकाया/ अवशिष्ट 3. अदत्त/अप्राप्त	1. उत्कृष्ट
Outward register	1. जावक रजिस्टर	1. जावक रजिस्टर	1. जावक रजिस्टर 2. जावक पत्री	1. जावक रजिस्टर	1. जावक रजिस्टर 2. जावक पत्री	1. जावक रजिस्टर
Outward returns	1. जावक विवरणियाँ	1. जावक विवरणियाँ	1. जावक विवरणियाँ	1. जावक विवरणियाँ	1. जावक विवरणियाँ	1. जावक विवरणियाँ
Over age	1. अधिक आयु	1. अधिक आयु	1. अधिकायु/ अतिवय	1. वयातीत	1. वयातीत, वयोत्तर, वयोपरि, निश्चित उम्र से ऊपर	1. अधिकायु
Over all	1. समस्त/समग्र/ कुल	1. समस्त/समग्र/ कुल	1. समस्त/सम्पूर्ण/ सर्व	1. समग्र 2. सर्वोपरि 3. सर्वच्छादी/ सर्वच्छाद 4. व्यापक	1. समस्त/कुल — 3. सर्वच्छादी 4. व्यापक 5. सब मिलाकर/ कुल मिलाकर	1. समस्त/कुल
Over due	1. अतिशोध्य 2. पुराना/बाकी	— 2. पुराना/बाकी	— 2. पुराना/बाकी	— 2. वीतकाल	— 2. पुराना/बाकी	— 2. पुराना/बाकी

	1	2	3	4	5	6	7
			3. अत्यावधिक	3. अत्यावधिक	3. अत्यधनीन/	3. अत्यावधिक/ शामासीत	
Overestimate	1 अधिप्राक्कसन/ अधिक अनुमान (क्र०) अधिक शंका/अधिक कृतना	1. अधिक अनुमान/ अधिक प्राक्कसन (क्र०) अधिक शंका/अधिक कृतना	3. अधिकाधिक	4. अतिप्राय 1. अधिप्राक्कसन/ अधिक अनुमान (क्र०) अधिक शंका/अधिक कृतना	4. अनिश्चय/घटा 1 अधिप्राक्कसन/ (क्र०) अधिप्राक्कसन करना	4. विस्तम्बित देय 1. अधिप्राक्कसन	— (क्र०) अधिक शंका/ अधिक कृतना
Over head Charge	1. ऊपरी खर्च	1. ऊपरी खर्च	1. ऊपरी खर्च/ शामान्य व्यय	2 बाधान्य व्यय	1. ऊपरी खर्च/ ऊपरी व्यय	1. ऊपरी खर्च/ ऊपरी व्यय	1. ऊपरी खर्च
Over Payment	1. अधिक भुगतान/ अधिक अदायगी	1 अधिक भुगतान/ अधिक अदायगी	1 अधिक भुगतान/ अधिक अदायगी	1 अधिक भुगतान/ अधिक अदायगी	1. अधिक भुगतान	1. अधिक भुगतान/ अधिक अदायगी 2. अधिशोधन/ अधिक शोधन 3 अधिक चुकीटी	1. अधिक भुगतान/ अधिक अदायगी
Overhauling	1. जीर्णोद्धार 2. पूरी मरम्मत/ ओवर हाल	1. जीर्णोद्धार 2. पूरी मरम्मत/ ओवर हाल	1. जीर्णोद्धार करना 2 ओवर हाल करना	1. जीर्णोद्धार करना 2 ओवर हाल करना	1. पुनर्पंजन 2. पूरी मरम्मत/ ओवर हाल 3 प्रतिस्तरकार	1. पुनर्पंजन/ पूर्व परीक्षण	1. पूरी मरम्मत
Over time	1. अतिरिक्त समय	1. अतिरिक्त समय	1. अतिरिक्त समय 2 अतिकाल	1. अतिरिक्त समय 2 अतिकाल	1. अधिसमय 2. समयोपरि/ अतिसमय	1. अतिरिक्त समय/ अधिसमय/ अधिक समय	1. अतिरिक्त समय

1	2	3	4	5	6	7
Over time allowance	1. अतिरिक्त समय भत्ता/ समयोपरि भत्ता	1. अतिरिक्त समय भत्ता	1. अतिरिक्त समय भत्ता/ अतिकाल भत्ता/ समयोपरि भत्ता	1. अधिसमय भत्ता	1. अतिरिक्त समय भत्ता	1. अतिरिक्त समय भत्ता
Owning authority	1. स्वामी प्राधिकारी/ मालिक प्राधिकारी	1. स्वामी प्राधिकारी/ मालिक प्राधिकारी	1. स्वामी प्राधिकारी/ मालिक प्राधिकारी	1. स्वामी प्राधिकारी	1. स्वामी प्राधिकारी	1. स्वामी प्राधिकारी
P						
Packet	1. पुलिदा/पैकेट	1. पुलिदा/पैकेट	1. पुलिदा/पैकेट	1. पुलिदा/पैकेट	1. पुलिदा/पैकेट/ पुडा/बडल/ सर्वेष्टिका	1. पुलिदा/पैकेट
Pact	1. समझौता	1. समझौता	1. समझौता	1. समझौता/सधि/ अभिविदा	1. समझौता/सधि/ प्रतिधाव 2. बचन-पत्र	2. समझौता
Pad	1. गद्दी/पैड	1. गद्दी/पैड	1. गद्दी/पैड 2. पत्रपुज, (चिकित्सा) उपधान	1. गद्दी/उपघाली 2. पैड/तल्प (क्रिया) उपघापन	1. गद्दी/उपघाली 1. पैड/पत्रचय/ लेखनपत्र धय	1. गद्दी/पैड
Pad, Ink	1. स्याही पैड/ मसिपैड	1. स्याही पैड/ मसिपैड	1. स्याही पैड/ मसिपैड	1. स्याही/पैड मसितल्प	1. स्याही पैड/ मसितल्प	1. स्याही पैड
Pad, Letter	1. पत्र पैड	1. पत्र पैड	1. पत्र पैड/पत्रपुज पैड	1. पत्राली	1. पत्र पैड	1. पत्र पैड
Pad, Writing	1. लेखन पैड	1. लेखन पैड	1. लेखन-पट	1. लेखन पैड	1. लेखनपैड	1. लेखन पैड

1	2	3	4	5	6	7
Pagination	1. पृष्ठसंख्या झालना	1. पृष्ठसंख्या झालना	1. पृष्ठसंख्या झालना/ पृष्ठसंख्या देना/ पृष्ठ संख्या झालना	1. पृष्ठ-संख्यापत्र	1. पृष्ठसंख्या झालना	1. पृष्ठसंख्या झालना
Paid	1. प्रदत्त/दत्त 2. सवेतन 3. भुगतान किया हुआ/ अदा किया हुआ	1. प्रदत्त/ 2. सवेतन 3. भुगतान किया हुआ अदा किया हुआ	1. प्रदत्त/दत्त/ दत्तशुल्क 2. सवेतन/बैतनिक 3. भुगतान किया हुआ/ अदा किया हुआ/ भुगतान हुआ/ अदा किया/ दे दिया/भोषित	1. संदत्त 2. बैतनिक 3. भुगतान किया हुआ/ भुगतान किया	1. दत्त 2. अदा किया हुआ 3. भुगतान किया हुआ/ भुगतान हुआ	— 3. भुगतान किया हुआ/ अदा किया हुआ
Painter	1. रंगसाज 2. चित्रकार	—	1. रंगसाज/पेंटर 2. चित्रकार 3. प्रलेपक	1. रंगसाज/रंगक 2. चित्रकार 3. पागर् (परिवहन)	4. दत्तभारक 5. बैतनिक 1. रंगसाज/रंगेसा/ रंग पोतने वाला/ रंगलेपक 2. पेंटर/चित्रकार	1. रंगसाज 2. चित्रकार
Pamphlet	1. पुस्तिका	1. पुस्तिका	1. पुस्तिका	1. पत्रिका/ पत्रकेट	1. पुस्तिका/ समुपुस्तिका/ शोपन्ना/पत्रकेट	1. पुस्तिका

1	2	3	4	5	6	7
Panel	1 नामिका	1. नामिका/पैनेल	1. नामिका 2. (सार्ब० नि०) परदा/दिल्हा 3. खंड/फलक	1. नामिका/तालिका/ पैनेल 2. दिल्हा/पल्हा 3. खंड/पट्टा/फलक (क्रिया) दिल्हा लगाना	1. नामिका/ षम-सूची/तालिका 2. पटिया	1 नामिका
Par-excellence Parity	1. श्रेष्ठ, उत्कृष्ट 1. समानता, बराबरी	1. श्रेष्ठ, उत्कृष्ट 1. समानता, बराबरी	1. श्रेष्ठ, उत्कृष्ट 1. समानता, समता	1. श्रेष्ठ, उत्कृष्ट 1. समानता, समता, साम्य 2. अनुरूपता 3. सममूल्य-दर	1. श्रेष्ठ, उत्कृष्ट 1. समानता, सममूल्यता, बराबरी	1. श्रेष्ठ, उत्कृष्ट 1. समानता, बराबरी
Parliament	1. ससद	1. ससद	1. ससद	1. ससद, पालियामेंट	1. ससद	1. ससद
Parliamentary	1. ससदीय	1. ससदीय	1. ससदीय	1. ससदीय, सासद, ससद्-	1. ससदीय, सांसद, ससद्-	1. ससदीय
Parliamentary affairs	1. ससदीय कार्य	1. ससदीय कार्य	1. ससदीय कार्य	1. ससदीय कार्य	1. संसदीय कार्य	1. ससदीय कार्य
Parliamentary democracy	1. ससदीय लोकतंत्र	1. ससदीय लोकतंत्र	1. ससदीय लोकतंत्र	1. ससदीय लोकतंत्र	1. ससदीय लोकतंत्र	1. ससदीय लोकतंत्र
Part file	1. खंड फाइल, खंड मिसिल/ खंड सचिका	1. खंड फाइल	1. खंड फाइल, खंड मिसिल, खंड सचिका, खंड पन्नावली	1. खंड सचिका	1. खंड फाइल, खंड मिसिल	1. खंड फाइल

1	2	3	4	5	6	7
Part time	1. अंशकालिक	1. अंशकालिक	1. अंशकालिक	1. अंशकालिक	1. अंशकालिक	1. अंशकालिक
Partiality	1. पक्षपात	1. पक्षपात	1. पक्षपात	1. पक्षपात, तरफदारी, अनुरक्ति	1. पक्षपात	1. पक्षपात
Particulars	1. व्यौरा, विशिष्टियाँ	1. व्यौरा, विशिष्टियाँ	1. व्यौरा, विशिष्टियाँ, विवरण	1. व्यौरा, विवरण, विशिष्टियाँ	1. व्यौरा, विवरण, विशिष्टियाँ	1. व्यौरा
Partition	1. विभाजन, बँटवारा	1. विभाजन, बँटवारा	1. विभाजन, बँटवारा	1. विभाजन, बँटवारा	1. विभाजन, बँटवारा	1. विभाजन, बँटवारा
Partnership	1. साझापत्र, भागिता-विलेख	1. साझापत्र	1. साझापत्र, भागिता-विलेख	1. साझापत्र साझेदारी पत्र	1. सामापत्र, भागिता-विलेख	1. साझापत्र
Pass	1. (समा) पास	1. पास	1. पास, प्रवेशपत्र	1. पास/प्रवेशपत्र/ अनुमति पत्र	1. पास/प्रवेश-पत्र	1. पास/प्रवेशपत्र
	2. पारण	2. पारण	2. यात्रापत्र 3. दर्रा, गली 4. सकट दशा/ स्थिति	2. पारण 3. दर्रा 4. सकटापन्न अवस्था/ गाजुक हालत	2. पार-पत्र 3. दर्रा, छाटी	2. पार-पत्र
	1. (क्रिया) पास करना	1. (क्रिया) पास करना	1. (क्रिया) पास करना/ सम्मत करना/ पारित करना/ पारित होना/ पास होना	1. पारित होना/ पारित करना/ पास करना/ पास होना/ पास होना	1. पास करना/ पारित करना	1. (क्रिया) पास करना
	2. पार जाना/ गुजारना	2. पार जाना/ गुजरना	2. गुजरना/ भागे बढ़ाना	2. पार जाना/ गुजर जाना	2. पार करना	2. पार जाना

1	2	3	4	5	6	7
			3. उत्तीर्ण होना	3 उत्तीर्ण होना	3. उत्तीर्ण करना	
			4. बीतना/बिताना	4. देना		
			5. पास अना	5 चला जाना		
Pass bills	1. बिल पास करना	1. बिल पास करना	1. बिल पास करना	1 बिल पास करना	1. बिल पास करना	1. बिल पास करना
Passage	1. मार्ग/गली/गलिया	1. मार्ग/गली	1. निर्गम/गतिपारा/रास्ता/मार्ग	1. मार्ग/गली/पथ/रास्ता	1. मार्ग/गली/पथ/पगडंडी	1. मार्ग/गली
	2. किराया	2. किराया	2. किराया	2. मार्गव्यय	2. किराया	2. किराया
	3. अश/उद्धरण	3. अश, उद्धरण	3. (लेखा, भाषण आदि का) अश/उद्धरण	3. लेखारा	3. लेखाश/लेख्याश	3 अश
	4. यात्रा	4. यात्रा	4. यात्रा	4. यात्रा		4. यात्रा
			5. यात्राधिकार/गमनाधिकार	—		
			6. निर्गम	—		
Passport	1. पारपत्र, पासपोर्ट	1. पासपोर्ट, पारपत्र	1. पासपोर्ट, पारपत्र, बीसा	1. पासपोर्ट, पारपत्र	1. पारपत्र, पासपोर्ट	1. पारपत्र, पासपोर्ट
Patent	1. पेटेंट, एकस्व	1. पेटेंट, एकस्व	1. पेटेंट, एकस्व	1. पेटेंट, एकस्व	1. पेटेंट, एकस्व	1. पेटेंट, एकस्व
				2. प्रत्यक्ष, सुस्पष्ट		
Patron	1. संरक्षक	1. संरक्षक	1. संरक्षक	1. संरक्षक	1. संरक्षक	1. संरक्षक
	2. प्रशयदाता	2. प्रशयदाता	2. प्रशयदाता	—	2. आशयदाता	
Patronage	1 संरक्षण	1. संरक्षण	1. संरक्षण	1. संरक्षण	1. संरक्षण	1. संरक्षण
			2. संरक्षकत्व	—	—	
			3. प्रशय	3. प्रशय	3. प्रशय, आशय	

1	2	3	4	5	6	7
Pay	1. वेतन	1. वेतन	1. वेतन	1. वेतन, तनखाह	1. वेतन, तनखाह	1. वेतन, तनखाह
Pay, advance	1. अग्रिम वेतन	1. अग्रिम वेतन	1. अग्रिम वेतन, अग्रिम	1. अग्रिम वेतन	1. अग्रिम वेतन	1. अग्रिम वेतन
Pay, Basic	1. मूल वेतन	1. मूल वेतन	1. मूल वेतन	1. मूल वेतन	1. मूल वेतन	1. मूल वेतन
Pay-bill	1. वेतन बिल, वेतन-विपत्र	1. वेतन बिल, वेतन-पत्र	1. वेतन-पत्र, वेतन-बिल	1. वेतन बिल वेतन-विपत्र	1. वेतन बिल, वेतन-देयक, वेतन-पत्र	1. वेतन बिल
Pay-day	1. वेतन दिवस	1. वेतन दिवस	1. वेतन दिवस	1. वेतन दिवस	1. वेतन दिन 2. शोधन दिवस	1. वेतन दिन
Pay —, Fixed	1. नियत वेतन	1. नियत वेतन	1. नियत वेतन	1. नियत वेतन	1. नियत वेतन	1. नियत वेतन
Pay —, Personal	1. वैयक्तिक वेतन	1. वैयक्तिक वेतन	1. वैयक्तिक वेतन, व्यक्तिक वेतन	1. वैयक्तिक वेतन, निजी वेतन	1. वैयक्तिक वेतन, निजी वेतन	1. वैयक्तिक वेतन, निजी वेतन
Pay —, Presumptive	1. प्रकल्पित वेतन	1. प्रकल्पित वेतन	1. प्रकल्पित वेतन	1. प्रकल्पित वेतन, सभावित वेतन, कल्पित वेतन	1. प्रकल्पित वेतन, समावी वेतन	1. सभावी वेतन
Pay —, special	1. विशेष वेतन	1. विशेष वेतन	1. विशेष वेतन	1. विशेष वेतन	1. विशेष वेतन	1. विशेष वेतन
Pay —, substantive	1. मूलपद वेतन	1. सभ्यार्थ वेतन, मौलिक पद वेतन	1. मौलिक पद वेतन	1. मौलिक पद वेतन	1. मूल पद वेतन, मौलिक पद वेतन	1. मूल पद वेतन
Pay order	1. अदायगी आदेश	1. भुगतान आदेश	1. अदायगी आदेश, भुगतान आदेश	1. भुगतान आदेश, अदायगी आदेश	1. भुगतान आदेश, अदायगी आदेश	1. भुगतान आदेश
Pay roll	1. वेतन-पत्रक	1. वेतन-पत्रक	1. वेतन-पत्रक	1. वेतन-चिट्ठा, वेतन-पत्रक	1. वेतन-पत्रक	1. वेतन-पत्रक

1	2	3	4	5	6	7
Pay-scale	1. वेतनमान	1. वेतनमान	1. वेतनमान	1. वेतनमान	1. वेतनमान	1. वेतनमान
Pay-slip	1. वेतन-पत्र	1. वेतन-पत्र	1. वेतन-पत्र	1. वेतन-पत्र, वेतन-पत्र	1. वेतन-पत्र	1. वेतन-पत्र
Payable	1. देय/भुगतानी	1. भुगतान योग्य, देय	1. देय, शोधनीय	1. भुगतानी, सदेय, देय, भुगतान के लिये	1. देय, भुगतान योग्य, भुगताने जाने योग्य, दिने जाने योग्य	1. देय, भुगतान योग्य
Payee	1. पानेवाला, आदातार	1. आदाता, पानेवाला, प्राप्तकर्ता	1. पानेवाला, आदातार	1. प्राप्तकर्ता, पानेवाला, आदातार	1. पानेवाला, दण्ड पानेवाला, आदाता, भुगतानगृहीता	1. पानेवाला
Payer	1. भुगतानकर्ता 2. दाता	1. भुगतानकर्ता, देनेवाला 2. दाता	1. भुगतानकर्ता, देनेवाला 2. दाता	1. प्राप्तकर्ता, पानेवाला 2. आदाता	1. देनेवाला, चुकानेवाला 2. दाता, भुगतान करने वाला, शोधन	1. भुगतानकर्ता 2. दाता
Payment	1. भुगतान, सदाय, देना	1. भुगतान, अदायगी	1. भुगतान, सदाय, शोधन, अदायगी 2. व्यय (देय, मूल्य मुक्त आदि)	1. भुगतान, सदाय, अदायगी	1. भुगतान, अदायगी, चुकान, शोधन	1. भुगतान
Pecuniary	1. धनसंबंधी	1. धनसंबंधी	1. धनसंबंधी, आर्थिक	1. धनसंबंधी, आर्थिक, धनीय	1. धनसंबंधी आर्थिक, धनविषयक, वित्तिक	1. धनसंबंधी
Pediatrician	1. बाल-चिकित्सक	1. बाल-चिकित्सक	1. बालरोग चिकित्सक	1. बालरोग चिकित्सक	1. बाल-चिकित्सक	

1	2	3	4	5	6	7	
Penal code	1. दंड-संहिता	1. दंड-संहिता	1. दंड-संहिता	1. दंड-संहिता	1. दंड-संहिता	1. दंड-संहिता	1. दंड-संहिता
Penal rent	1. दंड-स्वरूप किराया	1. दंडस्वरूप किराया	1. दंड-स्वरूप किराया	1. दंड-स्वरूप किराया	1. दंड-स्वरूप किराया	1. दंड-स्वरूप किराया	1. दंड-स्वरूप किराया
Penalty	1. दंड 2. अप्रदंड, जुर्माना 3. शास्ति	1. दंड 2. अप्रदंड 3. शास्ति	1. दंड 2. अप्रदंड 3. शास्ति	1. दंड 2. अप्रदंड, पेनाल्टी 3. शास्ति	1. दंड 2. अप्रदंड, पेनाल्टी 3. शास्ति	1. दंड — 3. शास्ति	1. दंड 2. जुर्माना
Pending	1. अनिर्णीत, पड़ा हुआ, रका हुआ, सबित	1. सबित, अनिर्णीत, रका हुआ, पड़ा हुआ	1. अनिर्णीत, बिचाराधीन, पड़ा हुआ, रका हुआ/लंबित, अनिस्तारित, अनिर्णीत	1. लंबित, सबित रहने तक	1. सबित, सम्बन्धित, अनिर्णीत, निसम्बित, पड़ा हुआ, बिचाराधीन	1. सबित, सम्बन्धित, अनिर्णीत, निसम्बित, पड़ा हुआ, बिचाराधीन	1. निसम्बित
Pensionable	2. तक/पर्यन्त 1. पेंशनयोग्य, पेंशनी	2. तक/पर्यन्त 1. पेंशनयोग्य	1. पेंशनयुक्त, सन्निवृत्तिक	2. पर्यन्त, अवधि मे 1. पेंशनयोग्य, निवृत्ति-वेतन योग्य/पेंशनी	2. तक/पर्यन्त 1. पेंशनयोग्य, सन्निवृत्ति-वेतन, निवृत्ति-वेतन योग्य	2. तक/पर्यन्त 1. पेंशनयोग्य, सन्निवृत्ति-वेतन, निवृत्ति-वेतन योग्य	1. पेंशनयोग्य
Pensionable Post	1. पेंशनी पद	1. पेंशनी पद	1. पेंशनयुक्त पद	1. पेंशनी पद	1. पेंशनी पद	1. पेंशनी पद	1. पेंशनी पद
Pensioner	1. पेंशनभोगी	1. पेंशनभोगी	1. पेंशनभोगी, पेंशनवाही	1. पेंशनभोगी, निवृत्ति-वेतन- भोगी	1. पेंशनभोगी, निवृत्ति-वेतन- भोगी	1. पेंशनभोगी, निवृत्ति वैतनिक, निवृत्ति वेतनभोगी	1. पेंशनभोगी
Pen-tray	1. कलमदान	1. कलमदान	1. लेखनी-घर, लेखनी-धरन	1. कलमदान	1. कलमदान	1. कलमदान	—

1	2	3	4	5	6	7
Per annum	1. प्रतिवर्ष, वार्षिक, सालाना	1. वार्षिक, प्रतिवर्ष, सालाना	1. प्रतिवर्ष, वार्षिक, सालाना	1. प्रतिवर्ष, वार्षिक, सालाना	1. प्रतिवर्ष, वार्षिक, सालाना	1. सालाना
Per bearer	1. वाहक द्वारा, पत्रवाहक द्वारा	1. पत्रवाहक द्वारा, वाहक द्वारा	1. पत्रवाहक द्वारा, वाहक द्वारा	1. वाहक द्वारा, पत्रवाहक द्वारा	1. वाहक द्वारा, पत्रवाहक द्वारा, वाहक के हाथ	1. वाहक के हाथ, वाहक द्वारा
Per capita	1. प्रतिव्यक्ति	1. प्रतिव्यक्ति	1. प्रतिव्यक्ति	1. प्रतिव्यक्ति, व्यक्तिवार	1. प्रतिव्यक्ति, व्यक्तिपरक	1. प्रतिव्यक्ति
Percent	1. प्रतिशत, फीसदी	1. प्रतिशत	1. प्रतिशत, फीसदी	1. प्रतिशत, फीसदी	1. प्रतिशत, सैकड़ा, प्रतिशतकेष	1. प्रतिशत
Performance	1. निष्पादन, पालन	1. निष्पादन	1. पालन, कला, कौशल 2. अभिनय, खेल, प्रदर्शन	1. पालन, कार्यसंपादन, संपादन 2. प्रदर्शन 3. करना (किसी काम को), काम	1. निष्पादन, सम्पादन 2. प्रदर्शन 3. काम, अनुष्ठान, कृति 4. पालन	1. निष्पादन, पालन
Performance register	1. निष्पादन रजिस्टर	1. निष्पादन रजिस्टर	1. निष्पादन रजिस्टर, निष्पादन-पत्री	1. निष्पादन रजिस्टर, कार्य-सम्पादन रजिस्टर	1. निष्पादन रजिस्टर, निष्पादन-पत्री	1. निष्पादन रजिस्टर
Period	1. अवधि, कालावधि	1. अवधि	1. अवधि, कालावधि 2. (शिक्षा)घटा	1. अवधि, कालावधि — 3. काल, 4. युग	1. अवधि, कालावधि 2. घटा 3. काल, समय 4. युग	1. अवधि

1	2	3	4	5	6	7
Periodical	1. (स०) पत्र/ सामायिकी/ पत्रिका (वि०) आवधिक, समय-समय पर, सामयिक, कालिक	1. सामयिक पत्र/पत्रिका (वि०) आवधिक, समय-समय पर	1. आवधिक पत्र/ पत्रिका (वि०) आवधिक, सामयिक, कालिक, नियत- कालिक	1. सामयिकी/ पत्रिका, नियतकालिक पत्रिका (वि०) आवधिक, सामयिक, कालिक, नियतकालिक	1. साप्ताहिक पत्र, नियतकालिक पत्रिका (वि०) नियत- कालिक, कालिक	1. नियतकालिक पत्रिका
Periodical inspection	1. आवधिक निरीक्षण, समय-समय पर निरीक्षण	1. समय-समय निरीक्षण, आवधिक निरीक्षण	1. आवधिक निरीक्षण, समय-समय पर निरीक्षण	1. आवधिक निरीक्षण, नियतकालिक निरीक्षण	1. आवधिक निरीक्षण, समय-समय पर निरीक्षण	निरीक्षण
Periodical report	1. आवधिक रिपोर्ट	1. आवधिक रिपोर्ट	1. आवधिक रिपोर्ट, नियतकालिक रिपोर्ट	1. आवधिक रिपोर्ट, नियतकालिक रिपोर्ट/प्रतिवेदन	1. आवधिक रिपोर्ट	1. आवधिक रिपोर्ट
Periodical return	1. आवधिक विवरण	1. आवधिक विवरणियाँ	1. आवधिक विवरण, नियतकालिक विवरण	1. आवधिक विवरण, नियतकालिक विवरण	1. आवधिक विवरण, नियतकालिक विवरण नियतकालिक प्रविवरण	1. आवधिक विवरण
Perishable	1. विनाशवान	1. विनाशवान	1. विनाशवान	1. विनश्वर, नाशवान, विनाशवान, विगहनवाला	1. विगहनवासी शोषनाशी, मश्वर, क्षयशील, नाशवान	1. विगहनवासी

1	2	3	4	5	6	7
Permanency	1. स्थायित्व	1. स्थायित्व	1. स्थायित्व	1. स्थायित्व	1. स्थायित्व	1. स्थायित्व
Permanent	1. स्थायी	1. स्थायी	1. स्थायी	1. स्थायी	1. स्थायी	1. स्थायी
Per mensusum	1. प्रतिमाह, माहवार	1. प्रतिमास	1. प्रतिमास, माहवार	1. प्रतिमाह	1. प्रतिमास, माहवार	1. प्रतिमास
Permissible	1. अनुमेय, अनुज्ञेय	1. अनुमेय, अनुज्ञेय	1. अनुज्ञेय	1. अनुज्ञेय, अनुमत	1. अनुमेय, अनुज्ञेय, स्वीकार्यं	1. अनुमेय
Permission	2. क्षम्य	2. क्षम्य				
	1. अनुज्ञा, अनुमति	1. अनुमति, अनुज्ञा	1. अनुज्ञा, अनुमति	1. अनुज्ञा, अनुमति	1. अनुज्ञा, अनुमति	1. अनुमति
Permit	1. (स) अनुज्ञा-पत्र परमिट	1. अनुज्ञा-पत्र, परमिट	1. अनुज्ञा-पत्र, परमिट, अनुज्ञा	1. अनुज्ञा-पत्र, परमिट, अनुमति-पत्र	1. परमिट, अनुज्ञा-पत्र, अनुज्ञा	1. परमिट
	(क्रि०) अनुज्ञा देना	(क्रि०) अनुज्ञा देना	(क्रि०) अनुज्ञा देना	(क्रि०) अनुज्ञा, अनुमति देना	(क्रि०) अनुज्ञा/ अनुमति देना	(क्रि०) अनुमति देना
Permitted	1. अनुज्ञप्त/अनुमति- प्राप्त	1. अनुमत्त, अनुमतिप्राप्त	1. अनुज्ञात	1. अनुज्ञा-प्राप्त, अनुज्ञात, परमिटधारी	1. अनुज्ञात, अनुज्ञापित	1. अनुमतिप्राप्त, 2. अनुमति दी जाती है
Perpetual	2. अनुमति दी जाती है	2. अनुमति दी जाती है				
	1. शाश्वत	1. शाश्वत	1. शाश्वत, चिरस्थायी	1. शाश्वत, चिरस्थायी	1. शाश्वत, चिरस्थायी	1. चिरस्थायी
Personal	1. वैयक्तिक	1. वैयक्तिक	1. वैयक्तिक, व्यक्तिसत्	1. वैयक्तिक, निजी	1. वैयक्तिक, स्वीय, निजी, दैहिक, आत्मीय	1. वैयक्तिक

1	2	3	4	5	6	7
Personal —assistant	1. वैयक्तिक सहायक	1. वैयक्तिक सहायक	1. वैयक्तिक सहायक	1. वैयक्तिक सहायक, निजी सहायक	1. वैयक्तिक सहायक	1. वैयक्तिक सहायक
Personnel	1. कामिक	1. कामिक	1. कामिक	1. कामिक, कामिकी	1. कामिक कर्मचारीवर्ग सेविवर्ग 2. सदस्यगण	1. कामिक
Perspective Persuade	1. सदस्य/परिचय 1. समझाना/मनाना	1. सदस्य 1. समझाना/मनाना	1. सदस्य/परिदृष्टि 1. समझाना- बुझाना/मनाना	1. सदस्य/अनुदृष्टि 1. समझाना/ मनाना	1. स्वरूप/दृष्टिकोण 1. समझाना/ मनाना/ समझाना-बुझाना	1. सदस्य 1. समझाना/मनाना
	2. सहमत कराना	2. सहमत करना	2. सहमत करना/ विश्वास दिलाना	—	—	२ सहमत करना
Persuasion	1. समझाना- बुझाना/मनाना 2. अनुनय/प्रवर्तन	1. समझाना/मनाना/ बुझाना २. अनुनय	1. समझाना- बुझाना/मनाना २. अनुनय	1. मनाना 2. अनुनय	3. अनुनय करना 1. मनाना/मनुहार/ समझाना 2. अनुनय	1. समझाना- बुझाना/मनाना —
Perusal	1. अवलोकन/देखना	1. अवलोकन/देखना	1. अवलोकन/देखना 2. परिशीलन	1. अवलोकन — 3. पढ़ना	1. अवलोकन/ २. परिशीलन/वाचन 3. पढ़ना 4. अवलोकनार्थ	1. अवलोकन
Petition	1. याचिका/अर्जी	1. याचिका	1. याचिका/अर्जी	1. याचिका/अर्जी 2. प्रार्थना-पत्र	1. याचिका/अर्जी/ याचिका-पत्र २. प्रार्थना पत्र 3. आवेदन-पत्र	1. याचिका/अर्जी

1	2	3	4	5	6	7
Plaintiff Plan	1. वादी 1. योजना	1. वादी 1. योजना	1. वादी 1. योजना/ परियोजना	1. वादी/गुरुरई 1. योजना/ आयोजन/प्लान	1. वादी 1. योजना/ आयोजन/प्लान/ उपाय	1. वादी 1. योजना
Planner	1. योजनाकार	1. योजनाकार	1. योजनाकार/ नियोजनाकार/ नियोजक	1. योजनाकार आयोजक	1. योजनाकार	1. योजनाकार
Planning	1. योजना	1. योजना/आयोजना	1. योजना	1. योजना/आयोजन आयोजना	1. आयोजना/ योजना/ आयोजना	1. योजना
	2. योजना बनाना	2. योजना बनाना	2. योजना बनाना	2. योजना बनाना, आयोजना बनाना	2. योजना बनाना आयोजना बनाना	
			3. नियोजन			
Planning Commission Pleader	1. योजना आयोग 1. अथिबक्ता/ प्लीडर	1. योजना आयोग 1. अथिबक्ता/ प्लीडर	1. योजना आयोग 1. अथिबक्ता/ प्लीडर	1. योजना आयोग 1. अथिबक्ता/बकील	1. योजना आयोग 1. अथिबक्ता/ बकील/प्लीडर 2. अभिभावक	1. योजना कमीशन 1. बकील
Pleasure	1. प्रसाद	1. प्रसाद	1. प्रसाद/प्रसन्नता/हर्ष 2. सुख/आनन्द 3. अन्टा	1. प्रसाद 2. सुख/आह्लाद	1. प्रसाद, प्रसन्नता 2. सुख/विहार	1. प्रसाद

1	2	3	4	5	6	7
Plenary	1. पूर्ण	1. पूर्ण	1. पूर्ण	1. पूर्ण	1. पूर्ण/संपूर्ण	1. पूर्ण
Plenary Conference	1. पूर्ण सम्मेलन	1. पूर्ण सम्मेलन	1. पूर्ण सम्मेलन	1. पूर्ण सम्मेलन	2. सर्वांगीण	1. पूर्ण सम्मेलन
Plenary Session	1. पूर्ण अधिवेशन	1. पूर्ण अधिवेशन	1. पूर्ण अधिवेशन/ प्रारम्भिक अधिवेशन	1. पूर्ण अधिवेशन/ पूर्ण सम्मेलन	1. पूर्ण अधिवेशन	1. पूर्ण अधिवेशन
Plus amendments & mious amendments	1. वृद्धि के सशोधन और कमी के सशोधन	1. वृद्धि के सशोधन एव कमी के सशोधन	1. वृद्धि के सशोधन एव कमी के सशोधन	1. वृद्धि के सशोधन एव कमी के सशोधन	1. वृद्धि के सशोधन एव कमी के सशोधन	—
Police	1. आरक्षी/पुलिस	1. आरक्षी/पुलिस	1. आरक्षी/पुलिस	1. आरक्षी/पुलिस	1. आरक्षी/आरक्षक/पुलिस	1. आरक्षी, पुलिस
Policy	1. बीमा-पालिसी/ बीमा 2. नीति	1. बीमा-पालिसी/ बीमापत्र 2. नीति	1. पालिसी 2. नीति	1. बीमा-पालिसी 2. नीति	1. बीमा-पालिसी 2. पानिसी/नीति/ कार्य-नीति	1. बीमा-पालिसी 2. नीति
Poll	1. मतदान	1. मतदान	1. मतदान 2. मतसंख्या/ मतगणना	1. मतदान/ मतदान करना/ वोट डालना 2. मतसंख्या	1. मतदान/ मत डालना/देना/ वोट देना 2. मतसंख्या/ मतदत्तसंख्या 3. मतस्थान/ मतदान स्थान	1. मतदान

1	2	3	4	5	6	7
Pool staff	1. पूल अमना/ पूल कर्मचारी	—	1. समुच्चय/ कर्मचारीवर्ग	—	—	—
Port Conservator	1. पत्तन सरक्षक	1. पत्तन सरक्षक	1. पत्तन सरक्षक	1. पत्तन सरक्षक	1. पत्तन सरक्षक	1. पत्तन सरक्षक
Port trust	1. पत्तन-प्रबन्ध समिति/ पत्तन-न्यास	1. पत्तन-प्रबन्ध समिति	1. पत्तन-प्रबन्ध समिति	1. पत्तन-प्रबन्ध समिति	1. पत्तन-प्रबन्ध समिति	1. पत्तन-प्रबन्ध समिति
Porter	1. पोर्टर/भारिता	1. पोर्टर/भारिता	1. पोर्टर/भारिक/ मोटिया	1. भारवाह/कुली	1. भारिका	1. पोर्टर
Portfolio	1. सविभाग	1. सविभाग	1. विभाग/ कार्यविभाग	1. सविभाग/विभाग पोर्टफोलियो	1. मन्त्री का कार्य-विभाग/ पोर्टफोलियो	—
Possession	1. कब्जा	1. कब्जा/ स्वाधीनता	1. कब्जा/भोग परिग्रह	1. कब्जा/ स्वाधिकार	1. कब्जा/स्ववश अधिकार/ अधिभोग आधिपत्य	1. कब्जा
Post	1. पद	1. पद	1. पद	1. पद/पदरपापन करना	1. पद/स्थान/जगह	1. पद
	2. डाक	2. डाक	2. डाक	2. डाक/उत्तर	2. डाक/श्रेय	2. डाक
	3. केन्द्र	3. केन्द्र	3. केन्द्र	—	—	3. केन्द्र

1	2	3	4	5	6	7
	4. चौकी	4. चौकी	4. चौकी (पुलिस/सेवा) 5. छम्भा/स्तम्भ		4. चौकी/ग्रहरी/स्थान 5. छम्भा, छम्भ/दण्ड, स्तम्भ	4. चौकी
Post, Permanent pensionable	1. स्थायी पेंशनी पद	1. स्थायी पेंशन-योग्य पद/ स्थायी पेंशन पद	1. स्थायी पेंशनी पद	1. स्थायी पेंशन पद	1. स्थायी पेंशन पद	1. स्थायी पेंशन पद
Post, selection	1. प्रवरण पद/ सेलेक्शन पद	1. प्रवरण पद/ चयन पद	1. प्रवरण पद/ सेलेक्शन पद	1. प्रवरण पद	1. प्रवरण पद	1. प्रवरण पद
Post, Substantive	1. मौलिक पद/ मूल पद	1. मौलिक पद	1. मौलिक पद/ मूल पद	1. मौलिक पद	1. मौलिक पद/ मूल पद	1. मूल पद
Post-dated	1. उत्तर-तारीखी/ उत्तर दिनांकित	1. उत्तर-दिनांकित	1. उत्तर-तारीखी/ उत्तर-दिनांकित	1. उत्तर-दिनांकित	1. उत्तर-तारीखी/ उत्तर-दिनांकित, उत्तर तिथि/ उत्तर तिथीय/ बाद की तारीख- का	1. बाद की तारीख का
Post-graduate	1. स्नातकोत्तर	1. स्नातकोत्तर	1. स्नातकोत्तर	1. स्नातकोत्तर	1. स्नातकोत्तर/ अधिस्नातक	1. स्नातकोत्तर
Postal certificate	1. डाक प्रमाणपत्र	1. डाक प्रमाणपत्र	1. डाक प्रमाणपत्र	1. डाक प्रमाणपत्र	1. डाक प्रमाणपत्र	1. डाक प्रमाणपत्र
Postal copies	1. डाक प्रतियाँ	1. डाक प्रतियाँ	1. डाक प्रतियाँ	1. डाक प्रतियाँ	1. डाक प्रतियाँ	1. डाक प्रतियाँ
Posthumous	1. मरणोपरांत/ मरणोत्तर	1. मरणोपरांत/ मरणोत्तर	1. मरणोत्तर	1. मरणोपरांत	1. मरणोपरांत/ मरणोत्तर/ मृत्युत्तर	1. मरणोपरांत

1	2	3	4	5	6	7
Postlog	1. तैनाती/ पद-स्थापना	1. पदस्थापन/ पदस्थापना	1. तैनाती, स्थापन/ पदस्थापना 2. प्रवर्षि 3. प्रेषण	1. पदस्थापन, डाक में छोड़ना, डाक में डालना	1. तैनाती, पदस्थापना	1. तैनाती ०
Postpone	1. मुस्तवी करना	1. मुस्तवी करना	1. मुस्तवी करना/ स्वगित करना	1. मुस्तवी करना/ स्वगित करना	1. मुस्तवी करना/ स्वगित करना/ विलम्बित करना/ आगे ढकेल देना/ आगे हटा देना	1. मुस्तवी करना
Power	1. शक्ति 2. बिजली	1. शक्ति/अधिकार 2. बिजली/विद्युत	1. शक्ति/अधिकार/ अधितार 2. बिजली/विद्युत	1. शक्ति 2. बिजली	1. शक्ति/सामर्थ्य/ अधिकार 2. बिजली/विद्युत (क्र०) शक्ति हथिया लेना, सत्ताकूट होना, अधिकार ग्रहण करना	1. शक्ति 2. बिजली
Powerhouse	1. बिजलीघर	1. बिजलीघर	1. बिजलीघर	3 घात 1. बिजलीघर	1. बिजलीघर/ विद्युतपुह	1. बिजलीघर
Power of Attorney	1. मुख्तारनामा	1. मुख्तारनामा	1. मुख्तारनामा/ अधिकरण पत्र	1. मुख्तारनामा/ वकालतनामा	1. मुख्तारनामा/ वकालतनामा/ प्राधिकरणपत्र/ प्रतिनिधिपत्र/ अधिकारपत्र	1. मुख्तारनामा

1	2	3	4	5	6	7
Practice	1. पद्धति 2. कर्म/पेशा	1. पद्धति 2. कर्म/पेशा	1. पद्धति/परिपाटी 2. कार्य/व्यवसाय (चिकित्सा) 3. व्यवहार 4. अभ्यास	1. परिपाटी 2. व्यवसाय 3. व्यवहार 4. अभ्यास	1. पद्धति/आचरण/ कार्यप्रणाली 2. कृति/व्यवसाय/ उत्तर्जन 3. व्यवहार/प्रयोग/ नियन्त्रण/प्रथा/रिटि 4. अभ्यास	1. पद्धति 2. कर्म/पेशा
Practice, Legal	1. वकालत	1. वकालत	1. वकालत	1. वकालत/ विधि व्यवसाय	1. वकालत	1. वकालत
Practice, Medical	1. चिकित्साकर्म/ डाक्टरपेशा	1. चिकित्सा- व्यवसाय/ डाक्टरपेशा	1. चिकित्सा कर्म/ डाक्टरपेशा	1. चिकित्सा- व्यवसाय/ डाक्टरपेशा	1. चिकित्साकर्म/ डाक्टरपेशा	1. चिकित्साकर्म/ डाक्टरपेशा
Preamble	1. प्रस्तावना/ उद्देशिका	1. प्रस्तावना	1. प्रस्तावना/ उद्देशिका 2. आमुख	1. उद्देशिका	1. प्रस्तावना/ प्राक्कथन 2. आमुख 3. भूमिका	1. प्रस्तावना
Precaution	1. पूर्वविधान/ पूर्वोपाय/ एहतियत	1. सावधानी/ सतर्कता/ एहतियत	1. पूर्वविधानी/ पूर्वोपाय/ सतर्कता/ सावधानी	1. पूर्वविधान/ पूर्वोपाय एहतियत	1. पूर्वविधान/ पूर्वोपाय/ सावधानी/ सतर्कता/ पूर्वसावधानी	1. सावधानी/ सतर्कता/ एहतियत
Precedence	1. पूर्वता/अग्रता	1. पूर्वता/अग्रता	1. पूर्वता/अग्रता	1. पूर्वता/ पूर्ववर्तिता	1. पूर्वता/ पूर्ववर्तिता/ पूर्वस्थान/ अग्रमाग्यता	1. पूर्वता/अग्रता

1	2	3	4	5	6	7
Precedence, order of Precedent	1. पूर्वता-क्रम 1. पूर्वउदाहरण/ नञ्जीर	1. पूर्वता-क्रम 1. पूर्वउदाहरण/ नञ्जीर	1. अप्रता-क्रम 1. पूर्वउदाहरण/ नञ्जीर/ दृष्टागत	1. पूर्वता-क्रम 1. पूर्वोदाहरण	1. पूर्वता-क्रम 1. पूर्वोदाहरण/ मिसाल/ दृष्टान्त/ पूर्व-निर्णय/ पूर्व-पालनीय	1. पूर्वता-क्रम 1. पूर्वउदाहरण/ पूर्व नञ्जीर
Predecessor	1. पूर्वज 2. पूर्वाधिकारी 3. पूर्ववर्ती	1. पूर्वज 2. पूर्वाधिकारी 3. पूर्ववर्ती	1. पूर्वज 2. पूर्वाधिकारी 3. पूर्ववर्ती	2. पूर्ववर्ती — 2. पूर्वाधिकारी 3. पूर्ववर्ती	2. पूर्वगामी 1. पूर्वज पूर्वाधिकारी 3. पूर्ववर्ती, पूर्वानुवर्ती	1. पूर्वज 2. पूर्वाधिकारी
Preface	1. प्रस्तावना	1. प्रस्तावना/ भूमिका	1. प्रस्तावना	1. आमुख/ प्राक्कथन	1. प्रस्तावना/ भूमिका/प्राक्कथन	1. प्रस्तावना/ भूमिका
Preferable	1. शरीय	1. शरीय/ अधिमान्य/श्रेष्ठतर	1. शरीय/ अधिमान्य	1. अधिमान्य	1. अधिमान्य	1. शरीय
Preference	1. अधिमान/ तरजीह	1. अधिमान/ तरजीह	1. अधिमान/ तरजीह/ शरीयता	1. अधिमान/ तरजीह	1. अधिमान/ तरजीह/ अग्रमान्यता	1. तरजीह
Prejudice	1. (सजा) प्रतिकूल प्रभाव 2. पूर्वग्रह	1. प्रतिकूल प्रभाव 2. पूर्वग्रह	1. प्रतिकूल प्रभाव	1. प्रतिकूल प्रभाव/ विररीन प्रभाव 2. पूर्वाग्रह	1. प्रतिकूल प्रभाव, विररीन प्रभाव, प्रतिकूलता 2. पूर्वग्रह/पदापात 3. अवधारण 4. हानि, क्षति	1. प्रतिकूल प्रभाव

1	2	3	4	5	6	7
	1. (क्रिया) प्रतिकूल प्रभाव डालना 2. पूर्वग्रह रखना	1. प्रतिकूल/प्रभाव डालना 2. पूर्वग्रह रखना	1. प्रतिकूल प्रभाव डालना 2. पूर्वग्रह रखना	1. प्रतिकूल प्रभाव डालना	—	—
Prejudicial	1. प्रतिकूल/हानिकर	—	1. प्रतिकूल/हानिकर, विपरीत	1. प्रतिकूल प्रभाव डालना	1. प्रतिकूल प्रभाव डालनेवाला/हानिकर/हानिकारक	1. प्रतिकूल/हानिकर
Preliminary	1. (वि०) प्रारम्भिक/प्राथमिक	1. प्रारम्भिक/प्राथमिक	1. प्रारम्भिक/प्राथमिक	1. प्रारम्भिक/प्राथमिक	1. प्रारम्भिक	1. प्रारम्भिक
Preliminary report	1. (सजा) प्रस्ताविक 1. प्रारम्भिक रिपोर्ट	1. प्रस्ताविक 1. प्रारम्भिक रिपोर्ट	1. प्रस्ताविक 1. प्रारम्भिक रिपोर्ट/प्रारम्भिक प्रनिवेदन	1. प्रस्ताविक 1. प्रारम्भिक रिपोर्ट	1. प्रस्ताविक 1. प्रारम्भिक रिपोर्ट	1. प्रस्ताविक 1. प्रारम्भिक रिपोर्ट
Premature	1. समयपूर्व	1. समयपूर्व	1. समयपूर्व	1. समयपूर्व/ समय के पहले	1. समय से पूर्व/ समय पूर्व/ काम पूर्व/पूर्वगम्व	1. समय से पहले
Premises	2. अकाल 1. परिसर/अहाता	2. अकाल 1. परिसर/अहाता	2. अकाल 1. परिसर/अहाता	2. अकाल/अकालिक 1. परिसर/अहाता/ स्थान	2. अकालिक 1. परिसर/अहाता	1. अहाता
Preparation	1. तैयारी/उपक्रम	1. तैयार/उपक्रम	1. तैयारी	1. तैयारी/उपक्रम/ 2. धामुष 2. तैयार करना 3. बनाना	1. तैयारी/सज्जा आयोजन — 3. निमित्त पदार्थ निमित्त	1. तैयारी

	1	2	3	4	5	6	7
Prescribed		1. बिहित/निर्धारित	1. बिहित/निर्धारित	1. बिहित/निर्धारित/नियत	1. बिहित/नियत	1. बिहित/निर्धारित/नियत	1. नियम
Prescribed form		1. बिहित कामं/निर्धारित कामं	1. बिहित कामं/निर्धारित कामं	1. बिहित कामं/बिहित प्रपत्र	1. बिहित कामं	1. बिहित प्रपत्र/निर्धारित कामं/नियत प्रपत्र	1. नियत कामं
Presentation		1. प्रस्तुतीकरण	1. प्रस्तुतीकरण/प्रस्तुत करना/उपस्थापन	1. प्रस्तुति/प्रस्तुत करना	1. प्रस्तुति/उपस्थित किया जाना/उपरिस्थित करना/पेश किया जाना	1. प्रस्तुति/प्रतिपादन/उपस्थापन/पेश करना	1. पेश करना
Preservation		1. परिरक्षण/सरक्षण	2. भेंट 1. परिरक्षण/सरक्षण	1. परिरक्षण/सरक्षण/सरसा	2. भेंट/उपहार 1. परिरक्षण	2. भेंट/उपहार 1. परिरक्षण/सरक्षण	2. उपहार 1. सरक्षण
President		1. राष्ट्रपति 2. अध्यक्ष/सभापति	1. राष्ट्रपति 2. अध्यक्ष/सभापति	1. राष्ट्रपति 2. सभापति	1. राष्ट्रपति 2. अध्यक्ष/सभापति	1. राष्ट्रपति 2. अध्यक्ष/सभापति/प्रधान	1. राष्ट्रपति 2. अध्यक्ष/सभापति
Press		1. मुद्रणालय/प्रेस 2. समाचार-पत्र/प्रेस	1. मुद्रणालय/प्रेस 2. समाचार-पत्र/प्रेस	1. मुद्रणालय/प्रेस 2. (समाचार) पत्र/प्रेस	1. मुद्रणालय/प्रेस/छापाखाना — 3. दाबक/दबाव डालना —	1. मुद्रणालय/प्रेस/छापाखाना 2. समाचार-पत्र 3. दाबने की कल	1. प्रेस 2. समाचार-पत्र
Press censorship		1. प्रेससेंसरी	1. प्रेससेंसरी	1. प्रेससेंसरी	—	1. प्रेससेंसरी	1. प्रेससेंसरी

1	2	3	4	5	6	7
Press- communiqué	1. प्रेस-विज्ञप्ति	1. प्रेस-विज्ञप्ति	1. प्रेस-विज्ञप्ति	1. प्रेस-विज्ञप्ति	1. प्रेस-विज्ञप्ति/ पत्र-विज्ञप्ति/ प्रेस-नोट/ पत्रज्ञापि	1. प्रेस-विज्ञप्ति
Press- conference	1. पत्रकार सम्मेलन	1. पत्रकार सम्मेलन	1. पत्रकार सम्मेलन	1. पत्रकार सम्मेलन/ प्रेस कॉन्फेंस	1. पत्रकार सम्मेलन/ पत्र प्रतिनिधि सम्मेलन/ प्रेस कॉन्फेंस	1. पत्रकार सम्मेलन
Press gallery	1. पत्रकार-दीर्घा/ पत्रकार-गैलरी	1. पत्रकार-दीर्घा/ पत्रकार-गैलरी	1. पत्रकार-दीर्घा/ पत्रकार-गैलरी/ पत्रकार-बीधी	1. पत्रकार-दीर्घा	1. पत्रकार-दीर्घा/ पत्रकार-गैलरी/ पत्रकार-बीधी	1. पत्रकार-दीर्घा
Press handout Press release	1. प्रेस-पत्रक 1. प्रेस-प्रकाशनी	1. प्रेस-पत्रक 1. प्रेस-प्रकाशनी	1. प्रेस-पत्रक 1. प्रेस-प्रकाशनी/ प्रकाश्य	1. प्रेस-पत्रक 1. प्रेस प्रकाशनार्थ/ प्रेस प्रकाश्य	1. प्रेस-पत्रक 1. प्रेस-प्रकाशनी/ प्रकाशनार्थ/ वृत्त-भोक	1. प्रेस-पत्रक 1. प्रेस-प्रकाशनी
Press reporter Presupposed	1. समाचारदाता 1. पूर्व-कल्पित	1. संवाददाता 1. पूर्व-कल्पित	1. संवाददाता 1. पूर्व-कल्पित	1. संवाददाता 1. पूर्वधारणा बनाना	1. वृत्त-दाता 1. पूर्व-कल्पित	1. संवाददाता 1. पूर्वकल्पित
Prevention	1. निवारण/ रोकथाम/निरोध	1. निवारण/ रोकथाम/निरोध	1. निवारण/ रोकथाम/निरोध	1. निवारण/ रोकथाम/निरोध/ निग्रह	1. निवारण/ रोकथाम/रोक/ रोध/प्रतिबध	1. निवारण/ रोकथाम
Preventive measure	1. निवारक उपाय	1. निवारक उपाय/ रोक के उपाय	1. निवारक उपाय/ (चिन्तिता) प्रतिबधक उपाय	1. निवारक उपाय/ रोकने के उपाय	1. निवारण उपाय/ निवारक कार्य/ रोक के उपाय	1. रोक के उपाय

1	2	3	4	5	6	7
Price list	1. बीमत-मूची/ दाम-मूची	1. बीमत-मूची/ दाम-मूची	1. बीमत-मूची/ दाम-मूची	1. बीमत-मूची/ दाम-मूची/ मूल्य-मूची	1. बीमत-मूची/ दाम-मूची/ मूल्य-मूची	1. मूल्य-मूची
Prima facie	1. प्रत्यक्षत / प्रथम दृष्टि में	1. प्रत्यक्षतः/ प्रथम दृष्टि में	1. प्रत्यक्षत / प्रथम दृष्ट्या	1. प्रत्यक्षत / प्रथम दृष्ट्या	1. प्रथम दृष्ट्या/ प्रथम दर्जन/ प्रथम दृष्टि में	1. प्रथम दृष्टि में
Primary	1. प्राथमिक	1. प्राथमिक	1. प्राथमिक 2. मुख्य	1. प्राथमिक/ 2. मुख्य/प्रधान 3. प्रारम्भिक/पूर्ववर्ती	1. प्राथमिक/ 2. मुख्य/प्रधान 3. प्रारम्भिक	1. प्राथमिक
Primary receipt	1. मूल आवती	1. मूल आवती/ मूल रसीद	1. मूल आवती/ मूल रसीद	1. मूल आवती/ प्रारम्भिक रसीद	1. मूल आवती (?)	1. मूल आवती
Prime	1. — 2. —			1. अभाज्य 2. मूल		
Prime-minister	1. प्रधानमन्त्री	1. प्रधानमन्त्री	1. प्रधानमन्त्री	1. प्रधानमन्त्री	1. प्रधानमन्त्री	1. प्रधानमन्त्री
Principal (as in Principal Director)	1. प्रधान	1. प्रधान/मुख्य	1. प्रधान/मुख्य	1. प्रमुख/प्रधान/ मुख्य 2. मूल 3. वर्त्ता	1. प्रधान/मुख्य	1. प्रधान
(of college)	1. प्रधानाचार्य/ प्रिन्सिपल	1. प्रधानाचार्य/ प्रिन्सिपल	1. प्रधानाचार्य	1. प्रधानाचार्य/ प्राचार्य	1. प्रधानाचार्य/ प्राचार्य/ प्रिन्सिपल/ प्रिन्सिपल	1. प्रधानाचार्य/ प्रिन्सिपल
Printing and Stationery	1. मुद्रण तथा लेखन सामग्री	1. मुद्रण तथा लेखन सामग्री	1. मुद्रण तथा लेखन सामग्री	1. मुद्रण तथा लेखन सामग्री	1. मुद्रण/छपाई तथा लेखन सामग्री	1. मुद्रण/छपाई तथा लेखन सामग्री

1	2	3	4	5	6	7
Priority	1. प्राथमिकता/ अग्रता	1. प्राथमिकता	1. प्राथमिकता/ अग्रता/पूर्वता पूर्विकता	1. अग्रता/पूर्विकता	1. प्राथमिकता/ पूर्वता/ पूर्ववर्तितता/ प्राथम्य/ पूर्वस्थिति	1. प्राथमिकता/ अग्रता
Private	1. प्राइवेट/निजी 2. गैर-सरकारी	1. प्राइवेट/निजी/ 2. गैर-सरकारी	1. प्राइवेट/निजी/ व्यक्तिगत 2. गैर-सरकारी/ असावैजनिक असावैजिक 3. प्राइवेट/गृहप ाठी	1 प्राइवेट/निजी 2 गैर-सरकारी/ स्वतंत्र	1. प्राइवेट/निजी/ व्यक्तिगत 2. गैर-सरकारी/ असावैजिक असावैजनिक 3. — 4 सामान्य सिपाही 5 गुप्त	1. प्राइवेट/निजी 2. गैर-सरकारी
Private Secretary	1 निजी सचिव	1. निजी सचिव	1. निजी सचिव	1 निजी सचिव	1. निजी सचिव	1. निजी सचिव
Privilege	1. विशेषाधिकार	1. विशेषाधिकार	1. विशेषाधिकार	1 विशेषाधिकार	1. विशेषाधिकार 2 सुविधा	1. विशेषाधिकार
Probability	1 प्रायिकता	1. प्रायिकता	1. सम्भावितता/ सम्भाव्यता/ सम्भावना/ असिम्भाव्यता	1 सम्भावितता/ सम्भाव्यता	1. सम्भावितता/ सम्भाव्यता/ सम्भावना	1. प्रायिकता
Probation	1. परीक्षा/परख/ आखमाइश	1. परीक्षा/परख	1. परीक्षा/ परख/ आखमाइश	1 परीक्षा/ प्रवेशन	1. परीक्षा/ परख/परीक्षा/ आखमाइश	1. परीक्षा/ परख/ आखमाइश

1	2	3	4	5	6	7
Probationer	1. परीक्षीभाषीन/ परखाधीन/ आज्ञमाइशी	1. परीक्षीभाषीन/ परखाधीन	1. परीक्षीभाषीन/ परखाधीन/ परीक्ष्यमाण/ आज्ञमाइशी	1. परीक्षीभाषीन	1. परीक्षीभाषीन व्यक्तित्व/ परीक्षीभाषीन व्यक्तित्व	1. परीक्षीभाषीन व्यक्तित्व
Procedural rules	1. क्रियाविधि नियमावली	1. क्रियाविधि नियमावली	1. क्रियाविधि नियमावली	1. क्रियाविधि नियमावली	1. क्रियाविधि नियमावली	1. क्रियाविधि नियमावली
Procedure Proceeding	1. कार्यविधि/प्रक्रिया 1. कार्यवाही	1. कार्यविधि/प्रक्रिया 1. कार्यवाही/ कार्रवाई	1. कार्यविधि/प्रक्रिया 1. कार्यवाही	1. कार्यविधि/प्रक्रिया 1. कार्यवाही	1. कार्यविधि 1. कार्यवाही/ कार्यवाहियाँ/ कार्यविवरण	1. कार्यविधि 1. कार्यवाही
Proclamation	1. उद्घोषणा	1. उद्घोषणा	1. उद्घोषणा/ घोषणा	1. उद्घोषणा/ घोषणा	1. उद्घोषणा/ घोषणा/विज्ञप्ति	1. उद्घोषणा
Procurement	1. आसादन/प्रापण	1. वसूली	1. वसूली/प्राप्ति/ अधिप्राप्ति	1. वसूली/प्राप्ति/ अधिप्राप्ति/उपायन/ मुद्दिया करना	1. वसूली/प्राप्ति/ अध्याप्ति	1. वसूली
Producer (Film) (Radio)	1. निर्माता 1. प्रस्तुतकर्ता/ प्रस्तुत अधिकारी	1. निर्माता 1. प्रस्तुतकर्ता	1. निर्माता 1. प्रस्तुतकर्ता	1. उत्पादक 1. प्रस्तुतकर्ता 1. प्रोड्यूसर/ प्रोग्राम समोजक	1. निर्माता/उत्पादक 1. प्रस्तुतकर्ता	1. निर्माता 1. प्रस्तुतकर्ता
Production	1. उत्पादन	1. उत्पादन	1. उत्पादन 2. पेश करना/ प्रस्तुति	1. उत्पादन 2. पेश करना	1. उत्पादन 2. प्रस्तुति/ पेश करना 3. प्रोग्राम की तैयारी/प्रोग्राम का संयोजन	1. उत्पादन

	1	2	3	4	5	6	7
Professor	1	आचार्य/प्रोफेसर	1. आचार्य/प्रोफेसर	1. आचार्य/प्रोफेसर/ प्राध्यापक	1. प्रोफेसर/ प्राध्यापक	1. आचार्य/ प्राध्यापिका	1. आचार्य/प्रोफेसर
Proficiency	1	प्रवीणता	1. प्रवीणता	1. प्रवीणता	1. प्रवीणता	1. प्रवीणता/ प्रवीण्य/ विशेष योग्यता/ प्रवीणता प्राप्त करना	1. प्रवीणता
Proforma	1	प्रपत्र	1. प्रपत्र	1. प्रपत्र	1. प्रपत्र/प्रोकामा	1. प्रपत्र	1. प्रपत्र
	2	निदर्शन-पत्र	2. निदर्शन-पत्र	2. निदर्शन-पत्र/ निदर्श	2. निदर्शन-पत्र	2. निदर्शन	2. निदर्शन
	3	फार्म	3. फार्म	3. फार्म		3. फार्म	3. फार्म
Progress-chart	1	प्रगति चार्ट	1. प्रगति चार्ट	1. प्रगति चार्ट	1. प्रगति चार्ट	1. प्रगति चार्ट	1. प्रगति चार्ट
Progress-report	1.	प्रगति रिपोर्ट/ प्रगति विवरण	1. प्रगति विवरण	1. प्रगति विवरण/ प्रगति रिपोर्ट	1. प्रगति रिपोर्ट/ प्रगति प्रतिवेदन	1. प्रगति रिपोर्ट/ प्रगति-विवरण	1. प्रगति रिपोर्ट/ प्रगति विवरण
Prohibited	1	निषिद्ध	1. निषिद्ध/ प्रतिषिद्ध	1 निषिद्ध	1. निषिद्ध/ प्रतिषिद्ध	1. निषिद्ध/ प्रतिषिद्ध	1. निषिद्ध
Prohibition	1	निषेध	1. निषेध	1. निषेध	1. निषेध/रोक	1. निषेध	1. निषेध
	2	नशाबंदी	2. नशाबंदी	2. नशाबंदी/ मद्यनिषेध	2. शराबबंदी/ मद्यनिषेध	2. नशाबंदी/ मद्यनिषेध	2. नशाबंदी
				3. प्रतिषेध		3. प्रतिषेध	
Prohibitory order	1.	निषेधात्मक आदेश	1. निषेधात्मक आदेश	1. निषेधाज्ञा	1 प्रतिषेधात्मक आदेश	1. निषेधात्मक आदेश	1. निषेधात्मक आदेश
Project	1	परियोजना	1. परियोजना/ प्रायोजना	1. परियोजना/ प्रायोजना	1 परियोजना	1. परियोजना/ निर्माण-योजना 2. प्रभेद	1. परियोजना

1	2	3	4	5	6	7
Promise	1. वचन	1. वचन	1. वचन/प्रतिज्ञा	1. वचन/प्रतिज्ञा (श्रिया) वचन देना/ प्रतिज्ञा करना	1. वचन/प्रतिज्ञा (श्रिया) वचन देना/ प्रतिज्ञा करना	1. वचन
Promissory note	1. वचन-पत्र/ रक्का	1. वचन-पत्र/ रक्का/ प्रोन्ट	1. वचन-पत्र/ रक्का/ प्रामिसरी नोट	1. वचन-पत्र/ प्रामिसरी नोट	1. वचन-पत्र/ रक्का/ प्रामिसरी नोट/ प्रतिश्रुति पत्र	1. वचन-पत्र/ रक्का
Promotion	1. प्रोन्नति/पदोन्नति तरफकी/वर्धन	1. प्रोन्नति/पदोन्नति	1. प्रोन्नति	1. प्रोन्नति	1. प्रोन्नति/पदोन्नति	1. पदोन्नति
Promulgation	1. प्रक्यापन	1. प्रक्यापन	1. प्रक्यापन/प्रचार/ प्रवर्तन/जारी करना	1. प्रक्यापन	1. प्रक्यापन/ प्रचालन/ प्रवर्तन/ऐलान	1. ऐलान
Proof	1. प्रमाण	1. प्रमाण	1. प्रमाण/सबूत	1. प्रमाण/सबूत	1. प्रमाण/उपपत्ति/ पिदि	1. प्रमाण
Proposal	2. प्रूफ (प्रेस) 1. प्रस्थापना/प्रस्ताव	2. प्रूफ (प्रेस) 1. प्रस्ताव	2. प्रूफ (मुद्रण) 1. प्रस्थापना/प्रस्ताव	2. प्रामुद्र 1. प्रस्थापना/प्रस्ताव	2. प्रूफ/प्रामुद्रण 1. प्रस्थापना/प्रस्ताव	2. प्रूफ 1. प्रस्ताव
Prospection	1. विवरण-पत्रिका	1. विवरण-पत्रिका	1. विवरण-पत्रिका	1. विवरण-पत्रिका	1. विवरण-पत्रिका/ योजना-पत्रिका/ विवरण-पत्र/ प्रविवरण	1. विवरण-पत्रिका
Provident fund	1. भविष्य निधि/ निर्बाह निधि	1. भविष्य निधि	1. भविष्य निधि/ निर्बाह-निधि	1. भविष्य निधि	1. भविष्य निधि/ निर्बाह निधि	1. भविष्य निधि
Provision	1. उपबन्ध/शर्त 2. व्यवस्था	1. उपबन्ध/शर्त 2. व्यवस्था	1. उपबन्ध/शर्त 2. व्यवस्था/प्रबन्ध	1. उपबन्ध/शर्त 2. व्यवस्था	1. उपबन्ध/शर्त 2. व्यवस्था	1. शर्त 2. व्यवस्था

1	2	3	4	5	6	7
	3. रसद	3. रसद	3. रसद	3. रसद	3. रसद/सभार खाद्य सामग्री	
Provisional	1. अनन्तिम/ अस्थायी/ अतःकालीन	1. अनन्तिम/ अस्थायी/	1. अनन्तिम/ अस्थायी/ अतःकालीन हेतुमत्	1. अनन्तिम/ अस्थायी/ अतःकालीन	1. अस्थायी/ अनन्तिम/ अन्तःकालीन/ फचना	1. अस्थायी
Proviso	1. परतुक/शर्त	1. परतुक/शर्त	1. परतुक/शर्त 2. प्रतिबन्ध	1. परतुक/शर्त 2. प्रतिबन्ध प्रतिबन्ध	1. परतुक/शर्त 2. प्रतिबन्ध/ व्यवधान	1. परतुक
Provocation	1. प्रकोपन	1. प्रकोपन	1. प्रकोपन/ उत्तेजना	1. प्रकोपन/ उत्तेजना/ उकसाना	1. प्रकोपन/ उत्तेजना/ घडकाना	1. उत्तेजना/ घडकाना
Proximo	1. आगामी मास का	1. आगामी मास का	1. आगामी मास का	1. आगामी मास का	1. आगामी मास का/ आगामी	1. आगामी मास का
Proxy	1. प्रतिपत्र/प्रतिपत्री/ परोक्षी	1. प्रतिपत्र/प्रतिपत्री/ परोक्षी	1. प्रतिनिधि-पत्र/ प्रतिनिधित्व/ प्रतिनिधि	1. प्रतिपत्र	1. प्रतिपत्री/ प्रतिपुत्र्य/परोक्षी	1. प्रतिपत्र
Public	1. (वि०) सार्व- जनिक/आम/ सरकारी/लोक	1. सार्वजनिक/आम/ सरकारी/लोक	1. सार्वजनिक/आम/ सरकारी/लोक/ शासकीय	1. सार्वजनिक/आम- जनलोक/ सरकारी/ शासकीय/ राजकीय/ लोकविदित (स०) लोक, जनता, जन, पब्लिक	1. (वि०) सार्वजनिक आम/लोक सरकारी/ शासकीय/ राजकीय - (स०) जनता	1. (वि०) सार्वजनिक/ लोक (स०) जनता

1	2	3	4	5	6	7
Public interest	1. लोकहित	1. लोकहित	1. लोकहित/ सार्वजनिक हित	1. लोकहित/ सार्वजनिक हित	1. लोकहित/ सार्वजनिक हित	1. लोकहित
Public-servant	1. लोक-सेवक	1. लोक-सेवक/ सरकारी- कर्मचारी	1. लोक-सेवक/ राजसेवक/ सरकारी- कर्मचारी	1. लोक-सेवक	1. लोक-सेवक/ शासकीय सेवक	1. लोक-सेवक
Publication	1. प्रकाशन	1. प्रकाशन	1. प्रकाशन	1. प्रकाशन	1. प्रकाशन	1. प्रकाशन
Publicity	1. प्रचार	1. प्रचार	1. प्रचार/ विद्ययायन	1. प्रचार	1. प्रचार/प्रकाशन	1. प्रचार
Put-up-slip	1. पेश-पर्ची	1. पेशपर्ची	1. पेशपर्ची	1. पेशपर्ची	1. पेश-पर्ची	1. पेशपर्ची

Q

Quadruplicate	1. चौहरा 2. चार प्रतियाँ	1. चौहरा 2. चार प्रतियाँ	1. — 2. चार प्रतियाँ/ चौथी प्रति चतुर्थक	1. चौहरा 2. चार प्रतियाँ (कि०) चौगुना करना/चार प्रतियाँ करना	1. चौहरा 2. चार प्रतियाँ/ चौथी प्रति	1. — 2. चार प्रतियाँ
Qualification	1. अर्हता/योग्यता	1. अर्हता/योग्यता	1. अर्हता/योग्यता	1. अर्हता/योग्यता	1. अर्हता/योग्यता 2. उपाधि	1. अर्हता/योग्यता
Qualified Candidate	1. योग्य उम्मीदवार	1. योग्य उम्मीदवार	1. योग्य उम्मीदवार	1. योग्य उम्मीदवार/ अर्ह उम्मीद्वर्ती	1. योग्य उम्मीदवार	1. योग्य उम्मीदवार

1	2	3	4	5	6	7
Qualifying examination	1 अहंक परीक्षा	1. अहंक परीक्षा	1. अहंक परीक्षा	1. योग्यता-प्रदायी परीक्षा	1. अहंकारी परीक्षा, अहंता प्रदान करने वाली परीक्षा	1. अहंक परीक्षा
Quality	1. गुण/विशेषता 2. गुणवत्ता/गुणता 3. कोटि/प्रकार	1. गुण/विशेषता 2. गुणता 3. कोटि/प्रकार	1. गुण/विशेषता 2. गुणता 3. कोटि/प्रकार	1. गुण 2. — 3. कोटि/प्रकार किस्म/क्वालिटी	1. गुण 2. लक्षण 3. धेणी/प्रकार	1. गुण/विशेषता 2. गुणता 3. कोटि/प्रकार
Quality-certificate	1. गुणतापत्र/ गुणता प्रमाणपत्र	1. गुण-पत्र/ गुण-प्रमाणपत्र	1. गुण-पत्र/ गुण-प्रमाणपत्र	1. गुणप्रमाण-पत्र	1. गुण-पत्र/ गुण-प्रमाणपत्र	1. गुण-पत्र/ गुण-प्रमाणपत्र
Quality control	1. गुणता-नियंत्रण	1. गुणता नियंत्रण	1. गुण नियंत्रण/ कोटि/किस्म/ प्रकार नियंत्रण	1. गुण-नियंत्रण/ कोटिनियंत्रण	1. गुणता नियंत्रण	1. कोटि नियंत्रण
Quantity	1 मात्रा/परिमाण 2. राशि	1. मात्रा/परिमाण 2. राशि	1. मात्रा/परिमाण 2. राशि	1. मात्रा/परिमाण 2. राशि	1. मात्रा/परिमाण 2. राशि	1. मात्रा 2. राशि
Quantum	1 क्वांटम/प्रमाणा/ मात्रा	1. क्वांटम/प्रमाणा	1. प्रमाणा/मात्रा	1. प्रमाणा/मात्रा/ नियतपरिमाण 2. अग/राशि	1. प्रमाणा/मात्रा परिमाण	1. क्वांटम/मात्रा
Quarantine	1. सगरोध/ स्वारण्टाइन	1. सगरोध/ स्वारण्टाइन	1 सगरोध/सरोध/ करन्तीन (कारलटाइन)/ निरोध	1. सगरोध/करन्तीन/ निरोध	1. सगरोधन/ निरोध	1. सगरोध/ स्वारण्टाइन
Quarterly	1. त्रैमासिक	1. त्रैमासिक	1. त्रैमासिक/ तिमाही	1. त्रैमासिक/ तिमाही	1. त्रैमासिक/ तिमाही	1. तिमाही
Quasi-Permanency	1. स्थायिवत्ता	1. स्थायिवत्ता	1. स्थायिवत्ता	1. स्थायिवत्ता	1. स्थायीवत्ता	1. स्थायीवत्ता

1	2	3	4	5	6	7
Quasi Permanent	1. स्थायिवत्	1. स्थायिवत्	1. स्थायिवत्	1. स्थायिवत्	1. स्थायिवत्	1. स्थायिवत्
Question-Branch	1. प्रश्नशाखा	1. प्रश्नशाखा	1. प्रश्नशाखा	1. प्रश्नशाखा	1. प्रश्नशाखा	1. प्रश्नशाखा
Question-hour	1. प्रश्न-अवधि	1. प्रश्न-अवधि	1. प्रश्न का घंटा	1. प्रश्न-अवधि	1. प्रश्न-अवधि	1. प्रश्न-अवधि
Questionnaire	1. प्रश्नावली/ प्रश्नमाला	1. प्रश्नावली/ प्रश्नमाला	1. प्रश्नावली	1. प्रश्नावली	1. प्रश्नावली/ प्रश्न-सूची	1. प्रश्नावली/ प्रश्नमाला
Quotation	1. भाव/दर 2. उद्धरण	1. भाव/दर 2. उद्धरण	1. भाव/दर/निर्घं 2. उद्धरण 3. मूल्य विवरण	1. भाव/दर/निर्घं 2. उद्धरण 3. मूल्य तालिका	1. मूल्य/भाव/ कथित मूल्य/ दर/निरख 2. उद्धरण/अवतरण	1. कथित मूल्य

R

Radio Operator	1. रेडियो प्रचालक	1. रेडियो प्रचालक	1. रेडियो प्रचालक	1. रेडियो प्रचालक	1. रेडियो प्रचालक	1. रेडियो प्रचालक
Random	1. यादृच्छिक 2. सांयोगिक 3. अनियमित	1. यादृच्छिक 2. सांयोगिक 3. अनियमित	1. यादृच्छिक 2. क्षाकस्मिक 3. बेतरतीब 4. बिना मोच- विचार के	1. यादृच्छिक — 3. बेतरतीब	1. यादृच्छिक, यादृच्छा — 3. बेतरतीब, अटकलनक 4. निर्दोष	— — 3. अनियमित बेतरतीब

	1	2	3	4	5	6	7
Range (Forest)	1. रेंज, वनखंड	1. रेंज, वनखंड	1. रेंज, राजि, वनखंड, वनराजि	1. रेंज, राजि	1. रेंज, वनखंड, राजि	1. रेंज, वनखंड, राजि	1. रेंज, वनखंड
(Defence) (Distance)	1. चाँदमारी, भार	1. चाँदमारी	1. चाँदमारी	1. चाँदमारी	1. चाँदमारी	1. चाँदमारी	—
Rank	1. पद, ओहदा	1. पद	1. पद, ओहदा	1. पद, ओहदा, दर्जा, पदवी	1. पद, ओहदा, दर्जा, पदवी	1. पद, ओहदा, दर्जा, पदवी, पदस्थिति	1. पद, ओहदा,
Rate	1. धेणी, पक्ति	2. धेणी, पक्ति	2. धेणी, पक्ति, लाइन	2. धेणी, पक्ति, लाइन	2. धेणी, पक्ति, लाइन	2. धेणी, पद, पक्ति	2. धेणी, पक्ति
Rate	1. दर, रेट	1. दर, रेट	1. दर, रेट	1. दर, भाव	1. दर, भाव	1. दर, भाव,	1. दर, रेट
Rate-card	1. दर-पत्र	1. दर-पत्र,	1. दर-पत्र,	1. दर-पत्र,	1. दर-पत्र,	1. दर-पत्र,	1. दर-पत्र
Rates	1. दर-पत्र	1. दर-पत्र,	1. दर-पत्र,	1. दर-पत्र,	1. दर-पत्र,	1. दर-पत्र,	1. दर-पत्र
Ratification	1. रेटकार्ड	1. रेटकार्ड	1. रेटकार्ड	1. रेटकार्ड	1. रेटकार्ड	1. रेटकार्ड	1. रेटकार्ड
Rates	1. महसूल	1. महसूल	1. महसूल	1. महसूल	1. महसूल	1. महसूल	1. महसूल
Ratification	1. अनुसमर्थन	1. अनुसमर्थन, सत्याकन	1. अनुसमर्थन, सत्याकन	1. अनुसमर्थन, सत्याकन	1. अनुसमर्थन, सत्याकन	1. अनुसमर्थन, सत्याकन, पुष्टिकरण, अनुपुष्टि, अपीडबलन	1. अनुसमर्थन

	1	2	3	4	5	6	7
Receipt-book	1. रसीद बही	1. रसीद बही	1. रसीद बही	1. रसीद बही	1. रसीद बही	1. रसीद बही, पावती पुस्तक प्राप्ति पुस्तक	1. रसीद बही
Receipt certificate	1. प्राप्ति-प्रमाणपत्र	1. प्राप्ति-प्रमाणपत्र	1. प्राप्ति-प्रमाणपत्र	1. प्राप्ति-पत्र	1. प्राप्ति-पत्र	1. प्राप्ति-प्रमाणपत्र	1. प्राप्ति-प्रमाणपत्र
Receipt register	1. आवती रजिस्टर	1. आवती रजिस्टर	1. आवती रजिस्टर	1. पावती रजिस्टर	1. पावती रजिस्टर	1. आवती रजिस्टर, प्राप्ति पत्री	1. आवती रजिस्टर
Receipt Voucher	1. प्राप्ति-वाउचर	1. प्राप्ति-वाउचर	1. प्राप्ति-वाउचर	1. प्राप्ति-वाउचर	1. प्राप्ति-वाउचर	1. प्राप्ति-वाउचर	1. प्राप्ति-वाउचर
Receipts and disbursements	1. आय और सवितरण	1. आय और सवितरण	1. आय और सवितरण	1. प्राप्ति तथा सवितरण, प्राप्ति और व्यय	1. प्राप्ति तथा सवितरण, प्राप्ति और व्यय	1. आय और सवितरण	1. आय और सवितरण
Receiver	1. पानेवाला, प्राप्तकर्ता 2. रिसेीवर, आदाता	1. पानेवाला, प्राप्तकर्ता	1. पानेवाला, प्राप्तकर्ता प्राप्तकर्ता प्रापक 2. रिसेीवर, आदाता 3. प्राप्ति	1. पानेवाला, प्रापक 2. रिसेीवर 3. प्राप्ति, गृहीता 4. चोग (कोन)	1. पानेवाला, प्रापक 2. रिसेीवर	1. पानेवाला, प्राप्तकर्ता	1. पानेवाला, प्राप्तकर्ता 2. रिसेीवर
Reception Room	1. स्वागतकक्ष	1. स्वागतकक्ष	1. स्वागतकक्ष	1. स्वागतकक्ष, स्वागतगृह	1. स्वागतकक्ष, स्वागतगृह	1. स्वागतकक्ष	1. स्वागतकक्ष
Receptionist	1. स्वागती	1. स्वागतकर्ता	1. स्वागती	1. स्वागती, स्वागतकर्ता, स्वागतक	1. स्वागती, स्वागतकर्ता, स्वागतक	1. स्वागती, स्वागतकर्ता	1. स्वागती

1	2	3	4	5	6	7
Recess	1. अवकाश, विधायि	1. अवकाश, विधायि	1. विधायि 2. मध्याह्नकाण्ड 3. अल्पाह्नकाण्ड 4. कटाव, छाँचा, मिरी	1. अवकाश, विधायि 2. विधायिकाण्ड 3. अवकाश 4. कटाव, छाँचा	1. अवकाश, विधायि, विधाय 2. विधायिकाण्ड 3. अल्पाह्नकाण्ड, अल्पकावोन/ विराम 4. कटाव, घरी, मिरी, गड्ढा, गुहा	1. अवकाश, विधायि
Recipient	1. पानेवाला, आदाता	1. पानेवाला, आदाता	1. पानेवाला, प्राप्तक	1. पानेवाला, प्राप्तकर्ता	1. पानेवाला, आदाता, प्राप्तकर्ता, गुदीता	1. पानेवाला
Reciprocal	1. अन्वोन्य, पारस्परिक, परस्पर	1. अन्वोन्य, पारस्परिक, परस्पर, परस्परानुवर्ती	1. अन्वोन्य, पारस्परिक, परस्पर 2. व्यतिहारी	1. अन्वोन्य, पारस्परिक, परस्पर 2. व्यतिकारी, भ्युत्क्रम	1. अन्वोन्य, पारस्परिक, परस्पर	1. परस्पर
Reciprocate	1. परस्पर आदान- प्रदान करना	1. परस्पर आदान- प्रदान करना	1. परस्पर आदान- प्रदान करना 2. प्रतिदान करना	1. परस्पर आदान- प्रदान करना, अदना-वदनी करना 2. प्रतिदान करना	1. आदान-प्रदान करना, 2. प्रतिदान करना	1. परस्पर आदान- प्रदान करना

1	2	3	4	5	6	7
Redamation	1 उद्धार, उद्धारण, भूमि-उद्धार	1. भूमि-उद्धार	1. उद्धार, भू-सुधार, भूमि-उद्धार	1 उद्धार, भूमि उद्धार, कृष्यकरण, कृषियोग्य बनाना, बजर-कर्मण	1. सुधार, कृष्यकरण, कृषियोग्य-करण	1. भूमि-सुधार
Recognised	1. मान्य, मान्यता- प्राप्त	1. मान्य, मान्यता- प्राप्त	1. मान्यता-प्राप्त, मान्यता	1. मान्यता-प्राप्त	1. मान्य, मान्यता- प्राप्त, अभिमत	1. मान्यता-प्राप्त
Recognition	2. अभिज्ञात 1. मान्यता 2. पहचान, अभिज्ञान	2. अभिज्ञात 1. मान्यता 2. पहचान, अभिज्ञान	2. अभिज्ञात 1. मान्यता 2. पहचान, अभिज्ञान	1. मान्यता 2. पहचान	2. अभिज्ञात 1. मान्यता 2. पहचान, अभिज्ञान	1 मान्यता 2 पहचान
Recommend	1. सिफारिश करना, अभिगता करना, सस्तुति करना	1. सिफारिश करना, सस्तुति करना	1. सिफारिश करना, सस्तुति करना	1. सिफारिश करना, अनुशंसा करना, अनुशसित करना	1. सिफारिश करना, अनुशंसा करना, अभिगता करना, सस्तुति करना, अनुरोध करना	1. सिफारिश करना
Recommendation	1. सिफारिश, अभिगता, सस्तुति	1. सिफारिश, सस्तुति	1. सिफारिश, अभिगता, सस्तुति	1 सिफारिश, अनुशंसा	1. सिफारिश, अनुशंसा, अभिस्ताव	1. सिफारिश, सस्तुति
Recommendatory	1. सिफारिशो	1. सिफारिमी, सस्तुति-	1. सिफारिमी, अभिगतात्मक	1. सिफारिमी	1. सिफारिमी	1. सिफारिमी

1	2	3	4	5	6	7
Recommended	1. संस्तुत	1. संस्तुत	1. संस्तुत	1. संस्तुत	1. अनुमदित	1. सिफारिश की जाती है
	2. सिफारिश की जाती है	2. सिफारिश की जाती है		2. सिफारिश की जाती है		
Reconcile	1. समाधान करना, मेल-मिलाप करना	1. समाधान करना	1. समाधान करना	1. समाधान करना, मसौदा करना	1. समाधान करना, मसौदा करना, मेल करना, सजुष्ट करना	1. मेल-मिलाप करना
	2. समाधान कराना, मेल-मिलाप कराना		2. समाधि बंटाना, मेल कराना/ बंटाना	2. समाधान कराना, पुनर्मेळ कराना	2. समाधान कराना	2. मेल-मिलाप कराना
Reconciliation	1. समाधान, 2. मेल-मिलाप	1. समाधान	1. समाधान 2. मेल-मिलाप, मेल, 3. समझौता	1. समाधान 2. मेल-मिलाप	1. समाधान 2. मेल-मिलाप, मेल, साम्य 3. समझौता 4. मतीय, मिमान	1. समाधान 2. मेल-मिलाप
Reconciliation of accounts	1. लेखा-समाधान	1. लेखा-समाधान	1. लेखा-समाधान, लेखों का समाधान	1. लेखा-समाधान	1. लेखा-समाधान, लेखा-मिलाप	1. लेखा-समाधान
Reconciliation of statement	1. समाधान-विवरण	1. समाधान-विवरण	1. समाधान-विवरण	1. समाधान-विवरण	1. समाधान-विवरण	1. समाधान-विवरण
Reconsideration	1. पुनर्विचार	1. पुनर्विचार	1. पुनर्विचार	1. पुनर्विचार	1. पुनर्विचार	1. पुनर्विचार
Reconstitution	1. पुनर्गठन	1. पुनर्गठन	1. पुनर्गठन	1. पुनर्गठन	1. पुनर्गठन	1. पुनर्गठन
Reconstruction	1. पुनर्निर्माण	1. पुनर्निर्माण	1. पुनर्निर्माण	1. पुनर्निर्माण, पुनर्गठन	1. पुनर्निर्माण	1. पुनर्निर्माण

1	2	3	4	5	6	7
Record	1. अभिलेख, रिकार्ड	1. अभिलेख	1. अभिलेख, 2. वृत्त	1. अभिलेख, रिकार्ड 2. वृत्त 3. ध्वनि अभिलेखन (क्रिया) दर्ज करना, अंकित करना, अभिलिखित करना	1. अभिलेख, रिकार्ड 2. लेटय सग्रह	1. अभिलेख, रिकार्ड
	(क्रिया) दर्ज करना, अंकित करना	(क्रिया) दर्ज करना, अंकित करना	(क्रिया) दर्ज करना, अंकित करना, अभिलिखित करना	करना, अंकित करना, अभिलिखित करना, सग्रह करना	(क्रिया) दर्ज करना, अंकित करना	(क्रिया) दर्ज करना, अंकित करना
Record Keeper	1. अभिलेखपाल	1. अभिलेखपाल	1. अभिलेखपाल	1. अभिलेखपाल	1. अभिलेखपाल, रिकार्ड कीपर	1. अभिलेखपाल
Record of service Recording	1. सेवा-वृत्त, सेवा-रिकार्ड 1. अभिलेखबद्ध करना, रिकार्ड करना	1. सेवा-अभिलेख, सेवा-रिकार्ड 1. अभिलेखबद्ध करना	1. सेवा-वृत्त, सेवा-रिकार्ड 1. अभिलेखबद्ध करना, रिकार्ड करना, अभिलेखन	1. सेवा-अभिलेख, सेवा-रिकार्ड 1. अभिलेखबद्ध करना, रिकार्ड करना, अभिलेखन 2. ध्वनि अभिलेखन, स्वरांकन 3. सग्रहण	1. सेवा-अभिलेख, सेवा-रिकार्ड 1. अभिलेखबद्ध करना, रिकार्ड करना, अभिलेखन करना	1. सेवा-अभिलेख, सेवा-रिकार्ड 1. रिकार्ड करना
Recovery	1. वसूली	1. वसूली	1. वसूली, प्रत्याप्ति, प्रत्युद्धरण	1. वसूली, पुनः प्राप्ति, प्रत्युद्धरण 2. स्वास्थ्यलाभ, बया होना	1. वसूली, उगाही पुनः प्राप्ति उपलब्धि 2. स्वास्थ्यलाभ, रोग मुक्ति	1. वसूली

1	2	3	4	5	6	7
Recovery of dues	1. देय की वसूली	1. देय की वसूली	1. देय की वसूली	1. देय की वसूली	1. देय की वसूली	1. देय की वसूली
Recreation	1. मनोविनोद	1. मनोविनोद, मनोरञ्जन	1. मनोविनोद, मनोरञ्जन, विनोद	1. मनोविनोद, मनोरञ्जन, आभोद-प्रमोद	1. मनोविनोद, मनोरञ्जन, विनोद, मनबहुलाव, श्रमापहार	1. मनोविनोद, मनोरञ्जन
Recruit	1. रगस्ट	1. रंगस्ट	1. रगस्ट	1. रगस्ट, नवनिपुणत	1. रगस्ट	1. रगस्ट
Recruitment	(क्रि०) भर्ती करना	(क्रि०) भर्ती करना	(क्रि०) भर्ती करना	(क्रि०) भर्ती (भरती) करना	(क्रि०) भर्ती करना	(क्रि०) भर्ती करना
Recruitment, Direct	1. भर्ती	1. भर्ती	1. भर्ती	1. भर्ती, भरती	1. भरती	1. भरती
Recruitment officer	1. भर्ती-अधिकारी	1. भर्ती-अधिकारी	1. भर्ती-अधिकारी	1. भर्ती-अधिकारी	1. भरती-अधिकारी	1. भर्ती-अधिकारी
Rectification	1. परिशोधन, सुधार	1. सुधार, सशोधन	1. परिशोधन, सुधार, ठीक करना	1. परिशोधन, परिशुद्धि	1. परिशोधन, सुधार, भोधन, मशुद्धि	1. परिशोधन, सुधार
Rectify	1. परिशोधन करना, सुधार करना	1. ठीक करना, सुधारना	1. परिशोधन करना, सुधारना, ठीक करना	1. परिशुद्धि करना	1. परिशोधन करना, शोधन करना, सुधारना, शशुद्धि करना	1. सुधार करना, सुधारना
Rector (University)	1. रेक्टर कुलदेशिक	1. रेक्टर	1. रेक्टर कुल अधिपति	1. रेक्टर	1. रेक्टर	1. रेक्टर

	1	2	3	4	5	6	7
Recurring Recurring- charge		1. आवर्ती, आवर्तक 1. आवर्ती प्रभार	1. आवर्ती, आवर्तक 1. आवर्ती प्रभार	1. आवर्ती, आवर्तक 1. आवर्ती प्रभार, आवर्तक प्रभार	1. आवर्ती, आवर्तक 1. आवर्ती प्रभार, आवर्ती व्यय	1. आवर्ती, आवर्तक 1. आवर्ती प्रभार	1. आवर्ती 1. आवर्ती प्रभार
Recurring- grant		1. आवर्ती अनुदान	1. आवर्ती अनुदान	1. आवर्ती अनुदान, आवर्तक अनुदान	1. आवर्ती अनुदान, आवर्तक अनुदान	1. आवर्ती अनुदान, आवर्तक अनुदान	1. आवर्ती अनुदान
Redeem		1. छुड़ाना, मोचन करना	1. छुड़ाना, मोचन करना	1. छुड़ाना, मोचन करना, निष्क्रिय करना	1. छुड़ाना, मोचन करना, मोचित करना- कराना	1. छुड़ाना, विमोचन करना, निष्क्रिय करना, मुक्त/मोचन करना	1. छुड़ाना
Redemption		1. छुड़ाना, मोचन, प्रतिदान	1. छुड़ाना, मोचन	1. विमोचन, मोचन, प्रतिदान, निष्क्रिय	1. विमोचन, मोचन, प्रतिदान, उद्धार	1. छुड़ाना, मोचन, विमोचन, निष्क्रियण	1. छुड़ाना, मोचन
Red hot priority demand		1. अति अग्रता मांग, अति प्राथमिकता मांग	1. अति अग्रता मांग, अति प्राथमिकता मांग	—	—	1. अति अग्रता मांग, अति प्राथमिकता मांग	1. अति अग्रता मांग
Redress		1. निवारण (फि०) निवारण करना, दूर करना	1. निवारण (फि०) निवारण करना, दूर करना	1. निवारण, प्रतिकार (फि०) निवारण करना, दूर करना	1. निवारण, प्रतितोष (फि०) निवारण करना, प्रतिकार करना	1. निवारण (फि०) निवारण करना	1. निवारण (फि०) निवारण करना, दूर करना
Reduce		1. घटाना, कम करना	1. घटाना, कम करना	1. घटाना, कम करना	1. घटाना, कम करना, कमी करना	1. घटान, घटाना, कम करना/ होना	1. घटाना, कम करना

1	2	3	4	5	6	7
			2. पदावनत करना 3. परिवर्तित करना, रूपान्तरित करना	2. अवनत कराना 3. विन्वृत	2. अवनत करना 3. परिणत करना	
Reduction	1. कमी	1. कमी, घटाना	1. कमी, घटाना 2. पदावनति	1. कमी, घटाव 2. विन्वृति (त्रिया) कमी करना, घटना	1. कमी, घटी, कटीवी	1. कमी
Redundant	1. अनावश्यक, व्यतिरिक्त	1. अनावश्यक, अतिरिक्त	1. अनावश्यक, अतिरिक्त, फासतू	1. निष्प्रयोजन, व्यर्थ, निरर्थक	1. अनावश्यक, अतिरिक्त, अधिक, निरर्थक	1. अनावश्यक, अधिक, अतिरिक्त
Re-employment	1. पुनर्नियुक्ति, पुनर्नियोजन	1. पुनर्नियुक्ति	1. पुनर्नियुक्ति, पुनःसेवायोजन, पुनःसेवायुक्त करना	1. पुनर्नियुक्ति, पुनर्नियोजन	1. पुनर्नियुक्ति, पुनर्सेवा नियोजन, फिर से नौकरी देना, पुनः नौकरी मिलना	1. पुनः नौकरी मिलना, फिर से नौकरी मिलना
Re-examination	1. पुनः परीक्षा	1. पुनः परीक्षा	1. पुनः परीक्षा	1. पुनः परीक्षा	1. पुनः परीक्षा, पुनःपरीक्षण पुनः पृच्छा	1. पुनः परीक्षा
Refer	1. (विचारार्थ) भेजना	1. (विचारार्थ) भेजना	1. भेजना	1. भेजना	1. भेजना	1. भेजना

	1	2	3	4	5	6	7
		2. हवाला देना, उल्लेख करना	2. उल्लेख करना	2. हवाला देना	2. हवाला देना, उल्लेख करना	2. हवाला देना, उल्लेख करना	2. हवाला देना, उल्लेख करना
		3. निर्देश देना	3. निर्देश देना	3. निर्देश देना/ करना	3. निर्देश/निर्देशित करना, निर्दिष्ट करना	3. निर्देश/निर्देशन करना, निर्दिष्ट करना	3. निर्देश देना, उल्लेख करना
Referee				4. पूछना, पूछा करना, विमर्श करना			
Reference		1. निर्देशी, रेफरी	1. निर्देशी, रेफरी	5. (प्रमाण के लिए) देखना			
				1. निर्देशी, रेफरी	1. विनिष्पत्तिक, रेफरी	1. मध्यस्थ, रेफरी, निर्णायक, पंच	1. रेफरी
		1. सदस्य, निर्देश, हवाला	1. सदस्य, निर्देश, हवाला	1. सदस्य, निर्देश, हवाला	— निर्देश, हवाला	1. सदस्य, निर्देश, हवाला	1. सदस्य, हवाला
				2. सचय, प्रसंग	2. प्रसंग	2. प्रसंग	
Reference, Back Reference, Cross Reference, Later		1. पिछला सदस्य, पिछला हवाला	1. पिछला सदस्य, पिछला हवाला	3. उल्लेख		3. उल्लेख	
		1. प्रतिनिर्देश	1. प्रतिनिर्देश	4. पुच्छा, प्रेषण	1. पिछला हवाला	1. पिछला सदस्य, पिछला हवाला	1. पिछला सदस्य
				5. विमर्श	1. प्रतिनिर्देश	1. प्रतिनिर्देश	1. प्रतिनिर्देश
		1. उत्तर सदस्य, पूर्व निर्देश, बाद का हवाला	1. उत्तर सदस्य, बाद का हवाला	1. पिछला सदस्य, पिछला हवाला	1. उत्तर सदस्य, बाद का हवाला	1. उत्तर सदस्य, उत्तर निर्देश, बाद का हवाला	1. उत्तर सदस्य, बाद का हवाला

	1	2	3	4	5	6	7
Reference, Previous	1 पूर्वसदभं, पूर्वनिर्देश, विछला हुआला	1. पूर्वसदभं, पूर्वनिर्देश, पूर्व हुआला	1. पूर्वसदभं, उत्तर निर्देश, वाद का हुआला	1. पूर्वसदभं, पक्षे का हुआला	1. पूर्वसदभं, पूर्व निर्देश, पूर्व हुआला	1. पूर्वसदभं, पूर्व निर्देश, पूर्व हुआला	1. पूर्वसदभं, पूर्व हुआला
Referencing	1. सदभं देना, हुआला देना	1. सदभं देना, हुआला देना	1. सदभं देना, हुआला देना, निर्देशांकन	1. निर्देशीकरण, हुआला देना	1. निर्देशांकन, हुआला देना	1. सदभं देना, हुआला देना	1. सदभं देना, हुआला देना
Refinery	1. परिष्करण	1. परिष्करण	1. परिष्करण	1. परिष्करण	1. परिष्करण	1. परिष्करण, परिष्करण	1. परिष्करण
Refresher Course	1. पुनश्चर्चा	1. पुनश्चर्चा	1. पुनश्चर्चा, अभिनवन पाठ्यक्रम, नवीकरण पाठ्यक्रम	1. पुनश्चर्चा, आशुति कोर्स, आशुति-चर्चा	1. पुनश्चर्चा, पुनरुद्ययन पाठ्यक्रम, नवीकरण, प्रत्यासमरण पाठ्यक्रम	1. पुनश्चर्चा, पुनरुद्ययन पाठ्यक्रम, नवीकरण, प्रत्यासमरण पाठ्यक्रम	1. पुनश्चर्चा
Refreshment	1 जलपान, उपाहार	1. जलपान, अल्पाहार	1. जलपान, उपाहार	1. जलपान, उपाहार, अल्पाहार	1. जलपान, उपाहार, अल्पाहार	1. जलपान, अल्पाहार	1. जलपान, उपाहार
Refund	1 (घन) वापसी (फ्रि०) घन लौटाना, घन फेरना	1. घन वापसी घन वापस करना	1. वापसी, घन वापसी (घन राशि) वापस करना, घन लौटाना, घन फेरना	1. वापसी, घन वापस करना, लौटाना, प्रत्यर्पण करना	1. वापसी, प्रत्यर्पण, वापस करना, लौटाना, फेरना, प्रत्यर्पण करना	1. वापसी, प्रत्यर्पण, वापस करना, लौटाना, फेरना, प्रत्यर्पण करना	1. वापसी, घन लौटाना, घन फेरना
Refuse	1. अस्वीकार करना,	1. अस्वीकार करना,	1. अस्वीकार करना,	1. इन्कार करना, नामजूर करना	1. इन्कार करना, नामजूर करना	1. अस्वीकार करना,	1. अस्वीकार करना,

	1	2	3	4	5	6	7
		इनकार करना	इनकार करना	इनकार करना, अस्वीकृत करना		इनकार करना, अस्वीकृत करना, मना करना	इनकार करना
Refutation	1. खटन	1. खटन	1. खटन	1. खटन	2. कूटा-कचरा	1. खटन, निराकरण	1. खंडन
Region	1. क्षेत्र, प्रदेश	1. खल, प्रदेश	1. क्षेत्र, प्रदेश, सभाग	1. क्षेत्र, प्रदेश, सभाग	1. क्षेत्र, प्रदेश, इलाका	1. क्षेत्र, प्रदेश, इलाका	1. खंडन
Regional	1. क्षेत्रीय	1. प्रादेशिक	1. प्रादेशिक	1. क्षेत्रीय, सभागीय	1. क्षेत्रीय	1. क्षेत्रीय, प्रादेशिक, प्रदेश-	1. क्षेत्र, प्रदेश
Regional Organisation	1. प्रादेशिक संगठन	1. प्रादेशिक संगठन	1. प्रादेशिक संगठन	1. प्रादेशिक संगठन	1. क्षेत्रीय संगठन	1. प्रादेशिक संगठन, क्षेत्रीय संगठन	1. क्षेत्रीय
Register keeper	1. पंजीपाल, रजिस्टरपाल	1. पंजीपाल, रजिस्टरपाल	1. पंजीपाल	1. पंजीपाल	1. पंजीपाल, रजिस्टरपाल	1. पंजीपाल, रजिस्टरपाल	1. प्रादेशिक संगठन
Registered	1. पंजीकृत, पंजीबद्ध, रजिस्ट्री हुआ	1. रजिस्ट्री हुआ	1. पंजीबद्ध, निबंधित, निषिद्ध, रजिस्ट्री हुआ, रजिस्ट्रीकृत	1. पंजीबद्ध, निबंधित, निषिद्ध, रजिस्ट्री हुआ, रजिस्ट्रीकृत	1. निबंधित, रजिस्टर्ड, रजिस्ट्रीकृत	1. पंजीबद्ध, पंजीकृत, पंजीयित, रजिस्ट्रीकृत, रजिस्ट्री हुआ, रजिस्टर्ड	1. रजिस्टरपाल
Registered acknowledgement	1. रजिस्ट्री, रसीदी शक	1. रजिस्ट्री, रसीदी शक	1. रजिस्ट्री, रसीदी शक	1. रजिस्ट्री, रसीदी शक	—	1. रजिस्ट्री, रसीदी शक	1. रजिस्टर्ड
Registering Authority	1. पंजीयन प्राधिकारी,	1. पंजीयन प्राधिकारी,	1. निबंधक प्राधिकारी	1. पंजीयन प्राधिकारी,		1. पंजीयन प्राधिकारी,	1. पंजीयन प्राधिकारी,

1	2	3	4	5	6	7
	रजिस्ट्री प्राधिकारी	रजिस्ट्री प्राधिकारी	—	रजिस्ट्री प्राधिकारी	रजिस्ट्री प्राधिकारी, रजिस्ट्रीकर्ता, प्राधिकारी, निबंधक	रजिस्ट्री प्राधिकारी
Registrar	1. पंजीयक, पंजीकार, रजिस्ट्रार	1. पंजीयक, रजिस्ट्रार	1. निबंधक	1. निबंधक, रजिस्ट्रार	1. पंजीयक, पंजीकार, रजिस्ट्रार	1. पंजीयक, पंजीगार, रजिस्ट्रार
Registrar (of University)	1. कुल-सचिव	1. कुल-सचिव	1. कुल-सचिव	1. कुल-सचिव	1. कुल-सचिव	1. कुल-सचिव
Registrar of Births & Deaths	1. जन्म-मृत्यु रजिस्ट्रार	1. जन्म-मृत्यु रजिस्ट्रार	1. जन्म-मृत्यु रजिस्ट्रार	1. जन्म-मृत्यु रजिस्ट्रार	1. जन्म-मृत्यु रजिस्ट्रार, जन्म-मृत्यु पंजीकार	1. जन्म-मृत्यु रजिस्ट्रार
Registrar of Cooperative Societies	1. सहकारी समितियों का रजिस्ट्रार	1. सहकारी समितियों का रजिस्ट्रार	1. सहकारी समितियों का निबंधक, सहकारी समितियों का रजिस्ट्रार	1. सहकारी समितियों का रजिस्ट्रार	1. सहकारी समितियों का पंजीकार, सहकारी समितियों का रजिस्ट्रार	1. सहकारी समितियों का रजिस्ट्रार
Registration	1. पंजीकरण, रजिस्ट्री	1. पंजीकरण, पंजीयन, रजिस्ट्री	1. पंजीकरण, निबंधन, रजिस्ट्री, रजिस्ट्रीकरण	1. निबंधन, रजिस्ट्री रजिस्ट्रीकरण	1. पंजीकरण, पंजीकरण, पंजीयन, रजिस्ट्री, रजिस्ट्रेशन	1. रजिस्ट्री


1	2	3	4	5	6	7
Regret	1. खेद (क्रिया) खेद प्रकट करना	1. खेद (क्रिया) खेद प्रकट करना	1. खेद	1. खेद, खेद है	1. खेद	1. खेद
Regrettable Regulations	1. खेद का विषय 1. विनियम	1. खेद का विषय 1. विनियम	1. खेद का विषय 1. विनियम, विनियमन, नियमन	1. खेद का विषय 1. विनियम, विनियमन, नियमन	1. खेद का विषय 1. विनियम, नियमन	1. खेद का विषय 1. विनियम, विनियमन
Rehabilitation	1. पुनर्वास	1. पुनर्वास	1. पुनर्वास	1. पुनर्वास, पुनर्वासन, पुन.स्थापन	1. पुनर्वास, पुन स्थापन	1. पुनर्वास
Rehearsal	1. पूर्वाभ्यास	1. पूर्वाभ्यास	1. पूर्वाभ्यास	1. पूर्वाभ्यास 2. पूर्वाभिनय, रिहर्सल	1. पूर्वाभ्यास 2. पूर्वाभिनय, रिहर्सल	1. पूर्वाभ्यास
Reimbursement	1. प्रतिपूर्ति	1. प्रतिपूर्ति	1. प्रतिपूर्ति, वापसी	1. प्रतिपूर्ति	1. प्रतिपूर्ति, पुंति, भरपाई	1. प्रतिपूर्ति
Reinstate	1. पुन स्थापित करना, बहाल करना	1. पुन स्थापित करना, बहाल करना	1. पुन.स्थापित करना, बहाल करना	1. फिर से बहाल करना	1. पुन.स्थापित करना, बहाल करना, पुनराधिष्ठापित करना, फिर से लगाना, फिर से नियुक्त करना	1. बहाल करना
Reinstatement	1. बहाली	1. बहाली	1. बहाल, यथापूर्वकरण	1. बहाली	1. बहाली, पुनराधिष्ठापन, पुन स्थापन	1. बहाली

1	2	3	4	5	6	7
Reiterate	1. दुहराना, फिर कहना	1. दुहराना, फिर कहना	1. दुहराना, फिर कहना	1. दुहराना, फिर कहना	1. दोहराना, फिर ने कहना	1. दुहराना, फिर से कहना
Reject	1. अस्वीकार करना	1. अस्वीकार करना	1. अस्वीकार करना, स्नेहवचित करना	1. नामजूर करना, अगृहीत करना	1. अस्वीकार करना, अस्वीकृत करना, रद्द करना, नामजूर करना, नकारना	1. अस्वीकार करना
Rejected bid	1. अस्वीकृत बोली	1. अस्वीकृत बोली	1. अस्वीकृत बोली	1. अस्वीकृत बोली	1. अस्वीकृत बोली	1. अस्वीकृत बोली
Rejection memo	1. अस्वीकृति पत्र	1. अस्वीकृति पत्र	1. अस्वीकृति पत्र	1. अस्वीकृति पत्र	1. अस्वीकृति पत्र	1. अस्वीकृति पत्र
Rejoinder	1. प्रत्युत्तर	1. प्रत्युत्तर	1. प्रत्युत्तर, प्रतिवाद	1. प्रत्युत्तर, उत्तर	1. प्रत्युत्तर, प्रत्युक्ति	1. प्रत्युत्तर
Relaxation	1. छूट, रियायत, दील 2. श्रांति 3. शिथिलन	1. रियायत — 3. शैथिल्य	1. छूट, रियायत, दील 2. विधाम 3. शिथिलता, शिथिलीकरण, शिथिलन	1. छूट — 3. शैथिल्य, शिथिलीकरण	1. छूट, रियायत डिलाई 2. विधायि, विधाम 3. शैथिल्य, शिथिलीकरण	1. छूट, रियायत, दील
Release	1. मुक्ति, रिहाई, छूटकारा, छूट निर्मुक्ति 2. (घन) दे देना	1. मुक्ति, रिहाई	1. मुक्ति, रिहाई छूटकारा, छूट, मोचन 2. बटन	1. विमुक्ति, रिहाई समोचन	1. मुक्ति, छूटकारा, छूट, मोचन —	1. मुक्ति, रिहाई, छूटकारा, छूट

	1	2	3	4	5	6	7
		3. रिहा करना, मुक्त करना, छुटकारा देना	3. रिहा करना, छोड़ना	3. मुक्त करना, छोड़ना, छोड़ देना, निर्मूक्त करना	3. छोड़ देना, छोड़ना, निर्मूक्त करना	3 मुक्त करना, छोड़ना, रिहा करना, निर्मूक्त करना	
Release, General	1. आम निर्मोचन	1. आम बटन, आम छूट/ रिहाई	1. आम बटन	4. माल छोड़ना 5. हटाना	4 माल छोड़ना 5. हटाना		
Release-date	1. निर्मोचन तिथि	1. बटन तिथि, छूटने की तिथि	1. आम बटन	1. बटन तिथि	1. आम छूट	1. आम बटन	1. आम छूट
Relevant	1. सगत, सुसगत	1. सगत, सुसगत	1. बटन तिथि	1. बटन तिथि	1. बटन तिथि	1. बटन तिथि	1. आम छूट बटन तिथि
			1. सगत, सुसगत, सबद्ध	1. सुसगत, प्रसयोचित		1. सगत, सुसगत, सबद्ध, सुसबद्ध, एतत्सम्बद्ध, प्रसागिक	1. सबद्ध
Reliable	1. विश्वसनीय, पक्का	1. विश्वसनीय	1. विश्वसनीय, विश्वास का पक्का	1 विश्वसनीय, विश्वास का		1. विश्वसनीय, पक्का	1. विश्वसनीय, पक्का
Relic	1. पुरावशेष	1. पुरावशेष	1. अवशेष, स्मृतिचिह्न	1. पुरावशेष, अवशेष		1. विश्वसनीय, पक्का	1. विश्वसनीय, पक्का
Relief	1. सहायता, राहत	1. सहायता, राहत	1. सहायता, राहत	1. सहायता, राहत राहत रकम		1. अवशेष	1. अवशेष
	2 बदल 3. अनुलोप	2. बदल 3. अनुलोप	2. बदला 3. अनुलोप	2. बदली 4. अनुलोप, साहाय्य		1. सहायता, राहत	1 सहायता, राहत
					—	3. अनुतोप	2. बदल

1	2	3	4	5	6	7
			4. मुक्ति	4. विराम, विरमित होना	4. वदावमुक्ति भारावमुक्ति	
			5. आराम, उपशमन	5. आराम, शमन	5. आराम, दुःख-परिहार निवारण	
				6. कुमुक	6. कुमुक	
				7. प्राहितिक वनावट	7. उभार, उद्मृति, उकेरी	
Relieve	1. (नीकरी) से छुट्टी देना, छुट्टी पाना, छुट्टी मिलना, भारमुक्त करना	1. भारमुक्त करना	1. छुट्टी देना, छुट्टी पाना, छुट्टी मिलना भारमुक्त करना, अवमुक्त करना	1. मुक्त रहना, विरमित होना, कार्यमुक्त करना, भारमुक्त करना	1. छुट्टी पाना, छुट्टी मिलना, छुट्टी देना, भारमुक्त करना	1. छुट्टी देना, छुट्टी पाना, छुट्टी मिलना, भारमुक्त करना
				2. साहाय्य देना, दमदाद देना	2. सहायता पहुँचाना, सहायता करना	
					3. शांति देना, दुःख हटाना, अनुलोप करना	
					4. छुटकारा देना, मुक्त करना, रिहा करना	
Relieving clerk	1. एबजी क्लर्क, एबजी लिपिक	1. एबजी क्लर्क, एबजी लिपिक	1. एबजी क्लर्क, एबजी लिपिक	1. भारप्राही लिपिक, भारप्राही क्लर्क	1. भारप्राही लिपिक, भारमोचन क्लर्क	1. एबजी क्लर्क, एबजी लिपिक

	1	2	3	4	5	6	7
Relieving officer	1. भारमोचन अधिकारी		1. भारमुक्त अधिकारी, कार्यभार संहालने वाला अधिकारी	1. भारग्राही अधिकारी, अवमोचन अधिकारी, पद छोड़ने वाला अधिकारी	1. भारग्राही अधिकारी, भारग्राही पदाधिकारी	1. भारग्राही अधिकारी, भारावमोचन अधिकारी	1. भारमोचन अधिकारी
Relinquishment	1. त्याग		1. त्याग	1. परित्याग	1. छोड़ना, त्याग	1 त्याग, छोड़ना, अवत्याग, कार्यभार छोड़ना	1 त्याग
Remark	2. स्वत्व-त्याग 1. विचार, अभियुक्ति (क्रिया) विचार प्रकट करना	2. स्वत्व-त्याग 1. अभ्युक्ति	2. स्वत्व-त्याग 1. विचार, टिप्पणी, अभ्युक्ति, मन्तव्य (क्रिया) प्रकट करना, मन्तव्य देना	2. स्वत्व-त्याग 1. विचार, टिप्पणी, अभ्युक्ति, मन्तव्य (क्रिया) प्रकट करना, मन्तव्य देना	1. छोड़ना, त्याग 1. अभ्युक्ति (क्रिया) कहना	1 त्याग, छोड़ना, अवत्याग, कार्यभार छोड़ना 1. विचार, टीका, टिप्पणी, कंफियत जम्मुवित, रिमार्क (क्रिया) विचार प्रकट करना, टीका-टिप्पणी करना, मत प्रकट करना	1 विचार, अभ्युक्ति टिप्पणी, विचार प्रकट करना
Reminder	1. स्मरण-पत्र, अनुस्मारक	1. स्मरण-पत्र	1. स्मरण-पत्र, अनुस्मारक, अनुबोधक, तयादा	1. स्मरण-पत्र, अनुस्मारक, अनुबोधक, तयादा	1. स्मार, स्मार-पत्र तकाजा, तकादा	1. स्मरण-पत्र, सस्मरण-पत्र, स्मृति-पत्र, अनुस्मारक, तकाजा, तयादा	1. अनुस्मारक
Remission	1. परिहार, माफी, छूट	1. परिहारा, माफी, छूट	1. परिहार, माफी, छूट	1. परिहार, माफी, छूट	1. परिहार, माफी, छूट	1. परिहार, माफी, छूट, क्षमा	1. छूट



	1	2	3	4	5	6	7
Renewal	1. नवीकरण	1. नवीकरण	1. नवीकरण	1. नवीकरण	1. नवीकरण, नयाकरण	1. नवीकरण, नवीकरण, नवीकरण, नवीकरण	1. नवीकरण
Rent	1. भाटक, किराया, भाडा	1. भाटक, किराया	1. भाटक, किराया, भाडा	1. किराया, भाडा	1. किराया, भाडा	1. भाटक, किराया, भाडा	1. किराया, भाडा
Rented space	2. लगान	2. लगान	2. लगान	2. लगान	2. लगान	2. लगान	2. लगान
Reorganised	1. भाड़े पर लिया स्थान	1. भाड़े पर लिया स्थान	1. भाड़े पर लिया स्थान	1. भाड़े पर लिया स्थान	1. भाड़े पर लिया स्थान	1. भाड़े पर लिया स्थान	1. भाड़े पर लिया स्थान
Reorganisation	1. पुन संगठन, पुनर्गठन	1. पुनर्गठन	1. पुनर्गठन, पुनसंघटन	1. पुनर्गठन, पुन संघटन	1. पुनर्गठन, पुन गठन	1. पुनर्गठन, पुन संघटन	1. पुनर्गठन
Repatriate	1. देश-प्रत्यावर्तन, देश को लौटाना, देश वापस भेजना	1. देश-प्रत्यावर्तन, देश को लौटाना	1. देश वापस भेजना	1. प्रत्यावर्तन, स्वदेश-प्रत्यावर्तन	1. प्रत्यावर्तन, स्वदेश-प्रत्यावर्तन	1. देश-प्रत्यावर्तन, देश को लौटाना, स्वदेशावर्तन करना, पुन स्वदेश को लौटाना	1. देश को लौटाना, देश वापस भेजना
Repatriation	1. देश-प्रत्यावर्तन, प्रत्यावासन	1. देश-प्रत्यावर्तन, प्रत्यावासन, देश वापस भेजना	1. देश-प्रत्यावर्तन, देश वापस भेजना	1. देश-प्रत्यावर्तन, देश वापस भेजना	1. देश-प्रत्यावर्तन, देश वापस भेजना	1. स्वदेश-प्रेषण, स्वदेश-प्रतिप्रेषण	1. देश वापस भेजना

1	2	3	4	5	6	7
Repay	1 शोधन करना 2. चुकाना 3. लौटाना, वापस करना	1. शोधन करना 2. चुकाना	1. प्रतिशोधन करना 2. प्रति सदाय 3. वापस करना	—	1. शोधन/प्रतिशोधन करना 2. चुकाना, प्रतिदान करना 3. लौटाना	1. शोधन करना 2. चुकाना 3. लौटाना, वापस करना
Repayable	1 शोध्य 2 प्रतिदेय	1. प्रतिशोधन 2. पुनः भुगतान, अदायगी	1 प्रतिशोध्य 2. प्रतिदेय	— 2. प्रतिदेय, वापस/अदा करने योग्य, बदले में देने योग्य	1. प्रतिशोध्य 2. प्रदेय	— 2. वापस/अदा करने योग्य
Repeal	1. निरसन (क्रिया) निरसन करना	1. निरसन (क्रिया) निरसन करना	1. निरसन (शिया) निरसन करना, निरस्त करना	1. निरसन (क्रिया) निरसित करना	1. निरसन (क्रिया) निरसन करना, निरसित करना, निरस्त करना	1. निरसन
Repeat order Report	1. पुनरादेश 1. प्रतिवेदन, विवरण, रिपोर्ट (क्रिया) रिपोर्ट देना/करना,	1. पुनरादेश 1. प्रतिवेदन, रिपोर्ट (क्रिया) रिपोर्ट देना/करना,	1. पुनरादेश 1. प्रतिवेदन, विवरण, रिपोर्ट 2. आक्षेप, वृत्त 3. सूचना, रपट 4. संवाद, समाचार (क्रिया) रिपोर्ट देना/करना,	1. पुनरादेश 1. प्रतिवेदन, विवरण, रिपोर्ट, रपट (क्रिया) रिपोर्ट देना/करना,	1. पुनरादेश 1. प्रतिवेदन, विवरण, रिपोर्ट, रपट (क्रिया) रिपोर्ट देना/करना,	1. पुनरादेश 1. विवरण, रिपोर्ट, रपट 2. वृत्त, रिपोर्टें 3. सूचना, रपट (क्रिया) रिपोर्ट देना/करना,

1	2	3	4	5	6	7
	प्रतिवेदन करना, प्रतिवेदित करना	प्रतिवेदन करना	प्रतिवेदन करना, प्रतिवेदित करना, रिपोर्ट देना	प्रतिवेदन करना, प्रतिवेदित करना, रपट लिखना, सूचना देना	प्रतिवेदन करना, प्रतिवेदित करना	
Reporter	1. प्रतिवेदक, रिपोर्टर	1. प्रतिवेदक, रिपोर्टर	1. वृत्तलेखक 2. (समाचार पत्र का) संवाददाता	1. प्रतिवेदक, रिपोर्टर 2. समाचारदाता, संवाददाता	1. प्रतिवेदक, रिपोर्टर, वृत्त-लेखक 2. संवाददाता	1. प्रतिवेदक, रिपोर्टर
Repository	1. निधान, सग्रह	1. निधान, सग्रह	1. निधन, सग्रह	1. सग्रह, निक्षेपगार, भंडार	1. सग्रह	1. सग्रह
Represent	1. प्रतिनिधित्व करना 2. अभिवेदन देना	1. प्रतिनिधित्व करना 2. आवेदन करना	1. प्रतिनिधित्व करना 2. प्रकट करना	1. प्रतिनिधित्व करना, निरूपण करना, प्रतिदर्शन, निरूपण 2. अभिवेदन करना,	1. प्रतिनिधित्व करना, प्रदर्शित करना 2. अभिवेदन करना, निवेदन करना	1. प्रतिनिधित्व करना 2. अभिवेदन करना
Representation	1. प्रतिनिधित्व 2. अभ्यावेदन, अभिवेदन	1. प्रतिनिधित्व 2. अभ्यावेदन	1. प्रतिनिधित्व 2. अभिवेदन, प्रत्यावेदन, व्यपदेशन	1. प्रतिनिधित्व 2. अभ्यावेदन, बिरोध-प्रदर्शन	1. प्रतिनिधित्व, प्रतिनिधान, निरूपण 2. अभ्यावेदन, निवेदन, प्रतिवेदन	1. प्रतिनिधान 2. प्रतिवेदन

1	2	3	4	5	6	7
			3. वर्णन, चित्रण, रूपण 4. चित्र, प्रतिकृति 5. अभिनय			
Representation, Identical	1. समान अभिवेदन	1. समान अभ्यावेदन	1. समान अभिवेदन	1. समान अभ्यावेदन,	1. समान अभिवेदन, समान प्रतिनिवेदन	1. समान, प्रतिवेदन
Representation, Majority	1. बहुमत/बहुसंख्यक प्रतिनिधित्व	1. बहुमत/बहुसंख्यक प्रतिनिधित्व	1. बहुमत/बहुसंख्यक प्रतिनिधित्व	1. बहुसंख्यक प्रतिनिधित्व	1. बहुमत/बहुसंख्यक प्रतिनिधित्व	1. बहुमत प्रतिनिधित्व
Representation, Minority	1. अल्पमत/अल्पसंख्यक प्रतिनिधित्व	1. अल्पमत/अल्पसंख्यक प्रतिनिधित्व	1. अल्पमत/अल्पसंख्यक प्रतिनिधित्व	1. अल्पमत/अल्पसंख्यक प्रतिनिधित्व	1. अल्पमत/अल्पसंख्यक प्रतिनिधित्व	1. अल्पमत प्रतिनिधित्व
Representation, Proportional	1. आनुपातिक प्रतिनिधित्व	1. आनुपातिक प्रतिनिधित्व	1. अनुपातिक प्रतिनिधित्व आनुपाती प्रतिनिधित्व	1. आनुपातिक प्रतिनिधित्व	1. आनुपातिक प्रतिनिधित्व	1. आनुपातिक प्रतिनिधित्व
Representative	1. प्रतिनिधि	1. प्रतिनिधि	1. प्रतिनिधिक, 2. द्योतक	1. प्रतिनिधि, प्रतिनिधिक	1. प्रतिनिधि	1. प्रतिनिधि
Reprimand	1. फटकार, भर्त्सना (फि०) फटकारना, भर्त्सना करना	1. फटकार, भर्त्सना (फि०) फटकारना, भर्त्सना करना	1. फटकार, भर्त्सना (फिवा) फटकारना, भर्त्सना करना	1. फटकार, भर्त्सना, धिम्बट (फिवा) फटकारना	1. फटकार, भर्त्सना, डॉट (फिवा) फटकारना, भर्त्सना करना, डॉटना, डॉट देना	1. फटकार (फिवा) फटकारना

1	2	3	4	5	6	7
Reproduction	1. पुनरुत्पादन 2. उद्धारण 3. प्रतिलिपि, प्रतिकृति 4. प्रजनन	1. पुनरुत्पादन 2. उद्धारण 3. प्रतिलिपि	1. प्रत्युत्पादन 2. उद्धारण 3. प्रतिलिपि, प्रतिकृति 4. प्रजनन 5. पुनरुत्पत्ति (वन) प्रजनन 6. मुद्रण, छापना	1. पुनरुत्पादन उत्पादन 2. — 3. प्रतिरूप 4. जनन	1. पुनरुत्पादन 2. उद्धारण 3. प्रतिरूप 4. पुनरुत्पत्ति	1. — 2. उद्धारण 3. प्रतिलिपि
Repugnant	1. प्रतिकूल, विरुद्ध	1. प्रतिकूल, विरुद्ध	1. प्रतिकूल, विरुद्ध	1. विरुद्ध	1. प्रतिकूल, विरुद्ध, विपरीत, प्रतीप 2. अशुचिकर	1. प्रतिकूल, विरुद्ध 2. अशुचिकर
Repurchase	1. पुनः क्रय, फिर से खरीद	1. पुनः क्रय, फिर से खरीद	1. पुनः क्रय, फिर से खरीद	1. पुनः क्रय, फिर से खरीद	1. पुनः क्रय, फिर से खरीद	1. फिर से खरीद
Requirement	1. अपेक्षा, आवश्यकता	1. आवश्यक, माँग	1. आवश्यकता, अपेक्षा	1. आवश्यकता, अपेक्षा	1. आवश्यकता, अपेक्षा, माँग	1. अपेक्षा
Requisite	1. आवश्यक, अपेक्षित	1. आवश्यक, अपेक्षित	1. आवश्यक, अपेक्षित	1. आवश्यक, अपेक्षित	1. आवश्यक, आवश्यकता, अपेक्षित, अपेक्ष्य	1. आवश्यक, अपेक्षित
Requisites	1. आवश्यक गुण, आवश्यक वस्तुएँ, अपेक्षित गुण, अपेक्षित वस्तुएँ	1. आवश्यक गुण, आवश्यक वस्तुएँ, अपेक्षित गुण, अपेक्षित वस्तुएँ	1. आवश्यक गुण, आवश्यक वस्तुएँ, अपेक्षित वस्तुएँ	1. आवश्यक गुण	1. आवश्यक गुण, आवश्यक वस्तुएँ, अपेक्षित गुण, अपेक्षित वस्तुएँ	1. आवश्यक गुण, आवश्यक वस्तुएँ, अपेक्षित गुण, अपेक्षित वस्तुएँ
Requisition	1. माँग	1. माँग	1. माँग	1. माँग, अधियाचना	1. माँग, प्रार्थना, अधियाचना	1. माँग

	1	2	3	4	5	6
		2. अधिग्रहण	2. अधिग्रहण	1. अधिग्रहण, अधियाचन	2. अधिग्रहण	2. अधिग्रहण, अधिप्राप्ति
Requisition slip	1. माँग-पत्रों, माँगणी-पत्रों	1. माँग-पत्रों	1. माँग-पत्रों	3. अपेक्षा	3. अपेक्षा	3. अपेक्षा
Rescind	1. विघटन करना	1. विघटन करना	1. विघटित करना, विसटन करना, मसूख करना	1. विघटित करना, विसटन करना, मसूख करना	1. माँग-पत्रों	1. माँग-पत्रों
						1. माँग-पत्रों
						1. विघटित करना, उपखटन करना, मसूख करना, रद्द करना, निरस्त करना, काट देना, उठा लेना, निराकरण करना
						1. रद्द करना, निरस्त करना
Rescue Home	1. उद्धार-गृह	1. उद्धार-गृह	1. उद्धार-गृह	1. उद्धार-गृह	1. उद्धार-गृह	1. उद्धार-गृह
Research	1. गवेषणा, अनुसंधान	1. गवेषणा, अनुसंधान, शोध	1. गवेषणा, अनुसंधान, शोध	1. गवेषणा, अनुसंधान, शोध, धोख	1. गवेषणा, अनुसंधान, शोध, धोख	1. अनुसंधान, शोध
						1. अनुसंधान, शोध
						1. अध्येता
Research Fellow	1. अध्येता	1. अध्येता	1. अध्येता	1. अध्येता	1. अध्येता	1. अध्येता
Research Unit	1. अनुसंधान एकक	1. अनुसंधान एकक	1. अनुसंधान एकक	1. अनुसंधान एकक	1. अनुसंधान एकक	1. अनुसंधान एकक
Reserve Police	1. रिजर्व पुलिस	1. रिजर्व पुलिस	1. रिजर्व पुलिस	1. रिजर्व पुलिस, आरक्षित पुलिस	1. रिजर्व पुलिस	1. रिजर्व पुलिस
						1. रिजर्व पुलिस
Reserve Price	1. आरक्षित कीमत	1. आरक्षित कीमत	1. आरक्षित कीमत	1. आरक्षित कीमत	1. आरक्षित कीमत, आरक्षित मूल्य, रिजर्व कीमत	1. आरक्षित कीमत

1	2	3	4	5	6	7
Reservation	1. आरक्षण, रक्षण	1. आरक्षण, रक्षण	1. आरक्षण, रक्षण	1. आरक्षण	1. आरक्षण, पूर्व रक्षण, प्रारक्षण, रक्षण 2. निर्बन्धन	1. आरक्षण
Reservoir Dirision	1. जलाशय-प्रभाग	1. जलाशय-प्रभाग	1. जलाशय-प्रभाग	1. जलाशय-प्रभाग, जलागार-प्रभाग	1. जलाशय-प्रभाग	1. जलाशय, प्रभाग
Resettlement	1. पुनः स्थापन, पुनर्व्यवस्थापन	1. पुनः स्थापन, पुनर्व्यवस्थापन	1. पुनर्व्यवस्थापन, पुनर्वासन, पुनर्वास	1. पुनः स्थापन, पुनर्वासन	1. पुनः स्थापन, पुनर्व्यवस्था, पुनर्वास	1. पुनर्वास
Residence	1. निवास, आवास	1. निवास, आवास	1. निवास, निवास- स्थान	1. निवास, निवास- स्थान, आवास	1. निवास, निवास-स्थान, निवास-गृह, पदावास	1. निवास, आवास
Residential	1. निवास, आवास	1. निवास, आवास	1. आवासिक	1. आवासीय, स्थानिक	1. निवास, निवास-संबन्धी, आवासी, निवासाय	1. निवास, आवास
Residuary power	1. अवशिष्ट अधिकार	1. अवशिष्ट अधिकार	1. अवशिष्ट अधिकार	1. अवशिष्ट अधिकार	1. अवशिष्ट शक्तियाँ	1. अवशेष शक्तियाँ, बचे हुए अधिकार
Residue	1. अवशेष	1. अवशेष	1. अवशेष, अवशिष्ट	1. अवशेष, अवशिष्ट	1. अवशेष, शेषभाग अवशिष्ट/तलछट	1. अवशेष
Resign	1. त्यागपत्र देना, इस्तीफा देना	1. त्यागपत्र देना, इस्तीफा देना	1. त्यागपत्र देना, इस्तीफा देना, त्यागदेना	1. त्यागपत्र देना, पद त्याग देना	1. त्यागपत्र देना, इस्तीफा देना, पदत्याग करना 2. भरोसे पर छोड़ना	1. त्यागपत्र देना, इस्तीफा देना

1	2	3	4	5	6	7
Restriction	1. प्रतिबध, रोक	1. प्रतिबध, रोक	1. प्रतिबध, निर्बन्धन	1. प्रतिबध, बाधा, पाबन्दी, रोक	1. प्रतिबध, पाबन्दी, रोक, निर्बन्धन, सीमाबन्धन	1. प्रतिबध, रोक
Resume	1. सार-वृत्त (क्रि०) पुनः आरम्भ करना, पुनः शुरू करना	1. सार-वृत्त (क्रि०) पुनः आरम्भ करना,	1. सार-वृत्त, सार, सक्षेप (क्रि०) पुनः आरम्भ करना, पुनः ग्रहण करना, बापस लेना, जम्त करना	1. सार-वृत्त, सक्षेप (क्रि०) फिर से आरम्भ करना, पुनर्ग्रहण करना	1. सार-वृत्त, (क्रि०) पुनः आरम्भ करना, पुनः शुरू करना	1. सार-वृत्त (क्रि०) पुनः आरम्भ करना, पुनः शुरू करना
Resumption	1. पुनराारम्भ	1. पुनराारम्भ	1. पुनराारम्भ, पुनर्ग्रहण, प्रत्यादान, जम्त	1. पुनराारम्भ, पुनर्ग्रहण पुनः वापू करना, फिर से जारी करना	1. पुनराारम्भ, पुनर्ग्रहण, पुनर्धारण, पुनः चालू करना	1. पुनराारम्भ, पुनः चालू करना
Retire	1. निवृत्त होना, रिटायर होना	1. निवृत्त होना, रिटायर होना	1. निवृत्त होना, निवृत्ति ग्रहण करना, रिटायर होना	1. सेवा निवृत्त होना, रिटायर होना, एकात में आना	1. सेवानिवृत्त होना, सेवामुक्त होना, रिटायर होना, बिरत होना	1. निवृत्त होना, सेवानिवृत्त होना
Retired	1. निवृत्त	1. निवृत्त	1. निवृत्त	1. सेवानिवृत्त	1. सेवानिवृत्त	1. निवृत्त
Retirement	1. निवृत्ति	1. निवृत्ति	1. निवृत्ति	1. निवृत्ति, सेवानिवृत्ति, रिटायर हो जाना	1. निवृत्ति, सेवानिवृत्ति, अवकाश ग्रहण, बिरति	1. निवृत्ति, सेवानिवृत्ति

1	2	3	4	5	6	7
Retirement benefit	1. निवृत्ति-लाभ	1. निवृत्ति-लाभ	1. निवृत्ति-लाभ, सेवानिवृत्ति-लाभ	1. निवृत्ति-लाभ	1. निवृत्ति-लाभ	1. निवृत्ति-लाभ
Retrenchment	1. छेड़नी	1. छेड़नी	1. छेड़नी, कमी, कमी करना, कटौती, कार्रवा	1 छेड़नी	1. छेड़नी, कमी, काट-छाँट, अपवर्तन	1. छेड़नी
Retrospective	1. पूर्वव्यापी, भूतलक्षी	1. पूर्वव्यापी, भूतलक्षी	1. पूर्वव्यापी, भूतलक्षी, पूर्वव्यापी	1. भूतलक्षी	1. पूर्वव्यापी, भूतलक्षी, पूर्वव्यापी	1. पूर्वव्यापी
Return	1. विवरणी	1. विवरणी	1. विवरणी	1. विवरणी	1. विवरणिका, विवरण-पत्र, प्रविवरण	1. विवरणी
	2. प्रतिलाभ	—	2. प्रतिलाभ	—	2. फल, लाभ प्रतिलाभ, बाप	
	3. वापसी	—	3. वापसी	3. वापसी	3. वापसी	3. वापस
	4. उत्तर	—	4. प्रत्यावर्तन, परितेज	4. उत्तर	4. प्रत्यावर्तन	4. उत्तर
	1. (क्रि०) वापस करना/लौटाना,	1. वापस करना/ लौटाना	1. वापस करना, वापस होना	1 वापस करना/ लौटाना,	1. वापस करना, लौटाना, लौट आना	1. वापस करना, वापस लौटाना
	2. निर्वाचित करना, निर्वाचित होना		2. निर्वाचित करना	2. निर्वाचित करना, निर्वाचित होना	1. निर्वाचित करना	2. निर्वाचित करना, निर्वाचित होना
Return-journey	1. वापसी यात्रा	1. वापसी यात्रा	1. वापसी यात्रा	1. वापसी यात्रा	1. वापसी यात्रा	1. वापसी यात्रा
Return of post	1. वापसी डाक	1. वापसी डाक	1. वापसी डाक	1. वापसी डाक	1. लौटती डाक	1. वापसी डाक

1	2	3	4	5	6	7
Returning Officer	1. निर्वाचन अधिकारी	1. निर्वाचन अधिकारी	1. निर्वाचन अधिकारी	1. निर्वाचो पदाधिकारी, रिटनिंग आफिजर	1 निर्वाचन अधिकारी, चुनाव अधिकारी	1. निर्वाचन अधिकारी
Returns	1 विवरणी, नियत विवरण	1. विवरणियाँ, नियत विवरण	1. विवरणी, नियत विवरण, परिच्छेद	1. प्रत्यागम	1. विवरणी, नियत विवरण, प्रविवरण	1. विवरणी, नियत विवरण
Revalidation	1. पुनर्विधीकरण	1. पुनर्विधीकरण	1. पुनर्विधीकरण	1. पुनर्विधीकरण, फिर से बंध बनाना	1. पुनर्विधीकरण	1. पुनर्विधीकरण
Revaluation	1. पुनर्मूल्यन	1. पुनर्मूल्यन	1. पुनर्मूल्यन	1. पुनर्मूल्यांकन	1. पुनर्मूल्यन, पुनर्मूल्यांकन, पुन.परीक्षण, पुनरकन	1. पुनर्मूल्यन
Revenue	1. राजस्व	1. राजस्व	1. राजस्व, लाभ, आय	1. राजस्व, आमदनी, आय	1. राजस्व	1. राजस्व
Reverse	1. उत्क्रम, प्रतिलोभ, विपर्यास, उल्टा	1. उत्क्रम, प्रतिलोभ, विपर्यास, उल्टा	1. विपर्यय, विलोम, उलटा	1. प्रतिलोभ, प्रतिकूल, उल्टा (फि०) पीछे वे जाने वाला (फि०) उलटना, उलट देना, विपर्यय करना	1. उत्क्रम, प्रतिकूल, विपरीत, उल्टा, विपर्यय (फि०) उलटना, उलट देना, पलटना, परिपचित करना	1. प्रतिलोभ, उल्टा

1	2	3	4	5	6	7
Reversion	1. परावर्तन	1. परावर्तन	1. परावर्तन, प्रत्यावर्तन	1. प्रतिवर्तन, प्रत्यावर्तन	1. प्रतिवर्तन, प्रत्यावर्तन, प्रत्याममन	1. परावर्तन
Revised	1. प्रत्याशुद्धि	1. प्रत्याशुद्धि	1. प्रत्याशुद्धि, प्रतिशुद्धि	1. प्रतिशुद्धि	3. प्रतिवर्तन 4. बापसी, लौटाना, बापस होना, परावर्तनाधिकार	1. परावर्तित
Review	1. समीक्षा 2. पुनरीक्षण	1. समीक्षा 2. पुनरीक्षण	1. समीक्षा 2. पुनरीक्षण 3. पुनर्बिलोकन (विधि)	1. समीक्षा — 3. पुनर्बिलोकन	5. परावर्तित 1. प्रत्याशुद्धि	1. प्रत्याशुद्धि 1. समीक्षा
Reviewer	1. (वि०) समीक्षा करना 2. पुनरीक्षण करना	1. समीक्षा करना 2. पुनरीक्षण करना	1. समीक्षा करना 2. पुनरीक्षण करना	1. समीक्षा करना 2. पुनर्बिलोकन करना 1. समीक्षाकार, समीक्षक 2. पुनरीक्षक	1. समीक्षा, समालोचना — 3. पुनर्बिलोकन 4. सिद्धान्तोक्त 1. समीक्षा करना 2. पुनर्बिलोकन करना 1. समीक्षाकार, समीक्षक 2. पुनरीक्षक	1. समीक्षा 2. पुनरीक्षण 1. समीक्षाकार, समीक्षक 2. पुनरीक्षक

	1	2	3	4	5	6	7
Reviewing officer							
Revise		1. पुनरीक्षण- अधिकारी	1. पुनरीक्षण अधिकारी	1. पुनरीक्षण अधिकारी	1. पुनरीक्षण अधिकारी	1. पुनरीक्षण अधिकारी	1. पुनरीक्षण अधिकारी
Revising officer		1. परिशीलित करना	1. समीचन करना, दोहराना	1. परिशीलन करना, दोहराना, पुनरीक्षित करना	1. पुनरीक्षण अधिकारी	1. पुनरीक्षण अधिकारी	1. परिशीलित करना, दोहराना
Revision		1. पुनरीक्षण अधिकारी	1. पुनरीक्षण अधिकारी	1. पुनरीक्षण अधिकारी	1. पुनरीक्षण पदाधिकारी	1. पुनरीक्षण अधिकारी, पुनरीक्षण पदाधिकारी	1. पुनरीक्षण अधिकारी
Revisal		1. पुनरीक्षण, दोहराना, परिशीलन	1. पुनरीक्षण	1. पुनरीक्षण, दोहराना, परिशीलन	1. पुनरीक्षण	1. पुनरीक्षण, दोहराना, समीचन	1. पुनरीक्षण, दोहराना परिशीलन
Revival		1. पुनरुज्जीवन, पुनः प्रवर्तन	1. फिर से चालू करना	1. पुनरुज्जीवन, पुनः प्रवर्तन	1. पुनरुज्जीवित, पुनर्जीवित	1. निगरानी, पुनर्निर्धार	1. फिर से चालू करना
Revocation		1. पुनरुज्जीवन, पुनः प्रवर्तन	1. प्रतिषेध, निरसन	1. प्रतिषेध, निरसन	1. प्रतिषेध, परिवर्तन	1. पुनरुज्जीवित, पुनर्जीवन, पुनः प्रवर्तन,, फिर से चालू करना	1. निरसन
		1. प्रतिषेध, निरसन	1. प्रतिषेध, निरसन	1. प्रतिषेध, निरसन	1. प्रतिषेध, परिवर्तन	1. पुनरीक्षण, निरसन, प्रत्याहरण, खंडन	

1	2	3	4	5	6	7
Rough copy	1. कच्ची नकल	1. कच्ची नकल	1. कच्ची नकल, कच्ची प्रति	1. कच्ची प्रति, अस्वच्छ प्रति	1. कच्ची नकल, कच्ची प्रति, प्रारम्भिक प्रति	1. कच्ची नकल
Routine	1. नेमी, दस्तूरी	1. नेमी, दस्तूरी	1. नेमी, दस्तूरी, नैत्यक	1. नेमी, दैनन्दिन, नेम, चर्चा, नितचर्चा, दिनचर्चा	1. नेमी, दस्तूरी, सामान्य, नित्य, नैत्यक	1. नेमी
Routine note	1. नेमी नोट, दस्तूरी नोट	1. नेमी नोट, दस्तूरी नोट	1. नेमी नोट, नैत्यक टिप्पणी	1. नेमी टिप्पणी, स्टीन नोट्स	1. नेमी नोट, दस्तूरी नोट	1. नेमी नोट
Routine test	1. नेमी परीक्षण	1. नेमी परीक्षण	1. नेमी परीक्षण, नैत्यक परीक्षण	1. नेमी परीक्षण	1. नेमी परीक्षण	1. नेमी परीक्षण
Rules & Regulations	1. नियम-विनियम	1. नियम-विनियम	1. नियम-विनियम	1. नियम-विनियम	1. नियम-विनियम	1. नियम-विनियम
Rules of business	1. कार्य-संचालन नियमावली	1. कार्य-संचालन, नियमावली	1. कार्य-संचालन, नियमावली	1. कार्य-संचालन, नियमावली, कार्य-नियमावली	1. कार्य-संचालन, नियमावली, कार्य-नियमावली	1. कार्य-संचालन नियमावली
Ruling	1. विनिर्णय	1. विनिर्णय	1. विनिर्णय, व्यवस्था	1. विनिर्णय, व्यवस्था	1. विनिर्णय, व्यवस्था, समादेश अधिमत	1. विनिर्णय, व्यवस्था
Running Contract	1. चालू सविदा, चालू ठेका	1. चालू सविदा, चालू ठेका	2. रेखाकन, रेखण 1. चालू सविदा, चालू ठेका	2. रेखाकन, रेखण 1. चालू सविदा, चालू ठेका	2. रेखा, रेखाकन 1. चालू सविदा, चालू ठेका	1. चालू ठेका
Rural	1. ग्राम, ग्रामीय	1. ग्राम, देहाती	1. ग्राम, देहात	1. ग्राम, ग्राम्य, देहाती	1. ग्राम, ग्राम्य, देहाती, ग्रामीण, ग्रामसबधी	1. ग्राम, ग्रामीय

1

2

3

4

5

6

7

S

Sabotage

1. तोड़फोड़/
अन्तर्ध्वंस

1. तोड़फोड़/
अन्तर्ध्वंस

1. तोड़फोड़

1. गुप्त तोड़फोड़/
गुप्तध्वंस/
गुप्त तोड़फोड़
करना/
काम बिगाड़ना

1. तोड़फोड़/
अन्तर्ध्वंस/
विध्वंस/
गुप्त तोड़फोड़

1. तोड़फोड़

Safe

1. सुरक्षित/
निरापद/
भयरहित/अभय

1. सुरक्षित/
निरापद/
भयरहित

1. सुरक्षित

1. सुरक्षित/
निरापद/अभय/
क्षेम

1. सुरक्षित/
निरापद/अभय
क्षेम/भयरहित

1. सुरक्षित

Safe Conduct

1. यात्रा सुरक्षण
2. यात्रा सुरक्षण-
पत्र/अभयपत्र
3. सुरक्षित रूप से
ले जाया जाना

1. यात्रासुरक्षण
2. यात्रा सुरक्षण-
पत्र/
अभय-पत्र
3. सुरक्षित रूप से
ले जाया जाना

1. यात्रा-सुरक्षा

1. यात्रा सुरक्षण
2. यात्रा सुरक्षण-
पत्र
3. सुरक्षित रूप से
ले जाया जाना

1. यात्रा-सुरक्षा

1. यात्रा सुरक्षा

Safe Custody

1. निरापद-
अभिरक्षा/
सुरक्षित
अभिरक्षा

1. निरापद
अभिरक्षा/
अभय अभिरक्षा

1. निरापद
परिरक्षा/
सुरक्षित
अभिरक्षा

1. निरापद
अभिरक्षा/रक्षा

1. सुरक्षित
अभिरक्षा/
सुरक्षित
सरक्षण

1. सुरक्षित
सरक्षण

Safeguard

1. सुरक्षण

1. सुरक्षण

1. रक्षाकवच,
अभिरक्षा

1. सुरक्षा/बचाव
(फि०) सुरक्षण
करना/
बचाव करना

1. सुरक्षा/बचाव/
रक्षोपाय/
परिन्नाण/
रक्षा-कवच

1. सुरक्षण

1	2	3	4	5	6	7
Safeguarding	1. रक्षात्मक/ सुरक्षात्मक	1. सुरक्षात्मक	1. सुरक्षात्मक	1. सुरक्षण/रक्षा	1. सुरक्षात्मक	1. सुरक्षात्मक
Safety	1. सुरक्षा/सुरक्षा/ क्षेम	1. सुरक्षा/सुरक्षा क्षेम	1. सुरक्षा/ सुरक्षितता/ क्षेम/बचाव	1. सुरक्षा/बचाव/ क्षेम	1. सुरक्षा/बचाव/ क्षेम	1. सुरक्षा/संरक्षा/ क्षेम
Salaried	1. वैतनिक	1. वेतनभोगी	1. वेतनभोगी/ सवेतन/ वैतनिक	1. वेतनभोगी/ सवेतन/ वैतनिक	1. वैतनिक	1. वैतनिक
Salary	1. वेतन/ सम्बलम्	1. वेतन	1. वेतन/ सम्बलम्	1. वेतन/ तनह्वाह	1. वेतन	1. वेतन
Sale account	1. विक्रयलेखा/ बिक्रीलेखा	1. विक्रयलेखा/ बिक्रीलेखा	1. विक्रयलेखा/ बिक्रीलेखा	1. बिक्रीलेखा/ विक्रयलेखा	1. विक्रयलेखा/ बिक्रीलेखा	बिक्रयलेखा
Sale deed	1. बँनामा	1. बँनामा/ विक्रयलेख	1. बँनामा/ विक्रय-पत्र	1. बँनामा/ विक्रयविलेख	1. बँनामा/ विक्रय-विलेख/ विक्रय-पत्र	1. बँनामा
Sale letter	1. विक्रय-पत्र	1. विक्रय-पत्र	1. विक्रय-पत्र/ बिक्री-पत्र	1. विक्रय-पत्र/ बिक्री-पत्र	1. विक्रय-पत्र	1. विक्रय-पत्र
Sale value	1. विक्रय-मूल्य/ बिक्री-मूल्य	1. विक्रय-मूल्य/ बिक्री-मूल्य	1. विक्रय-मूल्य/ बिक्री-मूल्य	1. विक्रय-मूल्य/ बिक्री-मूल्य	1. विक्रय-मूल्य/ बिक्री-मूल्य	1. विक्रय-मूल्य
Salvage	1. कबाड़/उबार/ उबारना/ भ्रमाउदार/ उदारण	1. कबाड़	1. उबार/उदार/ बचाव/ नाशरक्षण	1. (स०) कबाड़/ उबार/उदार	1. कबाड़/ नाशरक्षित/ पसोदार/ उदार/ उदारण	1. कबाड़/उबार/ उबारना/ नष्ट होने से बचाना

	1	2	3	4	5	6	7
					2. निस्तार/ निस्तारण	2. पीतोद्धार	
					3. बचावचा माल (क्रि०) उद्धार करना/ नष्ट होने से बचाना	3. उद्धार-शुल्क	
Salvage and Scrap	1. कबाड और रद्दी	1. कबाड और रद्दी	1. कबाड और रद्दी माल	1. कबाड और रद्दी	1. कबाड और रद्दी	1. कबाड और रद्दी	1. कबाड और रद्दी
Sample	1. नमूना/प्रतिदर्श/ सैंपल	1. नमूना/ सैंपल	1. नमूना/प्रतिदर्श/ सम्पुल/ 2. प्रतीक 3. निदर्श 4. बानगी	1. (स०) नमूना/ सैंपल/प्रतिदर्श/ —	1. (स०) नमूना/ सैंपल/प्रतिदर्श/ —	1. नमूना/प्रतिदर्श/ —	1. नमूना/सैंपल/ —
Sample Collector	1. नमूना-संग्राहक	1. नमूना-संग्राहक	1. नमूना-संग्राहक	1. नमूना देना/ धानगी देना	1. नमूना-संग्राहक	1. नमूना-संग्राहक	1. नमूना-संग्राहक
Sample Taker	1. प्रतिदर्श गृहीता/ नमूना गृहीता	1. प्रतिदर्श गृहीता/ नमूना गृहीता	1. प्रतिदर्श गृहीता/ नमूना गृहीता	1. प्रतिदर्श गृहीता/ नमूना-गृहीता	1. प्रतिदर्श गृहीता/ नमूना-गृहीता	1. प्रतिदर्श गृहीता नमूना गृहीता	1. प्रतिदर्श गृहीता/ नमूना गृहीता
Sanction	1. मजूरी/ सम्मोदन	1. मजूरी/स्वीकृति सम्मोदन	1. मजूरी/स्वीकृति/ सम्मोदन	1. मजूरी/स्वीकृति/ समोदन/ मजूर करना/ मजूरी देना/ स्वीकृति देना/ स्वीकृत करना	1. मजूरी/स्वीकृति/ सम्मोदन/ मजूर करना/ मजूरी देना/ स्वीकृति देना/ स्वीकृत करना	1. मजूरी/स्वीकृति/ सम्मोदन/ मजूर करना/ मजूरी देना/ स्वीकृति देना/ स्वीकृत करना	1. मजूरी

	1	2	3	4	5	6 -	7
Sanctioning authority	1. मञ्जूरदाता-प्राधिकारी	1. स्वीकृति अधिकारी		1. सस्वीकृति/अधिकारी/सम्मोदक प्राधिकारी	1. मञ्जूर करनेवाला प्राधिकारी/सम्मोदन प्राधिकारी	2. अनुयाति 3. सत्ता/पृथ्वत्त	1. स्वीकृति प्राधिकारी
Sanctioning order	1. मञ्जूरी आदेश	1. स्वीकृति आदेश		1. मञ्जूरी आदेश/सस्वीकृति आदेश	1. मञ्जूरी आदेश/स्वीकृत्यादेश	1. स्वीकृति आदेश मञ्जूरी आदेश/	1. मञ्जूरी आदेश
Sanitary	1. सफाई-/स्वास्थ्यकर	1. सफाई-/स्वास्थ्यकर		1. सफाई-/सफाईसबधो	1. सफाईसबधो/आरोग्यकारी/सफाई-स्वच्छता, स्वास्थ्यकर	1. स्वास्थ्यकर/आरोग्यकर/स्वास्थ्यरक्षा-सबधो/आरोग्यकारी/स्वच्छ/साक्र-मुचरा	1. सफाई/स्वास्थ्यकर
Sanitation	1. सफाई स्वच्छता स्वास्थ्य-रक्षा	1. सफाई/स्वच्छता, स्वास्थ्य-रक्षा		1. सफाई/स्वच्छता, स्वास्थ्य-रक्षा	1. सफाई/स्वच्छता, आरोग्य	1. सफाई/स्वच्छता	1. सफाई/स्वच्छता, स्वास्थ्य-रक्षा
					2. आरोग्य-प्रबन्ध स्वच्छता-प्रबन्ध	2. आरोग्य-प्रबन्ध/स्वच्छता-प्रबन्ध, आरोग्य-रक्षण	
						3. आरोग्य/स्वास्थ्य-रक्षा	

1	2	3	4	5	6	7
Satisfaction	1. सतोष/सतुष्टि/ तुष्टि/समाधान	1. सतोष/सतुष्टि/ तुष्टि/समाधान	1. सतोष/तुष्टि/ समाधान 2. पूति 3. सदेह निवारण	1. सतोष/तुष्टि/ समाधान/ परितोष	1. सतोष/समाधान/ तुष्टि/परितोष/ तुष्टि 2. भुगतान/ भरपाई/ निस्तारण/ परिशोध	1. सतोष/तुष्टि/ समाधान
Scaffolder	1. पाड़ बाँधनेवाला	1. पाड बाँधनेवाला	1. पाड बाँधनेवाला	1. मचान बाँधनेवाला	1. मचान बाँधनेवाला	1. पाड बाँधनेवाला
Scale	1. माप/मान/ मापक्रम/पैमाना/ मापनी/अनुमाप	1. माप/मान	1. मान/मात्रा/ मानक्रम/पैमाना मापक्रम/ माप-सारणी/ मापदंड/मापनी/ पैमाना 2. गृहक/पपट्टी 3 तुला	1. माप/मापक्रम/ पैमाना/मापनी/ मापमान,अनुमाप- क्रम 2. गृहक/पपट्टी	1. माप/मापधेणी/ मापसारणी/ पैमाना/मापमान/ अनुमाप-श्रेणी/ मापनी 2. छिलका/बबकल 3. तराजू का पलड़ा	1. माप/मापक्रम/ पैमाना/मापनी
Scale of pay	1. वेतनमान	1. वेतनमान	1. वेतनमान	1. वेतनमान	1. वेतनमान	1. वेतनमान
Scarcity	1. न्यूनता/कमी	1. न्यूनता/कमी	1. अभाव 2. दुष्काल	1. कमी/दुर्लभता/ दुष्प्राप्यता/ स्वल्पता/विरलता 2. दुष्काल	1. न्यूनता/कमी/ अभाव/विरलता/ दुर्लभता 2. दुष्काल, अकाल, दुभिक्ष	1. न्यूनता/कमी

1	2	3	4	5	6	7
Schedule	1. अनुसूची	1. अनुसूची/ सारणी-पत्र	1. अनुसूची'	1. (समा) अनुसूची/ तालिका/ (क्रिया) अनुसूचित करना	1. अनुसूची/गुणो/ कार्यक्रम तालिका/ परिमिष्ट	1. अनुसूची
Schedule —, Programme	1. कार्यक्रम-अनुसूची	1. कार्यक्रम-अनुसूची	1. कार्यक्रम,	1. कार्यक्रम- अनुसूची/कार्यक्रम	1. कार्यक्रम	1. कार्यक्रम-अनुसूची
Schedule —, Time	1. समय-अनुसूची	1. समय-अनुसूची	1. समय-अनुसूची/ समय सारणी	1. अनुसूचित समय/ नियत समय	1. समय अनुसूची, निश्चित समय/ निर्धारित समय/ नियत समय	1. नियत समय/ अनुसूचित घनन
Scheme	1. योजना	1. योजना	1. योजना	1. योजना/स्कीम/ (फि०) योजना बनाना, स्कीम तैयार करना	1. योजना	1. योजना
Scope	1. विषय-क्षेत्र/ कार्यक्षेत्र/परिधि/ विस्तार	1. विषय-क्षेत्र/ कार्यक्षेत्र	2. (मुद्रण) विवरण-पत्र 1. विषय-सीमा/ विषय-क्षेत्र/ कार्यक्षेत्र/व्याप्ति/ क्षेत्र	1. विषय-क्षेत्र/ क्षेत्र/शायदा, विस्तार/परिधि	1. कार्यक्षेत्र, क्षेत्र/ विस्तार/व्याप्ति	3. विषय-क्षेत्र/ कार्य-क्षेत्र/ परिधि, विस्तार
Script writer	1. वस्तुलेखक	1. वस्तुलेखक	1. वस्तुलेखक/ लिपिकार	2. गुञ्जाइश 1. लिपिकार	2. गुञ्जाइश/अवसर/ अवकाश 1. लिपिकार/लेखक	1. लिपिकार

1	2	3	4	5	6	7
Scrutiaizer	1. सवीक्षक	1. सवीक्षक	1. संबीक्षक	1. परिनिरीक्षक	1. सवीक्षक/ परिनिरीक्षक	1. सवीक्षक
Scrutiny	1. सवीक्षा/छानबीन	1. सवीक्षा/छानबीन	1. सवीक्षा/छानबीन/ संनिरीक्षा	1. परिनिरीक्षा/ परिनिरीक्षण	1. सवीक्षा/ सूक्ष्मपरीक्षण/ परिनिरीक्षा/ जाँच/छानबीन/ सूक्ष्मजाँच	1. सवीक्षा
Sculptor	1. मूर्तिकार	1. मूर्तिकार	1. मूर्तिकार/शिल्पी	1. मूर्तिकार/शिल्पी	1. मूर्तिकार/शिल्पी/ लटाक	1. मूर्तिकार
Seal	1. (सला) मुद्रा/ मोहर	1. मुद्रा/मोहर	1. मुद्रा/मुहर	1. मुद्रा/मुहर	1. मुद्रा/मोहर/मुहर	1. मुद्रा/मोहर/
				2. नाममुद्रा 3. बन्ध		
	1. (क्रि०) मोहर सगाना	1. (क्रि०) मोहर सगाना	1. (क्रि०) मुहर सगाना/ समुद्रित करना/ मुद्राकित करना	1. (क्रि०) मोहर सगाना/ मुहर सगाना/ मुद्रा सगाना/ मुहरबंद करना	1. (क्रि०) मुहर सगाना/ मोहर सगाना/ मुद्रा सगाना/ मुद्राकित करना	1. (क्रि०) मोहर सगाना
Scaled	1. मोहरबंद/ मुद्राकित	1. मोहरबंद	1. मुहरबंद/ मुद्राकित/ समुद्रित, मुहर लगा हुआ	2. बंद करना 2. मुद्रना/बंद करना	1. मोहरबंद/ सीलबन्ध/ मुद्राकित/ मुद्राकृत/मुद्रायुक्त	1. मोहरबंद/ मुद्राकित
				2. बंद किया		

1	2	3	4	5	6	7
Secession	1. पार्श्वव	1. पार्श्वव	1. अलगवाह/ सबध-विच्छेद	1. पार्श्वव/अलगवाह	1. अलगवाह/ सबध-विच्छेद	1. पार्श्वव/
	2. पृथक होना	2. पृथक होना	2. अलग होना		2. अलग होना/ अपसर्जन	2. पृथक होना
Secondary	1. गौण	1. गौण	1. गौण	1. गौण/अवधान	1. गौण/अवधान	1. गौण
	2. माध्यमिक	2. माध्यमिक	2. (शिष्य)--- माध्यमिक	2. माध्यमिक	2. माध्यमिक	2. माध्यमिक
Secrecy	1. गोपनीयता	1. गोपनीयता	1. गोपनीयता/गोपन	3. द्वितीयक	3. द्वितीयक	1. गोपनीयता
			2. रहस्य	4 परवर्ती	2. छिपाव/गुह्यता/ भेद/रहस्य/ गुह्यता	1. गोपनीयता
				5 सभावक	3. एकाग्र	
Secret	1. गुप्त/गुप्तबात	1. गुप्त/गोपनीय	1. गुप्त/ अतिगोपनीय	1. गोपनीयता/ गुप्तता/	4. गुप्त रखने की कठिना	2. छिपाव/गुह्य/ गोपनीय
				2. रहस्य	5. धरोता	1. गुप्त/गुप्तबात
Secret	1. अतिगुप्त	1. परमगुप्त	3. परमगुप्त	1. गुप्त/गोपनीय गुप्त बातें	1. गुप्त/गुह्य/ गोपनीय	
				2. रहस्य/भेद	2. भेद/रहस्य	1. अतिगुप्त
				1 परम गोपनीय/ परम गुप्त	1. परमगुप्त	

1	2	3	4	5	6	7
Secret —, Top	1. परम गुप्त	1. परम गुप्त	1. परम गुप्त	1. नितान्त गोपनीय/ नितान्त गुप्त	1. परम गुप्त	1. परम गुप्त
Secret cover	1. गुप्त लिफाफा/ गुप्त आवरण	1. गुप्त लिफाफा/ गुप्त आवरण	1. गुप्त लिफाफा/ गुप्त आवरण	1. गुप्त लिफाफा	1. गुप्त लिफाफा	1. गुप्त लिफाफा/ गुप्त आवरण
Secret instruction	1. गुप्त अनुदेश	1. गुप्त अनुदेश	1. गुप्त अनुदेश	1. गुप्त अनुदेश	1. गुप्त अनुदेश	1. गुप्त अनुदेश
Secret letter	1. गुप्त पत्र	1. गुप्त पत्र	1. गुप्त पत्र	1. गुप्त पत्र	1. गुप्त पत्र	1. गुप्त पत्र
Secretariat	1. सचिवालय	1. सचिवालय	1. सचिवालय	1. सचिवालय	1. सचिवालय	1. सचिवालय
Secretary —, Additional	1. अपर सचिव	1. अपर सचिव	1. अपर सचिव/ अतिरिक्त सचिव	1. अपर सचिव	1. अपर सचिव/ अतिरिक्त सचिव	1. अपर सचिव
Secretary —, Assistant	1. सहायक सचिव	1. सहायक सचिव	1. सहायक सचिव	1. सहायक सचिव	1. सहायक सचिव	1. सहायक सचिव
Secretary —, Deputy	1. उपसचिव	1. उपसचिव	1. उपसचिव	1. उपसचिव	1. उपसचिव	1. उपसचिव
Secretary —, Joint	1. सम्युक्त सचिव	1. सम्युक्त सचिव	1. सम्युक्त सचिव	1. सम्युक्त सचिव	1. सम्युक्त सचिव	1. सम्युक्त सचिव
Secretary —, Military	1. सैनिक सचिव	1. सैनिक सचिव	1. सैनिक सचिव	1. सैन्य सचिव	1. सैनिक सचिव	1. सैनिक सचिव
Secretary —, Parliamen- -tary	1. ससदीय सचिव	1. ससदीय सचिव	1. ससदीय सचिव	1. ससदीय सचिव	1. ससदीय सचिव	1. ससदीय सचिव
Secretary —, Principal	1. प्रधान सचिव	1. प्रधान सचिव	1. प्रधान सचिव	1. प्रधान सचिव/ प्रमुख सचिव	1. प्रधान सचिव	1. प्रधान सचिव
Secretary —, Private	1. निजी सचिव	1. निजी सचिव	1. निजी सचिव	1. निजी सचिव/ आप्ट सचिव	1. निजी सचिव/ भ्यक्तिगत सचिव/ प्राइवेट सेक्रेटरी	1. निजी सचिव

1	2	3	4	5	6	7
Section officer	1. अनुभाग अधिकारी	1. अनुभाग अधिकारी	अनुभाग अधिकारी	1. प्रशाखा पदाधिकारी/ अनुभाग-पदाधिकारी	1. अनुभाग अधिकारी/ शाखाधिकारी	1 अनुभाग अधिकारी
Sectional Assistant	1. अनुभागीय सहायक	1. अनुभागीय सहायक	1. अनुभागीय सहायक	1. प्रशाखा सहायक	1. अनुभागीय सहायक	1. अनुभागीय सहायक
Sectional note book	1. अनुभागीय नोट-बुक	1. अनुभागीय नोट-बुक	1. अनुभागीय नोट-बुक	1. प्रशाखीय नोट-बुक	1. अनुभागीय नोट-बुक	1. अनुभागीय नोट-बुक
Sector —, Private	1. निजी क्षेत्र/ प्राइवेट सेक्टर	1. निजी सेक्टर/ प्राइवेट सेक्टर	1. अशासकीय उद्योगक्षेत्र	1. प्राइवेट सेक्टर	1. निजीक्षेत्र/ प्राइवेट सेक्टर	1 निजी क्षेत्र/ प्राइवेट सेक्टर
Sector —, Public	1. सार्वजनिक क्षेत्र/ पब्लिक सेक्टर	1. सार्वजनिक क्षेत्र/ पब्लिक सेक्टर	1. शासकीय उद्योगक्षेत्र	1. सार्वजनिक क्षेत्र/ पब्लिक सेक्टर	1. सार्वजनिक क्षेत्र/ पब्लिक सेक्टर	1. सार्वजनिक क्षेत्र/ पब्लिक सेक्टर/
Security	1. प्रतिभूति 2. सुरक्षा	1. प्रतिभूति/ जमानत 2. सुरक्षा	1. प्रतिभूति/ जमानत 2. सुरक्षा 3. ऋण-पत्र	1. प्रतिभूति/ जमानत 2 सुरक्षा 3 ऋण-पत्र ऋणाधार	1. प्रतिभूति/ जमानत 2 सुरक्षा/सुरक्षण 3. ऋण-पत्र	1. प्रतिभूति 2. सुरक्षा
Security bond	1. प्रतिभूति-पत्र	1. प्रतिभूति बंधपत्र/ जमानतनामा	1. प्रतिभूति-पत्र/ वधपत्र/ जमानतनामा	1. प्रतिभूति-पत्र/ प्रतिभूति बंधपत्र/ जमानतनामा	1. प्रतिभूति बंध/ जमानतनामा	1. जमानतनामा
Security deposit	1. प्रतिभूति जमा/ जमानत जमा	1. प्रतिभूति जमा/ जमानत जमा	1. प्रतिभूति जमा/ जमानत जमा/	1. प्रतिभूति जमा/ जमानत जमा/	1. प्रतिभूति जमा/ जमानत जमा/	1. जमानत जमा/

1	2	3	4	5	6	7
			प्रतिभूति निक्षेप	प्रतिभूति निक्षेप	घरोद्वर/ जमानत के रूप में जमा करुम	
Security guard Security —,instruction	1. सुरक्षा गारद 1. सुरक्षा अनुदेश	1. सुरक्षा गारद 1. सुरक्षा अनुदेश	1. सुरक्षा गारद 1. सुरक्षा अनुदेश	1. सुरक्षा गारद 1. सुरक्षा अनुदेश	1. सुरक्षा गारद 1. सुरक्षा अनुदेश	1. सुरक्षा गारद 1. सुरक्षा अनुदेश
Security office Sedition Seizure	1. सुरक्षा अधिकारी 1. राजद्रोह 1. अभिग्रहण	1. सुरक्षा अधिकारी 1. राजद्रोह 1. अभिग्रहण	1. सुरक्षा अधिकारी 1. राजद्रोह 1. अभिग्रहण/ पकड़ना/कब्जा/ आश्रमण (रोप)	1. सुरक्षा अधिकारी 1. राजद्रोह 1. अभिग्रहण कब्जा	1. सुरक्षा अधिकारी 1. राजद्रोह 1. अभिग्रहण/ अभिहरण, कब्जा	1. सुरक्षा अधिकारी 1. राजद्रोह 1. कब्जा
Select committee	1. प्रवर समिति	1. प्रवर समिति	1. प्रवर समिति	2. जाम होना 1. प्रवर समिति	2. जाम होना 1. प्रवर समिति/ विशिष्ट समिति	2. जाम होना 1. प्रवर समिति
Selection	1. प्रवरण/ सेलेक्शन 2. चयन	1. प्रवरण 2. चयन/चुनाव	1. प्रवरण 2. चयन/चुनाव	1. प्रवरण 2. सेलेक्शन/चयन/ वरण/चुनाव	1. प्रवरण 2. चयन/चुनाव/ छांट 3. पसन्द	1. प्रवरण 2. चयन
Selection committee Selection grade	1. प्रवरण समिति 1. प्रवरण-कोटि/ सेलेक्शन ग्रेड	1. प्रवरण समिति/ चयन समिति 1. सेलेक्शन ग्रेड	1. प्रवरण समिति/ चुनाव समिति 1. प्रवरण श्रेणी/ प्रवरण कोटि/ सेलेक्शन ग्रेड	1. प्रवरण समिति/ चयन समिति 1. सेलेक्शन ग्रेड/ प्रवरण कोटि	1. प्रवरण समिति 1. प्रवरण श्रेणी	1. प्रवरण समिति 1. प्रवरण ग्रेड

1	2	3	4	5	6	7
Selection post	1. प्रवरण-पद	1. प्रवरण-पद/ चयन-पद	1. प्रवरण-पद	1. प्रवरण-पद	1. प्रवरण-पद	1. प्रवरण-पद
Selfcontained	1. स्वत पूर्ण	1. स्वत पूर्ण	1. स्वत पूर्ण	1. स्वत पूर्ण/ स्वयंपूर्ण	1. स्वत पूर्ण/ स्वयंपूर्ण/ अनन्यापेक्ष	1. स्वत पूर्ण
Selfdefence	1. आत्मरक्षा	1. आत्मरक्षा	1. आत्मरक्षा/ प्रतिरक्षा	1. आत्मरक्षा	2 धुन्ना/बुद्ध्या 1. आत्मरक्षा/ आत्मप्रतिरक्षा/ स्वरक्षा/अपना बचाव	1. आत्मरक्षा
Self -explanatory	1. स्वत. स्पष्ट	1. स्वत. स्पष्ट/ स्वय व्याख्यात	1. स्वत. स्पष्ट/ स्वय व्याख्यात	1. स्वत. स्पष्ट	1. स्वत. स्पष्ट/ स्वय स्पष्ट/ स्वय व्याख्यात	1. स्वत. स्पष्ट
Seminar	1. विचार-गोष्ठी/ सगोष्ठी	1. विचार-गोष्ठी/ सेमिनार	1. विचार-गोष्ठी/ सगोष्ठी/ सेमिनार	1. सगोष्ठी/ सेमिनार	1. विचार-गोष्ठी/ सेमिनार/ परिसवाद विशेषाध्ययन- वर्ग	1. विचार-गोष्ठी/ सगोष्ठी
Semi-skilled	1. अर्ध-कुशल	1. अर्ध-कुशल	1. अर्ध-कुशल	1. अर्ध-कुशल/ अल्प दक्ष	1. अर्ध-कुशल	1. अर्ध-कुशल
Senate	1. सीनेट/ वरिष्ठ सभा	1. सीनेट/ वरिष्ठ सभा	1. सीनेट/ वरिष्ठ सभा/ शिष्ट वरिष्ठ	1. सीनेट/अभिपद्	1. सीनेट/ महासभा/ अधिसभा/ प्रमुख शाखा/ अबन्ध समिति	1. सीनेट

1	2	3	4	5	6	7
Sender	1. प्रेषक	1. प्रेषक	1. भेजनेवाला	1. प्रेषक/ भेजनेवाला	1. प्रेषक/ भेजनेवाला	1. प्रेषक
Senior	1. ज्येष्ठ/वरिष्ठ	1. वरिष्ठ	1. वरिष्ठ/ज्येष्ठ/ वरिष्ठ	1. प्रवर/वरीय	1. वरिष्ठ/उच्च/ ज्येष्ठ/बड़ा/ गोनियर	1. प्रवर
Senior Accountant	1. वरिष्ठ लेखापाल	1. वरिष्ठ लेखापाल	1. वरिष्ठ लेखापाल	1. वरीय लेखापाल/ प्रवर लेखापाल	1. वरिष्ठ लेखापाल	1. वरिष्ठ लेखापाल
Senior Chargeman	1. वरिष्ठ कार्यक्षक/ वरिष्ठ चार्जमैन	1. वरिष्ठ कार्यक्षक/ वरिष्ठ चार्जमैन	1. वरिष्ठ कार्यक्षक/ वरिष्ठ चार्जमैन	1. वरिष्ठ कार्यक्षक	1. वरिष्ठ कार्यक्षक/ वरिष्ठ चार्जमैन	1. वरिष्ठ कार्यक्षक/ वरिष्ठ चार्जमैन
Senior clerk	1. वरिष्ठ क्लर्क/ लिपिक	1. वरीय लिपिक	1. वरिष्ठ लिपिक	1. वरिष्ठ लिपिक/ प्रवर लिपिक	1. वरिष्ठ लिपिक	1. वरिष्ठ लिपिक
Senior Design Assistant	1. वरिष्ठ अभिकल्प सहायक	1. वरिष्ठ अभिकल्प सहायक	1. वरिष्ठ अभिकल्प सहायक	1. वरीय अभिकल्प सहायक	1. वरिष्ठ अभिकल्प सहायक	1. वरिष्ठ अभिकल्प सहायक
Senior Draftsman	1. वरिष्ठ प्राहणकार	1. वरिष्ठ प्राहणकार/ वरिष्ठ प्राहणक	1. वरिष्ठ प्राहणकार	1. वरीय प्राहणकार/ वरीय प्राहणकार	1. वरिष्ठ प्राहणकार	1. वरिष्ठ प्राहणकार
Senior Estimator	1. वरिष्ठ प्राहणकार	1. वरिष्ठ प्राहणकार	1. वरिष्ठ प्राहणकार	1. वरीय प्राहणकार	1. वरिष्ठ प्राहणकार	1. वरिष्ठ प्राहणकार
Senior grade	1. वरिष्ठ श्रेणी	1. वरिष्ठ श्रेणी/ वरिष्ठ प्रथम	1. ज्येष्ठ श्रेणी	1. वरीय श्रेणी/ वरीय प्रथम	1. वरिष्ठ श्रेणी	1. वरिष्ठ श्रेणी
Senior Lecturer	1. वरिष्ठ प्राध्यापक	1. वरिष्ठ प्राध्यापक	1. वरिष्ठ प्राध्यापक	1. वरीय प्राध्यापक	1. वरिष्ठ प्राध्यापक	1. वरिष्ठ प्राध्यापक
Senior Mechanic	1. वरिष्ठ मेकैनिक्	1. वरिष्ठ मेकैनिक्	1. वरिष्ठ मेकैनिक्	1. वरीय यांत्रिक	1. वरिष्ठ मेकैनिक्/ वरिष्ठ मिस्त्री/ वरिष्ठ यांत्रिक	1. वरिष्ठ मेकैनिक्

1	2	3	4	5	6	7
Senior most	1. वरिष्ठतम	1. वरिष्ठतम	1. वरिष्ठता/ उच्चतम	1. वरिष्ठ/उच्च/ सबसे बड़ा	1. वरिष्ठतम/ उच्चतम/ अग्रतम	1. वरिष्ठतम
Senior Salesman	1 वरिष्ठ विक्रेता	1. वरिष्ठ विक्रेता	1. वरिष्ठ विक्रेता	1. वरीय विक्रय कर्मचारी/ विक्रय-परिचर	1. वरिष्ठ विक्रेता	1. वरिष्ठ विक्रेता
Senior time-Scale	1 वरिष्ठ कालमान	1. वरिष्ठ कालमान	1. ज्येष्ठ कालमान/ वरिष्ठ काल- मान	1. वरीय कालमान	1. वरिष्ठ कालमान	1 वरिष्ठ कालमान
Senior translator	1 वरिष्ठ अनुवादक	1. वरिष्ठ अनुवादक	1. वरिष्ठ अनुवादक	1. वरीय अनुवादक/ प्रवर अनुवादक	1. वरिष्ठ अनुवादक	1. वरिष्ठ अनुवादक
Seniority	1. ज्येष्ठता/ वरिष्ठता/ वर्षिष्ठता	1. वरिष्ठता	1. ज्येष्ठता/ वर्षिष्ठता	1. वरीयता	1. ज्येष्ठता/ वरिष्ठता/अग्रता	1. प्रथरता
Sensation	1 सवेदना/ सवेदन	1. सवेदना/ सवेदन	1. सवेदना/ सवेदन 2. मनोवेग/उद्वेग 3. उत्तेजना/ सनसनी/हलचल	1. सवेदना/ सवेदन — 3. सनसनी	1 सवेदना/ सवेदन/ चेतना — 3. घलबली/सवेद	1. सवेदना
Sequence	1- अनुक्रम	1. अनुक्रम	1. अनुक्रम/क्रम/ तारतम्य	1. अनुक्रम/क्रम/ आनुपूर्थ	1. अनुक्रम/क्रम	1. अनुक्रम/क्रम
Serial list	1 क्रम-सूची	1. क्रम-सूची	1. क्रम-सूची	1. क्रम-सूची	1. क्रम-सूची	1 क्रम-सूची
Serial number	1. क्रमांक/ क्रम सङ्ख्या	1. क्रमांक/ क्रम सङ्ख्या	1. क्रम सङ्ख्या	1 क्रमांक/ क्रम सङ्ख्या	1. क्रमाङ्क/ अनुक्रममांक/ क्रम सङ्ख्या	1. क्रमांक

1	2	3	4	5	6	7
Series	1. आवलि	1. आवलि	1. आवलि/माता/ शुद्धता	1. आवली/ आवलि/माता	1. आवलि/श्रेणी/ शुद्धता/ श्रेणीमाता/ पक्ति	1. आवलि
Serious	1. गभीर	1. गभीर/भारी	1. गभीर/भारी	1. गभीर/मद्ध/ बिताजनक	2. तिलसिला 1. गभीर/घोर/ गहन	1. गभीर
Servant	1. सेवक/भूत्य/ नौकर	1. कर्मचारी	1. सेवक/नौकर/ कर्मचारी	1. सेवक/नौकर/ कर्मचारी	1. सेवक/कर्मचारी/ भूत्य	1. सेवक/नौकर/ कर्मचारी
Service	1. सेवा/नौकरी 2. व्यवस्था 3. सेवाई 4. तामील 5. सर्विस (विधि)	1. सेवा/नौकरी 2. व्यवस्था	1. सेवा 2. व्यवस्था 3. उपचर्या/ भरम्मत	1. सेवा/नौकरी 2. व्यवस्था 3. उपचर्या/चर्चा भरम्मत	1. नौकरी/सेवा — 3. चर्चा 4. तामीली/निर्वाह 5. सर्विस —	1. सेवा/नौकरी
Service —, Indian Administrative	1. भारतीय प्रशासन सेवा	1. भारतीय प्रशासन सेवा	1. भारतीय प्रशासन सेवा	1. भारतीय प्रशासन सेवा	7. परोसगारी 1. भारतीय प्रशासन सेवा	1. भारतीय प्रशासन सेवा
Service —, Indian Foreign	1. भारतीय विदेश सेवा	1. भारतीय विदेश सेवा	1. भारतीय विदेश सेवा	1. भारतीय बाह्यसेवा/ भारतीय विदेश सेवा	1. भारतीय विदेश सेवा	1. भारतीय विदेश सेवा

1	2	3	4	5	6	7
Service book	1. सेवापत्री/ सेवा पुस्तिका	1. सेवा पुस्तिका/ सेवा-पत्री	1. सेवा पुस्तिका/ सेवा-पत्री/ सेवापत्री	1. सेवा पुस्तिका	1. सेवा पुस्तिका/ सेवा-पुस्त/ सेवा पुस्तक	1. सेवा-पुस्तक
Service roll	1. सेवा-वृत्त	1. सेवा-वृत्त	1. सेवा-वृत्त	1. सेवा-वृत्ती	1. सेवा-वृत्त/ सेवा-सूची	1. सेवा-वृत्त
Service sheet	1. सेवा-पत्र	1. सेवा-पत्र	1. सेवा-पत्र	1. सेवा-पत्र	1. सेवा-पत्र	1. सेवा-पत्र
Services —, Essential	1. अनिवार्य सेवार्थे	1. अनिवार्य सेवार्थे	1. अनिवार्य सेवार्थे	1. अनिवार्य सेवार्थे	1. अनिवार्य सेवार्थे	1. अनिवार्य सेवार्थे
Services —, Subordinate	1. अधीनस्थ सेवार्थे	1. अधीनस्थ सेवा	1. अधीनस्थ सेवार्थे	1. अधीनस्थ सेवा/ अवर सेवा	1. अधीनस्थ सेवार्थे	1. अधीनस्थ सेवार्थे
Session	1. सत्र 2. अधिवेशन	1. सत्र 2. अधिवेशन	1. सत्र 2. अधिवेशन	1. सत्र 2. अधिवेशन सेशन	1. सत्र 2. अधिवेशन सेशन	1. सत्र 2. अधिवेशन
Session —, Plenary	1. पूर्ण अधिवेशन	1. पूर्ण अधिवेशन	1. पूर्ण अधिवेशन	1. पूर्ण अधिवेशन	1. पूर्ण अधिवेशन	1. पूर्ण अधिवेशन
Session —, School	1. शिक्षासत्र/ विद्यालय सत्र	1. शिक्षासत्र/ विद्यालय सत्र	1. विद्यालय शिक्षासत्र/ विद्यालय सत्र	1. शिक्षासत्र/ विद्यालय सत्र	1. शिक्षासत्र/ विद्यालय सत्र	1. शिक्षासत्र/ विद्यालय सत्र
Sessions Judge	1. सत्र-न्यायाधीश	1. सत्र-न्यायाधीश	1. सत्र-न्यायाधीश/ सेशन न्यायाधीश/ सेशन जज	1. सत्र-न्यायाधीश/ दौरा जज/सेशन न्यायाधीश	1. सत्र-न्यायाधीश	1. सत्र-न्यायाधीश
Set aside	1. अपास्त करना	1. अपास्त करना	1. अपास्त करना/ खारिज करना/ निराकृत करना	1. अपास्त करना/ रद्द करना 2. अलग करना	1. अपास्त करना/ रद्द करना/ निरस्त करना	1. रद्द करना/ अलग करना

1	2	3	4	5	6	7
Set	1. बिगल 2. समुच्चय	1. बिगल 2. समुच्चय	1. सेट/सूचक	1. सेट 2. समुच्चय 3. तालिका 4. सूचक (परिचय) 5. स्थायी निष्करण (शैक्षिक) 6. स्थ 7. जफ़ोदुई	1. सेट, रिपर/ निश्चित/निश्चित 2. — 3-6. समूह 7. जमाना/बिडाना 8. रूढ़ना/बल होना/ अपने आर को समाना	1. रिपर, निश्चित/ निरत
Settlement	1. बंदोबस्त 2. निपटारा/ समझौता/ व्यवस्थापन	1. बंदोबस्त/ 2. निपटारा/ समझौता	1. बंदोबस्त/ 2. समाधान/ परिचोचन/ पुनोत्ती 3. उपनिवेश/बस्ती	1. बंदोबस्त/ भू-व्यवस्था 2. निपटारा/ निबटारा, समझौता, निश्चय 3. बस्ती 4. नीचे बैठना/ बैठाना 5. स्थिरीकरण 6. परिनिर्धारण	1. बन्दोबस्त/ भू-व्यवस्था/ निश्चय/व्यवस्था/ व्यवस्थापन/ अवस्थापन 2. निबटारा/ परिचोचन/ समझौता 3. बस्ती, बस्ति/ उपनिवेश 4. नीचे बैठना	1. बंदोबस्त 2. निपटारा/ समझौता

1	2	3	4	5	6	7
Set up	1. व्यवस्था/ढाँचा 2. स्थापित करना	1. व्यवस्था/ढाँचा 2. स्थापित करना	1. व्यवस्था/ढाँचा 2. स्थापित करना	1. गठन 2. स्थापित करना	1. स्थापन 2. स्थापित किया जाना/ स्थापना करना/ खड़ा करना	1. व्यवस्था/ढाँचा 2. स्थापित करना
Severance	1. पृथक्करण/ संबन्ध-विच्छेद/ विभाजन	1. पृथक्करण/ संबन्ध-विच्छेद/ विभाजन	1. पृथक्करण/ विच्छेद/विभाजन अलगपाव/पृथक्ता	1. पृथक्करण/ विच्छेद/विभाजन/ अलगपाव	1. पृथक्करण/ विच्छेद/पृथक्त्व/ विभाजन/ अलगपाव	1. पृथक्करण/ संबन्ध-विच्छेद/ विभाजन
Shaper	1. आकृतिकार	1. आकृतिकार	1. आकृतिकार	1. आकृतिकार 2. रोपर	1. आकृतिकार/ रूपकार	1. आकृतिकार
Share	1. अंश/शेयर 2. भाग (क्रिया) भागी होना/ साझी होना/ भाग पाना	1. अंश 2. भाग (क्रिया) साझी होना/ भागी होना	1. अंश 2. हिस्सा	1. अंश/शेयर 2. हिस्सा/भाग (क्रिया) अंश पाना/ शेयर पाना/ हिस्सा बाँटना/ भाग पाना/ बाँट लेना	1. अंश/हिस्सा 2. भाग (क्रिया) बाँट लेना/ हिस्सा लेना/ हिस्सा बाँटना/ भाग लेना/ अंश लेना	1. अंश/शेयर 2. भाग (क्रिया) भागी होना/ साझी होना/ भाग पाना
Shift	1. पारी	1. पारी	1. पारी	1. पारी/शिफ्ट/पाली 2. स्थान परिवर्तन करना	1. पारी/पर्याय 2. ले जाना/ बदलना/ स्थानान्तरण करना	1. पारी

1	2	3	4	5	6	7
Shift	1. दिन पारी	1. दिन पारी	1. दिन पारी	1. दिन पारी	1. दिन पारी	1. दिन पारी
—, Day Shift	1. रात पारी	1. रात पारी	1. रात पारी	1. रात पारी/ रात्रिकालोन पारी	1. रात पारी	1. रात पारी
—, Night Shift						
Shift System	1. पारी प्रणाली	1. पारी प्रणाली	1. पारी प्रणाली	1. पारी प्रणाली	1. पारी प्रणाली	1. पारी प्रणाली
Shipyards	1. पोत-श्रावण	1. पोत-श्रावण	1. पोत-श्रावण	1. पोत-श्रावण/ शिपयार्ड	1. पोत-श्रावण/ पोत-श्रावण	1. पोत-श्रावण
Shipping	1. जहाज रानी/ पोत परिवहन	1. जहाज रानी	1. जहाज रानी/ नौ-बहन	1. नौ-बहन/ नौ-परिवहन/ नौ-पालन/ पोत-परिवहन	1. नौ-बहन/ नौ-पालन/ जहाज रानी/ जहाज से भेजना/ पोत-पालन/ पोत-श्रावण/शुभ/ पोत-समूह	1. जहाज रानी
Shortfall	1. कमी	1. कमी/स्यूनता	1. कमी/स्यूनता	1. कमी/स्यूनता	1. कमी/स्यूनता	1. कमी
Shorthand	1. आशुलिपि	1. आशुलिपि	1. आशुलिपि	1. आशुलिपि/	1. आशुलिपि/ शीघ्रलिपि/ संकेत लिपि	1. आशुलिपि
Short notice	1. अल्प सूचना	1. अल्प सूचना	1. अल्प सूचना	1. अल्प सूचना	1. अल्प सूचना	1. अल्प सूचना
Shortage	1. कमी	1. कमी	1. कमी	1. कमी/स्यूनता/ अल्पता 2. घाटा	1. कमी/स्यूनता/ अल्पता	1. कमी

1

Show cause
notice

2

1. हेतुक दशित
करने के लिए
सूचना/
कारण निदर्शन
नोटिस/
कारण बताओ
नोटिस

3

1. कारण बताओ
नोटिस

4

1. हेतुक दशित
करने की
सूचना/
कारण निदर्शन
सूचना/
कारण निदर्शन
नोटिस/
कारण बताने की
सूचना

5

1. हेतुक दशित
करने के लिए
सूचना/
कारण बताओ
नोटिस

6

1. कारण नोटिस/
'कारण बताओ'
नोटिस/
कारण बताने
का सूचना पत्र/
'कारण बताओ'
सूचना-पत्र

7

1. कारण बताओ
नोटिस

Sign

1. चिह्न/सकेत

1. चिह्न

(फि०) हस्ताक्षर
करना

(फि०) हस्ताक्षर
करना

1. चिह्न/सकेत

1. चिह्न/सकेत

2. लक्षण
(फि०) हस्ताक्षर
करना/
हस्ताक्षरित
करना

1. चिह्न/सकेत

2. लक्षण
(फि०) हस्ताक्षर
करना

1. चिह्न/सकेत

(फि०) हस्ताक्षर
करना

Signal

1. सकेत/सिगनल

1. सकेत/सिगनल

1. सकेत/सिगनल

1. सकेत/सिगनल/
सकेतक/सदेश

(फि०) सिगनल
देना/
सकेत भोजना/
सकेत देना/
सकेत करना

1. सकेत/सिगनल/
सकेतक/सूचना/
इशारा

(फि०) सकेत
भोजना/
सिगनल देना

1. सकेत/सिगनल

Sign writer
Signature

1. पट्टिका लेखक
1. हस्ताक्षर

1. पट्टिका लेखक
1. हस्ताक्षर

1. पट्टिका लेखक
1. हस्ताक्षर

1. पट्टिका लेखक
1. हस्ताक्षर/दस्तावेज

1. पट्टिका लेखक
1. हस्ताक्षर

1. पट्टिका लेखक
1. हस्ताक्षर

	1	2	3	4	5	6	7
Signature pad	1. हस्ताक्षर-पैड/	1. हस्ताक्षर-पैड	1. हस्ताक्षर-पैड	1. हस्ताक्षर-पैड	1. हस्ताक्षर-पैड/ हस्ताक्षरिका/ दस्तावेजी बही	1. हस्ताक्षर-पैड	1. हस्ताक्षर-पैड
Similar	1. सद्ग/ऐसी ही/ बैठी ही/ समरूप	1. सद्ग/ऐसी ही/ बैठे ही/ समरूप	1. समरूप/ समतुल्य	1. सद्ग/ बैठे ही/समरूप समान	1. सद्ग/ऐसे ही/ बैठा ही/समान/ समरूप/ तरतदुत्तर/ समतुल्य	1. सद्ग/ऐसे ही/ बैठा ही/समान/ समरूप/ समतुल्य	1. सद्ग/ऐसे ही/ बैठे ही/समरूप
Simultaneous	1. युगपत्/ समक्षणिक/ 2. एक साथ/ एक ही समय पर	1. युगपत्/ समक्षणिक 2. एक साथ/ एक ही समय पर	1. एक साथ/ समकालिक	1. युगपत् 2. एक साथ/ एक ही समय पर	1. युगपत् 2. एक साथ/ एक ही समय पर	1. युगपत्/ गमवर्ती	1. एक साथ/ एक ही समय पर
Sine die	1. अनिश्चित काल के लिए	1. अनिश्चित काल के लिए	1. अनिश्चित काल के लिए	1. अनिश्चित काल के लिए	1. अनिश्चित काल के लिए	1. अनिश्चित काल के लिए/ अनियत दिन पर्यन्त/अनिश्चित तिथि तक	1. अनिश्चित काल के लिए
Sinequo non	1. अनिवार्य शर्त/ अपरिहार्य शर्त	1. अनिवार्य शर्त/ अपरिहार्य शर्त	1. अनिवार्य शर्त/ अनिवार्य	1. अनिवार्य शर्त	1. अनिवार्य शर्त	1. अनिवार्य शर्त/ अपरिहार्य	1. अनिवार्य शर्त
Sir	1. श्रीमान्/ महोदय	1. महोदय	1. (सबोधन में) श्रीमान्/महोदय	1. श्रीमान्/ महोदय/ महाशय	1. श्रीमान्/ महोदय/ मास्टर/ आयें/श्रीमान्	1. श्रीमान्/ महोदय/ मास्टर/ आयें/श्रीमान्	1. श्रीमान्/ महोदय

1	2	3	4	5	6	7
Sister-in-charge Site	1. प्रभारी सिस्टर 1. स्थल/ घटनास्थल/ स्थान	1. प्रभारी सिस्टर 1. स्थल/ घटनास्थल	1. प्रभारी सिस्टर 1. स्थल/ घटनास्थल/ निर्माण-स्थल 2. (वन) स्थानगुण	1. प्रभारी सिस्टर 1. स्थल/स्थान	1. प्रभारी सिस्टर 1. स्थल/स्थान	1. प्रभारी सिस्टर 1. स्थल/स्थान
Site plan	1. स्थल नक्शा	1. स्थल नक्शा	1. स्थल का नक्शा/ स्थल मानचित्र	1. स्थल नक्शा	1. स्थल नक्शा	1. स्थल नक्शा
Sitting member	1. वर्तमान सदस्य/ आसीन सदस्य	1. वर्तमान सदस्य/ आसीन सदस्य	1. वर्तमान सदस्य	1. वर्तमान सदस्य/ आसीन सदस्य	1. वर्तमान सदस्य/ विद्यमान सदस्य	1. वर्तमान सदस्य
Sketch	1. रेखाचित्र	1. रेखाचित्र	1. रेखाचित्र/ रेखाकृति/घाका	1. रेखाचित्र/स्केच 2. शब्द-चित्र/ आरूपण/ रेखाकन	1. रेखाचित्र/घाका/ रूपरेखा/स्केच 2. सारामा	1. रेखाचित्र
Skilled carpenter	1. कुशल काष्ठकार/ कुशल बढई	1. कुशल काष्ठकार/ कुशल बढई	1. कुशल काष्ठकार/ कुशल बधिक/ कुशल बढई	1. कुशल बढई	1. कुशल बढई	1. कुशल बढई
Slender	1. अपमान वचन	1. अपमान वचन	1. अपमान वचन/ अरवचन	1. अपमान वचन/ फलक 2. कलक संगाना	1. अपमान वचन/ अपमानजनक शब्द/ अरवचन	1. अपमान वचन

	1	2	3	4	5	6	7
Slip		1. पर्ची	1. पर्ची	1. पर्ची 2. रखतन 3. चूक	1. पर्ची/पर्ची/ बिट/पुर्बी/पत्र 2. रखतन 3. सून/चूक	1. पर्ची/पर्ची/बिट 2. रखतन/ 3. चूक जाना, भूत जाना 4. चकमा/सरकना/ किमतना/ प्रिसकना/ सरकाना/ चकमा देना/ सरक जाना/ 5. थोरी से रख देना 6. थोरना/टुकड़ा काटना	1. पर्ची
Slum		1. गन्दी बस्ती	1. गदी बस्ती	1. गदी बस्ती/ गदा मुहस्ता	1. गंदी बस्ती/ गदा मुहस्ता	1. गदी बातो/ दरिद्र बस्ती/ गरीब बस्ती/ मलिनाबास/ गदी बस्तिभों से जाना	1. गदी बस्ती
Small		1. सघु अल्प (बचत)	1. सघु अल्प (बचत)	1. सघु अल्प (बचत) छोटा, घुद्र	1. सघु अल्प (बचत) छोटा	1. सघु अल्प (बचत) कम, छोटा, घुद्र, हल्का	1. सघु अल्प (बचत)

1	2	3	4	5	6	7
Smuggle	1. चुरी से ले लाना, चुरी से ले जाना, तस्कर व्यापार करना	1. चुरी से ले जाना, चुरी से लाना, तस्कर व्यापार करना	1. चुरी से लाना या ले जाना, चोरगुजारी करना, अपवहन करना	1. तस्करी व्यापार, चुरी से ले जाना, तस्कर व्यापार करना	1. चुरी से ले जाना, चुरी से माल ले जाना, चुरी से माल का आयात-निर्यात करना	1. चुरी से ले जाना, चुरी से लाना, तस्कर व्यापार करना
Smuggling	1. तस्कर व्यापार, चोरगुजारी, चुरी से माल लाना ले जाना	1. तस्कर व्यापार	1. अपवहन, चोरगुजारी	1. तस्कर व्यापार, तस्करी	1. तस्कर व्यापार, चुरी चुरी, चोर्यानयन, अवैध प्रेषण	1. तस्कर व्यापार
Social Security	1. सामाजिक सुरक्षा	1. सामाजिक सुरक्षा	1. सामाजिक सुरक्षा	1. सामाजिक सुरक्षा	1. सामाजिक सुरक्षा, समाज सुरक्षा	1. सामाजिक सुरक्षा
Social welfare	1. समाज कल्याण	1. समाज कल्याण	1. समाज कल्याण	1. समाज कल्याण	1. समाज कल्याण	1. समाज कल्याण
Society	1. समाज 2. सोसाइटी	1. समाज 2. सोसाइटी	1. समाज, सघ 2. समा, सघति समिति	1. समाज 2. सोसाइटी, समिति	1. समाज, सघ 2. सोसाइटी, समिति, सस्था	1. समाज 2. सोसाइटी
Soil	1. मृदा, मिट्टी 2. भूमि	1. मृदा, मिट्टी	1. मृदा, मिट्टी	1. मृदा, मिट्टी	1. मृदा, मिट्टी, तलमिट्टी	1. मिट्टी
Sojourn	1. अवस्थान, विराम	1. अवस्थान, विराम	1. अवस्थान, विराम	1. अवस्थापन, विराम	1. अवस्थापन, मुकाम	1. विराम

1	2	3	4	5	6	7
Sole Solema	1. एकमात्र 1. सत्यनिष्ठ, यभीर	1. एकमात्र 1. सत्यनिष्ठ, यभीर	1. एकमात्र 1. सत्यनिष्ठ, यभीर, पवित्र, महत्प्रभुत्वं	1. एकमात्र 1. सत्यनिष्ठ, यभीर	1. एकमात्र 1. सत्यनिष्ठ, यभीर, पवित्र, विधिपूर्वक	1. एकमात्र 1. सत्यनिष्ठ, यभीर
Solemaity Solemaity	1. यभीरता, यभीर्य 1. सत्यनिष्ठापूर्वक, सत्यनिष्ठा से	1. यभीरता, यभीर्य 1. सत्यनिष्ठापूर्वक, सत्यनिष्ठा से	1. यभीरता, यभीर्य 1. सत्यनिष्ठापूर्वक	1. यभीरता, यभीर्य 1. सत्यनिष्ठा, विधिपूर्वक	1. यभीरता, यभीर्य 1. सत्यनिष्ठा से, सत्य प्रतिज्ञापूर्वक, प्रतिज्ञापूर्वक, दृढ़ संकल्पित होकर, यभीरतापूर्वक	1. यभीरता 1. सत्यनिष्ठापूर्वक, सत्यनिष्ठा से
Solution	1. साधन 2. हल	1. साधन 2. हल	— 2. हल, समाधान, मुद्राब 3. धोल, बिलय, बिलयन	— 2. समाधान, हल, उत्तर 3. मुनेशन/बिलयन	— 2. समाधान, हल, उपाय, उत्तर 3. धोल	1. साधन 2. हल
Sorting	1. छँटाई	1. छँटाई, छटना	1. छँटाई, छटना	1. छँटाई, छँटा, छँटाई	1. छँटाई	1. छँटाई
Source	1. स्रोत, उद्गम	1. स्रोत, उद्गम	1. स्रोत, उद्गम	1. स्रोत, उद्गम	1. स्रोत, उद्गम, धोठा	1. स्रोत, उद्गम
Souvenir	1. सूचनियर, स्मारिका	2 साधन 1. सूचनियर	2 साधन 1. सूचनियर, स्मारिका	2. मूल साधन, मूल 1. स्मारिका, सूचनियर, स्मृति-उपायन, स्मृति-बिम्ब	2. मधुब 1. स्मारिका	1. स्मारिका

1	2	3	4	5	6	7
Sovereign	1. अधिराट्, प्रभु, प्रभुसत्ता सम्पन्न, सर्वसत्ताधारी	1. अधिराट्, प्रभु, प्रभुसत्ता सम्पन्न, सर्वसत्ताधारी	1 प्रभु, प्रभुसत्ता सम्पन्न	1. अधिराट्, प्रभु, प्रभुसत्ता सम्पन्न, संपूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न, सम्राट्	1. प्रभु, संपूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न, संपूर्ण समुदायी, सम्पन्न, सम्राट्, राजा 2. एकछत्र 3. स्वर्णमुद्रा	1 प्रभुसत्ता सम्पन्न
Sovereignty	1. प्रभुसत्ता, प्रभुता, सर्वोच्च सत्ता	1. प्रभुसत्ता, प्रभुता, सर्वोच्च सत्ता	1. प्रभुसत्ता, प्रभुता	1 प्रभुसत्ता, प्रभुता, प्रभुत्व	1 प्रभुसत्ता, प्रभुता 2. एकछत्रता	1. प्रभुसत्ता, प्रभुता, सर्वोच्च सत्ता
Spacing	1. अंतर छोडना	1 अंतर छोडना	1. अंतर छोडना, अंतर देना, अंतर रखना, अन्तरण 2. अन्तर, अन्तराल	1 अंतर छोडना, अंतर रखना, अंतर-फासला, फासला, अंतर 2 अन्तराल, समयान्तर देना	1. अंतर छोडना	1 अंतर छोडना
Speaker	1. अध्यक्ष	1. अध्यक्ष	1. अध्यक्ष (लोकसभा) 2. वक्ता	1. अध्यक्ष 2. वक्ता	1. अध्यक्ष 2. वक्ता, बोलनेवाला	1. अध्यक्ष
Special	1. विशेष	1. विशेष	1. विशेष, विशिष्ट	1. विशेष, खास	1 विशेष, विशिष्ट	1. विशेष
Specialist	1. विशेषज्ञ	1. विशेषज्ञ	1. विशेषज्ञ	1. विशेषज्ञ	1. विशेषज्ञ	1. विशेषज्ञ
Specific	1. विनिर्दिष्ट	1. विशिष्ट, विशेष 2. आपेक्षिक	1. विनिर्दिष्ट, विशिष्ट, विशेष	1. विनिर्दिष्ट, विशिष्ट 2. आपेक्षिक	1. निर्दिष्ट, विशिष्ट, विशेष, निश्चित यथोक्तिवित्त	1. विशिष्ट

1	2	3	4	5	6	7
Specification	1. विनिश्चित, विनिर्देश	1. विनिश्चित	1. विनिश्चित, विनिर्देशन, निर्देश, विवरण, व्योरा	1. विनिर्देश, विनिश्चित, विभूत विवरण	1. विनिश्चित, विनिश्चित निर्देश, विशेषीकरण, विरुद्ध विवरण, विवरण, उद्गमोक्त	1. विनिश्चित
Specimen	1. नमूना, निर्देश	1. नमूना	1. नमूना, निर्देश, प्रतिपत्र, बानसी	1. नमूना	1. नमूना, निर्देश, प्रतिपत्र	1. नमूना
Specimen Signature	1. नमूना हस्ताक्षर	1. नमूना हस्ताक्षर	1. नमूना हस्ताक्षर	1. नमूना हस्ताक्षर, हस्ताक्षर का नमूना	1. नमूने का हस्ताक्षर, आदर्श हस्ताक्षर	1. नमूना हस्ताक्षर
Speculation	1. सट्टा	1. सट्टा 2. अनुमान, अटकल	1. सट्टा 2. अनुमान, अटकल	1. सट्टा, सट्टेबाजी पाटबा	1. सट्टा, सट्टेबाज पाटबा 2. परिचल्पना, अनुमान, अटकल	1. सट्टा 2. अनुमान, अटकल
Speech	1. भाषण	1. भाषण	1. भाषण 2. भाषा, बोली	1. भाषण, ध्याव्यय	1. भाषण, व्याख्यान, वक्तृता 2. भाषा, बोली 3. भाषणीय 4. बोलने की क्षमता	1. भाषण
Speed	1. चाल, रफ्तार, गति	1. चाल, रफ्तार, गति	1. चाल गति, 2. क्षमता	1. चाल, रफ्तार 2. क्षमता	1. चाल, रफ्तार, गति, वेग	1. चाल, रफ्तार, गति
Sphere	1. गोला 2. क्षेत्र	1. गोला 2. क्षेत्र	1. गोला 2. क्षेत्र	1. गोला, संकल 2. क्षेत्र, आकार	1. गोला, भूखण्ड 2. क्षेत्र	1. गोला 2. क्षेत्र

1	2	3	4	5	6	7
Sponsor	1. प्रयोजन (क्र०) प्राथोचित करना	1. प्रयोजक	1. उत्तरदायी 2. पुरस्कर्ता, पोषक (क्र०) उत्तरदायी होना, पुरस्कृत करना, पोषित करना	1. प्रयोजक, तत्त्वावधान	1. परियोजक, धर्मपिता (क्र०) प्रवर्तन करना, उत्तरदायी होना, दायित्व लेना, प्रतिभू बनना	1. प्रयोजन
Squad	1. स्वबाह, दस्ता	1. स्वबाह, दस्ता	1. जय्या, दल	1. स्वबाह, दस्ता, टुकड़ी	1. दस्ता, बृन्द	1. दस्ता
Squad, flying Staff	1. उडनदस्ता 1. कर्मचारी-बृन्द, स्टाफ	1. उडनदस्ता 1. कर्मचारी वर्ग	1. उडनदस्ता 1. कर्मचारी वर्ग, स्टाफ, अमला अध्यापक वर्ग (गिहक्षण)	1. उडनदस्ता 1. कर्मचारी वर्ग, स्टाफ, गण	1. उडनदस्ता 1. कर्मचारी बृन्द, कर्मचारी गण, कर्मचारी वर्ग, सेवकगण, सेवक वर्ग, अमला	1. उडनदस्ता 1. कर्मचारी वर्ग, स्टाफ
Staff artist	1. विभागीय कलाकार	1. विभागीय कलाकार	1. विभागीय कलाकार	1. विभागीय कलाकार	1. विभागीय कलाकार	1. विभागीय कलाकार
Stage	1. रगमच 2. अवस्था, प्रक्रम	1. मच 2. अवस्था	1. मच, रगमच चयूतरा 3. चरण, सोनान, 4. मचान, टाड, सदली, पाड	1. रगमच 2. अवस्था, प्रक्रम, क्रम	1. रगमच, रगभूमि, मच 2. अवस्था, प्रक्रम, स्थिति, धेणी 3. पडाव, विराम, स्थल	1. रगमच 2. अवस्था

358 | अखिल भारतीय प्रशासनिक शब्दकोश

1	2	3	4	5	6	7
Stamp	1. टिकट, स्टाम्प 2. मोहर 3. मुद्राक	1. टिकट, स्टाम्प 2. मोहर	1. टिकट, स्टाम्प 2. मुहर	1. टिकट, स्टाम्प 2. ठप्पा 3. मुद्राक	1. टिकट, स्टाम्प	1. टिकट 2. मोहर 3. मुद्राक
Stamping	1. मोहर लगाना	1. मुहर लगाना	1. मुहर लगाना	1. मोहर लगाना, ठप्पा लगाना	1. मुहर लगाना	1. मोहर लगाना
Standard	1. मानक, स्तर, रङ	1. मानक, स्टैण्डर्ड	1. मानक, स्तर 2. ध्वजदण्ड/पताका/ ध्वजबूझ	1. मानक, मान स्तर, स्तरमान 2. ध्वजदण्ड	1. मानक, मान, स्तर, मापदण्ड, प्रामाणिक, प्रमाण 2. ध्वज	1. मानक, स्तर, रङ
Standard heads	1. मानकशीर्ष	1. मानकशीर्ष	1. मानकशीर्ष	1. मानकशीर्ष	1. मानकशीर्ष	1. मानकशीर्ष
Standardization	1. मानकीकरण	1. मानकीकरण	1. मानकीकरण, मानक निर्धारित करना	1. मानकीकरण	1. मानकीकरण, प्रमाणीकरण, प्रमाणिक बनाना, एक प्रमाण का बनाना	1. मानकीकरण
Standing	1. स्थायी	1. स्थायी	1. स्थायी	1. स्थायी	1. स्थायी, स्थिर 2. संवाक्य 3. स्थिति	1. स्थायी
Standing-Commission	1. स्थायी आयोग	1. स्थायी आयोग	1. स्थायी आयोग	1. स्थायी आयोग	1. स्थायी आयोग	1. स्थायी आयोग
Standing-guard file	1. स्थायी निदेश मिसिल	1. स्थायी निदेश फाइल	1. स्थायी निदेश फाइल	1. स्थायी फाई फाइल, स्थायी निदेश सचिका	1. स्थायी निदेश मिसिल	1. स्थायी निदेश फाइल

1	2	3	4	5	6	7
Standing order	1. स्थायी आदेश	1. स्थायी आदेश	1. स्थायी आदेश	1. स्थायी आदेश	1. स्थायी आदेश	1. स्थायी आदेश
Starred	1. तारांकित	1. तारांकित	1. तारांकित	1. तारांकित	1. तारांकित	1. तारांकित
State	1. राज्य 2. स्थिति, दशा, अवस्था, हालत	1. राज्य	1. राज्य 2. स्थिति, अवस्था, दशा, हालत	1. राज्य 2. स्थिति, अवस्था, दशा, हालत	1. राज्य 2. स्थिति, अवस्था, दशा	1. राज्य 2. स्थिति, दशा, अवस्था, हालत
Statement	1. कथन 2. बयान, वक्तव्य, विवरण	— 2. बयान, विवरण	1. कथन 2. वक्तव्य, बयान, विवरण, विवरण-पत्र	1. कथन 1. बयान, वक्तव्य, विवरण	1. कथन 2. बयान, वक्तव्य, विवरण, लेखा	1. लेखा विवरण-पत्र 2. वक्तव्य
Statesman	1. राजमर्मज्ञ	1. राजमर्मज्ञ	1. राजनीतिज्ञ, शासनमर्मज्ञ	1. राजमर्मज्ञ, राजनीतिमर्मज्ञ, नीतिमान, नीतिज्ञ	1. राजनीतिज्ञ, राजनीतिकुशल	1. राजमर्मज्ञ
Station	1. स्टेशन, केन्द्र	1. स्टेशन, स्थान	1. स्टेशन, केन्द्र, स्थान 2. मुख्यालय, मुख्यनगर	1. स्टेशन, केन्द्र, स्थान 2. आस्थान, पदस्थान	1. स्टेशन, केन्द्र, स्थान, स्थानक 2. स्थान, स्थिति	1. स्टेशन, केन्द्र 2. स्टेशन, केन्द्र
Station Director (AIR)	1. केन्द्रनिदेशक	1. केन्द्रनिदेशक	1. केन्द्रनिदेशक	1. केन्द्रनिदेशक	1. केन्द्रनिदेशक	1. केन्द्रनिदेशक
Station Master	1. स्टेशन-मास्टर	1. स्टेशन-मास्टर	1. स्टेशन-मास्टर	1. स्टेशन-मास्टर	1. स्टेशन-मास्टर	1. स्टेशन-मास्टर
Stationery	1. लेखन-सामग्री	1. लेखन-सामग्री	1. लेखन-सामग्री	1. लेखन-सामग्री, स्टेशनरी	1. लेखन-सामग्री	1. लेखन-सामग्री
Statistical	1. सांख्यिकीय, सांख्यिकी	1. सांख्यिकीय	1. सांख्यिकीय, सांख्यिक, बाँकडा-सबधी	1. सांख्यिकीय, अंकडा-सबधी	1. सांख्यिकीय	1. सांख्यिकीय

1	2	3	4	5	6	7
Statistical Bulletin	1. सांख्यिकीय बुलेटिन	1. सांख्यिकीय बुलेटिन	1. सांख्यिकीय बुलेटिन	1. सांख्यिकीय बुलेटिन	1. सांख्यिकीय बुलेटिन	1. सांख्यिकीय बुलेटिन
Statistical Yearbook	1. सांख्यिकीय शब्दकोश	1. सांख्यिकीय शब्दकोश	1. सांख्यिकीय शब्दकोश	1. सांख्यिकीय शब्दकोश	1. सांख्यिकीय शब्दकोश	1. सांख्यिकीय शब्दकोश
Statistician	1. सांख्यिक, सांख्यिकीविद्	1. सांख्यिक, सांख्यिकीविद्	1. सांख्यिक, सध्याविद्	1. सांख्यिक, सांख्यिक शास्त्री	1. सांख्यिक, सांख्यिकीविद्, आंकड़ा शास्त्री	1. सांख्यिक
Statistics	1. सांख्यिकी 2. आंकड़े	1. सांख्यिकी 2. आंकड़े	1. सांख्यिकी 2. आंकड़े, अक-मकलन	1. सांख्यिकी 2. आंकड़े	1. सांख्यिकी 2. आंकड़े, आंकड़ेवा रो	1. सांख्यिकी 2. आंकड़े
Status	1. स्थिति, हैसियत, प्रतिष्ठा, मर्यादा	1. स्थिति, हैसियत, प्रतिष्ठा	1. स्थिति, हैसियत, प्रतिष्ठा	1. स्थिति, हैसियत, प्रतिष्ठा, प्राप्ति	1. स्थिति, हैसियत, प्रतिष्ठा, प्रस्थिति, प्रविष्टा	1. स्थिति, हैसियत, प्रतिष्ठा
Statuo-quo	1. यथापूर्वं-स्थिति	1. यथापूर्वं-स्थिति	1. यथापूर्वं-स्थिति, पूर्व स्थिति	1. यथापूर्वं-स्थिति, यथापूर्वं, ज्यो-का-र्यो	1. यथापूर्वं-स्थिति, पूर्व-स्थिति, यथास्थित, यथावत्	1. यथापूर्वं-स्थिति
Statute	1. कानून, सविधि	1. कानून	1. सविधि, परिनिषम	1. कानून, परिनिषम स्टेट्यूट	1. सविधि, परिनिषम, अधिनियम, सहायित	1. कानून, सविधि
Statutory	1. कानूनी, विधिक, सांख्यिक	1. कानूनी, विधिक	1. विधिक, सांख्यिक, सविहित 2. परिनिषमिन, परिनिषत	1. कानूनी 2. परिनिषम	1. विधिक, वैधानिक, सांख्यिक 2. परिनिषम अधिनियमित	1. कानूनी

1	2	3	4	5	6	7
Stay Order	1. रोकने का आदेश	1. रोकने का आदेश	1. रोकने का आदेश, रोधनादेश	1. रोकने का आदेश	1. रोकने का आदेश, रोधनादेश, स्थगन-आदेश	1. रोकने का आदेश
Steering Committee	1. विषय-निर्वाचन समिति	1. विषय-निर्वाचन समिति	1. विषय-निर्वाचन समिति	3. विषय-निर्वाचन समिति	1. कर्गद्वार समिति	1. विषय-निर्वाचन समिति
Steno, Stenographer	1. स्टेनो, आशुलेखक	1. आशुलिपिक, शीघ्रलिपिक	1. स्टेनो, आशुलेखक	1. आशुलिपिक	1. आशुलिपिक, शीघ्रलिपिक, आशुलेखक, सकेतलेखक	1. स्टेनो, आशुलिपिक
Stenotypist	1. आशुटकर, स्टेनोटाइपिस्ट	1. आशुटकर, शीघ्रलिपिक	1. आशुलेखन, टकर, आशुटकर	1. आशुटकर	1. आशुटकर, स्टेनोटाइपिस्ट	1. आशुटकर, स्टेनोटाइपिस्ट
Sterestyped	1. रुद्ध, रुद्धिबद्ध	1. रुद्धि, रुद्धिबद्ध	1. रुद्धिबद्ध, बंधा हुआ	1. रुद्ध, रुद्धिबद्ध, नियत, निश्चित	1. रुद्धिबद्ध, सौंबाबद्ध	1. रुद्धि, रुद्धिबद्ध
Stipend	1. वृत्तिका, बजीफा	1. वृत्तिका, बजीफा	1. वृत्तिका, बजीफा	1. वृत्तिका, वृत्ति, बजीफा	1. वृत्तिका, बजीफा	1. बजीफा
Stipulate	1. अनुबध करना	1. अनुबध करना	1. अनुबध करना	1. अनुबध करना	1. अनुबध करना, निर्बंधन करना	1. अनुबध करना
Stipulation	1. अनुबध	1. अनुबध	2. शर्त लगाना 1. अनुबध, शर्त, ठहराव	2. शर्त लगाना 1. अनुबध, शर्त	2. सौदा करना 1. अनुबध, ठहराव, अभिसविदा	1. अनुबध
Stock	1. सामान, स्टाक, माल	1. सामान, स्टाक, माल	1. सामान, माल, स्टाक, भंडार, वस्तु	1. सामान, स्टाक, माल	1. सामान, स्टाक, माल	1. सामान, माल, स्टाक

1	2	3	4	5	6	7
	2. शेप माल	2. शेप माल	2. शेप माल 3. स्टॉक (कम्पनी) 4. सरकारी ऋण 5. पशुधन 6. स्तब्ध	2. शेप माल 3. स्टॉक — 5. पशुधन 6. स्तब्ध, छद्म	2. शेप माल	2. शेप माल
Stock taking	1. माल की पड़ताल, स्टॉक-मितान	1. माल की पड़ताल, स्टॉक-मितान	1. माल की जाँच पड़ताल, स्टॉक-मितान, भंडार-परीक्षण	1. माल जाँचना, स्टॉक-मितान, स्टॉक लेना	1. माल की मँभान, भंडार की जाँच	1. माल की जाँच
Stock Verifier	1. स्टॉक सत्यापक	1. स्टॉक सत्यापक	1. भंडार-परीक्षक	1. स्टॉक का सत्यापक, माल का सत्यापक	1. स्टॉक सत्यापक	1. स्टॉक सत्यापक
Stockman Storage	1. पशुपाल 1. सचयन, गोदाम में रखना, भंडार में रखना	1. पशुपाल 1. गोदाम में रखना, गोदाम भाड़ा, गोदाम भंडार	1. पशुपाल 1. सचयन, गोदाम भाड़ा, सघहागार, सघहृष्यय	1. पशुपाल 1. सचयन, गोदाम में रखना, भंडार में रखना, भंडारकरण, गोदाम प्रभार	1. पशुपाल 1. सचयन, गोदाम में रखना, गोदाम भाड़ा	1. पशुपाल 1. सचयन
Store	1. भंडार, गोदाम	1. भंडार, गोदाम	1. भंडार, गोदाम, कोठार, सघहागार	1. भंडार, गोदाम, स्टोर 2. सचय करना 3. जमा	1. भंडार, गोदाम, स्टोर 2. विक्रशगार	1. भंडार, गोदाम
Store Houseman	1. भंडारवाला	1. भंडारवाला	1. भंडारवाला	1. भंडारिक	1. भंडारवाला	1. भंडारवाला

1	2	3	4	5	6	7
Storekeeper	1. भडारी	1. भडारी	1. भडारी, कोठारी, भडारक	1 भडारी, भडारपाल	1. भडारी, कोठारी, सप्रहागारिक	1. भडारी
Storeman Stores	1. भडारकर्मी 1. सामान, सामग्री, भडार	1. भडारकर्मी 1. सामान	1. भडारकर्मी 1. सामान, सामग्री, भडार, चल्तु, वस्तुमग्नह	1. भडारकर्मी 1. सामान, सामग्री, भडार	1. भडारकर्मी 1. सामान, सामग्री, भडार	1. भडारकर्मी 1. सामान, सामग्री, भडार
Stricture	1. अवक्षेप	1. अवक्षेप	1. अवक्षेप	1. निदात्मक अभ्युक्ति	1. अवक्षेप, निन्दा, भर्त्सना	1. अवक्षेप
Strike	1. हड़ताल 2. आघात करना	1. हड़ताल	1. हड़ताल 2. आघात करना	2. सकोच, सकोचन	2. सकोचन 3. कडी टीका, तीव्र आलोचना, कटाक्ष, छीटे	1. अवक्षेप
Structure	1. संरचना	1. संरचना	1. संरचना, रचना, बनावट	1. हड़ताल 2. आघात, मार, आघात/प्रहार करना, चोट करना	3. सूक्ष्मता, दिमाग में आना	1. हड़ताल 2. आघात करना
			1. संरचना, रचना, बनावट	1. हड़ताल 2. आघात, मार, आघात/प्रहार करना, चोट करना	3. सूक्ष्मता, दिमाग में आना	1. हड़ताल 2. आघात करना
			2. ढाँचा, निर्माण, निमित्त	1. संरचना, रचना, बनावट	1. संरचना, रचना, बनावट	1. संरचना
			3. भवन, इमारत	2. निमित्त	2. ढाँचा, स्वरूप, गहन	
				3. इमारत	3. भवन, इमारत रचित	

1	2	3	4	5	6	7
Sub (Subordinate)	1. नायब, छोटा, उप-	1. नायब, छोटा, उप-	1. नायब, छोटा, उप-, अवर	1. सब, अवर, उप-	1. नायब, छोटा, उप-, अवर, अनु-, सब-	1. नायब, छोटा, उप-
Sub-committee	1. उपसमिति	1. उपसमिति	1. उपसमिति	1. उपसमिति	1. उपसमिति	1. उपसमिति
Sub-head	1. उपशीर्ष	1. उपशीर्ष	1. उपशीर्ष	1. उपशीर्ष	1. उपशीर्ष	1. उपशीर्ष
Sub-judge	1. उपन्यायाधीश	1. उपन्यायाधीश	1. उपन्यायाधीश	1. अधरन्यायाधीश	1. उपन्यायाधीश	1. उपन्यायाधीश
Sub-para	1. उपपैरा	1. उपपैरा	1. उपपैरा, उपकटिका, उपपैराप्राफ	1. उपकटिका	1. उपपैरा, उपकटिका	1. उपपैरा
Sub-rule	1. उपनियम	1. उपनियम	1. उपनियम	1. उपनियम	1. उपनियम	1. उपनियम
Subject	1. विषय 2. प्रजा	1. विषय	1. विषय	1. विषय विषयवस्तु	1. विषय, विषयवस्तु	1. विषय
Subletting	1. दरकिरायेदारी, उपभाड़ा	1. दरकिरायेदारी, उपभाडा	1. दरकिरायेदारी, उपभाडा	1. दरकिरायेदारी	1. दिक्रमी- किरायेदारी, उपभाडेदारी	1. दरकिरायेदारी, उपभाडा
Submission	1. निवेदन 2. अधीनता स्वीकार करना 3. प्रस्तुतीकरण, पेशी	1. निवेदन — 3. प्रस्तुतीकरण, पेश करना	1. निवेदन 3. प्रस्तुतीकरण, पेशी	1. निवेदन 2. समर्पित करना 3. प्रस्तुत किया जाना, पेश करना	1. निवेदन, बिनती 2. अधीनता, समर्पण 3. प्रस्तुतीकरण, प्रस्तुति, अप्रेस्थापन	1. निवेदन 2. अधीनता स्वीकार करना 3. पेशी

1	2	3	4	5	6	7
	4. अधीनता 5. मानलेना/मानना			4. अधीनता, प्रणति 5. मानना/मान लेना	4. अधीनता, प्रणति	— 5. मान लेना/मानना
Submit	1 प्रस्तुत करना 2. निवेदन करना	1. प्रस्तुत करना 2 निवेदन करना	1. प्रस्तुत करना 2. निवेदन करना, निवेदित करना	1 प्रस्तुत करना, पेश करना, सम्मुख रखना, सामने रखना 2. निवेदन करना, निवेदित करना 3. भेज देना 4 समर्पित करना	1. प्रस्तुत करना, समक्ष रखना, आगे रखना, पेश करना 2. निवेदन करना 3. भेजना, प्रेषित करना 4. अनुवर्तन करना, अधीन हो जाना, आत्मसमर्पण करना	1. प्रस्तुत करना 2. निवेदन करना
Subordinate	1. अधीन, अधीनस्थ, मातहत	1. अधीनस्थ	1. अधीन, अधीनस्थ, मातहत, अवर	1 अधीन, मातहत, निचला	1. अधीन, अधीनस्थ, मातहत, निचला	1. अधीन, अधीनस्थ, मातहत
Subordinate office	1. अधीनस्थ कार्यालय	1. अधीनस्थ कार्यालय	1. अधीनस्थ कार्यालय	1. अधीनस्थ कार्यालय, अधीन कार्यालय	1. अधीनस्थ कार्यालय	1. अधीनस्थ कार्यालय
Subscribe	1. चदा या शुल्क देना, घाहक बनना 2. समर्पन करना, सहमत होना	—	1. चदा या शुल्क देना, घाहक बनना 2. समर्पन करना, सहमत होना	1. चदा देना/लेना, घाहक बनना 2. योगदान देना, योगदान करना	1. चदा देना/लेना, घाहक बनना, 2. स्वीकृति देना, सहमत होना	—

	1	2	3	4	5	6	7
		3. हस्ताक्षर करना	—	3. हस्ताक्षर करना	3. हस्ताक्षर करना, हस्ताक्षरित करना	3. हस्ताक्षर करना, अनुदस्ताक्षर करना	
		4. नीचे लिखना	—	4. नीचे लिखना	—	—	
		5. अभिदान, अभिदान करना	5. अभिदान देना	5. अभिदान करना	5. अभिदान करना	5. अभिदान देना	
Subsequent	1. बाद का, अनुवर्ती, उत्तरवर्ती, उत्तरमाध्य (विधि)	1. बाद का, उत्तरवर्ती		1. बाद का, अनुवर्ती उत्तरवर्ती पारिचयक	1. बाद का, अनुवर्ती उत्तरवर्ती, पारिचयक, अनुगामी, परवर्ती परचातुर्वर्ती, परवर्ती, परचातुर्वर्ती	1. बाद का, अनुवर्ती, उत्तरवर्ती, अनुगामी, परवर्ती, परचातुर्वर्ती	1. बाद का अनुवर्ती, उत्तरवर्ती
Subsidiary	1. शीघ्र 2. सहायक	1. शीघ्र 2. सहायक		1. शीघ्र 2. सहायक	1. शीघ्र 2. सहायक	1. शीघ्र 2. सहायक, सहायतार्थ सहायता के रूप में, उपसहायक	1. शीघ्र 2. सहायक
		3. समनुवर्ती	3. अनुसर्ती		3. समनुवर्ती, अनुसर्ती		
Subsidise	1. सहायता देना	1. सहायता देना		1. सहायता देना	1. सहायता देना	1. आर्थिक सहायता देना, पूति करना	1. सहायता देना

1	2	3	4	5	6	7
Subsidy	1. सहायिकी, इमदाद	1. सहायता (आयिक), इमदाद	1. आधिक सहायता, इमदाद, राज सहायता	1. सहायिकी, इमदाद, आधिक सहायता अर्थ-साहाय्य,	1. राज्य साहाय्य, आधिक सहायता, राजानुदान अर्थ-साहाय्य	1. आधिक सहायता, इमदाद
Subsistence	1. निर्वाह, बर्तता	1. निर्वाह	1. निर्वाह, गुजारा	1. निर्वाह, जीवन निर्वाह गुजारा	1. निर्वाह जीवन निर्वाह, गुजारा, जीविका, उपजीविका	1. निर्वाह
Subsistence allowance	1. निर्वाह-भत्ता	1. निर्वाह-भत्ता	1. निर्वाह-भत्ता	1. निर्वाह-भत्ता, गुजारा भत्ता, जीवननिर्वाह भत्ता	1. निर्वाह-भत्ता, गुजारा भत्ता	2. निर्वाह-भत्ता
Subsistence grant	1. निर्वाह-अनुदान	1. निर्वाह-अनुदान	1. निर्वाह-अनुदान	1. निर्वाह-अनुदान, जीवननिर्वाह अनुदान	1. निर्वाह-अनुदान	1. निर्वाह-अनुदान
Substance	1. द्रव्य 2. सार 3. पदार्थ	1. द्रव्य 2. सार 3. पदार्थ	1. द्रव्य 2. सार, तत्त्व 3. पदार्थ 4. उपादान 5. साराश	1. द्रव्य 2. सार 3. पदार्थ 4. उपादान	1. द्रव्य 2. सार, मधितायं 3. पदार्थ, वस्तु 4. उपादान 5. साराश	1. द्रव्य 2. सार 3. पदार्थ
Substantive	1. मौलिक, मूल	1. मौलिक, मूल, सारथादी	1. मौलिक, मूल	1. मौलिक, मूल 2. सारभूत 3. अधिकारी 4. मुख्य	1. मौलिक/मूल, मूलभूत 2. सारभूत	1. मौलिक, मूल

1	2	3	4	5	6	7
Substantive post Substitute	1. मूल-पद 1. एवञ्चो प्रतिस्थापनी (क्रिया) प्रतिस्थापित करना	1. मूल-पद 1. एवञ्चो, प्रतिस्थापनी	1. मूल-पद 1. एवञ्चो, प्रतिस्थापनी, स्थानापन्न 2. उपकल्प (क्रिया) प्रतिस्थापित करना, के स्थान मे रखना, बदले मे रखना	1. मौलिक पद 1. एवञ्चो, एवञ्च, प्रतिस्थापक 2. उपकल्प (क्रिया) प्रतिस्थापित करना, के स्थान मे रचना	1. मूल-पद, मौलिक पद 1. एवञ्चो, बदल, स्थानापन्न — (क्रिया) प्रतिस्थापित करना, स्थान मे रखना, स्थान मे प्रतिस्थापित रखना, स्थानापन्न करना	1. मूल-पद 1. एवञ्चो, प्रतिस्थापनी
Succeeding	1. अनुवर्ती, उत्तरवर्ती	1. अनुवर्ती	1. अनुवर्ती	1. अनुवर्ती, उत्तरवर्ती, पीछे का, बाद का	1. अनुवर्ती, उत्तरवर्ती, परवर्ती, पश्चातवर्ती, बाद का	1. अनुवर्ती
Succession	1. उत्तराधिकार, उत्तरवर्तन	1. उत्तराधिकार 2. अनुक्रम	1. उत्तराधिकार 2. अनुक्रम, अनुक्रमण 3. परंपरा-शृंखला 4. विकासक्रम (वन)	1. उत्तराधिकार, उत्तरवर्तन 2. अनुक्रम, अनुक्रमण	1. उत्तराधिकार, उत्तरावर्तन 2. अनुक्रम, अनुक्रमण	1. उत्तराधिकार 2. अनुक्रम

1	2	3	4	5	6	7
Successor	1. उत्तराधिकारी	1. उत्तराधिकारी, अनुवर्ती	1. उत्तराधिकारी, अनुवर्ती	1. उत्तराधिकारी, उत्तरवर्ती	1. उत्तराधिकारी, उत्तरानुवर्ती, परवर्ती, क्रमानुयायी	1. उत्तराधिकारी
Suit	1. दावा, मुकद्दा, वाद	1. दावा, मुकद्दा, वाद	1. दावा, मुकद्दा, वाद	1. मुकद्दा, वाद	1. दावा, मुकद्दा, वाद, व्यवहारवाद 2. जोडा 3. अच्छा	1. दावा, मुकद्दा, वाद
Summary	1. सारांश, संक्षेप 1. (वि०) संक्षिप्त, सरसरी	1. सारांश, संक्षेप	1. संक्षेप 1. (वि०) सरसरी	1. सारांश, संक्षेप 1. (वि०) संक्षिप्त, संक्षेप, क्षिप्र, तुरत	1. सारांश, संक्षेप 1. (वि०) संक्षेपत. संक्षिप्त, सांक्षेपिक, समासतः	1. सारांश, संक्षेप
Summary trial	1. संक्षिप्त विचारण	1. संक्षिप्त विचारण	1. सरसरी विचार	1. संक्षिप्त विचारण	1. संक्षिप्त विचार, संक्षिप्त परीक्षण, संक्षेपतः अन्वीक्षा, संक्षिप्त म्वाय	1. संक्षिप्त विचार
Sumptuary allowance	1. सत्कार भत्ता, आतिथ्य भत्ता, समुचरी भत्ता	1. सत्कार भत्ता, आतिथ्य भत्ता	1. आतिथ्य भत्ता	1. सत्कार भत्ता, समुचुरी भत्ता	1. सत्कार भत्ता, आतिथ्य भत्ता, उपभोग भत्ता	1. सत्कार भत्ता, आतिथ्य भत्ता
Superannuation	1. निवर्तन, अधिवृत्तिता	1. अधिवापिकी आयु	1. निवर्तन, अधिवृत्तिता, बुढापा	1. अधिवृत्तिता, वार्धक्य	1. अधिवृत्तिता, अधिवापिकी, नियत सेवावधि	1. निवर्तन
Superannuate	1. निवर्तन, निवृत्त होना	1. निवृत्त होना	1. निवृत्त होना, निवृत्त करना, अधिवर्षं घोषित करना	1. वार्धक्य-निवर्तन, अधिवर्षं निवृत्त होना	1. वार्धक्य निवर्तन, निवृत्त होना	1. निवर्तन, निवृत्त होना

1	2	3	4	5	6	7
Superintendent Superior	1. अधीक्षक 1. बरिष्ठ, उच्च	1. अधीक्षक 1. बरिष्ठ, उच्च	1. अधीक्षक 1. बरिष्ठ, उच्चतर, प्रवर, श्रेष्ठ, उपरिष्ठ	1. अधीक्षक 1. बरिष्ठ, उच्च, उच्चतर, उत्कृष्ट, प्रवर, प्रकष्ट, सुपर	1. अधीक्षक 1. बरिष्ठ, उच्च, उच्चतर, उत्कृष्ट, उत्तम, उपरिष्ठ, श्रेष्ठ	1. अधीक्षक 1. बरिष्ठ, उच्च
Superscribe	1. उपर लिखना	1. ऊपर लिखना	1. ऊपर लिखना	1. ऊपर लिखना	1. ऊपर लिखना, बाहुर लिखना	1. ऊपर लिखना
Superscription	1. उपरिलेख, सुरनामा	1. उपरिलेख	1. उपरिलेख	1. उपरिलेखन	1. उपर्येकन	1. उपरिलेखन
Supersede	1. अतिक्रमण करना, अधिक्रमण करना	1. अतिक्रमण करना, निष्प्रभाव करना	1. अतिक्रमण करना	1. अवक्रमण करना	1. अवक्रमण करना, अतिष्ठित करना, अभिष्ठित करना, शून्य करना, निष्प्रभाव करना, अधिक्रमण करना, पीछे छोड़ना	1. अतिक्रमण करना अधिक्रमण करना
Supersession	1. अतिक्रमण	1. अतिक्रमण, निवर्तन	1. अतिक्रमण, अतिक्रमण, निवर्तन	1. अवक्रमण	1. अवक्रमण, अतिक्रमण, अभिष्ठान, अतिष्ठान	1. अतिक्रमण
Supervision	1. पर्यवेक्षण, देखरेख	1. पर्यवेक्षण, देखरेख	1. पर्यवेक्षण, देखरेख देखभाल	1. पर्यवेक्षण	1. पर्यवेक्षण, देखरेख, देखभाल	1. पर्यवेक्षण, देखरेख
Supervisor	1. पर्यवेक्षक, सुपरवाइजर	1. पर्यवेक्षक	1. पर्यवेक्षक, सुपरवाइजर	1. पर्यवेक्षक	1. पर्यवेक्षक	1. पर्यवेक्षक

1	2	3	4	5	6	7
Supplement	1. जोड़वध 2. अनुपूरक	1. जोड़ना 2. सपूरक	1. जोड़ना 2. अनुपूरक	1. परिशिष्ट 2. पूरक, अनुपूरक	1. परिशिष्ट 2. पूरक, सपूरक, अनुपूरक	1. जोड़ना 2. अनुपूरक
Supplementary	1. (क्रि०) जोड़ना 2. अनुपूरण 1. अनुपूरक	1. पूरक	1. (क्रि०) पूरा करना, अनुपूति करना	1. (क्रि०) अनुपूरित करना	1. (क्रि०) पूति करना	
Supplementary Budget	1. अनुपूरक बजट	1. पूरकबजट	1. अनुपूरक, पूरक	1. अनुपूरक, पूरक	1. अनुपूरक, पूरक, सपूरक	1. पूरक
Supplementary grant	1. अनुपूरक अनुदान	1. पूरक अनुदान	1. अनुपूरक बजट, पूरक बजट (आपव्ययक)	1. अनुपूरक बजट, पूरक बजट	1. अनुपूरक बजट, पूरक बजट (आपव्ययक)	1. अनुपूरक बजट
Supply	1. पूति, प्रदाय (क्रिया) प्रदाय करना	1. पूति	1. अनुपूरक अनुदान पूरक अनुदान 1. पूति, सपूति प्रदाय, सभरण, विवरण (क्रिया) प्रदान करना, सभरण करना, सपूति करना	1. अनुपूरक अनुदान 1. आपूति (क्रिया) आपूति करना	1. अनुपूरक अनुदान, पूरक अनुदान 1. पूति, प्रदाय, सवरण रसद (क्रिया) प्रदाय करना, सभरण करना, पूति करना रसद देना	1. अनुपूरक अनुदान, पूरक अनुदान 1. पूति, प्रदाय (क्रिया) प्रदान करना
Support	1. समर्थन	1. समर्थन, सहायता,	1. समर्थन, सहारा, अवलंब 2. टेक, आधार	1. समर्थन, पुष्टि 2. टेक, आलंब	1. समर्थन, सहारा 2. टेक, आलम्ब, आधार, आश्रय	1. समर्थन

1	2	3	4	5	6	7
	(क्रिया) आलम्ब करना	(क्रिया) धरण- पोषण करना	(क्रिया) क्षयपन करना, धरण-पोषण करना	3. अनुपोषण, सहायता	3. उपभोषिका	
Supreme Court	1. उच्चतम न्यायालय	1 उच्चतम/ सर्वोच्च न्यायालय	1. उच्चतम न्यायालय/ सर्वोच्च न्यायालय	1. उच्चतम न्यायालय/ सर्वोच्च न्यायालय	1. उच्चतम न्यायालय/ सर्वोच्च न्यायालय	1. उच्चतम न्यायालय
Surcharge	1. अतिभार	1. अतिभार	1. अतिभार	1. अतिभार	1. अतिभार, विशेष कर	1. अतिभार
Surety	1. प्रतिभू, जामिन	1. प्रतिभू, जामिन	1. प्रतिभू, जामिन	1. प्रतिभू, जामिन	1. प्रतिभू, जामिन, जमानतदार	1. प्रतिभू, जामिन
	2. जमानत	2. जमानत	2. जमानत	2. जमानत	2. प्रतिभूति/ जमानत 3. अस्तित्वापत्ता	2. जमानत
Surety-Bond	1. जमानत बंधपत्र	1. जमानत बंधपत्र	1 जमानत बंधपत्र	1. प्रतिभू-बंधपत्र, जामिन बंधपत्र	1. जमानत बंधपत्र	1. जमानत बंधपत्र
Surface Inspection	1. ऊपरी निरीक्षण	1. ऊपरी निरीक्षण	1. ऊपरी निरीक्षण	1. ऊपरी निरीक्षण	1. ऊपरी निरीक्षण	1. ऊपरी निरीक्षण
Surname	1. कुलनाम	1. कुलनाम	1. कुलनाम, अधिनाम	1. कुलनाम, उपनाम	1. कुलनाम, उपनाम पोत्रनाम	1. कुलनाम,
Surplus	1. अधिशेष	1. अधिशेष, बेसी	1. अधिशेष, बचत, अधिकता	1. अधिशेष, बचत, बेसी	1. अधिशेष, बचत	1. अधिशेष, बचत

1	2	3	4	5	6	7
Surprise check	1. आकस्मिक जाँच	1. आकस्मिक जाँच	1. आकस्मिक जाँच	1. आकस्मिक जाँच	1. आकस्मिक जाँच	1. आकस्मिक जाँच
Surrender	1. अभ्यर्पण	1. अभ्यर्पण	1. अभ्यर्पण, समर्पण	1. ओचक जाँच, अचानक जाँच	1. अभ्यर्पण, आत्मसमर्पण, वसूला करना	1. अभ्यर्पण, आत्मसमर्पण
Surviving	1. अवशिष्ट 2. उत्तरजीवी	1. अवशिष्ट 2. उत्तरजीवी	2. अभिव्याज, अभिव्यजन 1. अवशिष्ट 2. उत्तरजीवी	— 2 उत्तरजीवी	— 2. उत्तरजीवी, जीवित बना हुआ, जीवित बचनेवाला	— 2. उत्तरजीवी, जीवित बचनेवाला
Suspend	1. मुअत्तल करना, निलंबित करना	1. मुअत्तल करना, निलंबित करना	1. मुअत्तल करना, निलंबित करना	1. मुअत्तल करना, निलंबित करना, स्थगित करना, रोक देना	1. मुअत्तल करना, निलंबित करना, स्थगित करना, लटकाना	1. मुअत्तल करना, निलंबित करना, रोक देना
Suspension	1. मुअत्तली, निलंबन	1. मुअत्तली, निलंबन	1. मुअत्तली, निलंबन	1. मुअत्तली, निलंबन	1. मुअत्तली, निलंबन	1. मुअत्तली, निलंबन
Survey	1. सर्वेक्षण	1. सर्वेक्षण	1. सर्वेक्षण	2. स्थगन 1. सर्वेक्षण 2. भूमाप, परिमाप	2. स्थगन 1. सर्वेक्षण, सर्वे 2. माप, भूमापन परिमाप, क्षेत्रमापन 3. निरीक्षण, सर्वीक्षण	1. सर्वेक्षण

	1	2	3	4	5	6	7
Survey, Sample Symbol Symposium		1. नमूना सर्वेक्षण 1. प्रतीक 1. परिसवाद	1 नमूना सर्वेक्षण 1. प्रतीक 1 परिसवाद	1. नमूना सर्वेक्षण 1. प्रतीक, संकेत 1. परिसवाद	1. नमूना सर्वेक्षण 1. प्रतीक, संकेत 1. परिसवाद	1. नमूना सर्वेक्षण 1. प्रतीक, चिह्न संकेत 1. परिसवाद, संगोष्ठी	1. नमूना सर्वेक्षण 1. प्रतीक 1. परिसवाद
Syllabus		1. पाठ्य विवरण	1. पाठ्य विवरण	1. पाठ्य विवरण	1. पाठ्य विवरण पाठ्यचर्चा	1. पाठ्यक्रम, पाठ्यचर्चा	1. पाठ्यक्रम
System		1. निकाय, तंत्र, पद्धति, प्रणाली	1. पद्धति, प्रणाली	1. तंत्र, पद्धति, प्रणाली 2. व्यवस्था, क्रम	1. तंत्र, पद्धति, प्रणाली 2. व्यवस्था	1. तंत्र, पद्धति, प्रणाली 2. व्यवस्था, क्रम 3. प्रया, शैली	1. तंत्र, पद्धति, प्रणाली, निकाय
Syndicate		1. अभिपद्, सिंडीकेट	1. सिंडीकेट	1. अभिपद्, सिंडीकेट	1. अभिपद्, सिंडीकेट	1. अभिपद्, सिंडीकेट, सप 2. व्यवसाय सप 3. पत्रसप	1. सिंडीकेट
Systematic		1. व्यवस्थित, प्रायिक	1. व्यवस्थित, प्रायिक	1. व्यवस्थित, क्रमबद्ध	1. व्यवस्थित, सुव्यवस्थित, प्रायिक 2. वर्गीकृत 3. वैदिक, शारीरिक	1. व्यवस्थित क्रमबद्ध	1. व्यवस्थित


T

Table	1. सारणी/तालिका 2. मेज	1. सारणी 2. मेज	1. सारणी 2. मेज/पटल	1. सारणी/तालिका 2. मेज/पटल	1. सारणी/तालिका 2. मेज/पटल/ पटल पर रखना	1. सारणी/तालिका —
--------------	---------------------------	--------------------	------------------------	-------------------------------	---	----------------------

1	2	3	4	5	6	7
Table of Contents	1. विषय-सूची	1. विषय-सूची	1. विषय-सूची	1. विषय-सूची	1. विषय-सूची, विषय-तालिका, अनुक्रमणिका	1. विषय-सूची
Table Officer	1. पटल-अधिकारी	1. पटल-अधिकारी	1. पटल-अधिकारी	1. पटल-अधिकारी	1. पटल अधिकारी	1. पटल अधिकारी
Table of the house	1. सभा-पटल	1. सभापटल	1. सभापटल	1. सभापटल	1. सभापटल	1. सभापटल
Tabulated Tabulation	1. सारणीबद्ध 1. सारणीयन, सारणीकरण, सारणी बनाना	1. सारणीबद्ध 1. सारणीकरण, सारणी बनाना	1. सारणीबद्ध 1. सारणीयन, सारणीकरण	1. सारणीबद्ध 1. सारणीयन, सारणीकरण, सारणी बनाना	1. सारणीबद्ध 1. सारणीयन, सारणीकरण, तालिका, निबधन	1. सारणीबद्ध 1. सारणीकरण
Tally card	1. मिलान कार्ड	1. मिलान कार्ड	1. मिलान कार्ड	1. मिलान कार्ड, अनुमेलन पत्रक	1. मिलान कार्ड	1. मिलान कार्ड
Target	1. लक्ष्य	1. लक्ष्य	1. लक्ष्य 2. निशान, टारगेट	1. लक्ष्य 2. निशान, टारगेट	1. लक्ष्य, उद्देश्य 1. निशान, टारगेट	1. लक्ष्य
Tariff	1. टैरिफ 2. दर-सूची	1. टैरिफ 2. दर-सूची	1. टैरिफ, प्रशुल्क, शुल्कदर 2. दर-सूची, प्रशुल्क सूची, शुल्कदर सूची 3. शुल्क पद्धति 4. आयात-निर्यात शुल्क	1. टैरिफ, परिचात 2. दर सूची शुल्कदर सूची, चुकीतालिका 3. शुल्क पद्धति 4. आयात-निर्यात शुल्क, परिचात शुल्क प्रशुल्क, चुपी	1. टैरिफ, परिचात शुल्क, टैरिफ प्रशुल्क 2. शुल्कदर सूची 3. शुल्क पद्धति 4. आयात-निर्यात कर परिचात शुल्क, प्रशुल्क	1. टैरिफ 1. दर-सूची

1	2	3	4	5	6	7
Tax-Assessor Taxable	1. कर-निर्धारक 1. कर-योग्य	1. कर-निर्धारक 1. कर-योग्य	1. कर-निर्धारक 1. कर-योग्य, करदाय	1. कर-निर्धारक 1. कर-योग्य, करदेय, कराधेय, करारोप्य	1. कर-निर्धारक 1. कर-योग्य, करदेय कराधेय	1. कर-निर्धारक 1. कर-योग्य
Taxation	1. कर लगाना, कराधान, करारोपण	1. कर सभाना, कराधान, करारोपण	1. कर लगाना, कराधान, करारोपण	1. कर सभाना, कराधान, करारोपण, करारोप विनिर्धारण	1. कर सभाना, कराधान, करारोपण, कर-निर्धारण	1. कराधान
Taxation Inspector Technical	1. कराधान- निरीक्षक 1. तकनीकी, प्राविधिक, शिल्पिक	1. कराधान- निरीक्षक 1. तकनीकी, प्राविधिक, शिल्पिक	1. कराधान- निरीक्षक 1. तकनीकी, प्राविधिक, शिल्पिक, शिल्पीय 2. परिभाषिक	1. कराधान- निरीक्षक 1. तकनीकी, प्राविधिक, प्रादेशिक, शिल्पिक, शिल्पी 2. परिभाषिक 3. प्रौद्योगिक, औद्योगिक	1. कराधान- निरीक्षक 1. तकनीकी, प्राविधिक, शिल्पिक, शिल्पीय 2. पारिभाषिक 3. यन्त्र-वातुर्व- संबन्धी, तांत्रिक, तथात्मक	1. कराधान- निरीक्षक 1. तकनीकी, प्राविधिक, शिल्पिक 2. तकनीकी, प्राविधिक
Technical advice	1. तकनीकी सलाह	1. तकनीकी सलाह	1. तकनीकी सलाह	1. तकनीकी सलाह, तकनीकी राय	1. तकनीकी सलाह, तकनीकी, परामर्श	1. तकनीकी सलाह
Technique	1. तकनीक	1. तकनीक	1. तकनीक, प्रविधि	1. तकनीक, टेक्नोक, प्रविधि, शिल्प	1. तकनीक, प्रविधि, शिल्प, तन्त्र, प्रक्रिया यन्त्रवातुर्व,	1. तकनीक

1	2	3	4	5	6	7
				2. क्रियाविधि	2. कार्यपद्धति, कला, कौशल, शैली	
Technology	1. प्रौद्योगिकी	1. प्रौद्योगिकी, टैक्नोलोजी	1. प्रौद्योगिकी, प्रयोग	1. प्रौद्योगिकी, औद्योगिकी, टैक्नोलोजी	1. प्रौद्योगिकी, टैक्नोलोजी	1. प्रौद्योगिकी
	2. उद्योग विद्या	2. उद्योग विद्या	2. उद्योग विद्या	2. शिल्पविज्ञान	2. शिल्पविज्ञान, कलाविज्ञान	2. उद्योग विद्या
Telecommuni- cation	1. दूर-संचार	1. दूर-संचार	1. दूर-संचार	1. दूर-संचार	1. दूर-संचार	1. दूर-संचार
Telegram	1. तार	1. तार	1. तार, टेलीग्राम	1. तार, टेलीग्राम	1. तार	1. तार
Telegram Code	1. कोडतार	1. कोडतार	1. कोडतार	1. कोडतार	1. कोडतार	1. कोडतार
Telegram Cypber	1. बीज-लेख तार	1. बीज-लेख तार	1. बीज-लेख तार	1. बीज-लेख तार	1. बीज लेख तार	1. बीज-लेख तार
Telegram Enclair	1. शब्दबद्धतार	1. शब्दबद्धतार	1. शब्दबद्धतार	1. शब्दबद्धतार, असंकेतिक तार	1. शब्दबद्धतार	1. शब्दबद्धतार
Telegraphist	1. तारसंकेतक	1. तारसंकेतक	1. तारसंकेतक	1. तारसंकेतक, तारिपक	1. तारसंकेतक	1. तारसंकेतक
Telephone- Exchange	1. टेलीफोन केन्द्र	1. टेलीफोन केन्द्र	1. टेलीफोन केन्द्र	1. टेलीफोन केन्द्र	1. टेलीफोन केन्द्र, टेलीफोन एक्सचेंज, दूरभाष केन्द्र	1. टेलीफोन केन्द्र
Telephone- Operator	1. टेलीफोन प्रचालक	1. टेलीफोन प्रचालक	1. टेलीफोन परिचालक, टेलीफोन ऑपरेटर	1. टेलीफोन प्रचालक	1. टेलीफोन प्रचालक	1. टेलीफोन प्रचालक



1	2	3	4	5	6	7
Teleprinter	1. दूरमुद्रक, टेलीप्रिंटर	1. दूरमुद्रक, टेलीप्रिंटर	1. दूरमुद्रक, टेलीप्रिंटर	1. दूरमुद्रक, टेलीप्रिंटर	1. दूरमुद्रक, टेलीप्रिंटर	1. दूरमुद्रक, टेलीप्रिंटर
Temporal	1. कालिक 2. ऐहिक (विधि)	1. कालिक 2. ऐहिक	1. कालिक 2. ऐहिक	— 2. ऐहिक 3. सप्ताहिय, मण्ड कपालास्थ	1. कालिक 2. ऐहिक, साप्ताहिक, दुनियाधी, अनिरथ	1. कालिक 2. ऐहिक
Temporary	1. अस्थायी	1. अस्थायी	1. अस्थायी	1. अस्थायी	1. अस्थायी, अल्पकालिक	1. अस्थायी, अल्पकालिक
Temporary appointment	1. अस्थायी नियुक्ति	1. अस्थायी नियुक्ति	1. अस्थायी नियुक्ति	1. अस्थायी नियुक्ति	1. अस्थायी नियुक्ति	1. अस्थायी नियुक्ति
Tender	1. टेंडर/निविदा 2. (क्रिया) टेंडर देना 3. प्रस्तावित करना	1. टेंडर/निविदा 2. टेंडर देना	1. टेंडर/निविदा 2. टेंडर देना 3. देना, प्रस्तुत करना 4. (विशेषण) मुकुमार	1. टेंडर/निविदा, निविदान 2. निविदा देना, निविदा करना 3. देना 4. मुकुमार कोमल, मुहोल	1. टेंडर/निविदा प्रस्तुति, प्रस्ताव 2. निविदा देना, निविदा करना 3. देना, करना, प्रस्तुत करना 4. मुकुमार, कोमल	1. निविदा 2. टेंडर देना 3. देना, प्रस्तावित करना
Tenet	1. सिद्धान्त, नियम	1. सिद्धान्त, नियम	1. सिद्धान्त	1. सिद्धान्त, मत	1. सिद्धान्त, मत; श्रद्धा, विश्वास	1. सिद्धान्त, नियम
Tentative	1. अस्थायी, परीक्षार्थक	1. अस्थायी	1. प्रायोगिक, परीक्षार्थक	1. प्रयोगार्थक, परीक्षार्थक, आश्चर्यशी 2. अनन्तिम	1. अस्थायी, परीक्षार्थक, प्रयोगार्थक 2. अल्पकालिक	1. अस्थायी, परीक्षार्थक

1	2	3	4	5
Tenure	1. अवधि, कार्यकाल 2. पट्टा, भूधृति	1. अवधि 2. पट्टा	1. अवधि, कार्यकाल, पदावधि 2. पट्टा, भूधृति पट्टेदारी 3. धारणा, धारणाधिकार	1. अवधि, कार्यकाल, पदावधि 2. भूधृति 3. धारणाधिकार
Tenure of office	1. पदावधि	1. पदावधि	1. पदावधि	1. पदावधि, कार्यकाल
Tenure of Work	1. ठेका-अवधि	1. ठेका-अवधि	1. ठेका-अवधि	1. ठेका-अवधि
Tenure-post	1. सावधिक पद	1. सावधिक पद	1. सावधिक पद, नियतकालिक पद	1. सावधिक पद, सावधि पद
Term	1. अवधि, मियाद, शर्त, निबन्धन 3. शब्द	1. अवधि, मियाद 2. शर्त 3. शब्द	1. अवधि — 3. शब्द 4. उपसत्र	1. अवधि, मियाद 2. शर्त, बंधन 3. शब्द, पद 4. उपसत्र
Terminable	1. समापनीय, समाप्य	1. समापनीय	1. समापनीय, समाप्य, पर्यवसेय	1. समापनीय, समाप्य, पर्यवसेय
Terminal	1. आवधिक	1. आवधिक	1. आवधिक	1. आवधिक, सावधि, निपटकात्तीन

1. अवधि, कार्यकाल
 2. पट्टा, भूधृति, भूधृति, भूधृति, भूमिधारण स्वत्व
 3. धारणावधि
 1. अवधि, कार्यकाल
 2. पट्टा, भूधृति
 3. धारणावधि
 1. पदावधि, कार्यकाल, पदधारण-काल
 1. ठेका-अवधि
 1. सावधिक पद
 1. अवधि, मियाद
 3. शब्द, पद
 4. काल
 1. समापनीय, समाप्य, सावधि, अवसेय, पर्यवसेय
 1. आवधिक, सावधि, निपटकात्तीन

1	2	3	4	5	6	7
Test	1. परीक्षण, परख जांच	1. परीक्षा, जांच	1. परीक्षा, परख, जांच	1. परीक्षा, परख, जांच 2. कसौटी (क्रिया) जांचना, परखना	1. परीक्षा, जांच 2. कसौटी (क्रिया) जांचना, परखना	1. परीक्षण, परख, जांच
Test charge	1. परीक्षण-खर्च	1. जांचखर्च	1. जांचखर्च	1. परीक्षण-व्यय, जांचखर्च	1. जांचखर्च	1. जांचखर्च
Test check	1. जांच-परीक्षण	1. जांच-परीक्षण	1. जांच-परीक्षण	1. जांच-परीक्षण नमूना-जांच	1. जांच-परीक्षण	1. जांच-परीक्षण
Testamentary	1. वसीयती	1. वसीयती	1. वसीयती, दृच्छापत्रीय, वसीयत-	1. वसीयती, दृच्छापत्रीय	1. वसीयती	1. वसीयती
Testimonial	1. शसापत्र	1. शसापत्र	1. शसापत्र, शौलपत्र	1. शसापत्र	1. प्रशसा-पत्र, प्रमाणपत्र, प्रमाणलेख	1. शसापत्र
Testing-report	1. परीक्षण रिपोर्ट, जांच-रिपोर्ट	1. जांच-रिपोर्ट	1. परीक्षण रिपोर्ट, जांच-रिपोर्ट	1. परीक्षण रिपोर्ट, जांच-रिपोर्ट	1. जांच-रिपोर्ट	1. जांच-रिपोर्ट
Text (of a letter)	1. कलेवर, मखमून	1. कलेवर, मखमून, विषयवस्तु	1. कलेवर, मखमून, मूलपाठ, पाठ	1. कलेवर, मखमून	1. मखमून, मूलपाठ, मूल, पाठ	1. कलेवर, मखमून
Ticket Counter	1. टिकट गणक	1. टिकट गणक	1. टिकट गणक	1. टिकट गणक	1. टिकट गणक	1. टिकट गणक
Time barred	1. कालातीत	1. कालातीत, कालबाधित	1. कालातीत, कालबाधित	1. कालबाधित	1. कालातीत, कालातिश्रित, मियाद धरम होना	1. कालातीत

1	2	3	4	5	6	7
Time limit	1. कालावधि	1. कालावधि	1. कालावधि	1. समयवाधि, मीमादा, काल-सीमा	1. कालावधि समयमान	1. कालावधि
Time scale	1. समय-मान, कालमान	1. समय-मान, कालमान	1. समय-मान, वेतन कालमान	1. समय-मान, कालमान 2. कालवेतन मान	1. वेतन कालमान	1. समय-मान, कालमान
Time schedule	1. समय अनुसूची	1. समय अनुसूची	1. समय अनुसूची, समय-सारणी	1. समय अनुसूची समय-तालिका	1. समय अनुसूची	1. समय अनुसूची
Time table	1. समय-सारणी	1. समय-सारणी	1. समय-सारणी	1. समय-सारणी	1. समय-सारणी	1. समय-सारणी
Title	1. शीर्षक 2. खिताब, पदवी	1. शीर्षक 2. पदवी	1. शीर्षक, नाम 2. पदवी	1. शीर्षक, नाम, अभिधान, पदनाम 2. पदवी, उपाधि, खिताब	1. शीर्षक 2. पदवी, खिताब	1. शीर्षक 2. पदवी
Token	3. हक 1. साकेतिक 2. टोकन	3. हक 1. सकेत 2 टोकन	3 हक, अयाम 1. प्रतीक 2. टोकन	3. हक, स्वत्व 1. सकेत 2. टोकन	3. हक, स्वत्व 1. साकेतिक 2. टोकन	3. हक 1. सकेत 2. टोकन
Toll	1. टोल, पथकर, राहदारी	1. पथकर	1. पथकर	1. पथकर, राहदारी	1. टोल	1. पथकर, टोल
Top priority	1. परम अग्रता, परम पूर्वता	1. परम अग्रता	1 परम अग्रता, परम पूर्वता, सर्व पूर्वता	1. परम पूर्वता, उच्चप्राथमिकता, सबसे पहले	1. परम अग्रता, परम पूर्वता, सर्वप्राथम्य, सर्वाधिक प्राथमिकता	1. परम अग्रता
Top secret	1. परम गुप्त	1. परम गुप्त	1. परम गुप्त, परम गोपनीय	1. परम गुप्त	1. परम गुप्त	1. परम गुप्त

1	2	3	4	5	6	7
Topic	1. प्रकरण, विषय, प्रसय	1. विषय, प्रसय	1. विषय, प्रसय	1. प्रकरण, विषय, प्रसय	1. विषय, प्रसय	1. प्रकरण, विषय, प्रसय
Tour	1. दौरा	1. दौरा	1. दौरा 2. पर्यटन	1. दौरा 2. पर्यटन	1. दौरा	1. दौरा
Tourism	1. पर्यटन	1. पर्यटन	1. पर्यटन	1. पर्यटन	1. पर्यटन	1. पर्यटन
Trade agency	1. व्यापार-अधिकरण, व्यापार-एजेंसी	1. व्यापार-एजेंसी	1. व्यापार-अधिकरण	1. व्यापार-अधिकरण, व्यापार-एजेंसी	1. व्यापार-एजेंसी	1. व्यापार-एजेंसी
Tradesman	1. दस्तकार, कारीगर	1. दस्तकार, कारीगर	1. दस्तकार, कारीगर	1. शिल्पिक, व्यवसायी 2. व्यापारी	1. दस्तकार, कारीगर 2. व्यापारी	1. दस्तकार, कारीगर
Traffic	1. यातायात	1. यातायात	1. यातायात 2. व्यापार	1. यातायात, ट्रैफिक 2. व्यापार, पणन	1. यातायात, ट्रैफिक 2. व्यापार, पणन, प्रय-विक्रय	1. यातायात
Trainer	1. प्रशिक्षक	1. प्रशिक्षक	1. प्रशिक्षक	1. प्रशिक्षक	1. प्रशिक्षक	1. प्रशिक्षक
Training	1. प्रशिक्षण, ट्रेनिंग	1. प्रशिक्षण, ट्रेनिंग	1. प्रशिक्षण	1. प्रशिक्षण, ट्रेनिंग	1. प्रशिक्षण	1. प्रशिक्षण
Transaction	1. संचालन	1. संचालन 2. लेनदेन	1. संचालन 2. लेनदेन 3. व्यवहार, सभ्यहार	1. कार्य-संपादन 2. लेनदेन, सौदा 3. व्यवहार, सभ्यहार	1. संचालन 2. लेनदेन, सौदा 3. व्यवहार 4. कार्य, कार्यकारी	1. संचालन
Transcriber	1. लिप्यंतरकार, प्रतिनेषक	1. लिप्यंतरकार, प्रतिनेषक	1. लिप्यंतरकार, प्रतिनेषक	1. अनुलेखक, प्रतिनेषक	1. लिप्यंतरकार, प्रतिनेषक	1. लिप्यंतरकार, प्रतिनेषक
Transcription	1. प्रतिनेषन, नकल, लिप्यंतरण	1. प्रतिनेषन, नकल	1. प्रतिनेषन, लिप्यंतरण	1. प्रतिनेषन, नकल, अनुषसन 2. रिकार्ड, प्रत्यकन	1. प्रतिनेषन, लिप्यंतरण	1. नकल

1	2	3	4	5	6	7
Transfer	1. (स०) बदली, अंतरण, स्थानान्तरण, (क्रि०) बदली होना, बदली करना, अंतरित करना, अंतरण करना	— स्थानान्तरण हस्तान्तरण	1. बदली, अंतरण, स्थानान्तरण, हस्तान्तरण 2. सक्रम, सक्रमण बदली होना, अंतरित होना, स्थानान्तरित करना, हस्तान्तरित करना	1. बदली, अंतरण, स्थानान्तरण, हस्तान्तरण 2. सक्रमण बदली करना, बदली होना, स्थानान्तरण करना, अन्तरण करना, अन्तरित करना	1. बदली, हटाव, अंतरण, स्थानान्तरण, हस्तान्तरण — बदली करना, स्थानांतरित करना, अन्तरण करना, हस्तान्तरित करना	1. बदली, स्थानान्तरण, हस्तान्तरण
Transhipment	1. यानान्तरण	1. यानान्तरण, बाह्यान्तरण	1. यानान्तरण	1. यानान्तरण, नौकान्तरण	1. यानान्तरण	1. यानान्तरण
Transit	1. सक्रमण 2. अभिवहन	1. सक्रमण	1. सक्रमण 2. पारगमन, यात्रामार्ग, मार्गस्थ, मार्ग	1. सक्रान्ति, यात्रोत्तर गमन 2. अभिवहन, पारगमन, पारनयन, आना-जाना	1. सक्रमण, संक्रमण-स्वस्था 2. पारनयन, गुजरना, जाना-जाना	1. सक्रमण
Transit-duty	1. सक्रमण शुल्क	1. सक्रमण शुल्क	3. चलान (मात) 1. सक्रमण शुल्क	1. पारनयन शुल्क	1. सक्रमण शुल्क	1. सक्रमण शुल्क
Transit-Inspector	1. पारवहन निरीक्षक	1. पारवहन निरीक्षक	—	—	1. पारवहन निरीक्षक	1. पारवहन निरीक्षक
Transit pass	1. पारगमन-पास	1. पारगमन-पास	1. पारगमन-पास, रक्ना	1. पारगमन-पास	1. पारगमन-पास	1. पारगमन-पास

1	2	3	4	5	6	7
Transitional	1. सक्रमणकालीन	1. सक्रमणकालीन	1. सक्रमणकालीन	1. सक्रमणकालीन, अन्त कालीन, सक्रान्तिकालीन	1. सक्रमणकालीन, अन्त कालीन	1. सक्रमणकालीन
Transition samples	1. सक्रम नमूने	1. सक्रम नमूने	1. सक्रम नमूना	1. अनुवाद, स्थानान्तरण	1. अनुवाद, भावान्तर	1. सक्रम नमूने
Translation	1. अनुवाद	1. अनुवाद	1. अनुवाद	1. लिप्यंतरण, लिप्यंतर	1. लिप्यंतरण	1. अनुवाद
Transliteration	1. लिप्यंतरण	1. लिप्यंतरण	1. लिप्यंतरण, लिप्यंतर	1. प्रसारण, सचरण, पारगमन, पारेषण	1. लिप्यंतरण	1. लिप्यंतरण
Transmission	1. प्रसार	1. प्रसार	1. प्रसारण, सचरण, पारगमन, पारेषण	1. सचरण, सचरण, पारेषण	1. प्रसार	1. प्रसार
Transmitting	1. प्रसारण	1. प्रसारण	2. सक्रमण 3. प्रेषण, भेजना 1. प्रसारण	1. प्रसारण, पारेषण	1. प्रसारण, पारेषण, सप्रेषण, प्रक्षेपण	1. प्रसारण
Transport	1. परिवहन	1. परिवहन	1. परिवहन	1. परिवहन	1. परिवहन, मातायात, 2. देशान्तरण	1. परिवहन
Transportation	1. परिवहन	1. परिवहन	1. परिवहन	1. परिवहन, निर्वासन	1. परिवहन, निर्वासन	1. परिवहन
Transposition	1. उलटना	1. उलटना	1. उलटना	1. उलटना, पधान्तरण, स्थानान्तरण	1. उलटना	1. उलटना

1	2	3	4	5	6	7
Travelling allowance	1. यात्रा भत्ता	1. यात्रा भत्ता	1. यात्रा भत्ता	1. यात्रा भत्ता	1. यात्रा भत्ता, प्रवास-भत्ता, सफ़र-भत्ता	1. यात्रा भत्ता
Treasurer	1. कोषपाल	1. कोषपाल	1. कोषपाल, कोषाध्यक्ष	1. कोषपाल, कोषाध्यक्ष, खज़ांची	1. कोषाध्यक्ष, खज़ांची	1. कोषपाल
Treasury	1. कोष, खज़ाना	1. कोषागार, खज़ाना	1. कोषागार, कोष, खज़ाना	1. कोषागार, कोष, खज़ाना, राजकोष	1. कोषागार, कोष, खज़ाना, राजकोष, निधि, कोषालय, धनागार	1. खज़ाना
Trial	1. जांच, परख	1. जांच, विचारण	1. विचारण, विचार करना	1. विचारण 2. परीक्षण	1. जांच, विचार, 2. परीक्षण, परीक्षा, अन्वीक्षा 3. कसौटी	1. जांच, परख
Tribal Welfare	1. आदिवासी कल्याण	1. आदिवासी कल्याण	1. आदिवासी कल्याण	1. आदिवासी कल्याण	1. आदिवासी कल्याण	1. आदिवासी कल्याण
Tribunal	1. अधिकरण	1. अधिकरण	1. अधिकरण, न्यायाधिकरण	1. अधिकरण, न्यायाधिकरण	1. अधिकरण, न्यायाधिकरण	1. अधिकरण
Triplicate	1. (चिसे०) तिहरा, तीसरी प्रति (स०) तृतीयक	1. तिहरा, तीसरी प्रति	1. तिहरा, तीसरी प्रति (स०) तृतीयक	1. तिहरा, तीसरी प्रति (स०) तृतीयक	1. तिहरा, तीसरी प्रति (स०) तीन प्रतियाँ	1. तिहरा, तीसरी प्रति
Truce	1. अणहार, युद्धविराम संधि	1. अणहार, युद्धविराम संधि	1. अणहार, विराम संधि	1. विराम संधि, युद्ध विथागति	1. अवहार, विराम संधि	1. युद्धविराम, संधि

1	2	3	4	5	6	7
True copy	1. पक्की नकल, सही प्रतिलिपि	1. सही प्रतिलिपि	1. पक्की नकल, सही प्रतिलिपि, शुद्ध प्रतिलिपि, शुद्ध प्रति	1. पक्की नकल, सही प्रति, सच्ची प्रतिलिपि, शुद्ध प्रति	1. पक्की नकल, सही प्रतिलिपि, सच्ची प्रति, सत्य प्रतिलिपि	1. पक्की नकल, सही प्रतिलिपि
Trust	1. न्यास, ट्रस्ट 2. विश्वास	1. न्यास	1. न्यास, ट्रस्ट 2. विश्वास	1. न्याय, ट्रस्ट 2. विश्वास (क्रिया) भरोसा करना, विश्वास करना	1. न्यास, ट्रस्ट 2. विश्वास, भरोसा	1. न्यात, ट्रस्ट 2. विश्वास
Trustee	1. न्यासी, ट्रस्टी	1. न्यासी	1. न्यासी	1. न्यासी, ट्रस्टी न्यासधारी	1. न्यासी, ट्रस्टी	1. न्यासी, ट्रस्टी
Type	1. (संज्ञा) टाइप, छापा, मुद्रलेख (क्रिया) टंकित करना, टाइप करना	1. टाइप, प्रकार (क्रिया) टंकित करना	1. टाइप, छापा, मुद्रलेख 2. प्रकार, रूप, प्रतिरूप 3. निर्दशन, उपलक्षक (क्रिया) टंकित करना	1. टाइप, टंकन, छापा 2. प्रारूप, प्रकार (क्रिया) टंकित करना, टाइप करना	1. टाइप, छापा, मुद्रलेख, मुद्र 2. प्रारूप, नमूना प्रकार, जाति (क्रिया) मुद्र- लिपित करना, टाइप करना	1. टाइप, छापा, मुद्रलेख (क्रिया) टंकित करना, टाइप करना
Typescript	1. टाइप प्रति	1. टाइप प्रति	1. टाइप प्रति	1. टंकित प्रति	1. टाइप प्रति	1. टाइप प्रति
Typewriter	1. टाइपराइटर	1. टाइपराइटर	1. टाइपराइटर, टंकण यंत्र	1. टाइपराइटर, टंकण यंत्र	1. टाइपराइटर	1. टाइपराइटर
Typewriting	1. टाइपकारी, टाइप करना, टंकण	1. टंकण	1. टंकण, टाइपकारी, टाइप करना	1. टाइप करना, टंकन	1. टाइप करना, टंकण, मुद्रलेख	1. टाइप करना, टंकण

1	2	3	4	5	6	7
Unauthorised	1. अनधिकृत/ अप्राधिकृत	1. अनधिकृत/ अप्राधिकृत	1. अनधिकृत/ अप्राधिकृत	1. अनधिकृत/ अप्राधिकृत/ नाजायज़	1. अनधिकृत/ अप्राधिकृत/ बिना अधिकार के/ नाजायज़	1. अनधिकृत/ बिना अधिकार के/ नाजायज़
Unavoidable	1. अनिवार्य/ अपरिहार्य	1. अनिवार्य/ अपरिहार्य	1. अनिवार्य/ अपरिहार्य	1. अपरिहार्य/ अपरिवर्जनीय	1. अनिवार्य/ अपरिहार्य	1. अनिवार्य/ अपरिहार्य
Uncashed	1. बिना भुनाया	1. बिना भुनाया	1. बिना भुनाया	—	1. बिना भुनाया	1. बिना भुनाया
Unconditional	1. बिना शर्त	1. बिना शर्त	1. बिना शर्त/ अशर्त/शर्त रहित	1. बिना शर्त/ अशर्त/शर्त रहित	1. बिना शर्त/अशर्त	1. बिना शर्त
	2. उपबध्दरहित		2. अप्रतिबध्द	2. निष्पाधि	2. निष्पाधि/ अप्रतिबध्द	
Unconfirmed	1. अपुष्ट	1. अपुष्ट	1. अपुष्ट	1. अपुष्ट/असपुष्ट	1. अपुष्ट	1. अपुष्ट
Uncontested	1. निर्विरोध/ अविरोध	1. निर्विरोध	1. निर्विरोध	1. निर्विरोध/ अविरोध	1. निर्विरोध/ अविरोध	1. निर्विरोध/ अविरोध
Uncovered demand Under	1. अपूरित माँग 1. अधीन/अवर 2. कम/म्यून	1. अपूरित माँग 1. अधीन/अवर 2. कम	1. अपूरित माँग 1. अवर/अनु/अधीन 2. कम/म्यून	1. अपूरित/निरावृत्त माँग 1. अधीन/अवर/अनु 2. कम/म्यून	1. अपूरित माँग 1. अधीन/अवर 2. कम/म्यून	1. अपूरित माँग 1. अधीन/अवर 2. कम/म्यून
Under age Under	1. अल्पवय/कमउम्र 1. ङाक प्रमाणित	1. अल्पवय/कमउम्र 1. ङाक प्रमाणित	1. अल्पवय/कमउम्र 1. ङाक प्रमाणित	1. अल्पवय/कमउम्र 1. ङाक प्रमाणित/ ङाक प्रमाण पत्र के साथ	1. अल्पवय/कमउम्र 1. प्राप्त प्रेषण-पत्र	1. अल्पवय/कमउम्र 1. ङाक प्रमाणित
certificate of posting Under	1. विचाराधीन	1. विचाराधीन	1. विचाराधीन	1. विचाराधीन	1. विचाराधीन विचारमत	1. विचाराधीन
consideration Under estimate	1. अवप्राश्कलन/ कम अनुमान	1. अवप्राश्कलन/ कम अनुमान	1. अवप्राश्कलन/ कम अनुमान	1. अवप्राश्कलन/ म्यून प्राश्कलन/ कम अनुमान	1. अवप्राश्कलन/ कम अनुमान	1. कम कृतता/ कम अनुमान

1	2	3	4	5	6	7
				कम कृतना	कम आंकना/ कम कृतना/ अल्पगणन	कम आंकना
Under reference	1. प्रसगाधीन	1. प्रसगाधीन	1. प्रसगाधीन	1. प्रसगाधीन	1. प्रसगाधीन	1. सदभांछीन
Understanding	1. समझौता/ 2. समझदारी/समझ 3. बोध/प्रतिपत्ति	1. समझौता/ 2. समझ	1. समझौता — 3. प्रतिपत्ति	1. समझौता 2. समझ/समझदारी 3. अबबोध/ समझने की शक्ति 4. बात तय करके	1. समझौता/ 2. समझ	1. समझौता/ 2. समझ
Undertake	1. लेना	1. लेना	1. कार्य हाथ में लेना, उत्तरदायित्व लेना	1. हाथ में लेना/ भार लेना/ जिम्मा लेना	1. हाथ में लेना/ लेना/जिम्मा लेना/ उत्तरदायित्व लेना	1. लेना
	2. बचन देना/ बचनबद्ध होना	2. बचन देना	2. बचन देना	2. बचन देना	2. बचन देना/ स्वीकार करना	2. बचन देना
Undertaking	1. उपक्रम	1. उपक्रम	1. उपक्रम/कार्य/ स्यवसाय, प्रतिष्ठान	1. उपक्रम/उद्यम	1. उपक्रम/उद्योग/ औद्योगिक कारोबार	1. उपक्रम
	2. बचन/बचनबद्ध/ जिम्मा लेना/ भार अपने ऊपर लेना	2. बचन	2. बचन/ उत्तरदायित्व	2. बचन/प्रतिभूति	2. बचन/बचनदान/ प्रतिभूति/ उत्तरदायित्व/ लेना/ग्रहण	2. बचन/बचनबद्ध जिम्मा लेना, भार अपने ऊपर लेना
Undervaluation	1. अल्पमूल्यांकन	1. अल्पमूल्यांकन	1. अवमूल्यांकन, अल्पमूल्यांकन	—	1. न्यूनमूल्यांकन	1. अवमूल्यांकन

1	2	3	4	5	6	7
Undesirable	1. अवाञ्छनीय	1. अवाञ्छनीय	1. अवाञ्छनीय	1. अवाञ्छनीय	1. अवाञ्छनीय/ निरर्थक	1. अवाञ्छनीय
Undignified	1. अशोभन/अभद्र/ मर्यादाहीन	1. अभद्र	1. अशोभन/ अशोच्य	1. अशोभन/अभद्र/ मर्यादाहीन	1. अशोभन/अभद्र मर्यादाहीन	1. अभद्र
Undivided	1. अविभाजित/ अविभक्त	1. अविभाजित	1. अविभक्त	1. अविभक्त	1. अविभक्त	1. अविभाजित
Undue	1. अनुचित, असम्बन्ध	1. अनुचित	1. अनुचित/ अनावश्यक	1. अनुचित, असम्बन्ध	1. अनुचित, अनावश्यक	1. अनुचित
Undue influence	1. अनुचित प्रभाव, असम्बन्ध प्रभाव	1. अनुचित प्रभाव	1. अनुचित प्रभाव, असम्बन्ध असर	1. अनुचित प्रभाव, असम्बन्ध असर	1. अनुचित प्रभाव, असम्बन्ध असर	1. अनुचित प्रभाव
Unemployment	1. बेकारी/ बेरोजगारी	1. बेकारी/ बेरोजगारी	1. बेकारी/ बेरोजगारी	1. बेकारी/ बेरोजगारी	1. बेकारी/ बेरोजगारी/ वृत्तिहीनता	1. बेकारी/ बेरोजगारी
Unexpected	1. अप्रत्याशित	1. अप्रत्याशित,	1. अप्रत्याशित	1. अप्रत्याशित	1. अप्रत्याशित/ अनपेक्षित/ अकल्पित	1. अप्रत्याशित
Unexpired	1. असमाप्त/ अनवसित	1. असमाप्त	1. असमाप्त/ अनवसित	1. असमाप्त	1. असमाप्त अनवसित/अनतोत	1. असमाप्त
Unfavourable	1. प्रतिकूल/ अननुकूल	1. प्रतिकूल	1. प्रतिकूल/ अननुकूल	1. प्रतिकूल/ अननुकूल	1. प्रतिकूल/ अननुकूल	1. प्रतिकूल
Unforeseen	1. अदृष्ट/ अनवेक्षित	1. अदृष्ट	1. अदृष्ट/ अनवेक्षित/ अप्रत्याशित	1. अदृष्टपूर्व/ अनवेक्षित/ अपूर्वदृष्ट/ अनपेक्षित/ अकल्पित/अतीकृत	1. अदृष्ट/ अनवेक्षित	1. अदृष्ट

1	2	3	4	5	6	7
Unicameral	1. एकसदनी	1. एकसदनी	1. एकसदनी	1. एकसदनी	1. एकसदनी/ एकसदनीय/ एकसदनारमक	1. एकसदनी
Uniform	1. एकरूप 2. बर्दों	1. एकरूप 2. बर्दों	1. एकरूप/एकस्ता/ समान/एकसमान/ एकसार 2. बर्दों/वेश	1. एकरूपात्मक/ एक सम/समरूप/ एक समान/समान 2. बर्दों/वेश/ गणवेश	1. एकरूप/ एक-ता/समान/ एक सम/बिद्य 2. बर्दों/वेश/ गणवेश	1. एकरूप 2. बर्दों
Uniformity	1. एकरूपता	1. एकरूपता	1. एकरूपता/ समानता/ एकसारी	1. एकरूपता/ समानता/ एक समानता	1. एकरूपता/ समानता	1. एकरूपता
Unilateral	1. एकपक्षीय	1. एकपक्षीय	1. एकपक्षीय/ एकतरफ़ा	1. एकपक्षीय/ एकतरफ़ा	1. एकपक्षीय/ एकपारिबक	1. एकपक्षीय
Union	1. सघ	1. सघ	1. सघ	1. सघ/यूनियन 2. मेस 3. जोड़	1. सघ/संघमनन 2. मेस 3. जोड़/संघोष	1. सघ
Unit	1. एकक 2. मात्रक 3. इकाई/यूनिट	1. एकक — 3. इकाई	1. एकक/एकाक एकाक 2. मात्रक 3. इकाई/यूनिट	1. एकक 2. मात्रक 3. इकाई	1. एकक 2. मात्रक/मात्रा 3. इकाई/यूनिट/सघ	1. एकक — 3. इकाई/यूनिट
Unofficial	1. अशासकीय/ अशासकीय/ अनौपचारिक घैर-सरकारी	1. अशासकीय/ घैर-सरकारी	1. अशासकीय/ अनौपचारिक/ घैर-सरकारी	1. अशासकीय/ अनौपचारिक/ अनाधिकारिक घैर-सरकारी	1. अशासकीय/ अनाधिकारिक/ अनाधिकारीय/ घैर-सरकारी	1. अशासकीय

1	2	3	4	5	6	7
Unparliamentary Unqualified	1. असंसदीय 1. अप्रतिबद्ध	1. असंसदीय 1. बिनाशर्त	1. असंसदीय —	1. असंसदीय 1. बिनाशर्त अप्रतिबद्ध/ अविशेषित	1. असंसदीय/ अशिष्ट/असम्भ —	1. असंसदीय 1. असंसदीय
Unregistered	1. अपंजीकृत	1. अपजोक्त/ अरजिस्ट्रीकृत	1. अपजोक्त/ अरजिस्ट्रीकृत	1. अपजोक्त/ अपजोपित/ अरजिस्ट्रीकृत/ बिनारजिस्ट्री	1. अपजोक्त/ बिनारजिस्ट्री/ अरजिस्ट्रीकृत	1. बिनारजिस्ट्री
Unskilled	1. सामान्य/ अकुशल	1. सामान्य/ अकुशल	1. अकुशल/ बेदुनर	1. अकुशल	1. अकुशल	1. अकुशल
Unstarred Untenable	1. अतारांकित 1. असमर्थनीय/ अपुष्ट	1. अतारांकित 1. असमर्थनीय/ अपुष्ट	1. अतारांकित 1. असमर्थनीय/ अपुष्ट	— —	1. अतारांकित 1. असमर्थनीय/ अरक्षणीय/ न टहरने योग्य	1. अतारांकित 1. असमर्थनीय/ अपुष्ट
Unwieldy	1. दुर्बह	1. दुर्बह	1. दुर्बह/ भारी-भरकम	—	1. दुर्बह	1. दुर्बह
Upgrade	1. ग्रेड बढ़ाना/ कोटि उन्नतकरना	1. ग्रेड बढ़ाना	1. ग्रेड बढ़ाना/ उच्चकोटि करना/ उन्नत करना/ उच्च श्रेणी में बढ़ाना	1. ग्रेड बढ़ाना/ ऊँची कोटि में साना/ दरजा बढ़ाना/ उन्नतित करना	1. ग्रेड बढ़ाना/ उच्चकोटि करना	1. ग्रेड बढ़ाना
Upgrading	1. उन्नयन	1. उन्नयन	1. उन्नयन	1. उन्नयन/उन्नतकरण	1. उन्नयन	1. उन्नयन

1	2	3	4	5	6	7
Uphold	1. पुष्ट करना/ मर््यादा बनाये रखना	1. पुष्ट करना/ मर््यादा बनाये रखना	1. समर्पन करना/ स्थिर रखना	1. पुष्ट करना/ रक्षा करना/ ऊँचे उठाये रखना/ मर््यादा बनाये रखना/ बहाल रखना/ बरकरार रखना	1. पुष्ट करना/ समर्पन करना/ मर््यादा बनाये रखना	1. पुष्ट करना/ मर््यादा बनाये रखना
Upper	1. ऊपरी	1. ऊपरी	1. ऊपरी	2. महत्त्व देना 1. ऊपरी/उपरसा/ उपरि	1. ऊपरी	1. ऊपरी
Up-to-date	2. उच्च 1. आज तक का/ अद्यतन	2. उच्च 1. अद्यावधि	2. उच्च 1. आज तक का/ अद्यतन/ अद्यावधिक/ नवीनतम	2. उच्च 1. आज तक का/ अद्यतन/ अद्यावधि/ नवीनतम/ आज तक/ताज़ा	2. उच्च 1. आज तक का/ अद्यतन/ अद्यावधिक/ आधुनिकतम/ ताज़ा/आदिनांक/ समीचीन	2. उच्च 1. आज तक का/ अद्यतन
Urban	1. नगरीय/शहरी	1. नगरीय/शहरी	1. नगरीय/नगर	1. नगरीय/नगर शहरी	1. नगरीय/नगर- खण्डी/शहरी	1. नगरीय/शहरी
Urgent	1. अविलम्ब/अर्जेंट/ तुरन्त/ अति आवश्यक	1. अतिआवश्यक/ तुरन्त	1. अतिआवश्यक/ तुरन्त/ आवश्यक/अर्जेंट	1. अतिआवश्यक/ शीघ्र/अर्जेंट/ अविलम्बनीय	1. अत्यावश्यक/ तुरन्त/बहुरी	1. अविलम्ब/तुरन्त
Usual	1. सामान्य/प्रायिक	1. सामान्य	1. सामान्य/प्रायिक	1. सामान्य/प्रायिक/ बदस्तूर	1. सामान्य	1. सामान्य

1 2 3 4 5 6 7

V

Vacancy	1. रिक्त/रिक्तता	1. रिक्त/रिक्तपद	1. रिक्त/रिक्तता खाली जगह/ रिक्त स्थान	1. रिक्त/खाली जगह/खालीपद/ रिक्तपद/ रिक्तस्थान/रिक्तता	1. रिक्त/ रिक्त स्थान/ खाली जगह/ रिक्तता	1. रिक्त
Vacant (Post) Vacate	1. रिक्त (पद) 1. खाली करना	1. रिक्त 1. खाली करना	1. रिक्त/रिक्त 1. खाली करना/ रिक्त करना	1. रिक्त 1. खाली करना/ रिक्त करना	1. रिक्त/शून्य 1. खाली करना/ रिक्त करना	1. रिक्त 1. खाली करना
Vacation	1. अवकाश/ विधामावकाश	1. अवकाश/ विधामावकाश	1. अवकाश/ विधायकाल/ दीर्घावकाश 2. खाला करना/ रिक्त करना	1. अवकाश/ दीर्घावकाश/ लम्बी छुट्टी/ विधायकाल	1. अवकाश/ विधामावकाश/ काल दीर्घावकाश/ लंबी छुट्टी	1. अवकाश
Vaccination Vague	1. टीका 1. अस्पष्ट/ अनिश्चित	1. टीका 1. अस्पष्ट/ अनिश्चित	1. टीका 1. अस्पष्ट/ अनिश्चित	1. टीका 1. अस्पष्ट/धुंधला 2. भोलमटोल/ गोलमोल	1. टीका 1. अस्पष्ट/ अनिश्चित/सदिग्ध	1. टीका 1. अस्पष्ट/ अनिश्चित
Valid	1. विधिमान्य	1. विधिमान्य	1. विधिमान्य/ वैध/सबल/ मान्य/साधु/ युक्तिसंगत/ सत्य/तर्कसिद्ध	1. विधिमान्य/वैध मान्य/जायज़	1. विधिमान्य/ मान्य/वैध विधिवत/ औचित्यपूर्ण 2. मजबूत/ठोस/दृढ़	1. विधिमान्य

1	2	3	4	5	6	7
Validity	1. विधिमान्यता	1. विधिमान्यता	1. मान्यता/साधुता	1. विधिमान्यता/ वैधता/ प्रामाण्य/मान्यता	1. विधिवत्ता/ वैधता, मान्यता 2. भौतिक 3. यथार्थता/सुदृढ़ता	1. विधिमान्यता
Valuation Variation	1. मूल्यांकन 1 विभिन्नता/ परिवर्तन	1. मूल्यांकन 1. विभिन्नता/ परिवर्तन	1 मूल्यांकन 1 विभिन्नता/ परिवर्तन/ फेरपार/घटबढ़/ भ्रष्टार/कथान्तर बिचरण	1 मूल्यांकन 1. विभिन्नता/ परिवर्तन/ फेरपार/घटबढ़/ कथान्तर, विविधता/ परिचयन/ उत्तर-चङ्गाप हेरफेर/बिचरण	1. मूल्यांकन 1. विभिन्नता/ परिवर्तन/ फेरपार/ घटबढ़/ कथान्तर	1. मूल्यांकन 1. विभिन्नता/ परिवर्तन
Venue	1. स्थान/स्थल	1. स्थान/स्थल	1. स्थान/स्थल	1 स्थान, स्थल	1. स्थान, स्थल 2. घटनास्थल 3. भवराजस्थल 4. विलनस्थल	1. स्थान
Verification	1. सत्यापन	1. सत्यापन	1. सत्यापन 2. जाँच/परीक्षा	1 सत्यापन 2. निश्चयन 3. विज्ञान	1. सत्यापन 2. जाँच-पड़ताल	1. सत्यापन
Verified Copy Version	1. सत्यापित प्रति 1. अनुवाद 2. रूप/पाठ 3. कथन	1. सत्यापित प्रति 1. अनुवाद 2. रूप/पाठ 3. कथन	1. सत्यापित प्रति 1. अनुवाद 2. रूप/पाठ/ संस्करण 3. कथन	1. सत्यापित प्रति 1 भाषान्तर 2. संस्करण 3. कथन/बयान	1. सत्यापित प्रति 1. अनुवाद 2. पाठ 3. कथन	1. सत्यापित प्रति 1. अनुवाद 2. रूप 3. कथन

1	2	3	4	5	6	7
Vessel	1. जलयान/पोत	1. जलयान/पोत	1. जलयान/पोत 2. वाहिनी (वन)/ वाहिका 3. कलम/भाण्ड	1. जलयान/पोत/ जहाज 2. बाहिनी/वाहिका 3. पात्र/वर्तन	1. जलयान/पोत — 3. पात्र/वर्तन/भाजन	1. जलयान/पोत
Veto	1. वीटो/ निषेधाधिकार	1. वीटो/ निषेधाधिकार	1. वीटो/ निषेधाधिकार	1. वीटो/ निषेधाधिकार	1. वीटो/ निषेधाधिकार/ रोफ़-अधिकार/ अभिप्रेत	1. वीटो/ निषेधाधिकार
Vice	1. उप-	1. उप- 2. दुर्गुण (के बदले मे/के स्थान मे)	1. उप-	1. उप- 2. दुर्गुण	1. उप- 2. दुर्गुण/व्यसन/ अवगुण	1. उप-
Vice- Chairman	1. उपाध्यक्ष/ उपसभापति	1. उपाध्यक्ष/ उपसभापति	1. उपाध्यक्ष/ उपसभापति/ अनुसभापति	1. उपाध्यक्ष/ उपसभापति	1. उपाध्यक्ष/ उपसभापति	1. उपाध्यक्ष उपसभापति
Vice- Chancellor	1. कुलपति	1. कुलपति	1. कुलपति/ उपकुलपति	1. कुलपति	1. उपकुलपति	1. कुलपति
Vice President	1. उपराष्ट्रपति 2. उपाध्यक्ष/ उपसभापति	1. उपराष्ट्रपति 2. उपाध्यक्ष/ उपसभापति	1. उपराष्ट्रपति 2. उपसभापति	1. उपराष्ट्रपति 2. उपाध्यक्ष/ उपसभापति	1. उपराष्ट्रपति 2. उपाध्यक्ष/ उपसभापति	1. उपराष्ट्रपति 2. उपाध्यक्ष/ उपसभापति
Vigilance	1. सतर्कता/चीकसी	1. सतर्कता/चीकसी	1. सतर्कता/चीकसी	1. सतर्कता/चीकसी/ निगरानी	1. सतर्कता/ चीकसी/ जागरूकता/ सावधानता	1. सतर्कता/चीकसी
Violation	1. अतिक्रमण/ उल्लंघन	1. अतिक्रमण/ उल्लंघन	1. अतिक्रमण/ उल्लंघन	1. अतिक्रमण/ उल्लंघन/भंग	1. अतिक्रमण/ उल्लंघन/भंग	1. उल्लंघन/भंग

1	2	3	4	5	6	7
Visa	1. वीजा/प्रवेश-पत्र	1. वीजा/प्रवेश-पत्र	1. वीजा/प्रवेश-पत्र	1. वीसा/बीजा/ प्रवेश-पत्र/ प्रवेशानुज्ञा	1. वीसा/प्रवेशपत्र/ देहायमन/ अनुमतिपत्र	1. वीजा/प्रवेशपत्र
Vis-a-Vis	1. -के सामने/ -की तुलना में/ -बनाम	1. -के सामने/ -की तुलना में	1. -के सामने/ -की तुलना में	1. आमने-सामने/ तुलना में	1. आमने-सामने/ तुलना में सम्मुखीत	1. -के सामने/ -की तुलना में/ -बनाम
Visit	1. (स०) आगमन 2. वीक्षण/निरीक्षण 3. भेंट/मुलाकात	1. आगमन 2. वीक्षण/निरीक्षण 3. भेंट/मुलाकात	1. आगमन 2. वीक्षण/ उपनिरीक्षण 3. भेंट/मुलाकात	1. अभ्यागमन 2. परिदर्शन 3. मुलाकात	1. भ्रमण 2. निरीक्षण/ मुआइना 3. भेंट/दर्शन 4. साक्षात्कार	1. आना 2. निरीक्षण 3. भेंट/मुलाकात
	1. (क्र०) आना/ जाना 2. निरीक्षण करना 3. भेंट करना/ मुलाकात करना	1. आना 2. निरीक्षण करना 3. मुलाकात करना	1. जाना 2. उपनिरीक्षण करना 3. देखने या मिलने आना	1. आना 2. मुआइना करना 3. मुलाकात करना/ मिलना/ दर्शन देना/ देखना/भेंट करना	1. जाना/ भ्रमण करना 2. मुआइना करना/ निरीक्षण करना 3. मुलाकात करना/ भेंट करना/ दर्शन करना/ देखना	1. आना/जाना 2. निरीक्षण करना 3. भेंट करना/ मुलाकात करना
Visiting artist Visitor	1. अतिथि कलाकार 1. आगतुक/दर्शक/ मुलाकाती	1. अतिथि कलाकार 1. दर्शक/आगतुक	1. अतिथि कलाकार 1. आगतुक/दर्शक	1. अतिथि कलाकार 1. दर्शक/दर्शनाधी मुलाकाती/ मिलनेवाला/ परिदर्शक	1. अतिथि कलाकार 1. आगतुक/दर्शक दर्शनाधी/ मिलनेवाला/ परिदर्शक	1. अतिथि कलाकार 1. दर्शक/मुलाकाती

1	2	3	4	5	6	7
			2. अभ्यागत	2. अभ्यागत/अतिथि	2. अभ्यागत 3. साक्षात्कार करनेवाला	
Visitor (of a university)	1. कुलाध्यक्ष	1. कुलाध्यक्ष	1. कुलाध्यक्ष/ कुलप्रभु	1. कुलाध्यक्ष	1. कुलाध्यक्ष	1. कुलाध्यक्ष
Visitor's book	1. आगतुक पजी	1. आगतुक पजी	1. आगतुक पजी/ अभ्यागत पजी	1. दर्शक-पजी/ परिदर्शक- पुस्तिका	1. आगतुक पजी/ दर्शक-पजी/ अभिप्राय पजी	1. आगतुक पजी
Visitor's-gallery	1. दर्शक-दीर्घा	1. दर्शक-दीर्घा	1. दर्शक-दीर्घा	2. मुलाकाती बही 1. दर्शक-दीर्घा/ दर्शक-वीथी/ गैलरी	2. मुलाकाती पजी 1. दर्शक-दीर्घा/ दर्शक-वीथी/ दर्शक-गैलरी	2. मुलाकाती पजी 1. दर्शक-दीर्घा
Vital statistics	1. जीवन-सबधी आंकडे/ जन्म-मृत्यु सांख्यिकी	1. जीवन-सबधी आंकडे	1. जीवन-सबधी आंकडे/ जन्म-मृत्यु के आंकडे/ जन्म-मरण आंकडे	1. जीवन-आंकडे/ जीवन-मरण आंकडे/ जन्म-मृत्यु आंकडे/ जन्म-मरण-सबधी आंकडे	1. जीवनांक/ जीवन-समय/ जन्म-मृत्यु आंकडे/ जन्म-मरण-सबधी आंकडे	1. जीवन-सबधी आंकडे
Viva Voce	1. मौखिक परीक्षा	1. मौखिक परीक्षा	1. मौखिक परीक्षा	1. मौखिक परीक्षा (वि०) मौखिक	1. मौखिक परीक्षा वाक्परीक्षा (वि०) मौखिक	1. मौखिक परीक्षा
Vocabulary	1. शब्दावली	1. शब्दावली	1. शब्दावली/ शब्दभंडार	1. शब्दावली/ शब्दभंडार/ शब्द-संग्रह/ शब्द-निचय	1. शब्दावली/ शब्दभंडार/ शब्दसंग्रह/ शब्दकोष	1. शब्दावली

400 / अखिल भारतीय प्रयासिनिक शब्दकोष

1	2	3	4	5	6	7
Vocation	1. व्यवसाय	1. व्यवसाय	1. व्यवसाय	1. व्यवसाय/वृत्ति	1. व्यवसाय	1. व्यवसाय
Void	1. शून्य	1. शून्य	1. शून्य/विधिरद्/ निरप्रभाव	1. शून्य/हीन/ प्रभावहीन	1. शून्य/हीन/ प्रभावहीन/व्यर्थ	1. शून्य
Volume	1. आयतन 2. मात्रा/परिमाण 3. जिल्द/खण्ड	— 2. परिमाण 3. पुस्तक/प्रथ	1. आयतन 2. मात्रा/परिमाण 3. जिल्द/खण्ड/बद्य	1. आयतन 2. मात्रा/परिमाण 3. जिल्द/खण्ड	1. आयतन 2. मात्रा/परिमाण 3. जिल्द/प्रथ प्रथखण्ड	1. आयतन 2. मात्रा 3. जिल्द/खण्ड
Voluntary	1. स्वैच्छिक	1. स्वैच्छिक	1. स्वैच्छिक/ऐच्छिक	1. स्वैच्छिक/ऐच्छिक स्वेच्छया	1. स्वैच्छिक/ऐच्छिक स्वेच्छापूर्ण	1. स्वैच्छिक
Votable	1. मतदेय	1. मतदेय	1. मतदेय	1. मतदेय	1. मतदेय/ मतदानयोग्य	1. मतदेय
Vote	1. मत/वोट (फि०) मत देना/ वोट देना	1. मत/वोट	1. मत/वोट (फि०) मत देना/ मत द्वारा स्वीकार करना	1. मत/वोट (फि०) मत देना	1. मत/वोट/राय (फि०) मत देना/ वोट देना मत द्वारा स्वीकृत करना/ राय देना	1. मत/वोट (फि०) मत देना वोट देना
Voted	1. दत्तमत	1. दत्तमत	1. मतदेय/स्वीकृत	1. मतदेय/मतदत्त	1. दत्तमत/ मतपारित	1. दत्तमत
Voucher	1. वाउचर	1. वाउचर	1. वाउचर/व्ययपत्र	1. वाउचर/प्रमाणक 2. बाधर पत्र	1. वाउचर/प्रमाणक	1. वाउचर
Voyage	1. समुद्रयात्रा	1. समुद्रयात्रा	1. समुद्रयात्रा	1. समुद्रयात्रा/ जलयाना	1. समुद्रयात्रा/ जलयाना	1. समुद्रयात्रा

1	2	3	4	5	6	7
W						
Wage	1. मजदूरी/मजूरी	1. मजदूरी	1. मजदूरी/मजूरी/ पारिभ्रमिक/वेतन/ भ्रति/पगार	1. मजदूरी/मजूरी	1. मजदूरी/मजूरी/ पारिभ्रमिक/पगार	1. मजदूरी/मजूरी
Wage, Living	1. निर्वाह मजदूरी	1. निर्वाह मजदूरी	1. निर्वाह मजदूरी	1. निर्वाह मजदूरी/ निर्वाह मजूरी	1. निर्वाह मजदूरी/ निर्वाह मजूरी	1. निर्वाह मजदूरी
Waiting list	1. प्रतीक्षा-सूची	1. प्रतीक्षा-सूची	1. प्रतीक्षा सूची	1. प्रतीक्षा सूची प्रतीक्षक सूची	1. प्रतीक्षा-सूची/ प्रतीक्षक सूची	1. प्रतीक्षा-सूची
Waiving	1 छूट	1. छूट	1. छूट	1. छूट/छोड़ देना/ अधित्याग	1. छूट	1. छूट
Ward	1. वार्ड	1. वार्ड	1. वार्ड/हलका (नगर का भाग) 2. कक्ष/रोगीकक्ष (चिकित्सालय) 3. अभिरक्षित	1. वार्ड/कक्ष 2. रोगीकक्ष 3. सरक्षित/प्रतिपाल्य	1. विभाग/वार्ड 2. कक्ष/रोगीकक्ष 3. प्रतिपाल्य/पाल्य/ 4. प्रतिपालित/ अभिरक्षित व्यक्ति	1. वार्ड
Ward-keeper	1. वार्डरक्षक	1. वार्डरक्षक	1. वार्डरक्षक	1. वार्डरक्षक	1. वार्डरक्षक	1. वार्डरक्षक
Warden	1. वार्डेन	1. वार्डेन	1. वार्डेन/छात्रपाल/ अभिरक्षक	1. वार्डेन/प्रतिपाल/ आवासपाल	1. वार्डेन/छात्रपाल	1. वार्डेन
Warehouse	1. गोदाम/ भांडागार	1. गोदाम/ भांडागार	1. गोदाम/ भांडागार/ स्रग्रहागार	1. गोदाम/ भांडागार/ मालगोदाम	1. गोदाम/ भांडागार/ भण्डार/ मालगोदाम	1. गोदाम/भांडागार

1	2	3	4	5	6	7
Warning	1. चेतावनी	1. चेतावनी	1. चेतावनी	1. चेतावनी	1. चेतावनी/ प्रबोधन	2. चेतावनी
Warrant	1. वारंट/अधिपत्र	1. वारंट	1. वारंट/अधिपत्र	1. वारंट/अधिपत्र 2. स्यादेस पत्र/ अधिदेस पत्र	1. वारंट/अधिपत्र 2. प्रमाणपत्र	1. वारंट
Wastage	1. छीजन/बरबादी	1. छीजन/बरबादी	1. छीजन/बरबादी/ सम/सति/सुनि	1. छीजन/बरबादी/ छय	1. छीजन/बरबादी	1. छीजन/बरबादी
Waste Land	1. परतो भूमि	1. परतो भूमि	1. परतो भूमि/ बजर भूमि	1. बजर भूमि	1. बजर भूमि/ पहुठभूमि/ ऊबर भूमि	1. परतो भूमि
Watch & Ward	1. पहरा व निगरानी	1. पहरा व निगरानी	1. पहरा-निगरानी/ पहरा-चौकी	1. पहरा-निगरानी	1. पहरा व निगरानी/ रसा पहरा/ रसा प्रहरी	1. पहरा व निगरानी
Watcher	1. प्रहरी/चौकीदार	1. प्रहरी/चौकीदार	1. प्रहरी/चौकीदार	1. प्रहरी/पहरेदार/ चौकीदार	1. प्रहरी/पहरेदार/ पहरेवाला	1. चौकीदार
Waybill	1. मार्गपत्रक/रबन्ना	1. मार्गपत्रक/रबन्ना	1. मार्गपत्रक/रबन्ना 2. मार्गी सूची	1. मार्गपत्रक/रबन्ना	1. मार्गपत्रक/रबन्ना	1. मार्ग-पत्रक/ रबन्ना
Ways and means	1. अर्थोपाय	1. अर्थोपाय/ मार्गीपाय	1. अर्थोपाय	1. अर्थोपाय/ उपाय और साधन	1. अर्थोपाय/ मार्गीपाय/ उपाय एवं साधन	1. अर्थोपाय
Wear and tear	1. टूट-फूट	1. टूट-फूट	1. टूट-फूट/पिसाई	1. टूट-फूट/ पिसाई-पिटाई	1. टूट-फूट/छीज	1. टूट-फूट
Weeding (of records)	1. छंटाई (अभिलेख)	1. छंटाई	1. छंटाई	1. छंटाई (अभिलेख)	1. छंटाई	1. छंटाई

1	2	3	4	5	6	7
Welcome	1. (स०) स्वागत (फि०) स्वागत करना	1. स्वागत (फि०) स्वागत करना	1. स्वागत (फि०) स्वागत करना, अभिनन्दन करना	1. स्वागत/ सादर गृहीत/ अभिनन्दन (फि०) स्वागत करना, अभिनन्दन करना	1. स्वागत/ शुभागमत्/ अभ्यर्चना (फि०) स्वागत करना	1. स्वागत (फि०) स्वागत करना
Welcome, Address of	1. अभिनन्दन पत्र	1. अभिनन्दन पत्र	1. अभिनन्दन पत्र	1. अभिनन्दन पत्र/ अभिनन्दन भाषण	1. अभिनन्दन पत्र	1. अभिनन्दन पत्र
Welfare Officer	1. कल्याण अधिकारी	1. कल्याण अधिकारी	1. कल्याण अधिकारी	1. कल्याण अधिकारी	1. कल्याण अधिकारी	1. कल्याण अधिकारी
Welfare-state	1. कल्याणकारी राज्य	1. कल्याणकारी राज्य	1. कल्याणकारी राज्य	1. कल्याणकारी राज्य	1. कल्याणकारी राज्य	1. कल्याणकारी राज्य
Whip	1. सचेतक	1. सचेतक	1. सचेतक (ससद) 2. कक्षागवृक्ष (वन)	1. सचेतक 2. कोड़ा/कमन्ची/ कथा	1. सचेतक/प्रतोद/ द्विप 2. कोड़ा/बाबुक/ कथा	1. सचेतक
Whitepaper	1. श्वेत-पत्र	1. श्वेत-पत्र	1. श्वेत-पत्र	1. श्वेत-पत्र	1. श्वेत-पत्र	1. श्वेत-पत्र
Whole time	1. पूर्णकालिक	1. पूर्णकालिक	1. पूर्णकालिक	1. पूर्णकालिक/ पूर्णकाल	1. पूर्णकालिक/ पूर्णकाल	1. पूर्णकालिक
Wing	1. स्कन्ध/खड	1. स्कन्ध/खड	1. स्कन्ध/विंग कक्ष/प्रशाखा/ पक्ष (विभाग) 2. पार्वे (भवन) बाबू —	1. स्कन्ध/खड/पक्ष 2. विंग 3. पक्ष/पर	1. स्कन्ध/खड/पक्ष 2. कक्ष/बाबू भवन विभाग 3. पक्ष/पर	1. स्कन्ध/खड

	1	2	3	4	5	6	7
Wireless Withdrawal	1. बेतार 1. वापसी		1. बेतार 1. वापसी	1. बेतार 1. वापसी	1. बेतार 1. वापसी/पीछे हटना	1. बेतार 1. वापसी	1. बेतार 1. वापसी
Witness	1. साक्षी/गवाह		1. साक्षी/गवाह	1. साक्षी/गवाह	2. निकासी निकालना	2. निकासी	2. निकासी
Work agent Worker	1. एजेंट/कारिदा 1. कामगार		1. एजेंट/कारिदा —	2. गवाही/साक्ष्य 1. एजेंट/कारिदा 1. कामगार	3. प्रत्याहरण/ उठा लेना/ वापस लेना	3. प्रत्याहरण	3. प्रत्याहरण
Working	1. (वि०) कार्यकारी 2. श्रमजीवी 3. व्यावहारिक/ कामचलाऊ 4. सक्रिय/चालू	1. कार्यकारी 3. व्यावहारिक	1. कार्यकारी 3. व्यावहारिक/ कामचलाऊ 4. सक्रिय/चालू	1. कार्यकारी 3. व्यावहारिक/ कामचलाऊ 4. सक्रिय/चालू	1. कामगार/कर्मों/ कार्यकर्ता 2. श्रमिक/मजदूर/ कर्मकार 1. कार्यवाहक	1. साक्षी/गवाह 2. साक्ष्य 1. एजेंट/कारिदा 1. कामगार	1. साक्षी/गवाह 1. एजेंट/कारिदा 1. कामगार 1. कार्यकारी 1. कार्यकारी
		5. कार्य कार्य (समिति) 6. आधारभूत			4. काम करने वाला/ चालू	4. चालू	

1	2	3	4	5	6	7
	1. (स०) कार्यचालन	—	1. कार्य	1. क्रिया/कार्यचालन/ कार्य-प्रणाली/ कार्यकरण/ कामकाज	1. क्रिया/ कार्यप्रणाली	
Workingdays	1. कार्य दिवस/ काम के दिन	1. कार्य दिवस/ काम के दिन	1. कार्य दिवस	1. कार्य दिवस/ काम के दिन	1. कार्य दिवस/ काम के दिन/ कार्यकारी दिवस	1. कार्य दिवस/ काम के दिन
Workinghours	1. कार्य-समय/ काम के घंटे	1. कार्य समय/ काम के घंटे	1. कार्य-समय	1. कार्य-समय/ काम के घंटे/ काम-घंटे	1. कार्य-समय/ काम के घंटे	1. कार्य-समय/ काम के घंटे
Working Knowledge	1. व्यावहारिक ज्ञान	1. व्यावहारिक ज्ञान	1. व्यावहारिक ज्ञान	1. कामचलाऊ ज्ञान	1. कामचलाऊ ज्ञान	1. कामचलाऊ ज्ञान
Workmanship	1. कर्मकौशल	1. कर्मकौशल	1. कर्मकौशल	1. कर्मकौशल 2. कारीगरी	1. कर्मकौशल	1. कर्म-कौशल
Works	1. सकर्म 2. कर्मशाला 3. निर्माण	1. कर्म 2. कर्मशाला 3. निर्माण	1. सकर्म/कर्म 2. कर्मशाला/ कर्मालय 3. निर्माण/ निर्माणकार्य 4. कृतियाँ (कला आदि)	1. सकर्म 2. निर्माणशाला कर्मशाला 3. निर्माण	1. कर्माल 2. कर्मशाला 3. निर्माण	—
Worksheet	1. कार्यपत्रक	1. कार्यपत्रक	1. कार्यपत्रक	1. कार्यपत्रक	1. कार्यपत्रक	1. कार्यपत्रक
Workshop	1. वर्कशाप/ कर्मशाला 2. कार्यवोट्री	1. वर्कशाप/ कर्मशाला	1. कर्मशाला/ कर्मालय	1. वर्कशाप/ कर्मशाला	1. वर्कशाप/ कर्मशाला/ कारधाना	1. वर्कशाप/ कर्मशाला

Administrative approval may be obtained	प्रशासनिक अनुमोदन प्राप्त किया जाए	Affidavit submitted by the employee is not in order	कर्मचारी द्वारा प्रस्तुत शपथपत्र नियमानुकूल नहीं है
A draft D.O. letter addressed to...is put up for approvalके नाम अ० स० पत्र का प्रारूप अनुमोदनायें प्रस्तुत है	After adequate consideration	समुचित विचार के बाद
A draft reply is put up for approval	उत्तर का मसौदा अनुमोदनायें प्रस्तुत है	After discussion	विचार-विमर्श के बाद
Advance arrangements are necessary	पहले से प्रबन्ध करना आवश्यक है	After issue	जारी होने के बाद
Advance copy	अग्रिम प्रति	After perusal	देख लेने के बाद
Advance for purchase of stationery may be sanctioned	लेखन-सामग्री की खरीद के लिए पेशगी मंजूर की जाए/अग्रिम स्वीकार किया जाए	After taking into consideration all aspects of the question	प्रश्न के सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद
Advance from pay/provident fund is permissible	वेतन/प्रविध्यनिधि से पेशगी दी जा सकती है	After the expiry ofके बाद/ की समाप्ति पर
Advance notice is necessary in this case	इस मामले में अग्रिम सूचना देना आवश्यक है	Against/within the extant rules	वर्तमान नियमों के विपरीत/ अनुसार
Advance of T. A. may please be arranged	हृष्या यात्रा-घंसे की पेशगी का प्रबंध कर दिया जाए	Agenda is sent herewith	कार्यसूची साथ भेजी जा रही है
Advise.....that the transfer proposed would not be in order	...को सूचित करें कि प्रस्तावित स्थानान्तरण नियम के अनुकूल नहीं होगा	Agenda of the meeting	बैठक की कार्यसूची
Advise accordingly	तदनुसार सूचित करें	Agenda will follow	कार्यसूची बाद में भेजी जायेगी
Advise further development	आगे की प्रगति से अवगत कराएँ	Agreed to	सहमत है
Advise telegraphically	तार द्वारा सूचित करें	All concerned should note carefully	सभी संबंधित व्यक्तित्व इसे ध्यान से नोट कर लें
Advise the action taken	की गयी कार्रवाई से अवगत कराएँ	All concerned to note	सर्वे संबंधित नोट करें
Advise the party that.....	पार्टी को सूचित करें कि...	All correspondence relating to the matter should be placed on file	सम्बन्धित पुराने पत्र-व्यवहार फाइल में रखा जाए
Advise this office of the result of the enquiry	इस कार्यालय को जांच के परिणाम से अवगत कराएँ	Allotment from the quota reserved	आरक्षित कोटे से आवंटन
		All ostentatious expenditure should be eschewed	सभी तटक-भटक वाले खर्चों से बचा जाए
		All round economy in expenditure is needed	खर्च में चौतरफा क्रियामय करने की जरूरत है, व्यय में, सभी प्रकार की वित्तव्ययिता अपेक्षित है

Amended claim has been received	संशोधित दावा मिल गया है	permissible but is not obligatory	जा सकती है लेकिन ऐसा करना अनिवार्य नहीं है
Am I to presume that	क्या मैं यह मान सूँ कि	Appended below	नीचे दिया गया है
(This) amount has become irrecoverable, may be written off	यह राशि अब वसूल होने योग्य नहीं है, इसे बटूटे खाते में डाल/लिख दिया जाए	Appended herewith	सलपन है, नस्यो है, अनुलन है
Amount overpaid may be calculated and recovered	अधिक भुगतान की गयी रकम का हिसाब लगाकर उसे वसूल किया जाए	Applicable to	पर लागू है, पर लागू होता है
Amount proposed earlier can not be enhanced	पूर्वप्रस्तावित रकम में कोई वृद्धि नहीं की जा सकती	Application has not been made in proper form	आवेदन-पत्र सही रूप में नहीं दिया गया है
Annual review is in progress	वार्षिक समीक्षा की जा रही है	Application has not been received in the Branch	अर्बों अनुभाग में प्राप्त नहीं हुई है
Annual verification certificate has not been received so far	वार्षिक सत्यापन प्रमाण-पत्र अभी तक नहीं मिला है	Application may be rejected	अर्बों नामजूर की जाए, प्रार्थनापत्र अस्वीकृत किया जाए
Anticipated cost	प्रत्याशित लागत	Applications may be submitted by...at the latest. No applications will be entertained after that date.	अर्बों अधिक से अधिक इस महीने की... तारीख तक आ जानी चाहिए। इस तारीख के बाद कोई भी अर्बों नहीं भी जायेगी।
Anticipated expenditure	प्रत्याशित व्यय	Apply for withdrawal from the provident fund	भविष्य निधि से रकम निकालने के लिए अर्बों दें
Anti-corruption measures should be intensified	भ्रष्टाचार-निरोधक उपाय दृढ़ किये जाएँ	Appointment is temporary and will not offer any title to permanent employment	नियुक्ति अस्थायी है और इससे स्थायी नियुक्ति का हक नहीं मिलता
Any further delay in the receipt of the above documents will tell upon the timely submission of the statement	उपर्युक्त प्रलेखों की प्राप्ति में और अधिक विलम्ब से समय पर विवरण भेजने में कठिनाई होगी	Appropriate action	समुचित/उपयुक्त कार्यवाही/कार्रवाई
Apart from this	इसके अलावा/अतिरिक्त	Approval may be accorded	अनुमोदन प्रदान कर दिया जाए
Appeal does not lie	अपील नहीं की जा सकती	Approved as proposed	यथाप्रस्ताव अनुमोदित
Appeal has been rejected	अपील खारिज कर दी गयी है	Approved draft typed and put up for signature please	अनुमोदित मसौदा टाइप करने हस्ताक्षर के लिए प्रस्तुत है
Appeal is time barred	अपील समय-बाधित है, अपील मिगाद खारिज है	Approved subject to the objection in para 2 above	ऊपर पैरा 2 में निरिष्ट आपत्तियों के अलावा अनुमोदित
Appear for interview	साक्षात्कार के लिए उपस्थित हो	Approximate physical progress	काम की अनुमानित स्थूल प्रगति की
Appellant has requested for a personal hearing which is	अपीलकर्ता ने निजी सुनवाई के लिए प्रार्थना की है जिसकी अनुमति दो		

of the work should be furnished early	गृहणा भीद्र दो जाए	As approved by the Board	बोर्ड द्वारा यथा अनुमोदित
Arrange early disposal of the case	मामले को जल्दी निपटाने की व्यवस्था करें	As a result of	के परिणामस्वरूप
Arrangements are being made to ensure timely submission of report	समय पर रिपोर्ट भेजने की व्यवस्था की जा रही है	As a rule	नियमत, नियमानुसार
Arrange to return the papers early	कागजात भीद्र सौटाने की व्यवस्था करें	As a special case	विशेष मामला मान कर
Arrange to regularise the transaction	इस लेन-देन को नियमित करें	As an exceptional case	अपवाद (के) रूप में
Arrange to settle exchange	बदला-बदली के निपटान की व्यवस्था करें	As compared to	की तुलना में
Arrear report has not been received	बकाया काम की रिपोर्ट अभी नहीं मिली है	As contained in the minutes above	जैसा कि ऊपर कार्यवृत्त में दिया हुआ है
Arrears have been cleared off	बाकी कार्य पूरा कर दिया गया है	As decided	जैसा कि निर्णय किया गया (है)
Arrival report	पहुँचने की रिपोर्ट	As desired by you	आपकी इच्छानुसार, जैसा कि आपने चाहा है
Articles asked for are out of stock	जो वस्तुएँ माँगी गयी हैं, स्टॉक में नहीं हैं	As desired by you on phone on date	जैसा कि आज आपने फोन पर कहा
As above	जैसा कि ऊपर दिया गया है	As desired in your letter quoted above	जैसा कि आपके उपर्युक्त पत्र में कहा गया है
As against	की तुलना में/के मुकाबले	As discussed	विचार-विमर्श के अनुसार
As already pointed out	जैसा कि पहले बताया जा चुका है	As early as possible	जितनी जल्दी हो सके, यथाशीघ्र,
As a matter of fact	वास्तव में/दरअसल	As explained in the foregoing para	शीघ्रताशीघ्र, यथासंभव भीद्र
As amended	यथा-संशोधित	As far as circumstances permit	जैसा कि पूर्ववर्ती पैरा में बताया गया है
As and when	जब और जैसे	As far as permissible	परिस्थितियों के अनुसार जहाँ तक सम्भव हो
As an ad-hoc measure	उदय उपाय के रूप में	As far as possible	जहाँ तक अनुसंधान/अनुमेय हो
As an exceptional case	अपवादतः, अपवाद रूप में	As far as practicable	जहाँ तक सम्भव हो, यथासंभव
As a permanent/temporary/precautionary measure	स्थायी/अस्थायी/सिद्धिपाती उपाय के रूप में	As for instance	जहाँ तक व्यावहारिक हो
		As furnished below, as given below	उदाहरण के लिए, उदाहरणार्थ
		As here in after provided	जैसा कि नीचे दिया गया है
			जैसा कि इसमें आगे कहा गया है

As indicated below/above	जैसा कि नीचे/ऊपर बताया गया है	As per concluding para	अन्तिम पैरे के अनुसार
As in force for the time being	जैसा कि इस समय लागू है	As per orders on page...	पृष्ठ...पर दिये हुए आदेशों के अनुसार.
As is usually done	जैसा कि प्रायः किया जाता है	As per penultimate para	उपरोक्त/अन्तिम से पहले पैरे के अनुसार
As it involves legal complication, opinion of law officers may be sought in the matter	इस मामले में कानूनी जटिलताएँ हैं इसलिए इसमें विधि अधिकारी की राय ली जाए	As per rules	नियमों, नियमानुसार
Ask explanation of the staff concerned	संबंधित कर्मचारी/कर्मचारियों से जवाब लतब किया जाए	As per verbal orders	मौखिक आदेशानुसार
As laid down in the rules	जैसा कि नियमों में निर्धारित है	As per your orders	आपके आदेशानुसार
As listed below	जैसा कि नीचे की सूची में दिया गया है	As pointed out above	जैसा कि ऊपर बताया गया है
As may be considered expedient	जैसा कि उचित हो	As proposed	यथाप्रस्तावित
As may be deemed fit	जैसा ठीक समझा जाए	As recommended	संस्तुति/सिफारिश के अनुसार
As may be mutually agreed upon	जैसा कि आपस में तय हो जाए	As regards	के संबंध में
As may be necessary	जैसा आवश्यक हो	As regards the instructions in para. above	उत्सुकेत पैरा...में दी गई दिशाओं के संबंध में
As may be specified	जैसा निर्दिष्ट किया जाए	As regards the particular matter in question	जहाँ तक समस्याओं के सम्बन्ध है
As mentioned above	जैसा कि ऊपर कहा गया है	As required	आवश्यकतानुसार
As mentioned below	जैसा कि नीचे कहा गया है	As required under the rules	जैसा कि नियमों के अधीन अवैधित है/हो
As modified	यथासंशोधित	As revised	यथासंशोधित
As notified	जैसा कि अधिसूचित किया गया है	As soon as possible	यथासंभव शीघ्र, यथाशीघ्र
As of right	अधिकार के रूप में	As suggested above/below	जैसा कि ऊपर/नीचे सुझाया गया है, जैसा कि ऊपर/नीचे सुझाया गया है
As ordered	आदेशानुसार	As the case may be	जैसी स्थिति हो, यथास्थिति
As per conversation	बातचीत के अनुसार	As there is no clear vacancy at the request of Shri...for transfer can not be accorded to	चूँकि...पर कोई जगह खाली नहीं है इसलिए स्थानान्तरण के लिए...का निवेदन स्वीकार नहीं किया जा सकता
As per details below	नीचे लिखे स्वीरे के अनुसार	As usual	सदा की भाँति
As per extant orders	वर्तमान आदेशों के अनुसार	As verbally instructed	जबानी दिशाओं के अनुसार, मौखिक आदेश/अनुदेश के अनुसार
As per instructions	दिशाओं के अनुसार/अनुदेशानुसार		
* per noting at page. .	पृष्ठ...पर दी गयी टिप्पणी के अनुसार		

At his own option	स्वयं अपनी इच्छा से	Back reference	पिछला सदर्भ
At once please	कृपया तुरत	Balance of payment	बकाया भुगतान
Attached here with	साथ नत्थी है	Balance to be completed	बकाया काम पूरा करना है
Attention is invited to circular office memo No....dated...on the subject quoted above	उपर्युक्त विषय पर तारीख...के परिपत्र कार्यालय आपन सध्या... की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है	Ban on creation of posts	नये पद के सृजन पर रोक
Attention : Shri...	श्री.....ध्यान दें	Ban on future promotion	भावी पदोन्नति पर रोक
At the close of the month	महीने के अन्त में	Ban on recruitment	भर्ती पर रोक
At the end of	के अन्त में	Ban on the filling of posts	पद भरने पर रोक
At the instance of	के कहने पर	Barred by time	समय-बाधित, मियाद-आरिज
At the maximum of the scale	धेतनमान के अधिकतम पर	Before his pay is concurred in	उसके वेतन के सबध में सहमति देने से पहले
At way-side stations	रास्ते के छोटे स्टेशनों पर	Before the date of submission	पेश करने की तारीख से पहले
Audit may be requested	लेखा-परीक्षा विभाग से अनुरोध किया जाए	Behind schedule	अनुसूचित समय से पीछे
Authorisation letter with specimen signature of the bearer	(पत्र) वाहक के नमूने के हस्ताक्षर से युक्त प्राधिकार-पत्र	Besides what has been stated above	जो ऊपर कहा गया है, उसके अलावा
Authority competent to sanction/make payment/decide the case	मजूरी देने/भुगतान करने/मामले का फैसला करने के लिए समर्थ प्राधिकारी	Bill has been verified, this is in order, may be passed for payment	बिल का सत्यापन कर लिया गया है। यह ठीक है। भुगतान के लिए पारित/पास किया जाए
Average attendance per month comes to...	महीने की औसत उपस्थिति... है	Bill has not been prepared correctly	बिल सही-सही नहीं बनाया गया है
Await further report	आगे और विवरण की प्रतीक्षा करें	Bills have been drawn	बिलों पर अदायी ली जा चुकी है
Attention is invited	आने तक प्रतीक्षा करें	Bill is returned herewith with the following objections	बिल निम्नलिखित आपत्तियों के साथ वापस किया जाता है
Await arrival	आगे और सूचना/रिपोर्टों की प्रतीक्षा करें	Bill outstanding	बकाया बिल
Await further advice/report	उत्तर की प्रतीक्षा करें	Bills for signature please	कृपया बिलों पर हस्ताक्षर कर दें
Await reply	कर्मचारी की छुट्टी से वापस आने की प्रतीक्षा करें	Bills passed	बिल पास कर दिये गए
Await return of the employee from leave		Break in service has been condoned	सेवाकर्म में भंग को क्षमा कर दिया गया है
		Brief for the meeting are being	बैठक के लिए पक्ष-सार पक्ष-कथन/

prepared	श्रीक तैयार किया जा रहा है	Case has been badly delayed	मामले में बहुत देर लग गयी है
Brief history of the case is as follows	मामले का संक्षिप्त इतिहास इस प्रकार है	Case has been closed	मामला समाप्त कर दिया गया है
Brief summary of the case is placed below	मामले का सांगत नीचे रखा है	Case is filed	मामला फाइल कर दिया गया है
Bring this to the notice of all concerned	इसे सभी संबंधित लोगों के ध्यान में लाया जाय	Case is not traceable	पाइल नहीं मिल रही है
Brought forward	अग्रणीत	Case is put up for orders please	मामला आदेश के लिए प्रस्तुत है
Budget provision exists	बजट में व्यवस्था है	Case is resubmitted as directed on prepage	बिछले पृष्ठ पर दिये गये निर्देश के अनुसार मामला फिर से प्रस्तुत किया जाता है
Budget provision is not adequate	बजट-व्यवस्था पर्याप्त नहीं है	Case is to be reviewed	मामले पर पुनः विचार करना है, मामला पुनर्विचारणीय है
By and by	धीरे-धीरे, क्रमशः	Cases under consideration	विचाराधीन मामला
By mistake	घसती से	Case is under investigation	मामले की जांच की जा रही है, मामला विचाराधीन है
By reason of	के कारण	Case may be processed in accordance with the extant orders on the subject	इस विषय से संबंधित वर्तमान आदेश के अनुसार मामले पर कार्रवाई की जाए
By the order of	के आदेश से	Causes beyond the control of the employee	कर्मचारी के कानून से बाहर के कारण
By virtue of	के नाते, की हैसियत से	Certificate by the competent authority is required	समर्थ प्राधिकारी का प्रमाणपत्र अपेक्षित है
Call for applications	आवेदनपत्र मांगे जाए	Charge handed over	कार्यभार सौंप दिया
Call for explanation	जवाब तलब किया जाए	Charge sheet has been read out and explained to the employee	आरोप-पत्र कर्मचारी को पढ़कर सुना और समझा दिया है
Call for the file	फाइल मांगायी जाए	Chase the case	मामले की प्रगति पर निगाह रखें, मामले की प्रगति पर ध्यान देते रहें
Call upon to show cause	कारण बताते को कहा जाए	Check and give remarks	जांच करें और संक्षिप्त दें
Can not be acceded to (Shri) .cannot be spared till a substitute is provided	स्वीकार नहीं किया जा सकता जब तक एनपी नहीं दिया जाता, श्री ...को भारमुक्त नहीं किया जा सकता	Checked and found correct	जांच की और सही पाया
Car not available under repairs out orders	कार उपलब्ध नहीं है कार की मरम्मत हो रही है आदेश का पालन करें		

Chief Auditor does not agree to close the case	मुख्य लेखा-नरीक्षक मामले को समाप्त करने के पक्ष से नहीं है	Concurrence for the creation/extension of the following posts is required	निम्नलिखित पदों का सृजन करने/अवधि बढ़ाने की सहमति अपेक्षित है
Circular letter will be issued to all concerned	सभी संबंधित व्यक्तियों को परिपत्र भेजा जाएगा	Concurrence of the Finance Branch is necessary	वित्त-शाखा की सहमति आवश्यक है
Circulate this information/order among all the employees	इस सूचना/आदेश से सभी कर्मचारियों को अवगत कराएँ	Conduct is questionable	आचरण आपत्तिजनक है
Cited above	ऊपर दिया हुआ, ऊपर उद्धृत	Confidential report/file	गोपनीय रिपोर्ट/मिस्त्रिल (फाइल)
Claimant has served a notice of suit for recovery of Rs.... on account of shortage/damage	कमी/घाति के कारण दावेदार ने... रु० वसूल करने के लिए मुकदमे का नोटिस दिया है	Connect previous papers	पिछले कागज नत्थी करें
Claim is time-barred	दावा समय-बाधित/मियाद-आरिज है	Connect relevant papers and put up	सम्बद्ध कागजों के साथ प्रस्तुत करें
Claims inspector reports that...	दावा-निरीक्षक ने रिपोर्टें दी हैं कि...	Consider it again	इस पर पुनर्विचार करें
Close watch is being kept on the case	मामले पर पूरा नजर रखा जा रही है	Consider properly	समुचित रूप से विचार करें
Communicate the message immediately	सदेश तुरत भेजें	Consultation is necessary	परामर्श आवश्यक है
Communication referred to in the P.U.C. does not appear to have been received in this office	ऐसा प्रतीत होता है कि विचाराधीन पत्र में उल्लिखित पत्र इस कार्यालय में प्राप्त नहीं हुआ	Consolidated report may be furnished	समेकित रिपोर्ट प्रस्तुत करें
Competent authority may kindly decide	सक्षम अधिकारी कृपया निर्णय दें	Contract may be terminated	सविदा, ठेका समाप्त कर दिया जाए तक ठीक नहीं है
Competent authority's sanction is necessary	समर्थ प्राधिकारी की मजूरी अपेक्षित है	Contention is not correct	अस्वायी पदों का स्थायी पदों में बदलना
Compliance with orders is still awaited	आदेश के अनुपालन की अभी प्रतीक्षा है	Conversion of temporary posts into permanent ones	अपनी वित्तीय सहमति/अनुमोदन की सूचना दें
		Convey your financial concurrence/approval	अंशालत के फ्रंसले की नकल मगवायी जा रही है
		Copy of the court judgement is being obtained	तत्काल हथाने के लिए प्रतिनिधि सलग्न है
		Copy enclosed for ready reference	प्रतिनिधि...को सूचना और आवश्यक कार्रवाई के लिए प्रेषित
		Copy forwarded to...for information and necessary action	

Early orders are solicited	शीघ्र आदेश देने की प्रार्थना है, कृपया शीघ्र आदेश दें	Examine the proposal in the light of observation at 'A' above	ऊपर 'ए' अंकित मसूदा पर दो गयी टिप्पणियों का ध्यान में रखते हुए प्रस्ताव की जाँच करें
Early reply will be highly appreciated	यदि उत्तर शीघ्र भेज दें तो बड़ी कृपा होगी	Ex-Party Decision	एकपक्षीय निर्णय
Economy report	मितव्ययिता रिपोर्ट	Excess fare ticket	अतिरिक्त भाड़ा टिकट
Effective steps should be taken to clear the arrears	बक़ायाम काम के निपटारे के लिए कारगर उपाय किये जाएँ	Ex-gratia payment	अनुग्रह के रूप में भुगतान
Eligibility is certified	पात्रता प्रमाणित की जाती है	Expedite submission of report	रिपोर्ट शीघ्र भिजवाने की व्यवस्था करें
Employee requests following amendments in the pass	कर्मचारी ने पास में निम्नलिखित संशोधन करने की प्रार्थना की है	Expenditure for boarding and lodging will be met by the department	भोजन और निवास का खर्च विभाग द्वारा दिया जायेगा
Empowered to sanction	मंजूरी देने का अधिकार है	Explanation may be called for	स्पष्टीकरण माँगा जाए
Enquire into the case and report early	मामले की जाँच करें और शीघ्र रिपोर्ट दें	Explanation of the staff concerned should be called for	सम्बन्धित कर्मचारी से जवाब तलब किया जाए
Enquiries made reveal that the matter has been badly delayed	जाँच से मालूम हुआ है कि मामले में बहुत देरलगायी गयी है	Explain why disciplinary action should not be taken against you	बतायें कि आपके विरुद्ध अनुशासन की कार्रवाई क्यों नहीं की जाए
Enquiry has been ordered	जाँच का आदेश दे दिया गया है	Ex-post facto sanction	कार्योत्तर मंजूरी
Enquiry has not been held in a proper manner	जाँच सही ढंग से नहीं की गयी है	Facilities are not available	सुविधाएँ उपलब्ध नहीं हैं
Enquiry proceedings	जाँच की कार्यवाही	Facts of the case in brief are as follows	संक्षेप में मामले के तथ्य इस प्रकार हैं
Ensure prompt and speedy implementation	शीघ्र कार्यान्वयन सुनिश्चित करें	F(E) may please see noting above with reference to their query on pre-page	वित्त (स्थापना) पिछले पृष्ठ पर अपनी पृष्ठछाप के सम्बन्ध में कृपया ऊपर लिखी टिप्पणियों देखें
Entry in leave account/service record for initials please	छुट्टी लेखे सेवा-अभिलेख में की गयी प्रविष्टि आदत्तार के लिए प्रस्तुत है	Figures for the corresponding period of the last year are not readily available	पिछले वर्ष की इसी अवधि के अंकड़े तत्काल उपलब्ध नहीं हैं
Estimate is under preparation	प्रायकलन तैयार किया जा रहा है		
Estimates should be complete in all respects	प्रायकलन हर तरह से पूर्ण होना चाहिए		
Every encouragement should be given	सब तरह से प्रोत्साहन दिया जाए		

Figures have been compiled and shown in attached statement	अंकड़े संकलित कर लिए गये हैं और सप्तम विवरण में दिये गये हैं	Fix up responsibility	जबाबदेही ठहरादी जाये
File a suit against them	उनके विरुद्ध दावा दायर करें	Fix up some date	कोई तिथि निश्चित कर दें/लें
Files are indexed according to booking particular	क्राइलों को बुकिंग विवरण के अनुसार सूचीबद्ध किया जाता है	Following employees are confirmed in their existing posts with effect from the date shown against each	निम्नलिखित कर्मचारी अपने वर्तमान पद पर उनके नाम के सामने दी गयी तारीख से स्थायी किये जाते हैं
File in question is placed below	अपेक्षित क्राइल नीचे रची है	Following confirmations are hereby ordered	निम्नलिखित कर्मचारियों को इसके द्वारा स्थायी किया जाता है
File may be referred to Ministry...for comments	यह क्राइल टिप्पणियों के लिए मन्त्रालय को भेज दी जाए	Following is an extract of Board's orders on the subject	इस विषय पर बोर्ड के आदेश का उद्धरण नीचे दिया गया है
File may kindly be returned early after keeping extracts	उद्धरण रखने के पश्चात् रूपया इस क्राइल को शीघ्र लौटा दें	Following remarks are offered	कैफियत इस प्रकार है
File papers	कागज क्राइल किये जाएँ	Following suggestions	निम्नांकित सुझाव
Final bill is not on the prescribed form	अन्तिम बिल निर्धारित प्रपत्र/क्रॉम पर नहीं है	Following transfers and postings will take effect immediately	निम्नलिखित स्थानान्तरण और तैनातियाँ तत्काल लागू होगी
Final concurrence is accorded	अन्तिम सहमति दी जाती है	For administrative approval please	रूपया प्रशासनिक अनुमोदन करें
Final decision when arrived at will be communicated	अन्तिम विनिश्चय हो जाने पर सूचित किया जायेगा	For attestation please	रूपया तसदीक करें
Financial concurrence to the creation of the following post is necessary/has been asked for	नीचे लिखे पदों के सृजन के लिए वित्तीय सहमति आवश्यक है/मांगी गयी है	For compliance	अनुपालन के लिए/अनुपालनार्थ
Financial concurrence to the proposal is awaited	प्रस्ताव पर वित्तीय सहमति की प्रतीक्षा है	For concurrence please	सहमति के लिए
Financial implications of the proposals made by...duly vetted by A/C are furnished	...द्वारा बनाये गये प्रस्ताव के वित्तीय फलितार्थ प्रस्तुत किये जा रहे हैं। लेखा विभाग ने इसकी विधिवत् पड़ताल कर ली है	For early compliance	शीघ्र अनुपालन के लिए, रूपया शीघ्र कार्यवाही करें
Fix a date for the meeting	बैठक के लिए कोई तारीख नियत की जाए	For early remarks please	रूपया शीघ्र कैफियत/रिपोर्ट/अभ्युक्ति दें
		For examination and report in due course	जाँच करने और यथासमय रिपोर्ट देने के लिए
		For facility of reference	संदर्भ की सुविधा के लिए
		For favour of necessary action	उचित कार्रवाई के लिए

For favour of orders	आदेश देने की कृपा करें, आदेशार्थ	For orders please if the claim may be repudiated	कृपया आदेश दें कि क्या दावा अस्वीकार कर दिया जाये
For financial concurrence please	कृपया वित्तीय सहमति प्रदान करें	For orders please if the papers may be handed over to Claims inspector for enquiry and report	कृपया आदेश दें कि क्या जांच करने और रिपोर्ट देने के लिए कागज़ दावा निरीक्षक को दे दिये जाएं
For good and satisfactory reasons	सतोषजनक एवं पर्याप्त कारणों से	For orders please whether security deposit of Rs....be refunded to the contractor	कृपया आदेश दें कि क्या उठेदार को ... रुपये की जमानत लौटा दी जाये
For immediate action please	कृपया तत्काल कार्रवाई करें	For perusal and orders please	कृपया देखें और आदेश दें
For immediate attention	तुरन्त ध्यान दें	For reasons explained above	ऊपर बताये गये कारणों से
For information and guidance	सूचना और मार्गदर्शन के लिए	For reasons now explained we concur in the proposal	अब जो कारण बताए गये हैं उनको दृष्टि में रखते हुए हम इन प्रस्ताव पर अपनी सहमति देते हैं
For information and necessary action	सूचना और आवश्यक कार्रवाई के लिए	For reasons stated in para... above	ऊपर पैरा.....में बताये गये कारणों से
For information and order	सूचना और आदेश के लिए	For reconsideration	पुनर्विचार के लिए
For information only	केवल सूचना के लिए	For remarks and return	कमिश्नर के साथ लौटाने के लिए
For kind approval of the inter-divisional transfers	अन्तर्भण्डालीय स्थानान्तरण के अनुमोदन के लिए प्रस्तुत	For sanction/approval please	मंजूरी/अनुमोदन के लिए
For information and orders, if any, please	सूचनाएँ और आदेश (यदि देना चाहें) के लिए	For signature, if approved, please	यदि अनुमोदन करते हैं, तो कृपया हस्ताक्षर कर दें
Formal approval is necessary, the same may be obtained	औपचारिक अनुमोदन आवश्यक है। प्राप्त किया जाये	For such action as considered necessary	यथावश्यक कार्रवाई के लिए
For onward transmission	आगे भेजने के लिए	For suitable action	उपयुक्त कार्रवाई के लिए
For onward transmission to the Board	आगे बोर्ड को भेजने के लिए	For verification	सत्यापन के लिए
For obvious reasons	स्पष्ट कारणों से	Forwarded for consideration	विचारार्थ अग्रसारित
For orders, if the credit be afforded to the station	कृपया आदेश दें कि क्या स्टेशन के जमा खाते में ढाल दिया जाए	Forwarded to...Branch for disposal	निपटारे के लिए...शाखा को प्रेषित
For orders, if this may be procured through local purchases	क्या इसे स्थानीय बाजार से खरीदा जाये ? आदेशार्थ प्रस्तुत	Full payment sanctioned	पूरे भुगतान की मंजूरी दी
For orders please, if action may be taken on the lines indicated above	कृपया आदेश दें कि क्या उपर्युक्त संकेत के अनुसार कार्रवाई की जाये		

Fund may be provided by reappropriation	पुनर्विनियोग द्वारा निधि की व्यवस्था की जाए	Get bold of the file and see me	फाइल प्राप्त करें तथा मुझसे मिलें
Funds are available within sanctioned budget	मज़ूर बजट में रकम उपलब्ध	Give necessary facilities	आवश्यक सुविधाएँ दी जाएँ
Funds will be asked for	रकम माँगी जायेगी	Give top priority to this work/ case	इस काम/मामले को परम अग्रता/ शरीयता दी जाए
Funds will be made available by reappropriation	पुनर्विनियोग द्वारा रकम उपलब्ध की जायेगी	Hand over charge today	आज कार्यभार सोप दीजिए
Funds will be provided	धन की व्यवस्था की जायेगी	Hard and fast rules	पक्के नियम
Furnish details	घन की ब्यवस्था की जायेगी	Has a clear record of service to his credit	उनका सेनावृत्त निष्कलक है
Furnish details as to how the amount of claim has been arrived at	कृपया ब्योरा दे कि दावे की रकम किस प्रकार निर्धारित की गयी है	Has applied for mutual transfer	.. से परस्पर तबादले के लिए अर्ज़ी दी है
Furnish information urgently	सूचना शीघ्र भेजें	Has been accustomed to absenting unauthorisedly	अनधिकृत रूप से गैरहाज़िर रहने का आदी है
Furnish your definite instructions regarding disposal of the claim	दावे का निपटारा करने के लिए कृपया अपने निश्चित अनुदेश दें	Has been dealt with suitably	समुचित कार्रवाई की गयी है
Further advice may be awaited	अगली सूचना की प्रतीक्षा करें	Has been referred toको भेजा गया है
Further communication will follow	बाग़े फिर लिखा जायेगा	Has he been screened	नया उनकी जाँच की जा चुकी है ?
Further correspondence in this respect may please be addressed to ..	कृपया इस सम्बन्ध में आगे...से पत्र व्यवहार करें	Has made a varying statement on different occasions	विभिन्न अवसरों पर अलग-अलग बयान दिया है
Further report is awaited	आगे की रिपोर्ट की प्रतीक्षा है	Has not been pursued properly	समुचित ध्यान नहीं दिया गया है
G M. has recommended at under	महाप्रबन्धक ने निम्नलिखित सिफ़ारिश की है	Has not been received in this office	दस कार्यालय में प्राप्त नहीं हुआ है
G M's sanction is necessary	महाप्रबन्धक की मजूरी आवश्यक है	Has put in an application for leave	छुट्टी के लिए अर्ज़ी दी है
Get clarification of the staff concerned	सम्बन्धित कर्मचारियों से स्पष्टीकरण माँगा जाये	Has reported sick	बीमारी की अर्ज़ी भेजी है
		... has represented that his pay may be fixed in accordance with new rules	.. ने निवेदन किया है कि उनका वेतन नये नियमों के अनुसार नियत किया जाए
		Have you gone through the papers	नया आपने कागज़ात देखा लिए हैं
		Having come to know that . . .	यह जानकर कि...

Having regard toको दृष्टि में रखते हुए	I do not agree with the portion at 'A' above	मैं ऊपर 'ए' अंकित अंश से सहमत नहीं हूँ
Head of the account has not been given on the final bill	अन्तिम बिल पर लेखाशीर्षक नहीं लिखा गया है	If agreed to, he will be advised accordingly	यदि आप सहमत हों, तो उन्हें तदनुसार सूचित कर दिया जायेगा
Hearing was adjourned	सुनवायी स्थगित कर दी गयी	If agreed to, papers will be filed	यदि आप सहमत हों, तो कागज फाइल कर दिये जायेंगे
He disowns ownership	वह इसके स्वामित्व से इनकार करता है	If any deviation is noticed the same will be viewed seriously	यदि कोई विचलन देखने में आया तो उसे गम्भीर समझा जायेगा
Held in abeyance	आस्थगित रखा गया	If approved, a letter will be sent on the above lines	यदि अनुमोदन करें तो उपर्युक्त मुद्दा व अनुसार पत्र भेज दिया जायेगा
He may be warned to be careful in future	उसे भविष्य में सावधान रहने की चेतावनी दी जाए	If approved, remarks will be called for from the employee	यदि अनुमोदन करें तो कर्मचारी से कैफियत मांगी जायेगी
Here with enclosed	इसके साथ संलग्न है	If approved, sale value will be refunded to the purchaser	यदि अनुमोदन करें तो विक्रय-मूल्य खरीदार को लौटा दिया जायेगा
His case has been recommended by his department	उसके विभाग ने उसके मामले की सिफारिश की है	If approved, the employee will be advised accordingly	यदि अनुमोदन करे तो कर्मचारी को तदनुसार सूचित कर दिया जाएगा
His conduct should be watched for some time	कुछ समय तक उसके आचरण पर निगाह रखी जाए	If it is otherwise in order, the proposal may be accepted	यदि प्रस्ताव अन्यथा नियम-संगत हो तो उसे मान लिया जाए
His date of annual increment is	उसकी वार्षिक वेतन-वृद्धि की तारीख ... है	If you will kindly look into this	यदि आप इसे कृपया देख लें
His name is not borne in the seniority list	वरिष्ठता/ज्येष्ठता / प्रवर्ण-सूची में उनका नाम नहीं है	I have no instructions in the matter	मुझे इस मामले में कोई हिदायत नहीं मिली है
His relations both with those above and below him are cordial	अपने से बड़े और छोटे सभी के साथ उसके सम्बन्ध सौहार्दपूर्ण हैं	I have not yet received any reply from your end	आपके यहाँ से अभी तक मुझे कोई उत्तर नहीं मिला है
His request is in order	उसकी प्रार्थना नियम-संगत है	I have satisfied myself that the employee is not at fault	मैंने इत्मीनान कर लिया है कि कर्मचारी की गलती नहीं है
House allowance in lieu of free quarter is admissible to the employee	निशुल्क बर्गटार के बदले कर्मचारी को मकान भत्ता दिया जा सकता है	I have to reply in negative	मुझे नकारात्मक उत्तर देना है
How the matter stands ?	मामला किस स्थिति में है ?	I have to thank you for assistance in the matter	इस मामले में सहायता दी, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ
I agree	मैं सहमत हूँ	Immediate action please	तत्काल कार्रवाई करें
I am directed to state that	मुझे यह सूचित करने का निर्देश हुआ है		

Immediate disposal of the file is requested	इस प्रकरण का निरस्तान दीप्त करने का अनुरोध किया जाता है, कृपया इस प्रकरण का निरस्तान दीप्त करें	Increment deferred by days L.W.P.	** दिन की बिना वेतन छुट्टी के कारण वेतनवृद्धि उतने दिनों के लिए स्थगित की गयी
I invite your attention to this important fact	मैं इस महत्वपूर्ण तथ्य की ओर आपका ध्यान दिताता हूँ	Increment in sub-grade granted	मूल ग्रेड में वेतन/वृद्धि मजूर की गयी है/है, मंगलपत्र हस्ताक्षर के लिए प्रस्तुत है
In acknowledging receipt of	**की पावनी भेजने हुए/की प्राप्ति स्वीकार करते हुए	Indents for signature please	यथासमय
In anticipation of your approval	आपके अनुमोदन की प्रत्याशा में	In due course	हर मामले में
In any case	किसी भी दशा में/किसी भी हात में	In each case	तदनुसार सूचित करें/किया जाए
In any form	किसी भी रूप में	Inform accordingly	सर्व सम्बन्धित को सूचित करें
In any special case	किसी विशेष मामले में	Inform all concerned	इस कार्यालय के पत्र सख्या ** के अधीन सूचना पहले ही भेजी जा चुकी है
In a round-about way	घोल-घोल रूप से	Information has already been sent under this office letter No. .	सम्बन्धित कार्यालय से सूचना भेग ली गयी है
Incidentally it may be pointed out that...	प्रसंगगत यह उल्लेखनीय है कि—	Information has been obtained from the office concerned	कुछ * से सूचना अभी भी नहीं मिली है
In compliance with your request	आपकी प्रार्थना स्वीकार करते हुए	Information is still awaited from some of the	उम्मीदवार को सूचित किया जाए
In confirmation	**की वृष्टि में	Inform the candidate	कुल और शून्यता भूयतान
In conformity with rules	नियमों के अनुसार	In full and final payment	सद्भावेन/सद्भाव से
In connection with...	**के सम्बन्ध में	In good faith	उनकी अनुपस्थिति में/ उनकी गैर-हाजिरी में
In consultation with...	**के परामर्श से	In his absence	के बदले
In continuation of...	**के क्रम में	In lieu of	ताकि देर न हो
In continuation of this letter	इस कार्यालय के पत्र सख्या ... के क्रम में	In order to avoid delay	यह सुनिश्चित करने के लिए कि
In contravention...	** के विपरीत	In order to ensure that	** से बचाव के लिए
Inconvenience caused is very much regretted	जो असुविधा हुई उसके लिए अत्यन्त खेद है/असुविधा के लिए खेद है	In order to safeguard against...	अवधि क विलम्ब
In correspondence with	से पत्र-व्यवहार में	Inordinate delay	बानों में ...
In course of checking	जांच के दौरान		आदेश हुए

In pursuance of	के अनुसार	In the circumstances stated above	ऊपर बनायी गयी परिस्थितियों में
Inquiry into the case has been completed	मामले की जाँच कर ली गयी है	In the concluding para	अंतिम पैरा में
In reference to	के सम्बन्ध में	In the course of	के दौरान
In reply to	के उत्तर में	In the event of	की हासत में/ के होने पर
In respect of	के सम्बन्ध में	In the existing vacancy	मौजूदा खाली जगह में
In similar cases/circumstances	इसी प्रकार के मामलों में/परिस्थितियों में	In the first instance	सबसे पहले/सर्वप्रथम
In so far as	जहाँ तक कि	In the following manner	निम्नलिखित ढंग में
Inspector should be deputed to enquire and report	जाँच करके रिपोर्ट देने के लिए निरीक्षक तैनात किया जाए	In the immediate future	निकट भविष्य में
In spite of repeated reminders the information has not been received so far	बार-बार याद दिलाने के बावजूद अभी तक सूचना नहीं मिली है	In the interest of	के हित में
In spite of the fact	इस तथ्य के बावजूद	In the light of the above	की कुछ ऊपर कहा गया है उसे देखते हुए
In spite of thorough search the relevant file is not traceable	भली-भाँति खोज करने पर भी संबंधित फाइल मिल नहीं रही है	In the matter of	के मामले में
Instruct and fix up the date	रूपया अनुरोध दें और तारीख निर्दिष्ट करें	In the meantime following remarks will be passed in the register	इस बीच रजिस्टर में निम्नलिखित संक्षिप्त टिप्पणियाँ की जायेंगी
Instructions has been issued	हिदायत जारी कर दी गयी है	In the meanwhile	उक्त तक
Instructions were issued but these have not been acted upon	हिदायत दी गयी थी, लेकिन उस पर अमल नहीं किया गया है	In the preceding paragraph	इससे पहले के पैरा में/पूर्ववर्ती पैरा में
In supersession of this office order No. . .	कार्यालय आदेशा सख्या . . . का अति-क्रमण करते हुए	In the prescribed proforma	बिहित प्रोफार्मा में
Interim reply may be given	अन्तरिम उत्तर भेज दिया जाए	In the presence of...	...की मौजूदगी में
In that respect	उस विषय में	In the usual way	सामान्य रूप से
In the absence of any rules, past practice is the law	नियमों के अभाव में पिछली परिपाटी कानून है	In this connection attention is invited to the notice at pp... of the file No .	इस सम्बन्ध में काइल संख्या . के पृष्ठ . . की टिप्पणी की ओर ध्यान दिलाया जाता है
		In this connection it may be pointed out that	इस सम्बन्ध में यह उल्लेखनीय है कि
		In view of the present exigencies of work to deal with	कार्य करने की वर्तमान आवश्यकताओं की ध्यान में रखते हुए
		In view of the circumstances	परिस्थितियों को देखते हुए

In view of the circumstances stated above we may agree to the suggestion	ऊपर बतायी गयी परिस्थितियों में हम सुझाव मान लें	Is reverted to his substantive post/grade	उन्हें अपने मूल पद/ग्रेड में लौटाया जाता है
In view of the urgency	तात्कालिक आवश्यकता को देखते हुए	Is self-explanatory	स्वतः स्पष्ट है
In view of what has been stated above, I agree with the above note	जो कुछ ऊपर कहा गया है उसे देखते हुए, मैं ऊपर की टिप्पणी से सहमत हूँ	Issue as modified/amended	यथासंशोधित जारी करें
I fully agree with office note	कार्यालय की टिप्पणी से मैं पूरी तरह सहमत हूँ	Issue immediate reminder	तत्काल अनुस्मारक भेजें
I regret to inform you that your proposal has not been accepted	मैं खेद के साथ सूचित करता हूँ कि आपका प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया गया है	Issue warning	चेतावनी दें
Irrespective of	का विहाय किये बिना/ का विचार किये बिना	Issue reminder urgently	तुरन्त अनुस्मारक भेजें
Is a very vital point in the case	यह मामले का अत्यन्त महत्वपूर्ण पहलू है	It appears that...	ऐसा जान पड़ता है कि...
I shall be highly obliged for the assistance	सहायता के लिए मैं अत्यन्त आभारी होऊँगा	It gives us pleasure to inform you that .	आपको सूचित करते हुए हमें हर्ष होता है कि...
Is in the process of finalisation	अन्तिम रूप दिया जा रहा है	It has already been brought to your notice	पहले ही आपका ध्यान इस ओर दिलाया जा चुका है
Is not covered by rules	नियमों में इसके लिए व्यवस्था नहीं है	It has been noticed that	यह देखा गया है कि
Is not permitted by the rules	नियम-सम्मत नहीं है	It has since been decided that	यह निर्णय किया गया है कि
Is not practicable	यह व्यवहार्य नहीं है	It is a side issue	यह एक गौण प्रश्न है
Is not traceable as having been received	•• के प्राप्त होने का प्रमाण नहीं मिलता	It is a fit case for appeal against the judgement of the lower court	निचली अदालत के निर्णय के विरुद्ध अपील करने के लिए, यह उपयुक्त मामला है
Is reasonable under rule...	नियम •• के अधीन दण्डनीय है	It is a fit case for prosecution	मुकदमा चलाने के लिए यह उचित मामला है
Is requested to peruse the note and fix a date for the interview	से अनुरोध है कि टिप्पणी का अवलोकन करें और साक्षात्कार के लिए तारीख नियत करें	It is a matter of regret that	खेद की बात है कि
		It is an open secret that	यह खुला रहस्य है कि
		It is in order and sanction may be accorded	यह नियमसमत है, मजूरी दे दी जाए
		It is being experienced that	यह अनुभव किया जा रहा है कि
		It is conceded	यह मान लिया गया है
		It is defective	यह खराब/शोषपूर्ण है
		It is desirable to call for fresh tender	नये टेंडर मांगना चाहनीय है

It is difficult to proceed with the case	मामले में आगे कार्रवाई करना कठिन है	It should be obtained by personal contact	इसे व्यक्तिगत सम्पर्क द्वारा हासिल किया जाए
It is felt that	ऐसा ज्ञान पबता है कि	It will be greatly appreciated if the requisite information is expedited	यदि अपेक्षित सूचना शीघ्र भेज दें, तो बड़ी कृत्य होगी
It is for consideration whether the request should be accepted	विचारणीय है कि क्या प्रार्थना स्वीकार कर ली जाए	I wish to inform you that	मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं देखना चाहूँगा
It is irregular and cannot be covered by any stretch of interpretation of the rules	यह अनियमित है और चाहे जिस तरह व्याख्या की जाए, इसे नियमसंगत नहीं ठहराया जा सकता	I would like to see	कार्यभार ग्रहण किया
It is neither a case for prosecution nor for departmental action	इस मामले में न मुकदमा चलाया जा सकता है और न विभागीय कार्रवाई की जा सकती है	Joined duty	...ने संयुक्त जाँच का आदेश दिया है
It is notified for general information	आम सूचना के लिए इसे अधिसूचित किया जाता है	Joint enquiry has been ordered by the ..	औचित्य मान लिया गया है
It is not proposed to hold an open enquiry in this case	इस मामले में खुली जाँच करने का विचार नहीं है	Justification has been accepted	औचित्य आवश्यक है
It is not the occasion for criticism	यह आलोचना का अवसर नहीं है	Justification is necessary	अपने प्रस्ताव को औचित्य दें
It is obvious that	यह स्पष्ट है कि	Justify your proposal	दृष्टि में रखते हुए
It is possible that	यह सम्भव है कि	Keeping in view	आत्मगणित रखा जाए
It is regretted that the estimate has not been prepared in accordance with extant instructions	खेद है कि खर्च का अनुमान मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार तैयार नहीं किया गया है	Keep in abeyance	निर्णयार्थ रोक रखें
It is suggested that	सुझाव है कि	Keep pending	इसे दृष्टि में रखें
It is understood that.	मालूम हुआ है कि ..	Keep this in view	प्रगति बनाये रखें
It is within your powers	यह आपके अधिकार में है	Keep up the progress	प्राप्त में रखा जाए
It may also be mentioned	यह भी कहा जा सकता है	Keep with the file	कृपया सहमति प्रदान करें
It may further be added	इसके लिए पूर्व अनुमोदन आवश्यक है	Kindly accord concurrence	कृपया पावती भेजें
It requires prior approval		Kindly acknowledge receipt	कृपया सूचित करें कि क्या मामला समाप्त समझा जाए
		Kindly advise if the claim may be treated as closed	कृपया सूचित करें कि क्या दावों का निपटारा कर दिया गया है
		Kindly advise whether the claims have been disposed of	कृपया जाँच कर लें
		Kindly check	कृपया पुष्टि करें
		Kindly confirm	

Kindly consider	कृपया विचार करें	Linked file is kept below	संबद्ध फाइल नीचे लगी है
Kindly countersign	कृपया प्रतिहस्ताक्षर करें	List of absentees should be prepared early	अनुपस्थिति व्यक्तियों की सूची शीघ्र तैयार की जाए
Kindly expedite disposal/reply	कृपया शीघ्र निपटारा करें/उत्तर दें	Locate the irregularities/discrpancies	अनियमितताओं/असंगतियों का पता लगाएँ
Kindly instruct further	कृपया आगे अनुदेश दें	Long over due	बहुत अत्यावधिक/ निर्धारित समय से काफ़ी पिछड़ गया है/ बहुत पहले से अपेक्षित
Kindly look into it	कृपया इसे देख लें	Look after the work	काम देखें
Kindly record essentiality certificate	कृपया अनिवार्यता प्रमाणपत्र दें	Look into the matter	मामले को देखें/ मामले पर ध्यान दें
Kindly refer to my demi-official letter	कृपया मेरा अर्ध-सरकारी पत्र देखें	Losses may be written off	नुकसान को बट्टे खाते में डाला जाए
Kindly refer to your letter/ D.O. No....dated...	कृपया ता० 'का अपना पत्र/अर्ध-सरकारी पत्र सं० ' ' देखें	Loss is not due to negligence, carelessness or dishonesty on the part of any staff	किसी कर्मचारी की लापरवाही, असावधानी या बेईमानी के कारण यह हानि नहीं हुई है
Kindly review the case	कृपया मामले पर पुनर्विचार करें	Lot of delay has occurred in the disposal of this case and this could have been avoided	इस मामले के निपटारे में बहुत अधिक विलम्ब हो गया है और इससे बचा जा सकता था
Later on	बाद में	Lowest quotations may be accepted	सबसे कम दर स्वीकार कर ली जाए
Law officer for opinion please	विधि अधिकारी कृपया अपनी राय दें	Lowest rate acceptable	न्यूनतम दर स्वीकार्य है
Leave asked for may be sanctioned	माँगी गयी छुट्टी मंजूर की जाए	Maintenance of discipline	अनुशासन बनाये रखना
Leave is due at his credit	इनकी छुट्टी बाकी है	Make interim arrangement	अन्तरिम प्रबंध करें
Leave not due	छुट्टी बाकी नहीं है	Make special note of the decision	इस निर्णय को विशेष रूप से नोट करें
Leave on ground of sickness may be granted	बीमारी के कारण छुट्टी दे दी जाए	Make use of...	... का उपयोग करें
Letter put up for approval and signature please	अनुमोदन और हस्ताक्षर के लिए पत्र प्रस्तुत है	Matter has already been considered	मामले पर विचार किया जा चुका है
Letter of acceptance	स्वीकृति-पत्र		
Liable to a termination on one week's notice	एक सप्ताह के नोटिस पर समाप्त किया जा सकता है		
Liable to disciplinary action	अनुशासन की कार्रवाई की जा सकती है		
Liability in case of payment will devolve on your Railway	भुगतान किये जाने की स्थिति में दायित्व आपकी रेल का होगा		

Matter has been considered	मामले पर विचार किया गया है	May be destroyed	नष्ट कर दिया जाए
Matter has been examined	मामले की जांच की गयी है	May be filed	फाइल कर दिया जाए
Matter is dropped	इस मामले को समाप्त कर दिया गया है	May be forwarded to..	..को भेज दिया जाए
Matter is receiving attention	मामले पर ध्यान दिया जा रहा है	...May be informed accordingly	..को तदनुसार सूचित किया जाए
Matter is still under consideration	मामला अभी विचाराधीन है	May be permitted	अनुमति दे दी जाए
Matter is under consideration	मामला विचाराधीन है/मामले पर विचार हो रहा है	May be perused	देख लिया जाए
Matter is under correspondence and you will be advised in due course	मामले के सम्बन्ध में पत्र-व्यवहार चल रहा है और आपको यथासमय सूचित किया जाएगा	May be reverted to the former post	पिछले पद पर परावर्तित किया जाए
Matter is under disposal	मामले का निपटारा हो रहा है	May be sanctioned	मंजूर किया जाए
Matter is under investigation	मामले की जांच की जा रही है	May be taken into account	ध्यान रखा जाए
Matter of extreme urgency	अत्यंत आवश्यक मामला	May be treated as closed	समाप्त समझा जाए
Matter may be referred to	मामला ..को भेजा जाए	May kindly accord sanction	कृपया मंजूरी दें
Matter may be treated as most urgent	मामला अत्यन्त आवश्यक समझा जाए	May kindly peruse	कृपया देख लें
Matter needs thorough investigation	मामले को पूरी जांच की आवश्यकता है	...May like to see	..शायद देखना चाहें
May an interim reply be given	क्या अन्तरिम उत्तर दे दिया जाए	May please furnish the requisite information	कृपया अपेक्षित सूचना दें
May a reference be made to	क्या ..को लिखा जाए	May please see after issue of the reply	उत्तर भेज दिने जाने के बाद कृपया देख लें
May be approved	अनुमोदित किया जाए	May please see before issue	जारी होने से पहले कृपया देख लें
May be asked to offer remarks	..से संकथित देने के लिए कहा जाए	May please see for information	कृपया सूचनायें देख लें
May be cancelled	रद्द कर दिया जाए	May the matter pend ?	क्या मामले पर निर्णय रोक रखा जाए ?
May be concurred in	सहमति प्रदान की जाए	May the propoposal be accepted	क्या प्रस्ताव स्वीकार कर लिया जाए
May be debited to	..के नामे डाला जाए	May we alter the destination station of the pass ?	क्या पत्र में लिखा गया गन्तव्य स्टेशन बदल दिया जाए
May be deferred	मुस्तबी रखा जाए	May we alter the route of the pass ?	क्या पत्र में लिखा गया रास्ता बदल दिया जाए ?

Meeting has been fixed for the next month	बैठक अगले महीने रखने का निश्चय किया गया है	No change is considered necessary	कोई परिवर्तन आवश्यक नहीं है
Meeting has been postponed	बैठक स्थगित कर दी गयी है	No decision has so far been taken in the matter	इस मामले में अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है
Must be rigidly adhered to	कड़ाई के साथ पालन किया जाए	No funds are available	रकम उपलब्ध नहीं है
My personal opinion differs from your suggestions	मेरी व्यक्तिगत राय आपके सुझावों से भिन्न है	No further action is called for	आगे कोई कार्रवाई अपेक्षित नहीं है
My personal opinion in the matter is that	इस मामले में मेरी व्यक्तिगत राय यह है कि	No further action is called for by this Branch on the letter/minutes	पत्र/कार्यवृत्त पर इस शाखा द्वारा आगे कोई और कार्रवाई अपेक्षित नहीं है
Name has been entered in the list	नाम सूची में दर्ज कर लिया गया है	No further action is necessary	आगे कोई कार्रवाई अपेक्षित नहीं है
Necessary action may be taken	आवश्यक कार्रवाई की जाए	No maxima or minima have been laid down	कोई अधिकतम या न्यूनतम सीमा निर्धारित नहीं की गयी है
Necessary correction may be carried out	आवश्यक सशोधन कर लिया जाए	Nomination of members	सदस्यों का नामन
Necessary facilities may be made available to the inspection party	जाँच दल को आवश्यक सूचनाएँ दी जाएँ	No need to send a reply	उत्तर भेजने की आवश्यकता नहीं
Needful has been done	ज़रूरी कार्रवाई कर दी गयी है	No progress has been made in the matter	मामले में कोई प्रगति नहीं हुई है
Needs amendment	••संशोधन अपेक्षित है	No such representation has been received	इस तरह का कोई अभ्यावेदन नहीं मिला है
Needs close supervision	अच्छी तरह/सूक्ष्म रूप से देख भाल की जानी चाहिए	Note and return	नोट करके वापिस करें
Next hearing has been fixed for...	अगली सुनवाई...को होगी	Not in vogue	प्रचलित नहीं है
No action is necessary	कोई कार्रवाई अपेक्षित/आवश्यक नहीं है	No travelling allowance will be allowed for appearing at the interview	साधारणकार में आने के लिए कोई यात्रा-भत्ता नहीं दिया जायेगा
No action seems to be called on our part	हमारी ओर से इसपर कोई कार्रवाई अपेक्षित नहीं जान पड़ती	Noted and returned	नोट करके वापिस किया जाता है
Next increment in the officialing post is due	स्थानापन्न पद पर अगली वेतन-वृद्धि देय है	Notes and orders at page...may be seen in this connection	इस सम्बन्ध में पृष्ठ...पर दिये गये आदेश और टिप्पणियाँ देख ली जाएँ
		Noted for future guidance	भविष्य में मार्गदर्शन के लिए नोट कर लिया

Note does not bring out clearly that	टिप्पणी में यह स्पष्टत नहीं बताया गया है कि	On examination into the matter	मामले की जाँच करने पर
Noted please	नोट कर लिया	On file please	कृपया मिसिल के माथ प्रस्तुत करें
Nothing is due from the contractor	ठेकेदार से कुछ भी लेना शेष नहीं है	On humanitarian grounds	मानवीय आधार पर
Noting on page 3 ante recalls the case	पीछे पृष्ठ 3 की टिप्पणी इस मामले का स्मरण कराती है	On receipt of your reply, the case will be reviewed	आपका उत्तर प्राप्त होने पर इस मामले की समीक्षा की जाएगी
Not in vogue	प्रचलित नहीं है	On receipt of	के मिलने पर/के प्राप्त होने पर
Not satisfactory	सन्तोषजनक नहीं है	On the basis of	के आधार पर
Not traceable	पता नहीं चलता	On the completion of	की समाप्ति पर/के पूरा होने पर
Not yet received	अभी तक नहीं मिला/मिली	On the contrary	इसके विपरीत
Objection is not valid	आपत्ति वैध नहीं है	On the ground of seniority	वरिष्ठता के आधार पर
Objection is withdrawn	आपत्ति वापस ली जाती है	On the one hand	एक ओर/एक तरफ
Observation made by.. are reproduced below for your information and necessary action	.. द्वारा प्रकट किये गये विचार आपके सूचनार्थ और आवश्यक कार्रवाई के लिए उद्धृत हैं	On the whole	कुल मिलाकर
Obtain formal sanction	औपचारिक स्वीकृति प्राप्त कीजिए	On verification it was found that	जाँच से मालूम हुआ कि
Offer of appointment has been sent to him	उन्हें नियुक्ति का प्रस्ताव भेजा गया है	Option for pension	पेंशन के लिए विकल्प
Officiating arrangements proposed are in the order of seniority	प्रस्तावित स्थानापन्न व्यवस्था वरिष्ठता के अनुसार है	Option has to be given	विकल्प देना है
On a limited scale:	सीमित मात्रा में	Orders have been communicated	आदेश की सूचना दी जा चुकी है
On an ad-hoc basis	तदर्थ आधार पर	Orders of the competent authority are required	समर्थ प्राधिकारी का आदेश अपेक्षित है
On an average:	औसतन	Orders were communicated to the employees concerned	सम्बन्धित कर्मचारियों को आदेश की सूचना दे दी गयी थी
On occasions like this	इस तरह के अवसरों पर	Order was cancelled	आदेश रद्द कर दिया गया
		Order than booked route	निर्धारित मार्ग से भिन्न मार्ग
		Out-turn/output not satisfactory	उत्पादन/निकासी सन्तोषप्रद नहीं है
		Over the phone	टेलीफोन पर
		Over-writing should be avoided	लिखलेखन से बचिए
		Page.. for perusal and orders please	कृपया पृष्ठ . देखें और आदेश दें

Papers are sent here with	कागज-पत्र इसके साथ भेजे जा रहे हैं	Place on file	फाइल पर रखें
Papers at once	कागज क़ौरन पेस किये जाएं/भेजे जाएं	Placed under suspension	निलम्बित किया गया/मुबत्तल किया गया
Papers may be passed on to...	कागज...को भेज दिए जाएं	Place of occurrence	घटनास्थल
Papers please	कृपया कागज पेस करें	Please acknowledge receipt	कृपया प्राप्ती दें
Papers put up as desired	निदेशानुसार कागज प्रस्तुत है	Please advise	कृपया सूचित करें
Party is/is not entitled for any refund	पार्टी रकम वापस करने को हकदार है/ नहीं है	Please advise all concerned and take necessary action	कृपया सर्व सम्बन्धित को सूचित करें
Pass may be debited to his account	पास उनके नामे दर्ज किया जाए	Please arrange to spare Shri... at the earliest	कृपया श्री...को यथाशीघ्र भारमुक्त करने का प्रबन्ध करें
Payment of wages was delayed	मजदूरी के भुगतान में देर हो गयी	Please check up	कृपया जाँच करें/देख लें
Pay order No... has been cancelled	अदायगी आदेश सं...रद्द कर दिया गया है	Please circulate and file	कृपया परिपत्रित करके फाइल कर दें
Pend for the present	अभी निर्णय रोक रखा जाए	Please confirm	कृपया पुष्टि करें
Pending adjustments	समायोजन होने तक	Please discuss	कृपया चर्चा करें/बात करें
Pending confirmation	पुष्टि होने तक	Please expedite reply	कृपया शीघ्र उत्तर भेजें
Pending receipt of...	...के प्राप्त होने तक	Please fix the date and time for the meeting	कृपया बैठक की तारीख और समय नियत करें
Pend reply	उत्तर रोक रखें	Please hand over charge to...	कृपया...को कार्यभार सौंप दें
Penultimate paragraph of the letter/note	पत्र/टिप्पणी का अंतिम से पहला/उपात्य पैरा	Please instruct	कृपया हिदायत दें
Performance improved	काम में सुधार हुआ	Please investigate and report	कृपया जाँच करके रिपोर्ट दें
Period of absence is covered by proper medical certificate	गैरहाजिरी की अवधि के लिये उपयुक्त डाक्टर प्रमाण-पत्र दिया गया है	Please issue challan or work order	कृपया चालान या निर्माण-आदेश जारी करें
Period of suspension will count as leave due	निलम्बन की अवधि देय छुट्टी समझी जायेगी	please issue the pass, if due	यदि पास देय हो, तो जारी कर दें
Permission to prefix and suffix holidays has been given	पहले और बाद में पढ़नेवाली छुट्टियाँ साथ जोड़ने की अनुमति दे दी गयी है	Please note down on the notice board and engagement diary	कृपया नोटिस बोर्ड पर और कार्य-आवरी में लिख दें
Personal attention is required	व्यक्तिगत रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है	Please note in the register	कृपया रजिस्टर में नोट कर दें
Personal hearing	व्यक्तिगत सुनवाई	Please note that	कृपया ध्यान रखें कि...

<p>Please obtain the explanation of staff concerned</p> <p>Please peruse page in this connection</p> <p>Please prepare a precis of the case</p> <p>Please put up a self contained note (summary)</p> <p>Please put up draft reply</p> <p>Please put up papers early</p> <p>Please recast draft as discussed</p>	<p>कृपया सम्बन्धित कर्मचारी/कर्मचारियों में जवाब-तलब करें</p> <p>इस सम्बन्ध में कृपया पृष्ठ... देखें</p> <p>कृपया मामले की संक्षेपिका तैयार करें</p> <p>कृपया स्वतः पूर्ण टिप्पणी (सारांश) प्रस्तुत करें</p> <p>कृपया उत्तर का मसौदा पेश करें</p> <p>कृपया कागज जल्दी प्रस्तुत करें</p> <p>विचार-विमर्श के अनुसार मसौदे में परिवर्तन करें</p>	<p>Please see portion side-lined 'A' above for remarks</p> <p>Please sign the certificate below, if you desire to sanction leave</p> <p>Please speak</p> <p>Please submit without further delay</p> <p>Please submit your explanation on or before ..</p> <p>Please treat this as urgent</p> <p>Please turn over</p> <p>Plea taken by the employee is not acceptable</p> <p>Postpone for the present</p> <p>Post remained unfiled for the reason that</p> <p>Posts reserved for SC/ST will have to be filled by other community employees</p>	<p>कृपया ऊपर पार्श्वरेखांकित अथ 'ए' देखें और केंद्रित करें</p> <p>यदि आप छुट्टी मंजूर करना चाहें, तो कृपया नीचे रथे प्रमाण-पत्र पर हस्ताक्षर कर दें</p> <p>कृपया बोलें</p> <p>कृपया बिना अतिरिक्त प्रस्तुत करें/ओरल पेश करें</p> <p>कृपया अपना जवाब ... को या इतने पहले दें</p> <p>कृपया इसे आवश्यक समझे</p> <p>कृपया पृष्ठ/पन्ना जलते कर्मचारी द्वारा दिया गया तर्क मान्य नहीं है</p> <p>इस समय स्थगित रखें</p> <p>पद धानी रहने का कारण यह है कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित पदों को इतने समुदाय के कर्मचारियों में से भरना होगा</p>
<p>Please see the preceding notes</p> <p>Please refer to my/our D.O. letter</p> <p>Please refer to this office letter No.... dated . followed by a reminder dated . and arrange to send the requisite information early</p> <p>Please reply by return and oblige</p> <p>Please report as to how the matter now stands</p> <p>Please report immediately</p> <p>Please re-submit .. duly corrected at an early date</p> <p>Please see</p> <p>Please see over-leaf</p>	<p>कृपया पिछली टिप्पणियाँ देख लें</p> <p>कृपया मेरा/हमारा अर्थ-सरकारी पत्र देखें</p> <p>कृपया इस कार्यालय का दि०... का पत्र सं०... और दि०... का स्मरण-पत्र देखें और अपेक्षित सूचना शीघ्र भिजवाने की व्यवस्था करें</p> <p>कृपया लौटती डाक से उत्तर देकर अनुग्रहीत करें</p> <p>कृपया बतायें अब मामला किस स्थिति में है</p> <p>कृपया तत्काल रिपोर्ट दें</p> <p>कृपया ... ठीक करके शीघ्र फिर पेश करें</p> <p>कृपया मुझे मिलें</p> <p>कृपया पिछला पृष्ठ देखें</p>	<p>Practical side of the case</p> <p>Previous orders may be seen at page .</p> <p>Previous papers on the subject were transferred to ..</p> <p>Previous papers please</p> <p>Previous papers put up as desired</p>	<p>कृपया व्यावहारिक पहलू</p> <p>पिछला आदेश पृष्ठ... पर देखा जा सकता है</p> <p>इस विषय से संबंधित पिछले कागज ... को भेज दिये गये थे</p> <p>कृपया पिछले कागज दिखायें/भेजें निर्देशानुसार पिछले कागज पेश हैं</p>

Procedure should be strictly adhered to	कार्यविधि/क्रियाविधि का कड़ाई से पालन होना चाहिए	Put up draft of D O to all heads of depts.	सभी विभागाध्यक्षों के नाम अर्घ-सरकारी पत्र का मसौदा पेश करें
Process the case for settlement	निपटारे के लिए क्राइल तैयार करें	Put up for orders please	आदेशार्थ प्रस्तुत है/पेश है
Progress is slow	प्रगति अत्यंत धीमी है	Put up for further orders please	आगे आदेश के लिए प्रस्तुत है/पेश है
Progress made in this respect may be reported to this office from time to time	इस सबब में होने वाली प्रगति की सूचना इस कार्यालय को समय-समय पर दी जाए	Put up for information please	सूचनायं प्रस्तुत
Proof is lacking	सन्नूत नहीं है/प्रमाण नहीं है	Put up for perusal please	अवलोकनार्थ प्रस्तुत
Proposal accepted	प्रस्ताव स्वीकार है	Put up for signature please	हस्ताक्षर के लिए प्रस्तुत है
Proposal cannot be agreed to	प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया जा सकता	Put up indent	इंडेंट पेश करें/इंडेंट पेश किया जावे
Proposal has been vetted and concurred by...	...ने प्रस्ताव देय लिया है और उससे सहमत है	Put up papers immediately	कागज़ तुरन्त पेश करें/पेश किये जायें
Proposal is in order	प्रस्ताव नियमसंगत है	Put up reference	सदमं प्रस्तुत करें
Proposal is self explanatory	प्रस्ताव अपने आप में स्पष्ट है	Put up requisition	मांग प्रस्तुत करें
Proposal lacks justification	प्रस्ताव का औचित्य नहीं है	Quash the proceedings	कार्यवाही रद्द कर दें
Proposal, required to be vetted by Finance branch	प्रस्ताव पर वित्त शाखा की सहमति जरूरी है	Questionable conduct	सन्देहात्मक आचरण
Proposal to arrange direct purchase of material is agreed to	सामग्री की सीधी खरीद की व्यवस्था का प्रस्ताव स्वीकार है	Question does not arise	सवाल नहीं उठता
Provision to roster for all recruitment and promotion categories must be completed latest by..	सभी भर्तों और पदोन्नति वाली कोटियों के लिए रोस्टर व्यवस्था... तक पूरी लागू कर दी जानी चाहिए	Quotation of firm is reasonable	फ़र्म की दर उचित है
Public property	सार्वजनिक सम्पत्ति	Quote reference	सदमं बताएँ/हवाला बताएँ
Published for general information	संबंधाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित/अधिसूचित	Reasons for delay be explained	देरी के कारण बताये जाएँ
Put a draft reply accordingly	तदनुसार उत्तर का मसौदा पेश करें	Reasons for variation are given below	घट-बढ़ के कारण इस प्रकार हैं
Put into commission	चालू करें	Recommended for favourable consideration	अनुकूल विचार के लिए सिफ़ारिश की जाती है
		Recovery from pay	वेतन से बसूली
		Recovery of the advance will be effected from the current month's pay	पेशगी की बसूली खालू महीने के वेतन से की जायेगी
		Reference your note on page	पिछले पृष्ठ पर टिप्पणी के सदमं में

Refer endorsement on folio... and call for papers	पृष्ठ का पृष्ठांकन देखें और कागज मंगाएँ	Reply atonce	तुरत उत्तर दें
Refer the matter to the Board for orders	आदेश के लिए मामला बोर्ड को भेजा जाए	Reply held up for want of information from your office	आपके कार्यालय से जानकारी के अभाव में उत्तर नहीं भेजा जा सका है
Refund of freight	भाड़े की वापसी	Reply is awaited from ..	" के उत्तर की प्रतीक्षा है
Regarding letter under reference	सदमांवीन पत्र के संबंध में	Reply is under issue today	उत्तर आज भेजा जा रहा है
Regretted, leave cannot be sanctioned at present	खेद है, अभी छुट्टी नहीं दी जा सकती	Reply over due	उत्तर में बहुत देर हो गई है
Regretted, the proposal cannot be agreed to	खेद है, प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया जा सकता	Reply to our communication of at S. No 15 has not been received	क्रमांक 15 पर लगे हमारे पत्र का उत्तर नहीं मिला है
Rejected stores may be returned	अस्वीकृत सामान लौटा दिया जाए	Reply was sent to the party accordingly	पार्टी को तदनुसार उत्तर भेज दिया गया था
Rejection memo	अस्वीकृति पत्र	Reply will be sent on the above lines	ऊपर लिखे अनुसार उत्तर दिया जायेगा
Relative seniority	सापेक्ष वरिष्ठता	Report compliance immediately	अनुपालन करके तुरन्त सूचित करें
Relevant orders are flagged	संगत आदेशों पर पंक्तियाँ लगा दी गयी हैं	Report for duty	काम पर हाज़िर हो
Relevant papers to be put up	सम्बद्ध कागज प्रस्तुत किये जाएँ	Report has not been scrutinized in your office	आपके दफ्तर में रिपोर्ट की छान-बीन नहीं की गयी है
Relevant records are not available	सम्बद्ध अभिलेख/रिकार्ड उपलब्ध नहीं हैं	Report is awaited	रिपोर्ट की प्रतीक्षा है
Relief cannot be arranged	एवजी का प्रबन्ध नहीं हो सकता	Request cannot be met with Required information is being obtained from ..and will be furnished on receipt	प्रायः स्वीकार नहीं की जा सकती अपेक्षित जानकारी " से मंगायी जा रही है और प्राप्त होने पर भेज दी जायेगी
Relinquish charge	कार्यभार छोड़ना	Required information is furnished herewith	अपेक्षित सूचना इसके साथ भेजी जा रही है
Remind after a week	एक हफ्ते के बाद याद दिलाएँ	Required papers are placed below	अपेक्षित कागजात नीचे रखे हैं
Reminder is being issued	स्मरणपत्र भेजा जा रहा है	Requires modification	आगोधन की आवश्यकता है
Reminder may please be issued	स्मरणपत्र भेजा जाए	Requires personal sanction of	—की व्यक्तिगत मजूरी/स्वीकृति अवशियत है
Repeated warnings have had no effect upon him	बार-बार चेतावनी देने का उस पर कोई असर नहीं हुआ है		
Reply, already sent vide my letter No. of...	उत्तर भेजा जा चुका है; मेरा ता०... का पत्र सं०...देखें		

Requisite files are placed below	अपेक्षित फाइलें नीचे रखी हैं	Sanctioned, if due	यदि देय हो, तो मजूर किया जाता है
Requisite information has already been given	अपेक्षित सूचना दी जा चुकी है	Sanction has been accorded	मजुरी दे दी गयी है
Responsibility should be fixed	जिम्मेदारी ठहरायी जाए	Sanction may be conveyed	मजुरी की सूचना दे दी जाए
Resubmitted as desired	बिम्बेदारी फिर प्रस्तुत है	Sanction is hereby accorded to the grant of honorarium	इस पत्र द्वारा मानदेय की मजुरी दी जाती है
Result is not satisfactory	परिणाम सतोपजनक नहीं है	Sanction may please be accorded to the proposed imprest of Rs .	कृपया 'र० के प्रस्तावित अप्रदाय की मजुरी दें
Result of reference to...is awaited	...को भेजे गये पत्र के परिणाम की प्रतीक्षा है	Sanction of the competent authority may be obtained	समर्थ प्राधिकारी की मजुरी ली जाये
Resume of the case is given in ensuing para	इस मामले का सारवृत्त आगे के पैरा में दिया जा रहा है	Section has no comment to offer	' अनुभाग को इस पर कोई टिप्पणी नहीं करनी है
Resume of the case is given below	मामले का सारवृत्त नीचे दिया गया है	Section may please see Scheduled arrival/departure	...अनुभाग कृपया देख ले
Return of the file is awaited	फाइल वापस आने की प्रतीक्षा है	Seen and passed on to...for n/a	अनुचित आगमन/प्रस्थान देख लिया। इसे...को आवश्यक कार्रवाई के लिए भेजा जा रहा है
Return of the file may be expedited	फाइल वापस आने की प्रतीक्षा है	Seen and returned	देख कर वापिस किया जाता है
Retrospective effect cannot be given to this order	इस आदेश को पीछे की तारीख से लागू नहीं किया जा सकता	Seen, file	देख लिया, फाइल किया जाए/फाइल कर दें
Revised draft is submitted herewith as desired	यथाअपेक्षित संशोधित मसौदा प्रस्तुत है	Seen, thanks	देख लिया, धन्यवाद
Revised draft memorandum is put up as desired by...	...की इच्छानुसार शापन का परिशोधित मसौदा प्रस्तुत है	See with papers	संबंधित कागज लेकर मिलें
Revision necessary	परिशोधन जरूरी है	Severe disciplinary action will be taken	अनुशासन की कड़ी कार्रवाई की जाएगी
Rough estimate of the expenditure involved is below	प्रत्यासित व्यय का मोटा अनुमान नीचे दिया गया है	Should be given top priority	परम अग्रता दी जाए
RRules applicable to the case	इस मामले में लागू नियम	Should be taken in hand atonce	प्रौरन कार्रवाई शुरू की जाए
Rule was not enforced rigidly	नियम कड़ाई से लागू नहीं किया गया	Shown as above/under	जैसा कि ऊपर/नीचे दिखाया गया है
Sanctioned as a special case	विशेष मामले के रूप में मजूर किया गया	Speak with papers today	कागज लेकर आज ही बात करें
		Specimen signature of Shri... are given below	श्री० के नमूने के हस्ताक्षर नीचे दिये गये है

Staff strength is not adequate	कर्मचारियों की संख्या पर्याप्त नहीं है	Suitable reply may be given	समुचित उत्तर भेज दिया जाए
Staff strength needs to be augmented	कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने की आवश्यकता है	Summary of the case is sent herewith	मामले का सारांश साथ भेजा जा रहा है
Staff are being instructed to adhere to instructions rigidly	कर्मचारियों से कहा जा रहा है कि हिदायतों का सख्ती से पालन करें	Supplementary salary bill has been preferred	अनुपूरक वेतन बिल बना दिया गया है
Staff at fault may be taken up as per rules	दोषी कर्मचारों/कर्मचारियों पर नियमानुसार कार्रवाई की जाए	Supply does not conform to the approved sample	सम्प्लाई अनुमोदित नमूने के अनुरूप नहीं है
Staff will be considered for compensatory off in lieu of attendance on Sunday	रविवार की उपस्थिति के एवज में कर्मचारियों को एवजी छुट्टी दी जायेगी	Surprise check	अचानक जाँच
Statement is attached	विवरण/व्याप्त सलमन/साथ नक़्क़े है	Take no action	कोई कार्रवाई न की जाए
Statement of outstanding cases has been compiled	बकाया मामलों का विवरण तैयार कर लिया गया है	Take such steps as may be necessary	ऐसे उपाय किये जाएँ जो आवश्यक हों/ आवश्यक उपाय किये जाएँ
Statements are quite contradictory	व्याप्त/विवरण परस्पर विरोधी हैं	Temporary post may be converted into permanent	अस्थायी पद को स्थायी किया जाए
Subject is still under reference	इस विषय पर अभी पत्र-व्यवहार ही रहा है	Thank you for your suggestion	आपके सुझाव के लिए धन्यवाद
Subject is treated as closed	यह विषय समाप्त समझा जाता है	The issue is being examined afresh in detail	मामले की फिर से ब्योरेवार, विस्तार से जाँच की जा रही है
Subject to the approval of	द्वारा अनुमोदित होने पर	There is no cause to modify the orders already passed	जो आदेश पहले दिया जा चुका है, उसमें आशोचन करने का कोई कारण नहीं है
Subject to the condition of	की शर्त पर	There is no point in pursuing the case further	मामले में आगे कार्रवाई का कोई ठुक नहीं है
Submitted for approval/consideration/information/orders	अनुमोदनायें/विचारार्थ/सूचनायें/आदेश प्रस्तुत	There is no record to show that	यह सिद्ध/प्रमाणित करने के लिए कोई रिकार्ड/अभिलेख नहीं है कि
Substitute may be appointed as an interim arrangement	अन्तरिम व्यवस्था के रूप में एवजी नियुक्त किया जाए	There is nothing on papers to show that	यह सिद्ध करने के लिए कागज़ों में कुछ नहीं है कि
Sufficient notice has not been given	पर्याप्त नोटिस नहीं दिया गया है	These papers may be shown to ...for information and guidance	ये कागज़ सूचना और मार्गदर्शन के लिए...को दिया दिये जाएँ
Sufficient proof is not forthcoming	पर्याप्त प्रमाण नहीं मिल रहा है		
Suggestion may be accepted	सुझाव मान लिया जाए		

This being his first offence he may be dealt with leniently	यह उसका पहला अपराध है, इसलिए कार्रवाई करते समय मुत्तायमित्त बरती जाए	This matter has been finalised	इस मामले को अंतिम रूप दिया जा चुका है
This does not concern this office	इसका इस कार्यालय से कोई संबंध नहीं है	This may be pursued	इस पर निपटाह रधी जाए
This has already been replied to	इसका उत्तर दिया जा चुका है	This may be passed on to... for n/a	इसे आबखर्क कार्रवाई के लिए भेजा जाए
This has crossed our letter at S. No....	इसके यहाँ प्राप्त होने से पहले ही क्रम सववा...का हमारा पत्र भेजा जा चुका था	This may please be acknowledged	इसका इनकी जानकारी भेजे
This has reference to this office earlier correspondence at S. No.	यह पत्र इस कार्यालय के पहले पत्र-व्यवहार के पत्र सख्या... के सदर्थ में है	This may please be approved	इसका अनुमोदन करें
This has the approval of...	इसे...का अनुमोदन प्राप्त है	This may be regularised by effecting recoveries	इसे बटुमी द्वारा विनियमित किया जाए
This is a general complaint	यह एक आम शिकायत है	This may be suitably amended	इसमें उपयुक्त सुधारण किया जाः
This is as per your verbal instructions	यह आपके मौखिक आदेशानुसार है	This may please be treated as urgent	इसे अतिरिक्त-तत्परता से देखा जाए
This is not admissible under the rules	नियमों के अधीन यह स्वीकार्य नहीं है	This office letter will be treated as cancelled	इस कार्यालय का पत्र रद्द समझा जायेगा
This is entirely within the competence of...	यह पूर्ण रूप से...के अधिकार में है	This para may be dropped	यह पैरा निराम किया जाए
This is in accordance with the existing rules	यह वर्तमान नियमों के अनुसार है	This requires administrative approval	इसके लिए प्रशासनिक अनुमोदन आवश्यक है
This is inadmissible	यह स्वीकार्य है	This requires sanction	इसके लिए सखुची अपेक्षित है
This is receiving attention	इस पर ध्यान दिया जा रहा है	This requires your personal attention	इसमें आपका व्यक्तिगत ध्यान अपेक्षित है
This is to bring to your kind notice	यह आपका ध्यान दिलाने के लिए है	This sanction will operate with effect from...	यह सखुची से लागू होगी
This is within your power	यह आपके अधिकार में है	This should be approved by competent authority	इसका अनुमोदन समर्थ अधिकारी द्वारा होना चाहिए
This is within your power of sanction	इसकी सखुची देना आपके अधिकार में है	This subject does not concern this Section	यह विषय इस खण्ड का नहीं है
		This subject was discussed in the meeting	ईकक में इस विषय पर विचार-विमर्श हुआ था

This violates the extant rules	इससे मौजूदा नियमों का उल्लंघन होता है	Vide folio flagged	पृथी स्या पृष्ठ देखिये
This will eliminate unnecessary delay	इससे अनावश्यक विलम्ब नहीं होगा	Waving of maximum age limit	अधिकतम आयु-सीमा में छूट देना
This will take effect from..	यह से लागू होगा	Warned to be careful in future	भविष्य में सावधान रहने की चेतावनी दी गयी
Typed letter is put up for signature	टक्किव/टाइप किया हुआ पत्र हस्ताक्षर के लिए प्रस्तुत है	Watch the activities	गतिविधियों पर निगरानी रखें
Ultimate responsibility is that of the employee	अन्तिम दायित्व कर्मचारी का है	We agree with 'A' above	हम ऊपर 'ए' से सहमत हैं
Unauthorised absence has been regularised	अनधिकृत अनुपस्थिति का नियमन कर दिया गया है	We are not concerned with it	इसका हमसे संबंध नहीं है
Under process	कार्रवाई की जा रही है	We agree as a very special case.	इसे बहुत विशेष मामला मानकर हम सहमत होते हैं, परन्तु इसका आगे उदाहरण रूप में उल्लेख न किया जाए
Under such circumstances	ऐसी परिस्थिति में	This should not, however, be quoted as a precedent	हमें कोई टिप्पणी नहीं करनी है
Unless otherwise provided	जब तक कि अन्यथा न कहा गया हो	We have no remarks to offer	हमें आगे और कुछ नहीं कहना है
Unless the context otherwise requires	जब तक कि प्रसंग में अन्यथा अपेक्षित न हो	We have no further comments	...५० का स्थान-मुक्त छोड़ दिया जाये
Unloaded from original seal intact wagon	जिस माल डिब्बे से माल उतारा गया उसकी मूल सील अक्षत थी	Wharfage amounting to Rs..... may be foregone	देरी क्यों हो रही है/क्यों देर हो रही है
Until further orders	आगे/अगला आदेश मिलने तक	What delays	क्या स्थिति है
Up-keep of coaching stock	सवारी डिब्बों का रख-रखाव	What is the position	कब कार्रवाई की जायेगी
Urgent attention may please be given	कृपया शीघ्र ध्यान दें	Will be dealt with severely	आगामी बैठक में विचार-विमर्श किया जायेगा
Urgently required	शीघ्र आवश्यकता है/शीघ्र चाहिए	Will be discussed at the next meeting	तदनुसार उत्तर भेजा जायेगा
Variation in figures is due to	श्रीधर आवश्यकता है/शीघ्र चाहिए	Will be replied to accordingly	... तक भार-मुक्त कर दिया जायेगा
Verified and found correct	जाँच कर सी, सही है	Will be spared by...	तार/स्मरणपत्र/अर्ध-सरकारी पत्र प्रस्तुत है, यदि अनुमोदन करते हो, तो कृपया हस्ताक्षर कर दें
Verification is required from...	...से सत्यापन अपेक्षित है	Wire/reminder/D.O is put up for signature please, if approved	...से
Vide endorsement above	उपयुक्त पृष्ठांकन देखिए	With effect from...	पूरे विवरण के साथ
Vide file attached	सलम्ब फाइल देखिए	With full particulars	यथोचित समय के भीतर
		Within reasonable time	...के क्षेत्राधिकार में
		Within the jurisdiction of...	

Within the limited period of time
 Without assigning any reason
 Without further delay
 With permission to prefix and suffix
 With this end in view
 Work is to be done in phases
 You are hereby informed that
 You may like to discuss

सीमित अवधि में
 कोई कारण बताये बिना
 बाये और विलम्ब किये बिना
 पहले और बाद में जोड़ने की अनुमति
 के साथ
 इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए
 काम कई चरणों में किया जाना है
 आपको इसके द्वारा सूचित किया जाता
 है कि
 सम्भवतः आप विचार-विमर्श करना चाहें

Your attention is drawn
 Your attention is invited to para...
 Your further remarks, views on the above subject are awaited
 Yours faithfully
 Yours sincerely
 Yours truly
 Your representation is untenable

आपका ध्यान आकृष्ट किया जाता है
 आपका ध्यान पंरा की ओर दिाता जाता है
 ऊपर दिये गये विषय पर आपका विचारों की प्रतीक्षा है
 भवदीय
 आसक्त
 आसक्त
 आपका अभ्यावेदन मान्य नहीं है

नोलानाय तिवारी

डॉ० तिवारी का जन्म उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के एक गाँव ४ नवम्बर १९२३ को हुआ। किशोरवस्था से स्वतन्त्रता आन्दोलन सम्बद्ध होने के कारण आपकी पढ़ाई बहुत ही अव्यवस्थित रूप से हुई। तुलु पाठशाला, क्लर्क, टाइपिस्ट, एकाउन्टेन्ट आदि का काम करते हुए आप एम० ए०, बी० फिल० किया तथा बाद में डी० लिट्० भी। १९४२ 'भारत छोड़ो' आन्दोलन में आपके सीने पर दो गोलियाँ मारी गई थी, जिसे आप मरणासन्न होकर भी बच गये। तिवारीजी दो वर्षों तक सोवियत में हिन्दी भाषा और साहित्य के विजिटिंग प्रोफेसर रहे। आपकी अल्प पत्रपत्र में अधिक पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं, जिनमें सोलह पुरस्कृत कृत्तों के क्षेत्र में आपका नाम हिन्दी में इस समय अग्रगण्य है। 'कोश विज्ञान' पर भी एक पुस्तक लिखी है तथा लगभग पन्द्रह कोश लिखे हैं। इन समय भी आप कई कोशों पर कार्य कर रहे हैं, जिनमें 'उत्तर प्रदेश कोश' तथा 'हिन्दी व्युत्पत्ति कोश' मुख्य हैं।

कलाशचन्द्र भाटिया

डॉ० भाटिया का जन्म १९२७ में मथुरा में हुआ था। आपने भाषा विज्ञान, हिन्दी भाषा तथा साहित्य विषयक दस से अधिक ग्रंथ प्रकाशित किये हैं, जिनमें मुख्य 'हिन्दी में अश्लेषी आगत शब्दों का भाषातत्त्व अध्ययन', 'हिन्दी भाषा में अक्षर तथा शब्द की सीमा', 'भाषा-व्युत्पत्ति तथा खड़ी बोली का तुलनात्मक अध्ययन', 'हिन्दी नवीन विधाएँ', 'भारतीय भाषाएँ' तथा 'उभरी हुई रेखाएँ' आदि प्रमुख हैं। आपकी पुस्तक 'हिन्दी भाषा में अश्लेषी के आगत शब्दों का भाषातत्त्व अध्ययन' उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 'महामना मदनमोहन मालवीय से सम्मानित हो चुकी है तो 'हिन्दी भाषा में अक्षर तथा शब्द' आपकी आगरा विश्वविद्यालय से सर्वोत्तम शोध-कार्य के लिए मिल चुका है। डॉ० भाटिया संयुक्त एशियाटिक सोसाइटी ऑफ़ फैलो तथा अनेक छस्याजी और समितियों के सदस्य हैं।

दस समय आप लालबहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक (मथुरा, उ० प्र०) में हिन्दी तथा प्रादेशिक भाषाओं के प्रोफेसर